

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय

मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल

नई दिल्ली

V.P.V. : 51 NY7 ←

J/

2901

दूसरी बार : १९५३

मूल्य

पांच रुपये

मुद्रक
उद्योगशाला प्रेस,
दिल्ली,

प्रकाशकीय

इस पुस्तक का पहला संस्करण आज से लगभग दस वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था; लेकिन निरंतर माँग होने पर भी नया संस्करण जल्दी निकालने की सुविधा न हो सकी। इस बीच देश स्वतंत्र हो गया और हमें हर्ष है कि अब यह पुस्तक वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित एवं परिवर्द्धित रूप में प्रकाशित हो रही है। इसमें दो अध्याय नये जोड़ दिये गये हैं, साथ ही यत्रतत्र आवश्यक सुधार करके पुस्तक को अद्यतन बना दिया गया है।

इस पुस्तक में ब्रिटिश शासन के भारत में स्थापित होने के समय से लेकर अबतक का इतिहास है। पाठक जानते हैं कि स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए किया गया हमारा आंदोलन केवल राजनैतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि सांस्कृतिक थी और इसलिए हमारी मान्यता है कि हमारे इतिहास के ये पृष्ठ भारत के लिए ही नहीं, ; दुनिया के लिए भी चिरकाल तक मार्गदर्शक रहेंगे।

विद्वान लेखक ने इस पुस्तक में जो सामग्री प्रस्तुत की है वह केवल एक इतिहास-लेखक के नाते नहीं दी है। वे स्वयं लगभग तीस साल तक भारत के विविध आंदोलनों में सक्रिय भाग लेते रहे हैं।

मराठी की यह बड़ी लोकप्रिय पुस्तक है। गुजराती में भी इसे बहुत पसंद किया गया है। हिन्दी में भी इसकी लोकप्रियता सर्वत्रिदित है। वर्तमान संस्करण के परिवर्द्धित अध्यायों का मूल पुस्तक से अनुवाद करने एवं अंतिम पृष्ठों में आवश्यक सुधार करने में हमें श्री यदुनाथ थत्ते से जो सहयोग मिला है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

हमें विश्वास है कि यह परिवर्द्धित संस्करण और भी चाव से पढ़ा जायगा।

लेखक-परिचय

आचार्य शंकर दत्तात्रेय जावड़ेकर का जन्म कोल्हापुर रियासत के मलापुर नामक गाँव में २६ सितम्बर १८६४ को हुआ। उनके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। कोल्हापुर और पूना में आचार्यजी की शिक्षा हुई। 'तत्त्वज्ञान' विषय लेकर उन्होंने १९१७ में बी० ए० पास कर लिया। एम० ए० का अध्ययन कर ही रहे थे कि गांधीजी के नेतृत्व में असहयोग-आंदोलन छिड़ा। तत्कालीन राजनीति से प्रभावित होकर आचार्यजी ने परीक्षा में न बैठने का निश्चय किया।

आचार्यजी बचपन में ही राजनीति एवं राष्ट्रीय शिक्षा में रुचि लेने लगे, क्योंकि उनके पिता अपने मित्र श्री अण्णा साहब त्रीजापूरकर से सामयिक राजनीति की चर्चा प्रायः करते थे। मध्यप्रदेश के मजदूर नेता आर० एस० रुईकर आचार्यजी के बचपन के साथी हैं। दोनों को साथ-साथ ही देशसेवा की लगन लगी। कालेज छोड़कर वे इस्लामपुर चले गये। वहाँ से तीन मील की दूरी पर उन्होंने हरिजन-विद्यार्थियों के लिए 'महात्मा बोर्डिंग' नाम से एक छात्रावास चलाया। यहीं पर आचार्यजी ने 'राजनीति-शास्त्र-परिचय' नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक से उनकी विद्वत्ता को पहचानकर तिलक राष्ट्रीय विद्यापीठ में उन्हें अध्यापक-पद संभालने का निमंत्रण दिया गया। १९२६ में वे इस नये पद पर नियुक्त हुए।

१९२० में गांधीजी भारतीय राजनैतिक मंच पर आए। उन दिनों भारत के राष्ट्रीय नेता श्री गोखले, न्याय० रानडे, लो० तिलक एवं श्री आगरकर की विभिन्न राजनैतिक विचारधाराएँ देश में प्रचलित थीं। विशेषतः महाराष्ट्र में इन विचारप्रणालियों के गुट-से बने थे। महात्मा गांधी ने इन नीतियों का समन्वित रूप देश के सामने रखा। इसपर विभिन्न सम्प्रदायनिष्ठ गुट उनसे अप्रसन्न हुए और वे गांधीवाद का प्रतिवाद करने लगे! आचार्यजी ने ऐसे मौके पर एक वक्ता व पत्रकार के रूप में महाराष्ट्र के नवयुवकों को अखिल भारतीय राजनीति के प्रवाह में लाने

का महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने जहाँ तिलक-गोखले-आगरकरवादियों के इन हमलों का बुद्धिबल से सफलतापूर्वक सामना किया, वहाँ कम्यूनिज़्म के नये तत्वज्ञान की भी गम्भीर अध्ययन के बाद कड़ी आलोचना की। १९२० से आज तक वे बराबर प्रगतिशील विचारों का प्रतिपादन करते आ रहे हैं।

१९३० तथा १९३२ में वे बरबदा तथा नासिक जेल में रहे। इन्हीं दिनों आचार्यजी ने मार्क्सवाद का गहरा अध्ययन व चिंतन किया। जेल से छूटने पर उनका अधिक समय स्वराज्य, जनशक्ति, लोकमान्य, लोकशक्ति आदि अखबारों के संपादन में बीता। १९२८ में उनके सहयोग से मराठी भाषा द्वारा राष्ट्रीय विचारों के प्रसार-हेतु 'सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला' का जन्म हुआ।

१९४२ के आंदोलन में वे फिर गिरफ्तार किये गये। दो वर्ष जेल में रहे। आजकल वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'साधना' के संपादक हैं। अस्वस्थ होने पर भी बुद्धिनिष्ठ महाराष्ट्र का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी आज भी वे संभाल रहे हैं।

लोकशाही की शुद्धि के लिए जिन साधकों की आश्यकता आचार्यजी मानते हैं, वे उस वर्ग के स्वयं एक सदस्य हैं। उनकी श्रद्धा है कि सनातन सत्याग्रही धर्म व समाजवादी युगधर्म के समन्वय से बना हुआ नया दर्शन ही भारत एवं संसार का कल्याण करेगा।

'आधुनिक भारत' आचार्यजी की महान् साहित्यिक कृति है। इसमें जहाँ ऐतिहासिक वृत्त है, वहाँ आचार्यजी ने क्रांतिशास्त्र एवं समाजवादी तत्वज्ञान का समन्वयात्मक विवेचन भी किया है। यह पुस्तक सर्वप्रथम मराठी में १९३८ में छपी। राजनैतिक इतिहास के निरूपण के अलावा इसमें सांस्कृतिक समस्याओं पर मौलिक चर्चा है। इसीसे यह कोरा इतिहास न रहकर विचारों के लिए तत्वज्ञान का ग्रंथ बन गया है। आचार्यजी की यह रचना आज के आंदोलनों को समझने व उचित मार्गदर्शन पाने के लिए बड़े काम की है, इसमें संदेह नहीं। — यदुनाथ थत्ते

विषय-सूची

१. हिन्दुस्तान क्यों और कैसे जीता गया ?	...	७
२. अंग्रेजी राज्य कैसे जमा ?	२८
३. सर्वांगीण सुधार की आधुनिक ज्ञान-ज्योति	...	५१
४. भारतीय राजनीति और अर्थनीति का पाया	...	७१
५. कांग्रेस का जन्म और प्रचार	...	८५
६. भारतीय संस्कृति का तत्वमंथन	...	९०
७. क्रांतिकारी राजनीति	...	९६
८. क्रांतिकारी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद	११७
९. राष्ट्रीय आपद्धर्म	१४६
१०. भारतीय सत्याग्रह-संग्राम	१६८
११. प्रांतीय स्वायत्तता और द्विराष्ट्रवाद	२१७
१२. अन्तिम स्वातंत्र्य-युद्ध	...	२४५
१३. सत्याग्रही क्रान्तिशास्त्र	२७२
१४. भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व	३१२

आधुनिक भारत

: १ :

हिन्दुस्तान क्यों और कैसे जीता गया ?

सोलहवीं सदी से यूरोप में मानव-संस्कृति एक नई दिशा की ओर जाने लगी। यूरोपीय समाज और राज्य में एक नई क्रान्ति होने लगी। समाज में अमीर-उमरावों का महत्व कम होने लगा और समाज-व्यवस्था तथा राजनीति में व्यापारी-वर्ग को विशेष महत्व मिलने लगा। वहाँ के व्यापारी-वर्ग की महत्वाकांक्षा को एक नवीन चेतना मिली। मानव-संस्कृति के इतिहास में व्यापारी-युग का प्रारम्भ प्रायः तबसे हुआ जबसे (अर्थात् पन्द्रहवीं सदी के अखीर से) वास्कोडिगामा ने अफ्रीका होकर हिन्दुस्तान आने का जल-मार्ग खोज निकाला। ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में एक छोटा राष्ट्र है; परन्तु फिर भी सोलहवीं और सत्रहवीं सदी में वह इस व्यापारी युग की संस्कृति में बहुत आगे बढ़ गया और सत्रहवीं सदी के अन्त में तो इस द्वीप के राज्य-सूत्र व्यापारी-मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों में आगये। इससे पहले वहाँ समाज में और राजकाज में अमीर-उमरा और धर्माधिकारियों को जो अग्रस्थान मिलता था, वह त्रिलकुल जाता रहा और ब्रिटिश-राष्ट्र एक व्यापारी-राष्ट्र और ब्रिटिश-संस्कृति एक व्यापारी-संस्कृति बन गई।

इस नवीन व्यापारी-युग के कारण मानव-संस्कृति जहाँ कुछ बातों में आगे बढ़ी, वहाँ कुछ अंशों में पीछे भी हटी। आज इस युग का अन्त करके मानव-संस्कृति एक और युग में प्रवेश कर रही है; परन्तु इस नवीन युग में प्रवेश करने से पहले यदि व्यापारी-युग में हुई प्रगति को आत्मसात् किये वगैर आगे जाने की कोशिश की गई तो फिर पीछे हटना पड़ेगा। अतः यह उचित है कि इस युग की महिमा को ठीक-ठीक

समझ लिया जाय, उसके गुण-दोषों की अच्छी तरह छानबीन कर ली जाय, फिर कोई समाज या राष्ट्र अपना कदम आगे बढ़ावे। यूरोप को वहाँ के व्यापारी-वर्ग ने स्वराष्ट्र-संघटन और परराष्ट्र-आक्रमण के सम्बन्ध में बहुत-सी नई बातें बताई हैं और दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण करने के बाद उसका अधिक-से-अधिक लाभ अपने राष्ट्र के लोगों को कैसे पहुँचाया जाय; अपने राष्ट्र की सम्पत्ति, सत्ता और वैभव की अधिक-से-अधिक वृद्धि कैसे की जाय — इसका भी ज्ञान इस व्यापारी-वर्ग ने यूरोप को पहले-पहल कराया।

इस व्यापारी-वर्ग के आगे आने के मार्ग में धर्माधिकारी, अमीर-उमरा और राजा लोग बाधक-स्वरूप थे। इसलिए उन्होंने पहले तो धर्म-संस्थाओं के खिलाफ बगावत खड़ी की, अमीर-उमरा का जोर हटाने में राजाओं की सहायता की और अन्त को राजा के खिलाफ भी बगावत का झण्डा उठाया और सारे शासन-सूत्र अपने हाथ में ले लिये। यह धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तन अथवा क्रान्ति पहले इंग्लैण्ड में हुई और फिर फ्रान्स, इटली, जर्मनी आदि दूसरे देशों में क्रम से उसका प्रवेश हुआ। इस क्रान्ति-कार्य में जो देश जितने पीछे रह गये, वे संसार की राजनीति में भी उसी हिसाब से पिछड़े रह गये और जिन देशों ने इस नये युग का महत्व बिलकुल ही नहीं समझा और न उसका स्वरूप ही जिनके ध्यान में आ सका, वे, जिन देशों ने इस युग की महिमा को ठीक-ठीक आत्मसात् कर लिया था, उनके सम्पर्क में आते ही, हार गये। संसार के व्यवहारों में पीछे रहने का यह अनिवार्य फल है। परन्तु जो लोग मानव-संस्कृति की एक अवस्था में पीछे रह गये, वे उसकी दूसरी अवस्था में संसार में बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। हाँ, उसके लिए यह जरूरी है कि अपने और दुनिया के अनुभवों से सबक लेकर आगे कदम बढ़ाने का और अपनी बुद्धि से नई खोज और आविष्कार करके विश्व-संस्कृति में वृद्धि करने का सामर्थ्य और पराक्रम उनमें हो।

जब यूरोप के व्यापारी-समाज की महत्वाकांक्षा पूरे जोर में थी और वह अमेरिका से हिन्दुस्तान और चीन तक सारी दुनिया में

व्यापार के बढ़ाने घूम-घाम रहा था, उस समय हिन्दुस्तान की क्या दशा थी ? उस समय जब कि यूरोप के व्यापारियों से उसका सम्बन्ध हुआ, अमेरिका, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के लोगों की तरह हिन्दुस्तानी जंगली नहीं थे। तब तो हिन्दुस्तान में हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रबल राज्य और साम्राज्य थे। धनोत्पादन और युद्ध-कला में तत्कालीन यूरोपीय राजाओं से पीछे नहीं थे। अकबर या औरंगजेब के साम्राज्यों के मुकाबले में एलिजाबेथ अथवा एन का राज्यविस्तार और वैभव वित्कुल नाचीज़ था। एलिजाबेथ के राज्यकाल से लेकर एन के शासनकाल में ब्रिटिश व्यापारी पश्चिम में अमेरिका से लेकर पूर्व में हिन्दुस्तान और चीन में फैल गये थे। भिन्न-भिन्न देशों में उन्होंने अपने छोटे-छोटे उपनिवेश और व्यापार-कोठियाँ कायम कर ली थीं। इन कोठियों की हिकाजत के लिए वे कुछ शस्त्रास्त्र और सैनिक अपने पास रखते थे और जिस समुद्र पर किसी राजा की सत्ता नहीं थी, उसपर भी वे अपना प्रभुत्व और धाक जमाने लगे थे। इसी जमाने में इन व्यापारी लोगों ने अपने देश के शासनसूत्र अमीर-उमरा और राजाओं के हाथ से छीन लिये और समाज-संघटन, राज्य-व्यवस्था, व्यापारिक-संघटन, युद्ध-शास्त्र, सामाजिक-शास्त्र और भौतिक-विद्या में कितने ही नये-नये शोध किये। इस कारण उनके मन में यह अभिमान भी उत्पन्न होगया था कि हम हिन्दुस्तान और एशिया के हिन्दू, मुसलमान और बौद्धों की अपेक्षा अधिक सुसंस्कृत और सभ्य हैं।

जब हम यह कहते हैं कि ब्रिटिश-राष्ट्र व्यापारी-राष्ट्र है और ब्रिटिश-संस्कृति व्यापारी-संस्कृति है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है ? ब्रिटेन के सभी लोग व्यापारी हैं अथवा दूसरे राष्ट्रों में कोई व्यापारी ही नहीं हैं, ऐसा इसका अर्थ नहीं हो सकता। बल्कि यह है कि ब्रिटेन में व्यापारी लोगों की प्रधानता है और वहाँ की संस्कृति पर उस वर्ग की गहरी छाप पड़ी है। परन्तु इतने से ही इस वाक्य का असली अर्थ व्यक्त नहीं होता। ब्रिटेन के व्यापारियों को आखिर यह प्रधानता कैसे मिली ? जब इसका विचार करते हैं तो यह दिखाई देता है कि वहाँ के व्यापारी-वर्ग ने अपने राष्ट्र की शासन-सत्ता अपने हाथों में ली और धर्माधिकारियों तथा अमीर-

उमराओं के वर्ग की प्रधानता मिटा दी अर्थात् ये व्यापारी लोग राजकाजी और लड़वैये थे । हमारे देश के व्यापारी-वर्ग की तरह महज व्यापार करके पेट भरनेवाले निरुपद्रवी जीव नहीं थे । राजा और अमीर-उमरा अर्थात् लॉर्ड्स तो हमारी रक्षा करके देश में शांति स्थापित करें और हम सिर्फ व्यापार करके पेट भरते रहें, यह वृत्ति उन्होंने छोड़ दी थी । उन्होंने इस सिद्धान्त को गलत ठहरा दिया कि शासन करना महज उमरावों का ही काम है । जब उन्होंने देखा कि अमीर-उमरा देश में शान्ति-स्थापन नहीं कर सकते और आपस में लड़भिड़ कर उल्टी अशांति पैदा करते हैं और व्यापार-धंधों की स्थिरता नष्ट करते हैं, तो उन्होंने शासन-कार्य अपने ही हाथों में ले लिया । इतना ही नहीं, बल्कि राज्यविस्तार का जिम्मा भी खुद ले लिया । पहले यह होता था कि अमीर-उमरा जाकर किसी देश पर कब्जा करते थे, राज्य-विस्तार करते थे, पीछे व्यापारी लोग जाकर अपना व्यापार जमाते थे । अब इस क्रम को बदलकर उन्होंने नया मार्ग निकाला कि व्यापारी पहले दूसरे देशों में जाकर व्यापार का अड्डा जमायें और पीछे अपने राष्ट्र का झण्डा वहाँ गाड़ दें । पहले राज्यविस्तार और फिर व्यापार-विस्तार के बजाय पहले व्यापार-विस्तार और फिर राज्य-विस्तार — यह विचार-शृङ्खला उन्होंने रूढ़ि की । मतलब यह कि जो अंग्रेज इधर आये, वे महज व्यापार करनेवाले नहीं थे, बल्कि लड़वैये और दूसरे देशों पर कब्जा करके राज्य-विस्तार करनेवाले व्यापारी थे । समुद्री डाकुओं से और लूटमार से अपनी रक्षा करने के लिए वे शस्त्रास्त्र और युद्ध-सामग्री अपने पास रखते थे । दूसरे देशों में जहाँ-जहाँ अपनी व्यापार-कोठियाँ उन्होंने कायम की थीं, वहाँ-वहाँ अपने उपनिवेश और छावनियाँ उन्होंने बना ली थीं । जो राजा व सरदार उनके व्यापार को संरक्षण न दे सकें, उनको पदच्युत करके राज्यक्रान्ति कैसे की जाय, यह विद्या वे जानते थे और यदि उन्हें कमजोर समझकर कोई कुचलने की कोशिश करें, तो उनके देश की राजसत्ता का बल उनकी सहायता के लिए आ सकता था । उनके अपने देश में जिन लोगों के हाथ में राजसत्ता थी, वे परदेशों की अपनी व्यापार-कोठियों की रक्षा करना अपना कर्त्तव्य समझते थे, क्योंकि वे व्यापारी-वर्ग के ही प्रतिनिधि थे । ब्रिटिश लोग

व्यापारी हैं, अथवा उनकी संस्कृति व्यापारिक है इस वाक्य का अर्थ इतना गहरा है ।

गजशास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो सत्रहवीं सदी में जो मराठा-संस्कृति उदय हुई और अठारहवीं सदी के मध्य तक जिसने सारे हिन्दु-स्तानका सर्वभौमत्व प्राप्त करने में काफी सफलता पाई वह ब्रिटिश-संस्कृति से राष्ट्रीयता और प्रजातंत्र इन दो बातों में पिछड़ी हुई दिखाई देती है । जिस समय मराठे लोग शिवाजी के नेतृत्व में हिन्दू-राज्य की स्थापना कर रहे थे, उसी समय ब्रिटिश लोग क्रॉमवेल के नेतृत्व में अपने ही धर्म और देश के राजा को पदच्युत करके प्रजातंत्र की स्थापना का प्रयत्न कर रहे थे । फिर सम्भाजी के वध के बाद (१६८६ ई०) जब मराठे विधर्मियों की सत्ता और आक्रमण को निवारण करके स्वराज्य और स्वधर्म के संरक्षण में लगे हुए थे और उसके लिए उन्होंने असीम स्वार्थत्याग करके सफलता प्राप्त की, उसी समय ब्रिटिश लोगों ने अपने देश के ज़ालिम राजा, दूसरे जेम्स, को गद्दी से उतारकर उस संग्राम में सफलता प्राप्त की जो क्रॉमवेल के समय से अनियंत्रित राजसत्ता और प्रातिनिधिक लोकसत्ता में हो रहा था, और इस प्रकार अपने देश में लोक-नियंत्रित (अर्थात् प्रजा-सत्तात्मक) राज की स्थापना की । इस बात को ध्यान में रक्खा जाय तो जिस समय मराठे सिर्फ परधर्मियों और परकीयों के राज्यों को नष्ट करके स्वधर्मीय राजा के राज्य-स्थापन करने के विचार और प्रयत्न में लगे थे, उसी समय ब्रिटिश लोग इस सिद्धान्त की प्रस्थापना में लगे हुए थे कि राजा चाहे स्वकीय हो चाहे स्वधर्मी हो, यदि वह जालिम है तो उसे हटाकर दूसरे राजा को गद्दी पर बिठाना और लोकमतानुसार शासनकार्य चलाना उनका कर्त्तव्य है । इस तत्त्व की प्रस्थापना ब्रिटेन के व्यापारी-वर्ग के नेताओं ने व्यापारी और किसान वर्ग का नेतृत्व करके उनके धन-जन-बल पर की । इस कारण वह राष्ट्र राजकीय-संस्कृति की दृष्टि से दूसरे सब राष्ट्रों के आगे निकल गया । इधर मराठों ने अपनी स्वतंत्रता कायम रहने तक यह सबक नहीं सीखा, फलतः ब्रिटिश लोगों की गुलामी स्वीकार करके दूसरे भारतीयों के साथ-साथ उन्हें भी प्रजातन्त्र का सिद्धान्त सीखना पड़ा ।

अंग्रेजों ने यहाँ के व्यापारियों को अपनी मीठु में लेकर राजक्रान्ति तो की, परन्तु राजसत्ता अपने ही हाथों में रक्खी। अंग्रेजों को राज्य-विस्तार में गुप्त नामक जैन व्यापारी की बहुत सहायता मिली। यह घराना धर्मनिष्ठ था और उसने हिन्दुस्तान में बड़े सुन्दर मन्दिर बनवाये हैं। इस घराने की यह तजवीज थी कि प्रत्येक लड़ाई के समय या उससे पहले हिन्दुस्तान के राजाओं की जानकारी और रुपये-पैसे की सहायता अंग्रेजों को दे तथा उनके शांतिपूर्ण शासन का जाल सारे हिन्दुस्तान में फैला दिया जाय। क्लाइव से लार्ड कैनिंग के शासनकाल तक यह व्रत उन्होंने बराबर निभाया, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की ओर से सिफारिशी पत्र मिले। सारा हिन्दुस्तान जीतकर जब ब्रिटिश राजनीतिज्ञ अफगानिस्तान और ईरान में अपने पाँव फैला रहे थे, तब सर अलेक्जेंडर बर्न्स ने सन् १८३७ में इस खानदान का वर्णन इस प्रकार किया है—

‘स्वरूपचन्द गुप्त शालिवर्मा कच्छनाशा के वंशज काबुल-कन्दहार, समरकन्द, हिरात और अन्य स्थानों के कई एशियाई लोगों की अनेक गतिविधियों पर सतर्क होकर नज़र रखते हैं और ब्रिटिश अधिकारियों के लाभ के लिए अपनी जानकारी भेजते रहते हैं। तमाम युद्ध, संधि और सैनिक बातों की व्यवस्था उनकी जानकारी पर ही अवलंबित रहती है, इसलिए सरकार उनकी बहुत श्रृंगारी है।’ इस प्रकार ये ब्रिटिश पक्ष के बड़े विश्वसनीय और राजनिष्ठ लोग थे। इनकी जानकारी सही और विश्वसनीय होती थी। इसी तरह लार्ड एलिनबरा ने, १८४४ ईस्वी में अंग्रेजों को जो मदद इनकी दुकान या पेढी की ओर से मिली, उसकी बहुत प्रशंसा की है। वह लिखता है कि ‘आप मेरे ही नहीं, जिस सरकार का मैं प्रतिनिधि हूँ उसके भी सच्चे मित्र हूँ। उस सरकार के कल्याण के लिए और पूर्वीय देशों में उसका राज्य कायम करने में जो सेवा आपकी तरफ से हुई है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। मराठा और जाट युद्धों में, तथा मेरे शासनकाल के दूसरे युद्धों में, अंग्रेज अधिकारियों को जिस सबसे बड़ी अर्थात् आर्थिक सहायता की जरूरत थी वह आपने बहुत उदारता के साथ की है।’ बंगाल के जगत सेठ अमीचन्द भी गुप्तघराने के आत्मीय थे जिन्होंने लार्ड क्लाइव और सरकार की तरफ

सहायता की थी। लार्ड क्लाइव सन् १७६५ में लिखे अपने एक प्रमाण-पत्र में लिखते हैं—

‘आप लोगों ने लगभग ५० लाख रुपये इकट्ठा करके जगह-जगह मकान बनवाकर पूर्वी देशों की खबरें भेजने के लिए डाक बांधने का जो निश्चय किया है, उसे सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आपने खुद अपना रुपया लगाकर लोगों को जो हमारे छत्र के नीचे लाने की आयोजना की है, उसे सुनकर भी मुझे बड़ा आनन्द हुआ है। खासकर अरकाट में आपने और आपके लोगों ने जो सहायता की है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता।’

ग्वालियर का किला फतह करने में इस घराने ने जो सहायता दी, उसके सम्बन्ध में इस किले का विजेता अपने १७८२ ईसवी के पत्र में लिखता है—‘ग्वालियर के जैसे अगम्य और अभेद्य किले को सर करने में अगर महाराजाधिराज सवाई सिकन्दर स्वरूपचन्द्र गुप्त की हार्दिक सहायता न होती तो किसी भी दशा में वह किला जीता नहीं जा सकता था। किले में जाने के गुप्त मार्ग की जानकारी बड़े परिश्रम से प्राप्त करके उन्होंने हमें दी, जिससे हम आसानी से किला ले सके।’

खिड़की की लड़ाई (१८१७) में पूना-विजय कराने में इस खानदान ने जो काम किया, उसके बारे में जेनिन्स लिखता है—‘आपने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण, गुप्त खबर ऐसे ऐन मौके पर दी कि उसके बिना हमें विजय पाने में बहुत समय और परिश्रम लगता।’ गुप्त घराने के व्यापारियों ने ब्रिटिश व्यापारी राज्यकर्ताओं को हिन्दुस्तान जीतने में जो सहायता की, वह जिस तरह ब्रिटिश राज्यकर्ता नहीं भूलेंगे, उसी तरह हिन्दुस्तान के लोग भी उसे नहीं भूल सकते।

लार्ड क्लाइव ने जब बंगाल फतह किया तो हिन्दू व्यापारियों और राजाओं अर्थात् जमींदारों ने ब्रिटिश राज्य की स्थापना में सहायता की। अंग्रेज लेखक एस. सी. हिल ने अपनी पुस्तक ‘१७५६--५७ ई० का बंगाल’ की प्रस्तावना में लिखा है—‘इस देश के व्यापार और उद्योग-धन्धे प्रायः पूरी तरह हिन्दू लोगों के ही हाथ में थे, इसलिए व्यापार के लिए आकर बसनेवाले यूरोपीय व्यापारियों का स्वभावतः

ही उनसे निकट सम्बन्ध बंधा और हम भौतिक स्वार्थ के आधार पर हिन्दू और यूरोपीय व्यापारियों का एक प्रकार का गुप्त गुट ही इस समय बन गया था । १७५५ ई० में स्कॉट नामक एक यूरोपियन ने बंगाल के बारे में एक पत्र लिखकर बंगाल की स्थिति का वर्णन किया है । उसका यह मत था कि यहाँ के व्यापारी व हिन्दुराजा राजक्रांति के काम में यूरोपियनों की सहायता करेंगे । श्री चार्ल्स एफ. नोबुल ने २२ सितम्बर, १७५६ ई० को ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सिलेक्ट कॅमिटी को एक पत्र में लिखा था कि कर्नल स्कॉट ने बंगाल की परिस्थिति का जो निरीक्षण किया, उससे ऐसा मालूम होता है कि हिन्दू राजा और प्रजा मुसलमानी शासकों से बहुत नाराज है और उनकी जालिमाना हुकूमत के तौक को उठा लेने का मौका ढूँढती है । पी. ई. रॉबर्ट्स अपनी 'ब्रिटिश हिंदुस्तान का इतिहास' नामक पुस्तक में लिखता है कि '१७५६-५७ में बंगाल में जो राजक्रांति हुई वह मुख्यतः अथवा पूर्णतः यूरोपियन व्यापारी छावनी के द्वारा हिन्दुस्तानी प्रान्त को जीत लेने के जैसी नहीं थी, बल्कि स्वदेशी (हिन्दू) व्यापारी और साहूकार वर्ग तथा ब्रिटिशों के संयुक्त प्रयत्न द्वारा विदेशी (मुसलमान) राज्य को उखाड़ फेंकने - जैसा स्वरूप उसका था । यद्यपि व्यापार के लिए आवश्यक शांति की दृष्टि से स्वदेशी और ब्रिटिश व्यापारी दोनों का इसमें समान हित था, फिर भी प्रत्यक्ष उथल-पुथल में अंग्रेज ही अग्रसर हुए और राजसत्ता भी अकेले वे ही हड़प बैठे । † वही लेखक आगे लिखता है— 'अलीवर्दीख़ाँ की मृत्यु के पहले भी सूक्ष्म निरीक्षकों को यह साफ दिखाई देता था कि यह झगड़ा अधिक टल नहीं सकता । नवान्न अन्यायी था, यह कहने की अपेक्षा वह सख्त था, यह कहना अधिक उचित होगा ।' अंग्रेज अपने व्यापार पर लगे अनेक असह्य बन्धनों से अत्यन्त असंतुष्ट थे । आर्म १७५२ ई० में ही क्लाइव को लिखता है— 'इस बुड्डे कुत्ते को जरा अच्छी तरह दाग दिया जाय तो अच्छा ! यदि कम्पनी ने ऐसा नहीं किया तो बंगाल में उसके लिए व्यापार करना असंभव हो जायगा ।' जब तक अलीवर्दीख़ाँ जीवित था, तबतक यह असन्तोष भीतर-ही-भीतर

*Rise of the Christian Powers by Major Basu ; P. 45.

†History of Br. India, Page 131—32.

परच रहा था। उसकी मृत्यु के बाद दुराग्रही, दुर्बल और दुर्व्यसनी युवक जन्म गद्दी पर बैठा तो वह यूरोपियन व्यापारियों और हिन्दू नागरिकों पर जुल्म करने लगा और सेठ-साहूकार घराने का अपमान करने लगा, तब इस घटना को अधिक गति मिली और उसी से भावी उत्पात शुरू हुआ। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को अपने राज से निकाल देने का निश्चय किया और डच अथवा फ्रेंच लोगों की अपेक्षा अंग्रेजों की तरफ अधिक ध्यान देने का इरादा किया। यह भी उसकी दृष्टि से ठीक ही था। उनकी छावनी ही सबसे बड़ी और सबसे संपन्न थी, उनका व्यापार सबसे बढ़ा-चढ़ा था और हिन्दू व्यापारी-वर्ग से उन्हींका अधिक निकट सम्बन्ध हो गया था। अंग्रेजों को एक बार निकाल भगाने के बाद यूरोपियनों को खबर लेने के लिए उसे अवसर मिल सकता था।*

१८२३ ई० में राजा राममोहन राय प्रभृति बंगाली नेताओं ने मुद्रण-स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड के राजा के पास एक निवेदनपत्र भेजा था जिससे प्रकट होता है कि बंगाल के हिन्दू खासकर सुशिक्षित हिन्दू नेताओं की अंग्रेजी-राज के प्रति क्या भावनाएँ थी—

‘हिन्दुस्तान के अधिकांश हिस्से पर सदियों तक मुसलमानों का प्रभुत्व रहा था, जिसमें यहाँ के मूल निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों पर पदाघात होता रहता था। परन्तु बंगाली लोगों में शारीरिक पराक्रम की और कष्ट-सहन के साथ पुरुषार्थ करने की कमी होने के कारण उनका धन-माल बारम्बार लूटा जाता था। उनके धर्म का अपमान होता था और मनमाने ढंग से उनका खून बहाया जाता था। फिर भी वे अखीर तक मुसलमान राजसत्ता के प्रति वफादार रहे। अन्त को परमात्मा की अपार दया से अंग्रेज राष्ट्र को इन अत्याचारों शासकों के चंगुल से बंगाल को मुक्त कराने की और उन्हें अपनी छत्रछाया में लाने की प्रेरणा मिली। †

इससे यह जाना जाता है कि अंग्रेजों ने जब बंगाल में अपनी सत्ता

* History of Br. India, Page 132—33

† Indian Speeches and Documents on British Rule, P. 15; Editor—J. K. Majumdar.

स्थापित की तो व्यापारी-वर्ग द्वारा मिली सहायता के साथ इस धर्म-विरोधी भावना का भी लाभ उन्हें मिला। हिंदू व्यापारी और सेठ-साहूकारों ने अंग्रेजों को जो मदद दी, उसमें उनका भाव न केवल इतना ही था कि मुसलमान शासक व्यापार में सहायता नहीं करते और नवाब और ज़मींदार बार-बार लड़ाइयाँ लड़कर लूटपाट मचाते थे, बल्कि यह भी शायद रहा हो तो आश्चर्य नहीं कि वे विदेशी और विधर्मी हैं। परन्तु यह कहना कि मुसलमानों के जमाने में हमेशा ही यह अन्धा-धुन्धी, लड़ाइयाँ और अशान्ति रहती थी, ठीक नहीं है। यदि सारे हिन्दुस्तान में इस तरह हमेशा अन्धा-धुन्धी रही होती, तो कैसे वहाँ इतने बड़े सेठ-साहूकार और उनकी पेढियाँ (firms) बनी और फूली-फली होतीं और कैसे इतना धन और प्रतिष्ठा कायम रही होती? जगतसेठ अमीचन्द अथवा गुप्त जैसे सेठ-साहूकार और व्यापारी-वंश कैसे बढ़े, राजदरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और राजा-नवाबों को भी उनसे आर्थिक सहायता लेना जरूरी मालूम होने लगा? इसका अर्थ ही यह है कि इस देश में बड़े-बड़े राज्य और साम्राज्य थे; लोगों का धन-माल और घरबार सुरक्षित था। परन्तु जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और दक्षिण से मराठे, पश्चिम से सिक्ख और वायव्य कोण से ईरान, अफगानिस्तान के राजाओं ने हमले शुरू किये तब हिन्दुस्तान में कुछ समय अन्धाधुन्धी अधिक बढ़ गई। इस अन्धा-धुन्धी की आग में अंग्रेजी और फ्रांसीसी जैसे लड़वैये, राजकाजी और कूटनीतिज्ञ व्यापारियों ने घी डालने का काम किया। इस समय बंगाल-प्रान्त की स्थिति विशेष शोचनीय थी क्योंकि वह एक ओर बहुत सवल और दूसरी ओर बहुत दुर्बल हो गया था। गंगासागर से आनेवाले विदेशी व्यापारियों और उनके अनेक हमलों का मुकाबला करके उन्हें हटा दें इतना समर्थ और सवल जहाजी वेड़ा बंगाल की खाड़ी में नहीं था। इधर मलाबार के समुद्रतट पर उस समय आंध्र का जवरदस्त जहाजी वेड़ा था। उसको नष्ट किये वगैर वम्बई इलाके में विदेशी व्यापारियों को शरारत करने का विशेष अवसर नहीं था। फिर अठारहवीं सदी में मराठों की सत्ता वम्बई प्रान्त में बहुत जोरों से बढ़ रही थी और उनके साम्राज्य का सामर्थ्य और अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे यह

समझने लगे थे कि नादिरशाह जैसे ईरानी लुटेरे से दिल्ली के तख्त को बचाने की जिम्मेदारी हमपर है। बाजीराव की मृत्यु के बाद राधाबा ददा ने अटक पर अपना झण्डा गाड़ा, जिससे उत्तरी भारत के मुसलमान और राजपूतों को यह डर हुआ कि दिल्ली का तख्त दक्षिण के हिन्दुओं के कब्जे में चला जायगा, इसलिए मुसलमान रोहिलों ने अहमदशाह अब्दाली जैसे को बुलाकर इस बात की कोशिश की कि इस दक्खिनी साम्राज्य की रोक हो और दिल्ली का तख्त मुसलमानों के हाथ से न जाय। इधर यह उथल-पुथल हो रही थी, उधर बंगाल और मद्रास के समुद्र-तट पर अंग्रेज व्यापारी अपनी राजनीति के खेल खेल रहे थे। मराठों और सिक्खों ने मुसलमान साम्राज्य के खिलाफ बगावत खड़ी कर अपने स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये थे। यह खबरें बंगाल के हिन्दुओं तक पहुँचती रहती होंगी, इससे अनेक मतों में मुसलमान सत्ता के खिलाफ भाव पैदा हुए हों तो आश्चर्य नहीं; परन्तु मराठों के हमले बंगाल पर होने के कारण वहाँ के व्यापारी धनियों पर एक नई आपत्ति आई मालूम हुई होगी। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए वहाँ के नवाब इन सेठ-साहूकारों पर जुल्म करके, इन्हें तंग करके, आर्थिक सहायता लेते होंगे और अगर मराठों की जीत हो गई तो भी उनकी लूटमार और मनमानी का डर रहा होगा। ऐसी स्थिति में बंगाल के व्यापारियों ने मुसलमान शासकों और नवाबों के खिलाफ बगावत खड़ी करने में अंग्रेज व्यापारियों को सहायता दी हो और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ समय तक अंग्रेजों का शान्ति-पूर्ण शासन जालिम और विदेशी जर्मींदारों के त्रास से बचाने और छुड़ाने के लिए ईश्वरीय देन है, ऐसा लगा हो तो आश्चर्य नहीं।

परन्तु यह भावना हिन्दुस्तान के सब प्रान्तों में सर्वत्र नहीं थी क्योंकि उन्हीं दिनों एक ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन माल्कम ने लिखा है --

‘हमारा राज्यविस्तार कुछ व्यापारी-वर्ग और अत्यंत दरिद्र और अरक्षित लोगों के लिए अनुकूल हुआ है, परन्तु हिन्दुस्तान के उच्च-वर्ग और सैनिक-वर्ग पर उसका बहुत ही प्रतिकूल परिणाम हुआ है।’*

* Notes on the Administration of India By Sir John Malcolm, Part I, Page 139

इसी तरह यहाँ के उद्योग - धन्धे और दस्तकारी पर भी ब्रिटिश राज्य का बहुत बुरा असर हुआ है, यह सब बातें आज स्पष्ट हो गई हैं। शान्तिपूर्वक ब्रिटिश शासन परमेश्वरीय प्रसाद है यह भाव सिर्फ यहाँ के सेठ - साहूकार और व्यापारी वर्ग के ही मन में पैदा हुआ, जो कि सरकारी नौकर-धर्म और यूरोपियन व्यापारियों के आश्रय में ही रह और पनप सकता है, फिर भी यह भावना जितनी बंगाल और गुजरात में थी, उतनी महाराष्ट्र में नहीं। सर जॉन माल्कम, जो बंबई का गवर्नर था, लिखता है — 'मालवा, राजपूताना, सारा गुजरात और कच्छ की तरह के प्रदेश में भील, कोल, राजपूत आदि लुटेरे और दंगई लोग रहते हैं। उनके बार-बार हमले होते हैं, जिनसे मैदान में रहनेवाले सधन लोग मुसीबत में पड़ते रहते थे। मुगलों और मराठों के हमले इस प्रदेश पर बार - बार होते रहते थे। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सत्ता का यहाँ सुस्थिर होना इन लोगों को एक बड़ी परमेश्वरी देन मालूम हुई।' परन्तु यही लेखक महाराष्ट्रीय लोगों की भावना के सम्बन्ध में लिखता है — 'यहाँ सरकारी शासन जितना सौम्य था, उतना बहुत ही थोड़े देशों पर रहा होगा और आन्तरिक उत्कर्ष के लिए आवश्यक खेती को इतना प्रोत्साहन देने वाली सरकार तो दूसरी जगह कहीं भी न होगी। इसलिए गुजरात के लोगों की तरह दक्षिणी लोगों को अंग्रेजों की शान्ति परमेश्वरी प्रसाद नहीं मालूम होती। राजा से लेकर रङ्ग तक मराठे लोग युद्ध को उतना ही चाहते हैं, जितना कि अपने बाल - बच्चों को। भारी विजय अथवा बड़ा राज्य मिलने पर भी उनका अपने सम्बन्धियों और अपनी जन्म-भूमि के प्रति प्रेम कम नहीं होता। दूसरी जगह लूट से कुछ निश्चित रूपया वे नियम - पूर्वक अपने घर भेजते हैं जिससे उनकी खेती - बारी अच्छी चलती है। उनके रुपये से उनके जन्म-स्थान में कुएँ, तालाब, मंदिर बनाये जाते हैं। दक्षिण के पेशवाओं के शासन में मराठों की जन्म - भूमि का इस प्रकार उत्कर्ष होना अनिवार्य था और आज जो राजक्रान्ति हुई है, वह जानमाल की रक्षा के अलावा सब बातों में यहाँ के सभी वर्गों और विशेषतः उच्च वर्ग के हित में बाधक ही हुई है'*

*Notes on the Administration of India by Sir John Malcolm Part I, Page 139

इस तरह महाराष्ट्रीय जनता को अँग्रेजों को दुआ देने का कोई खास कारण न था। मुगल सल्तनत के पतन के बाद मराठों ने जिन-जिन प्रान्तों पर अर्थात् बंगाल-गुजरात जैसों पर हमले करके 'सुल्कगौरी', के रूप में लूटपाट की, वहीं १८वीं सदी के मध्य के कुछ समय बाद तक ऐसा मालूम होता है कि बड़ी धाँधली और गोलमाल रहा होगा और वहाँ के नवाबों को मराठों का प्रतिकार करने में सेठ-साहूकारों से बहुत रुपया-पैसा छीनना पड़ा होगा। परन्तु यदि ऐसा जोर-जुल्म या ऐसी अन्धाधुंधी हमेशा ही होती रहती तो वह स्पष्ट है कि इतने सेठ-साहूकार और इतनी पेढियों का उदय भी हिन्दुस्तान में न हो सका होता।

बंगाल के हिन्दू राजाओं और सेठ-साहूकारों ने ब्रिटिश व्यापारियों का पक्ष लेकर मुसलमानी शासन को उखाड़ तो फेंका और अपने देश में अँग्रेजों की सत्ता कायम तो की मगर यह नहीं कह सकते कि इस कार्य में उन्होंने जाग्रत वर्ग-भावना से काम लिया हो। बात यह है कि अँग्रेज व्यापारी राजक्रान्ति की विधि जानते थे और उन्होंने इस वर्ग को अपनाकर राजक्रान्ति की और राजसत्ता को भी खुद ही हड़प बैठे। यदि बंगाल के व्यापारीवर्ग ने वर्ग-भावना से अथवा राजक्रान्ति करने के इरादे से उसमें भाग लिया होता, तो उसके मन में इस बात पर कि सारी सत्ता अँग्रेजों ने खुद अपने हाथ में रखी और उसके बल पर आगे चलकर हिन्दुस्तान का व्यापार भी छीन लिया, अँग्रेजों से ईर्ष्या या द्वेष हुआ होता, परन्तु यह व्यापारी-वर्ग तो उस समय जानता ही नहीं था कि राजनीति में हम पड़ सकते हैं या राजक्रान्ति कर सकते हैं और अपने हाथ में राजसत्ता ले सकते हैं। हाँ, राजा राममोहन राय के वक्त में अर्थात् १९वीं सदी के पहले चरण के अन्त में अलवत्ता बंगाली लोगों को कुछ-कुछ यह ज्ञान होने लगा था कि सामन्त युग हटकर जब व्यापारी-वर्ग का उत्कर्ष होता है और वह आगे बढ़ता है, तब लोकसत्तात्मक राजक्रान्ति हो सकती है।

'बंगाल हैरल्ड' नामक अखबार में '१८२६ में बंगाल का उत्कर्ष' शीर्षक लेख में कहा गया है कि 'कलकत्ता व कुल बंगाल प्रान्त में आज-

कल सम्पत्ति बढ़ रही है । इसका कारण यह है कि व्यापार पर रुकावट की कमी हो गई है और यूरोपियन लोग वहाँ ज्यादा तादाद में रहने लगे हैं और जमीन की कीमत बढ़ गई । जो जमीन ३० बरस पहले कलकत्ते में १५) २० में मिलती थी, उसका दाम आज ३००) २० हो गया है । इसके कारण उच्च जमींदार - वर्ग और गरीब जनता इनके बीच एक नया वर्ग पैदा हो गया है । इसके पहले देश की सम्पत्ति बहुत थोड़े लोगों के पास थी और दूसरे सब लोग इसी छोटे वर्ग पर अवलम्बित रहते थे । सामान्य जनता शारीरिक और मानसिक दृष्टि से भी बहुत दरिद्र थी । हिन्दू-लोगों की गुलामी का कारण धर्म अथवा आनहवा की अपेक्षा यह विषम परिस्थिति ही अधिक मालूम होती है । यह एक नवीन युग का उषःकाल है । जब - जब समाज में ऐसा वर्ग - निर्माण होता है, तब - तब स्वतन्त्रता अपने आप आती है । इंग्लैंड का ही उदाहरण लीजिये - जब जर्मन लोगों ने हॉलैंड पर विजय की, तब वहाँ भी हमारे यहाँ की तरह जमींदार लोग थे और सब उनके भूदास थे । परन्तु आठवें हैनरी तक उनकी प्रगति को देखें तो उस समय समाज का साम्प्रतिक विभाग समान होने लगा था और आगे चलकर एक खटीक के लड़के (क्रॉमवेल) ने वहाँ के राजा को कत्ल करके हॉलैंड के प्रजासत्तात्मक राज्य का दौर - दौरा और कीर्ति सारी दुनिया में फैला दी । समाज में जब जमींदार और किसान ऐसे दो ही वर्ग होते हैं, तो कितनी हानि होती है, इसका नमूना देखना हो तो स्पेन की ओर देखो । वहाँ हर मनुष्य बौद्धिक और शारीरिक श्रम किये बिना जीना चाहता है । दूसरा उदाहरण पुर्तगाल का लीजिये, वहाँ जमीन के साथ - साथ किसानों का भी क्रय - विक्रय होता है । ऐसी दशा में बंगाल में आज जो एक मध्यम - वर्ग निर्माण हो रहा है, वह एक अत्यन्त उत्साहवर्द्धक दृश्य है ।*

इस उद्धरण में वर्णित अर्थशास्त्र बहुत उथला ही नहीं, बल्कि अमोत्पादक है क्योंकि कलकत्ते जैसे राजधानी के और व्यापारी शहर में जमीन की कीमत का बढ़ जाना और उसकी बढ़ौलत कुछ लोगों को

बहुत पैसा मिलने लगना तथा अँग्रेजों का पक्का माल यहाँ लाकर बेचने-वाले और यहाँ के उद्योगधन्धों को बरबाद करके कच्चा माल बाहर भेजने-वाले व्यापारियों का धनी होना, अथवा नील के व्यापारियों जैसे कुछ अँग्रेजों का इस देश में आकर बस जाना और खेतों व खानों में काम करनेवाले मजदूरों को कुछ मजदूरी अधिक नकदी पैसों के रूप में देने लगना और इसपर ही यह मान लेना कि सारा देश धनी होने लगा है अथवा ऐश्वर्य बढ़ने लगा है, गलत था। परन्तु इस विवेचन में अँग्रेजों ने यहाँ के मध्यम वर्ग को एक-दो नये सिद्धान्त सिखाये हैं और वही इस नवीन युग के निदर्शक हैं। पहले के युग में परोपजीवी जमींदार और कष्टशील किसान — ये ही दो वर्ग समाज के प्रमुख थे। उस समय सारी सम्पत्ति जमींदारों के पास संचित थी और शेष सारा समाज दासता और दरिद्रता में फँसा हुआ था। अब व्यापारियों का एक नवीन मध्यम वर्ग व्यापारियों में महत्व पाने लगा — इस कारण सारे राष्ट्र का साम्पत्तिक उत्कर्ष होने लगा और इस नवीन वर्ग के उदय में से अन्त में इंग्लैण्ड की तरह हिन्दुस्तान में राजनैतिक स्वतन्त्रता का और लोकसत्ता का विकास होगा, इस प्रकार के ये सिद्धान्त हैं। इस मध्यम व्यापारी वर्ग का और अँग्रेजी सुशिक्षितों का उदय, अँग्रेजी इतिहास का ज्ञान और सामन्तशाही युग का अन्त, इन घटनाओं में से अन्त को आधुनिक राष्ट्रीयता का निर्माण हिन्दुस्तान में हुआ और शुरू-ही-शुरू में वह बहुत-कुछ अँग्रेजों के सहवास और शिक्षण के द्वारा हुआ, यह कहना बेजा न होगा। परन्तु आधुनिक राष्ट्रीयता के उदय होने में (१८२६ से लेकर) ५० वर्ष का समय लगा होगा। ब्रिटिश - शासन में उत्कर्ष पानेवाला यह नया व्यापारी और सुशिक्षित वर्ग उस समय, अर्थात् १८२६ के आसपास, अँग्रेजी शासकों का गुणगान करने में और लोगों को इस बात का फायल करने में कि पहले के जमींदार वर्ग के जालिम-शासन से मुक्त करनेवाला ब्रिटिश राज्य परमेश्वर का प्रसाद है और उनकी उन्नति में बाधक विदेशयात्रा-निषेध आदि सामाजिक और धार्मिक बंधनों के खिलाफ बगावत करने में अपने को धन्य मान रहा था। पुरानी सामन्तशाही का कवच तोड़कर ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यापारियों ने यहाँ के मध्यम वर्ग को राजनैतिक

अवस्था से मुक्त किया था, परन्तु पुराने सामाजिक और धार्मिक बंधनों को तोड़ने में अँग्रेजी सत्ता का उपयोग अभी उसे करना बाँकी था। यह नया सुशिक्षित मध्यम वर्ग जत्र-तत्र इस काम में लगा हुआ था और जत्र-तक उसे यह अनुभव नहीं हुआ था कि हमारे औद्योगिक अभ्युदय में ब्रिटिश सत्ता बाधा डाल रही है, तबतक वह इस देश में अँग्रेजी सत्ता स्थिर करने में ईमान-धर्म और वफ़ादारी के साथ ब्रिटिश राज्य की सेवा कर रहा था। जो सामन्तवर्ग इस खयाल से कि अँग्रेजों ने हमारे राज्य, राज्य-सत्ता और वैभव को छीन लिया असन्तुष्ट होकर उन्हें बुरा-भला कहता था, उसे वे बागी समझते थे और उसका दमन करने में अँग्रेजों की सहायता करते थे। अँग्रेज भी इस नवीन वर्ग की सहायता से अपनी सत्ता इस देश में सुस्थिर कर रहे थे। मतलब यह कि अँग्रेजों ने हिन्दुस्तान को जीतते समय और जीतने के बाद अपनी सत्ता सुस्थिर करते हुए इस देश में एक सामाजिक क्रान्ति कर डाली थी और एक वर्ग को जीतने के लिए दूसरे वर्ग को अपनाने और उसे ऊपर उठाने का आभास तो उत्पन्न किया ही था अर्थात् अँग्रेजों ने हिन्दुस्तान को जीत कर एक राज्य-क्रान्ति ही नहीं बल्कि एक सर्वांगीण समाजक क्रान्ति करने का भी बीजारोपण किया।

सर जॉन सिली ने 'इंग्लैण्ड का विस्तार' नामकी एक पुस्तक लिखी है। उसमें उसने यह प्रतिपादित किया है कि अँग्रेजों के द्वारा हिन्दुस्तान जीते जाने की जो राजनैतिक घटना हुई, वह दूसरे देश को जीत लेने की परराष्ट्रीय राजनीति के मद में डाली जानेवाली बात नहीं, बल्कि वास्तव में भारतीय समाज के एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को गिराने व एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथ में देने-जैसी अन्तर्गत क्रान्ति का स्वरूप रखनेवाली थी। उसका रहस्य पाठक अब ठीक-ठीक समझ सकेंगे। वह कहते हैं—

“एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के जीते जाने—जैसा उदाहरण यह नहीं है। जिसमें निदान प्रत्यक्षतः तो दो राज्यों का परस्पर संघर्ष हो, ऐसी यह घटना नहीं है। परराष्ट्रीय विभाग से इस घटना का कोई सम्बंध नहीं आता। यह तो भारतीय समाज की एक अन्तर्गत क्रान्ति है और

इसकी तुलना उस प्रकार की घटना से की जानी चाहिये, जिसमें किसी समाज में कुछ अन्धाधुन्धी होने पर उसी के एक वर्ग के द्वारा एकदम राजसत्ता छीन ली गई और शान्ति-स्थापना की गई। थोड़ी देर के लिए हम यही कल्पना करें कि जिन व्यापारियों ने राजसत्ता हथियाई, वे विदेशी नहीं थे, ऐसा मानने पर भी इस घटना का स्वरूप बदल नहीं जाता। हम यह कल्पना करें कि राजनैतिक अन्धाधुन्धी के कारण अपनी व्यापार-हानि से ऊबकर बम्बई के पारसी व्यापारियों ने चन्दा जमाकर अपनी रक्षा के लिए किले बनाये होते और सेना खड़ी कर ली होती और सुदैव से उन्हें शूर-वीर सेनापति मिल गये होते तो वे भी पलासी और बक्सर जैसी लड़ाइयाँ जीत सके होते। उन्हें भी यदि मुगल सम्राट के द्वारा किसी प्रान्त की दीवानगीरी मिल गई होती तो अपनी सत्ता की ऐसी बुनियाद डाल सके होते कि जिसपर सारे भारतीय साम्राज्य की इमारत खड़ी की जा सकी होती।*

यहाँ यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि यहाँ का सेठ-साहूकार और व्यापारी वर्ग यदि सामन्त वर्ग की जुलम-ज्यादतियों, लड़ाइयों और तजात अशान्ति से ऊब उठा था, तो उसी ने राज्य-क्रान्ति क्यों नहीं कर ली ? इसका उत्तर यही हो सकता है कि हिन्दुस्तान के तत्कालीन समाज में लोकसत्तात्मक क्रान्ति करके आधुनिक ढंग का राष्ट्रनिर्माण करने के विचार किसी के दिमाग में आये ही नहीं थे। यूरोप में उस समय चारों ओर ये विचार फैल रहे थे और ब्रिटिश राष्ट्र में तो बहुत अंश तक प्रस्थापित भी हो चुके थे। परन्तु इधर हिन्दुस्तान में “हिन्दूपद पादशाही” अथवा “मुगल वादशाही”— के ध्येय का ही झगड़ा हो रहा था। कोई यह नहीं जानता था कि भिन्न-भिन्न धर्म के लोगों को एक राष्ट्र बनाया जा सकता है, सामन्त-पद्धति के बिना भी बड़े राज्यों का शासन चलाया जा सकता है और समाज के सामान्य नागरिक भी राज्य-क्रान्ति करके राज्यसत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। यद्यपि प्राचीन वर्ण-व्यवस्था अपने शुद्ध रूप में कहीं भी नहीं थी, तथापि उस समय यही कल्पना रुढ़ हो रही थी कि राजे-रजवाड़े और सरदार ही राज करें। ब्राह्मण और वैश्य का काम करने-

वालों के लिए राजनैतिक क्षेत्र नहीं है। यदि कुछ ब्राह्मण राजा और सरदार थे तो कुछ वैश्य भी राजा और सामन्त बनते होंगे, परन्तु उसका अर्थ यह नहीं था कि वैश्य वृत्ति करनेवाले राजनीति में पड़ें और अपने प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य-शासन चलायें। अर्थात् वैश्यों को यदि अपने राजा का शासन अवांछनीय मालूम हुआ तो वे दूसरे राजा का आश्रय ले लेते और ब्राह्मण भी जो कोई राजा हो जाता उसके आश्रित बनकर रहने में कोई दीनता नहीं समझते थे। अंग्रेजों की सेना में अनेक ब्राह्मण नौकर थे और शास्त्र-धर्म के अनुयायी केनाम से प्रसिद्ध राजपूत भी बहुत थे। बङ्गाल और मद्रास प्रान्त की अंग्रेजी सेना में बहुतेरे उच्चवर्णीय हिन्दू थे, परन्तु बम्बई प्रान्त की सेना में ऐसा नहीं था। इससे यह मालूम होता है कि बम्बई प्रान्त के उच्च वर्णियों को परकीय और परधर्मी शासकों की सेना में भरती होने की अपेक्षा स्वकीय राज्य-कर्ताओं की सेना में नौकरी करके जमीन-जागीर प्राप्त करना अधिक आकर्षक मालूम पड़ता होगा, और उनके सद्गुणों, स्वाभिमान और स्वामिनिष्ठा को स्वराज्य-सेवा का स्वरूप प्राप्त हो गया होगा। फिर भी तत्कालीन भारत के हिन्दू समाज की ओर देखें तो अनेक लेखकों ने जो यह लिखा है कि उसमें स्वाभिमान, स्वामिनिष्ठा, धर्मनिष्ठा, शौर्य, धैर्य आदि गुण-संपत्ति भरपूर थी, परन्तु राष्ट्रभिमान बिल्कुल नहीं था, वह सही मालूम होता है।

यहाँ धर्माभिमान अथवा धर्मनिष्ठा का कुछ विवेचन कर लेना ठीक होगा। स्वधर्म-निष्ठा और स्वराज्य-निष्ठा का संयोग इस समय बिल्कुल नहीं दिखाई देता। धर्माभिमान से प्रेरित होकर शिवाजी ने स्वराज्य-स्थापना की, ऐसा हम मानते हैं और किसी समय स्वधर्म-भावना ने आधुनिक राष्ट्रनिष्ठा का कार्य किया भी होगा, परन्तु अठारहवीं सदी के हिन्दुओं में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं पाया जाता कि स्वराज्य-निष्ठा और स्वधर्म-निष्ठा में कुछ समन्वय है। उस समय व्यापारियों और सेठ-साहूकारों को अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और तुम्हारे मन्दिरों की रक्षा करेंगे। इससे उनके मन में यह खयाल आया दिखाई नहीं देता कि यह आश्वासन देनेवाले विधर्मी और विदेशी हैं और उनकी सहायता करके स्वधर्मी और स्वदेशी राजाओं को

उनका गुलाम बना देना अपने धर्म का घात है। व्यापारी और सेठ-साहूकारों की शान्ति और धर्म-मन्दिरों की रक्षा के लिए स्वराज्य-स्थापना की आवश्यकता मालूम नहीं होती थी। राजनीति में पड़ना और राज-काज करना उन्हें अपना धर्म नहीं मालूम होता था, इसलिए विदेशियों को अपने धर्म में घुमाने की राजनीति के वे शिकार हो गये। धर्म-संरक्षण का भार जिस ब्राह्मण-वर्ग पर था, उसकी यह दशा थी। कुछ ब्राह्मण राजा जरूर थे, परन्तु महाराष्ट्र के कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर और कहीं भी ब्राह्मणों को अपना यह कर्त्तव्य नहीं मालूम होता था कि विदेशी और विधर्मी आक्रमणों के विरुद्ध सत्रको जाग्रत और संगठित किया जाय। हम मानते हैं कि समर्थ रामदास और शिवाजी का महाराष्ट्र-धर्म यही था। परन्तु राष्ट्र-धर्म की भावना ब्राह्मणों और क्षत्रियों में व्यापक रूप से फैली हुई नहीं दिखाई देती। यूरोप में भी भारत की तरह मध्ययुग में आनुवंशिकता नहीं परन्तु एक प्रकार की चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था जरूर थी; पर वहाँ की धर्म-संस्था हमारे यहाँ की अपेक्षा अधिक संगठित थी और जब वहाँ के मुसलमानों के हमले ईसाइयों के धर्म-स्थानों पर हुए, तब वहाँ के धर्माधिकारियों ने यूरोप के तमाम राजाओं को मुसलमानों के खिलाफ धर्म-युद्ध करने को प्रोत्साहन दिया तथा प्रत्यक्ष रणक्षेत्र में जाकर लड़नेवाले नये धर्म-सम्प्रदाय भी बनाये। हमारे यहाँ ऐसा हुआ दिखाई नहीं देता। स्वधर्म-रक्षण के लिए स्वराज्य की आवश्यकता होती है, यह प्रतीति धर्माधिकारी ब्राह्मणवर्ग में मुसलमानों के आक्रमण के समय भी व्यापक रूप में नहीं दिखाई देती। कहीं यह इसी भावना का फल तो न हो कि राजकाज क्षत्रियों का काम है, उससे ब्राह्मणों को क्या लेना-देना !

कारण कुछ भी हो, ब्राह्मण व वैश्य-वृत्तिके और अन्य वर्गों के लोगों में राजनीति का, स्वराज्य-रक्षण की अथवा स्वराज्य-संस्थापन की आवश्यकता की प्रतीति दिखाई नहीं देती। हमारा स्वधर्माभिमान स्वराज्याभिमान से प्रायः अलिप्त ही था। निदान मुसलमानों के सैंकड़ों वर्षों के शासन के बाद तो ऐसा हुआ ही गई थी, यह निर्विवाद है। उनमें समर्थ रामदास अथवा शिवाजी का वाद हो सकता है और इसीलिए उनके महाराष्ट्र-धर्म को माना जाता है। परन्तु यह महाराष्ट्र-धर्म भी उत्तर-पेशवाई में

बच नहीं रहा था और अन्य प्रान्त के हिन्दुओं में तो उसका नामो-निशान भी नहीं था । मराठों ने साम्राज्य-स्थापना का प्रयत्न ज़रूर किया मगर आखिर में इस साम्राज्य के भिन्न-भिन्न सरदारों ने अंग्रेजों के पक्ष में मिलकर स्वामि-द्रोह और स्वराज्य-द्रोह किया, यह स्पष्ट है । सर जॉन मालकम ने सन् १८३० में लिखा है कि इन सरदारों ने पिछले तीस साल तक स्वामि-द्रोह करके ब्रिटिश राज्य के प्रति एकनिष्ठा दिखलाई है और इसके उपलक्ष में ब्रिटिश सरकार से सिफारिश की है कि इनके इनाम और जागीर जव्त न की जाय । मतलब यह है कि उस समय हमारा स्वामिनिष्ठा का गुण भी बहुत कुछ लुप्त हो गया था और हमारे उच्च-वर्णिय, उच्च-कुलीन सरदार द्रोही बन गये । हमारी धर्म-निष्ठा जिस प्रकार हीन और संकुचित बन गयी थी और विदेशी और विधर्मी शासकों की ओर से जिस प्रकार हमारे धार्मिक रस्म-रिवाज में हस्तक्षेप न करने और हमारे धर्म-मन्दिरों पर हाथ न डालने का अभिवचन पाकर उनकी सहायता करने के लिए हम तैयार थे, उसी प्रकार हमारी स्वामि-निष्ठा भी इतनी संकुचित हो गयी थी कि हमारे ऊपरी निकट सैनिक अधिकारी यदि हमसे प्रेम की दाँ मीठी बातें कर लेते तो हम प्राणपन से उनकी सेवा करने को तैयार हो जाते थे । वह स्वामी हमारे गाँव का, धर्म का अथवा राज्य का होना चाहिये, ऐसी भावना समाज के कनिष्ठ ही नहीं वरिष्ठ समझे जानेवाले वर्ग में भी जाग्रत न थी, अर्थात् राष्ट्रीयता की दृष्टि से सब वर्ग शूद्र अथवा दास बन गये थे । उनके मन से यह खयाल ही निकल गया था कि अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए स्वराज्य की आवश्यकता है । सारांश यह है कि धर्मनिष्ठा व स्वामि-निष्ठा इन गुणों से स्वराज्य-स्थापना अथवा स्वराज्य-संरक्षण होगा ऐसी हमारी स्थिति उस समय नहीं रह गयी थी । हमारे पास केवल वैयक्तिक सद्गुण थे । राष्ट्र-निर्माण व स्वराज्य-निर्माण के लिए आवश्यक सद्गुण बिल्कुल लुप्त हो गये थे ।

धर्म-जाति-निरपेक्ष आधुनिक लोक-सत्ता वा राष्ट्रीयता तो उस समय हमारे देश में नहीं थी, परन्तु धर्मनिष्ठा और स्वामिनिष्ठा इन सद्गुणों के बल पर जो एक स्वराज्य-निष्ठा मराठों में शिवाजी और संभाजी के समय में और बाद में राजाराम के समय में दिखाई दी वह भी उत्तर-पेशवाई

में चाकी नहीं बची। इसकी जिम्मेदारी पेशवाओं पर कितनी और दूसरे सरदारों पर कितनी आती है, इसकी चर्चा की गुञ्जाइश यहाँ नहीं है। नजीराव यदि अयोग्य था तो उसे हटाकर सबके एक मुख्य प्रयत्न करने का मार्ग तमाम सरदारों को ग्रहण करना चाहिये था, परन्तु इसके विपरीत वे अंग्रेजों द्वारा मिली अपनी जागीर, ज़मीन और इनाम को स्थिर और चिरन्तन करने में लग गये— यह राज्य-द्रोह, धर्म-द्रोह और स्वामि-द्रोह नहीं तो और क्या है ? इस तरह हिन्दू समाज को इस स्थिति पर पहुँचाने का पाप उसके कर्तृत्ववान ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण और सरदारवर्ग को लगे बिना नहीं रह सकता। हाँ, इसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती।

यूरोप के व्यापार-पेशा साम्राज्य-वर्द्धक लोग यदि सत्रहवीं, अठारहवीं सदी में हिन्दुस्तान में आये ही न होते तो संभव था कि गिरते हुए मुगल साम्राज्य को मिटाकर दिल्ली में मराठा-शाही अथवा हिन्दू-पद पातशही-स्थापित की जा सकती थी, ऐसी कल्पना की जा सकती है; परन्तु वह निरर्थक है। यूरोप में जो नई व्यापारी-संस्कृति निर्माण हुई उससे टकर लेने का सामर्थ्य भारतीय संस्कृति में अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में चाकी नहीं बचा था और यह माने बिना गति नहीं है कि आधुनिक, मध्ययुगीन किंवा प्राचीन किसी भी प्रकार के स्वराज्य-रक्षण या स्वराज्य-संस्थापन के लिए वह असमर्थ हो गयी थी। मुसलमानी-साम्राज्य और उसमें से निर्माण हुए दूसरे राज्यों को मराठों ने ढीला और निर्जीव कर दिया था और उन्हें ऐसी आशा देने लगी थी कि हम हिन्दुस्तान की मार्गभौम सत्ता बन जायेंगे। इतने में ही अंग्रेजों ने उनकी सत्ता को डगमगा दिया और भारतीय हिन्दू-मुसलमानों को यक़ीन करा दिया कि आधुनिक राष्ट्रीयता का पाठ हमसे सीखे वगैर तुम इस दुनिया में स्वतंत्र होकर नहीं रह सकते। १८१८ ईस्वी में पेशवाई का अस्त होने से प्राचीन व मध्य-युगीन भारत का अन्त हुआ और आधुनिक भारत का इतिहास अथवा यों कहें कि भारत का आधुनिक इतिहास शुरू हुआ। इस आधुनिक भारत के निर्माण में किसने क्या-क्या पराक्रम किया और इसके विश्वाता कौन-कौन हैं यही इस पुस्तक का विषय है।

अनेक धर्म और जातियों के लोगों में राष्ट्रीयता कैसे पैदा की जाय और सामन्तशाही को हटाकर लोकशाही अर्थात् प्रजातंत्र की स्थापना कैसे की जाय — ये दो सचक उस वक्त भारतीयों को यूरोपियनों से सीखने थे। भारत उन्हें अन्न सीख चुका, पर उधर ब्रिटेन में आज पूँजीवाद के कारण राष्ट्रीयता का नाश होकर अंतर्गत वर्ग-युद्ध जम रहा है और लोक-शाही धनिक-शाही बन गई है। अन्न भारत के युवक समाज के सामने यह एक महत्त्व का प्रश्न है कि आधुनिक भारत पूँजीवाद, तज्जन्य अपरिहार्य वर्ग-युद्ध और अन्त को प्रजातन्त्र का त्याग और राष्ट्रीयता का विपर्यास — इस मार्ग को स्वीकार करेगा या दूसरे किसी मार्ग को ग्रहण करके राष्ट्रीयता और प्रजा-सत्ता का विकास यूरोप से भिन्न दिशा में करके यूरोप की शान्ति, समता, सुख और स्वतंत्रता का अभिनव मार्ग दिखायेगा। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले भारतीय युवकों को आधुनिक भारत के पिछले १०० वर्षों के इतिहास का अवश्य मन्थन करना चाहिए। इस काल में जो महान राष्ट्र-भक्त विभूतियाँ हुईं उनकी सत्य-निष्ठा व स्वातन्त्र्य की आत्म-प्रेरणा उन्हें अपने अंतःकरण में जाग्रत करनी चाहिये और उस प्रेरणा से बनी तेजस्वी बुद्धि के द्वारा संसार के घटना-चक्रों को देखकर अपना भावी इतिहास स्वातन्त्र्य की आत्मा-प्रेरणा और बुद्धि-बल की सहायता से निर्माण करना चाहिए।

: २ :

अंग्रेजी-राज्य कैसे जमा ?

“जवतक हम लोगों के रीति-रिवाज न बदलें तवतक इस देश का हित नहीं हो सकता और जवतक हममें खुद स्वराज्य चलाने का सामर्थ्य न आ जायागा तवतक अंग्रेजों के इस देश से चले जाने से कोई लाभ न होगा। फिर अन्धेर-नार्दी होगी और किसी का जान-माल सुरक्षित न रहेगा। जवरदस्त का बोलवाला होगा और कमजोर भूखों मरेंगे। उन्हें सबकुछ खोना होगा। इसलिए जो सुझ हैं उन्हें चाहिए कि वे अंग्रेजों के जाने की इच्छा न करें।” —लोक हितवादी, २० जनवरी, १८५०, शतपत नं० ८६

‘If the argument be that the spread of knowledge may eventually be fatal to our rule in India, I maintain that whatever may be the consequence, it is our duty to communicate the benefits of knowledge. If India could only be preserved as a part of the British Empire, by keeping its inhabitants in a state of ignorance, our domination may be a curse to the country and ought to cease. But I see more ground for just apprehension in ignorance itself. I look to the increase of knowledge with a hope that it may strengthen our Empire.’*

अंग्रेजों राज्य यहाँ कैसे जमा ? इसका उत्तर अंग्रेजी शासकों की समय-समय पर हुई उन चर्चाओं से मिल सकता है कि यहाँ की शासन-पद्धति किस प्रकार की हो, उसकी नीति और अन्तिम ध्येय क्या हो और यहाँ के निवासियों के साथ उनका व्यवहार कैसा हो, उनके प्रति हमारा भाव क्या हो ? उसी प्रकार यहाँ की शासन-पद्धति का विकास कैसा होता गया, उसे वर्तमान-स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ, और उसका भविष्य क्या होगा ? — इसपर जो प्रकाश डाला गया है और जो चर्चा हुई है उन्हें पढ़ने से भी यह मालूम हो सकता है। सन् १८१८ में पेशवाई नष्ट होने के बाद सारे हिन्दुस्तान का सार्वभौमत्व प्राप्त होने का निश्चय अंग्रेजों को हो गया और वे इस बात का विचार करने लगे कि इस सार्वभौमत्व की बुनियाद मज़बूत कैसे हो, और वह अधिक-से-अधिक समय तक कैसे टिका रहे ? ऐसा विचार करके जो नीति उन्होंने निश्चित की, उसमें उन्हें बहुत सफलता मिली और उसमें उन्होंने समय-समय पर जो सुधार किये, उन्हें देखते हुए यह कहना पड़ता है कि उनके सार्वभौमत्व का ज्यादा-से-ज्यादा समय कायम रखने के लिए इसमें अच्छी नीति दूसरी नहीं हो सकती। उस दूरदर्शी नीति के कारण भारतीय जनता की भवितव्यता पर इसका कैसा, क्या असर पड़ेगा इसका विचार उन्होंने पहले से ही कर रक्खा था और यह कहना होगा कि पिछले सौ, सवा-सौ वर्ष के इतिहास

* Lord Metcalf ‘Life of Lord Metcalf’ — Vol. II, P. 262-264

को देखते हुए उनके दूरदर्शी राजनीतिज्ञों का अन्दाज बहुत-कुछ सही निकला ।

पिछले प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर जो विजय भी पाई वह विदेश या पर-राज्य पर आक्रमण करने के स्वरूप की नहीं थी, बल्कि बहुत-कुछ एक अन्तर्गत क्रान्ति करने के ढंग की, कम से-कम शुरू-शुरू में, थी । हिन्दुस्तान के किसी भी प्रथम-श्रेणी के राज्य पर चढ़ाई करके उसपर अपना स्वामित्व प्रकट रूप से उन्होंने नहीं जमाया । किसी राज्य में दो पक्ष हो गये तो कमजोर पक्ष को अपना बल देकर उसे सत्ताधारी बना देना, माण्डलिकों को सार्वभौम-सत्ता के खिलाफ खड़ा कर देना, सरदारों को राजा-नवाबों के खिलाफ भड़का देना और कहीं-कहीं नामधारी राजा को अपनाकर प्रजा में फूट डलवा देना, इसी प्रकार की भेद-नीति के द्वारा उन्होंने अधिकांश राज्यों को पराजित किया है और बंगाल को सर करने में तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ हिन्दुओं का और सरदार-सामन्तों के विरुद्ध व्यापारी मध्य-वर्ग का दुरुपयोग करके धर्म-द्वेष और वर्ग-द्वेष तक का भी उपयोग किया दिखाई देता है । हिन्दुस्तान का सार्वभौमत्व प्राप्त होने के बाद तो उन्होंने हिन्दुस्तान में एक सर्वांगीण क्रान्ति कर डालने की नीति सोच-समझ कर स्वीकार की थी । उनमें एक दल ऐसा भी था जो यह मानता था कि इस सर्वांगीण क्रान्ति का अंतिम परिणाम हमारी साम्राज्य-सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा ; परन्तु साथ ही उनमें एक दूसरे पक्ष का मत था कि यद्यपि अंतिम परिणाम आगे जाकर कभी घातक सिद्ध हो तो भी इस नीति का सन्निकट परिणाम हमारे साम्राज्य का पाया सुदृढ़ करने में कारगर साबित होगा । इस नीति का अवलंबन उग्रता के साथ न करके नरमी के साथ धीरे-धीरे किया जाय तो भारतीय राष्ट्र की सर्वांगीण क्रान्ति होने में जो सौ-दो-सौ साल लगेंगे, उनमें तो हमारे राज्य को भीतरी खतरे का अंदेशा न रहेगा । इतना ही नहीं, बल्कि हमारी इस नीति के फल-स्वरूप जो एक सर्वांगीण सुधारवादी नेता-वर्ग उत्पन्न होगा वह हमारे साम्राज्य पर होने वाले विदेशी आक्रमणों का मुकाबला करने में काम आयेगा, ऐसा इन राजनीतिज्ञों का मत था और वह बहुत-कुछ सही निकला । अंग्रेजों ने

हिन्दुस्तान का सार्वभौमत्व प्राप्त करने के बाद जो एक सर्वांगीण सुधारक-वर्ग निर्माण किया, वह ब्रिटिश-साम्राज्य के प्रति वफादार रहा और पहले-पहल तो बिल्कुल अराष्ट्रीय बनकर विदेशियों का एजेण्ट ही बन गया। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस बात की बड़ी सावधानी रक्खी थी कि इस तरह अंग्रेजों की प्रेरणा से जो सर्वांगीण सुधारवाद हिन्दुस्तान में उदय हुआ वह राजनिष्ठा की मर्यादा को न छोड़े। जिस प्रकार रामदासी संप्रदाय का उपयोग शिवाजी के स्वराज्य-संबंधी प्रेम को हिन्दू-जनता में फैलाने में हुआ, उसी तरह इस नव-सुशिक्षित वर्ग का उपयोग ब्रिटिशों के साम्राज्य-संबंधी प्रेम को अशिक्षित हिन्दी जनता में फैलाने में होगा—ऐसा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की कल्पना थी और इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार वह परराज्य-प्रेरित सुधारवाद भारतीय राष्ट्र की बुद्धिमत्ता को राजनीति-विमुख अथवा अराष्ट्रीय बनवाने में कुछ समय तक कारणीभूत हुआ। यही कारण है कि हिन्दुस्तान में जब वास्तविक राष्ट्रियता उदय हुई तब सर्वांगीण सुधारों के विरोध के रूप में उसका जन्म हुआ, तथापि उसका वास्तविक अंतरंग सामाजिक और धार्मिक सुधारों का विरोध नहीं, बल्कि दूरदर्शी और गहरी राजनैतिक दृष्टि और प्रखर राष्ट्राभिमान ही है। भारतीय राष्ट्रवाद यद्यपि इस प्रकार शुरू-शुरू में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की प्रतिकार भावना के रूप में उत्पन्न होने जैसा प्रतीत हुआ, तथापि आगे चलकर अपने राष्ट्राभिमान की ज्योति जगाने के लिए उसे भी सामाजिक और धार्मिक सुधारों का उपयोग करना पड़ा और इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद आज धीरे-धीरे सर्वांगीण क्रान्तिवाद का रूप धारण कर रहा है। समाज की सर्वांगीण क्रान्ति के लिए समाज के आर्थिक संगठन को बुनियाद ही पहले बदलनी पड़ती है और उसके पहले देश की शासन-सत्ता सामान्य जनता के हाथ में आने की जरूरत है, क्रान्ति-शस्त्र के इस आधारभूत सिद्धांत का ज्ञान आज भारतीय लोगों को हो गया है। इस कारण आज भारतीय राष्ट्रवाद यद्यपि सर्वांगीण क्रान्तिवाद का स्वरूप धारण कर रहा है तो भी राजनीति पर उसका जोर कम न होकर अधिकाधिक बढ़ ही रहा है। पहले का सर्वांगीण सुधारवाद ब्रिटिश-साम्राज्य का वफादार मित्र था तो आज का सर्वांगीण क्रान्तिवाद ब्रिटिश-साम्राज्य

का कट्टर शत्रु है। पहले का सुधारवाद शुरू में राजकरण-विमुख और बाद में नरम राजनैतिक था तो आज का सर्वांगीण क्रान्तिवाद पहले राजनैतिक क्रान्ति और बाद को सर्वांगीण क्रान्ति-शास्त्र के तत्त्व को पहचान कर चलनेवाला है। इस तरह हिन्दुस्तान में जो सर्वांगीण सुधारवाद पिछले शतक में निर्मित हुआ उससे आज का सर्वांगीण क्रान्तिवाद भिन्न है और पहले के सुधारवाद की राजनीति बहुत नरम थी तो आज के क्रान्तिवाद की राजनीति बहुत गरम है, ऐसा आक्षेप भारतीय राष्ट्रवादी उसपर कर सकते हैं। परन्तु भारतीय राष्ट्रवाद का भावी विकास इस सर्वांगीण क्रान्तिवाद की दिशा में ही होता जायगा इसके विषय में अब अधिक शङ्का नहीं रह गयी है। पहले के सुधारवाद में जहाँ प्रेरक-शक्ति ब्रिटिश इतिहास थी तहाँ आज के क्रान्तिवाद की प्रेरक-शक्ति रूस की क्रान्ति है। अलबत्ता पहले के सुधारवाद की तरह इस क्रान्तिवाद का भी राष्ट्रीकरण होना आवश्यक है और जब वह भारतीय जनता के अन्तःकरण में स्थान ग्रहण कर लेगा तभी उसका वास्तविक सामर्थ्य प्रकट होगा।

राजा राममोहन राय से लेकर जस्टिस रानाडे तक जो सर्वांगीण सुधारवादी हुए उनके भाषण और लेखों में कुछ भाव यद्यपि हमें राष्ट्रीयता से असङ्गत मालूम होते हैं तो भी कुल मिलाकर विचार करने से मालूम पड़ता है कि आधुनिक भारत का जन्म इन्हीं के प्रयत्न और प्रचारों से हुआ है और आज भारतीय राष्ट्रवाद को जो सर्वांगीण क्रान्तिवाद का स्वरूप प्राप्त हुआ है उसके बीज भी उनके द्वारा हिन्दुस्तान में प्रवर्तित नवीन विचार-युग में मिल सकते हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में इस सुधारवादी विचार-युग का विशेष महत्त्व है और यह सुधारवाद यद्यपि कुछ समय तक ब्रिटिश-साम्राज्य को सुस्थिर बनाने में कारणीभूत हुआ हो तो भी यह कहना कि ये सामाजिक और धार्मिक सुधारक देश-द्रोही थे, कृतघ्नता होगी। उनके अन्तःकरण की प्रेरक शक्ति शुद्ध देशभक्ति और देशोद्धार ही थी और उन्होंने देश में जो नव-ज्योति प्रज्वलित की इसके सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। उस विचार-ज्योति के प्रकाश में भारतीयों की आँखें कुछ समय तक चौंधिया गई हों तो उसका दोष उस प्रकाश को नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति पर जो कुछ समय तक अंधकार

फैल गया था, उसका था। जिन ब्रिटिश दूरदर्शी राजनीतिज्ञों ने भारतीय लोगों को पाश्चात्य शिक्षा देकर धीरे-धीरे राज-काज में स्थान देने की नीति स्वार्थभाव से निश्चित की, उन्हें इस विचार-ज्योति को प्रथम प्रज्वलित करने का बहुत-कुछ श्रेय है, फिर भी अपने साम्राज्य को बल प्राप्त कराने के लिए इस ज्योति को जगानेवाले ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ और अपने देश में फैले अज्ञान-रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए पाश्चात्य विद्या की ज्योति सर्वत्र फैलाने की इच्छा रखनेवाले सर्वांगीण सुधारवादी भारतीय देशभक्त दोनों को हम एक ही श्रेणी में नहीं विटा सकते। इसी प्रकार जिन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने दूरदर्शी स्वार्थ के वशीभूत होकर ही क्यों न हों, भारतीय लोगों को ज्ञान-दान देकर धीरे-धीरे राज-काज में उनका प्रवेश कराने की नीति निर्धारित की, उनके भी दूरदर्शी अथवा बुद्धिमत्तायुक्त स्वार्थ के लिए भारतीय देश-भक्तों को कृतज्ञ होना अनुचित नहीं है। इस कृतज्ञता के कुछ इष्टानिष्ठ परिणाम भारतीय गणनीयता के विकास पर हुए दिखाई देते हैं। उसकी चर्चा इस पुस्तक में आगे स्थान-स्थान पर होनेवाली ही है; परन्तु इससे पहले अंग्रेजों के सार्वभौमत्व हस्तगत करते ही अपने साम्राज्य की जड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने कौन-सी दूरदर्शी नीति इस्तिथार की, इसका जग विस्तार से विचार कर लेने की जरूरत है।

माउन्ट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन ने १८१८ ई० में पेशवाई को खत्म करके हिंदुस्तान में अंग्रेजों का सार्वभौमत्व स्थापन किया और पेशवाई के बाद वही बम्बई प्रांत का पहला गवर्नर हुआ। १८१६ से १८२७ तक वह गवर्नर रहा। इसी समय में सर टामस मनरो मद्रास का गवर्नर था। इन दोनों ने ब्रिटिश शासन में उदार-नीति दामिल की या दिखाई और इसकी घोषणा करके उन्होंने यहाँ के लोगों का हृदय आकर्षित कर लिया। मई १८१६ में एल्फिन्स्टन सर जॉन माल्कम को लिखता है—
 “आज या कल सारा देश हम अपना बना लें यही बहुधा वांछनीय है—
 यदि हम यहाँ की देशी सेना को काचू में रख सकें और रूसी लोगों को दूर रख सकें तो जबतक देशी लोग हमारी शिक्षा से समझदार न बन जायँ और जबतक दोनों के हित की दृष्टि से हमारा संबंध तोड़ना इष्ट

न हो तबतक दूसरा कोई भय मुझे हमारे साम्राज्य के लिए दिखाई नहीं देता ।”*

इसके बाद अगले महीने में वह मेकेन्टॉश को लिखता है—“हमारा भारतीय साम्राज्य अधिक समय नहीं टिकेगा, यह मत महज एक कुशङ्का नहीं बल्कि युक्तियुक्त है। इस साम्राज्य का अन्त किस प्रकार होगा यह समझना बड़ा मुश्किल है, परन्तु यदि रूस अथवा किसी विदेशी आक्रमण से यह बच गया तो उसके विनाश के बीज देशी सेना में मिलेंगे ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यह देशी सेना बड़ा नाजुक और भयंकर यंत्र है और उसकी व्यवस्था में जरा भी कहीं भूल हुई तो बात-की-बात में वह हमारे खिलाफ हो जायगी। हमारे प्रभुत्व का अत्यन्त इष्ट अन्त यही हो सकता है कि हमारे शासन में यहाँ के लोगों के अंदर इतने सुधार हो जावें कि किसी भी विदेशी सत्ता का राज्य करना असम्भव हो जाय। परन्तु यह समय कितना लंबा होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता... फिर भी हमारे संबंध-विच्छेद का समय कभी-न-कभी आये बिना नहीं रह सकता और यहाँ के लोग जंगली बने रहकर अत्याचार करके हम से संबंध तोड़ डालें इससे तो हमारे लिए यही अधिक हितकारक है कि भले ही वह जल्दी टूट जाय; परन्तु टूटे वह उनका सुधार होने के बाद। यदि पहली बात हुई तो हमारे यहाँ बसनेवाले सब लोग और हमारा सारा व्यापार तहस-नहस हो जायगा और इस देश में हमने जो संस्थाएँ स्थापित की हैं वे भी नष्ट हो जायँगी ।”†

इन दो अवतरणों से उस समय के दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के विचारों की कल्पना हमें हो सकती है। उन्हें अपने साम्राज्य के लिए तात्कालिक संकट दो ही मालूम होते थे। एक रूस-जैसी विदेशी यूरोपीय सत्ता का भय और दूसरी भारतीय सेना की बगावत का संकट। यहाँ के राजे-रजवाड़ों का उन्हें त्रिकुल डर नहीं था और विदेशी संकट के लिए भी वे एशिया के किसी भी राष्ट्र का उल्लेख नहीं करते हैं। यह बात याद रखने लायक है कि उन्होंने महज रूस का जिक्र किया है। नेपोलियन

*Mount Stuart Elphinston By J.S. Cotton, Page 185..

† Ibid P. 185-6

की पराजय के बाद फ्रेंच लोगों का संकट उन लोगों के लिए बाकी नहीं रह गया था; और एशियाई राज्य से उन्हें कोई डर नहीं मालूम होता था। उन्हें डर था तो हिन्दुस्तानी सेना का बगावत का। वे मानते थे कि हिन्दुस्तानियों की महायता से जाते हुए हिन्दुस्तान को हिन्दुस्तान की सहायता से ही अपने ताबे में रख सकेंगे। यहाँ के राजे-रजवाड़ों से उन्हें कोई डर न था। पर अगर देशी सेना बिगड़ गई तो हमारा पता न लगेगा, यह भय उन्हें अवश्य था। उन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को उस समय यह आशंका बिल्कुल नहीं थी कि यहाँ के सब राजे-रजवाड़े एक झुंडे के नीचे एकत्र होकर हमारे विदेशी साम्राज्य को हटा देंगे और हिन्दुस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। वे जानते थे कि हिन्दुस्तानी राजे-महाराजे, सरदार-जागीरदार अथवा उनके विद्वान्-अविद्वान् राजनीतिज्ञ हिन्दुस्तान में राष्ट्रीयता पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वे संसार की सस्कृति में पिछड़े हुए हैं, अर्द्ध-जड़ली हैं, आपस में एक-दूसरे से लड़ते हैं, अनुशासन और कत्रायट के महत्त्व को नहीं जानते, विदेशी प्रभुत्व पर उनके दिल को चोट नहीं लगती, वे धर्मान्धता में डूबे हुए हैं, आधुनिक राष्ट्र-निर्माण से दूर हैं, उन्हें लोक-सत्ता का ज्ञान नहीं है, संसार के घटना-चक्र से वे अपरिचित हैं और उनके पास हमारे जैसे शास्त्रात्मा भी नहीं हैं। वे यह खयाल करते थे कि यदि नेपालियन की शकस्त न होता तो भारतीय लोगों के सुधार का काम फ्रेंच लोगों को करना पड़ता, परन्तु अब उसकी जिम्मेदारी हमपर आ गई है। वे जानते थे कि यदि हमने इन्हें सुधारा, राज-काज का सबक सिखाया और अपनी ही संस्कृति की लोक-सत्तात्मक राष्ट्र-निर्माण की कल्पना यहाँ जड़ पकड़ गई तो फिर यही लोग एक होकर हमारा मुकाबला करेंगे और फिर उनके मुकाबले में हम टिक न सकेंगे। परन्तु इस बात में सौ, दो सौ साल लग जायेंगे और तब तक हम इनपर अपनी सत्ता चला सकेंगे, ऐसा उनका आत्म-विश्वास था। तब बहुत दूर के इस तीसरे संकट को छोड़ दें तो फिर ऊपर लिखे मुताबिक तात्कालिक संकट दो ही रह जाते हैं — एक बाहर से रूस के हमले का और एक भीतर से हिन्दुस्तानी सेना की बगावत का। इसे दूर करने के लिए उन्होंने क्या-क्या तजवीजें की, इसका अब विचार करें।

वे यह जानते थे कि जवतक हिन्दुस्तान के जन-साधारण में राष्ट्र-भावना न पैदा होगी तवतक यदि महज सेना की जगावत के बल पर हिन्दुस्तान आजाद होना और सुख-शांति से रहना चाहे तो यह अशक्य है। महज सैनिक विद्रोह के द्वारा राष्ट्र-निर्माण नहीं हो सकता—हाँ, देश में अंधाधुन्धी और पिंडारगर्दी अलवत्ता हो सकती हैं। यहाँ के हिंदू-मुसलमान राजा-नवाबों का यह खयाल हो सकता है कि यूरोपियन लोग यदि इधर आये ही न होते तो सम्भव था कि इस अंधाधुन्धी से कोई सम्पन्नशाही-दंग का तितर-त्रितर साम्राज्य स्थापित कर पाये होते; परन्तु यहाँ के वेवकूफ और नालायक राजे-रजवाड़े यह समझे हुए थे कि अंगरेजों की कवायद-निपुण तालीमयाफ्ता सेना के और भेद-नीति के मुकाबले में और एक बड़े क्षेत्र में शांति का शासन स्थापित करके आम लोगों के हृदय को आकर्षित कर लेने की उनकी कला के सामने हमारा कुछ बस न चलेगा। इधर अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने अपने मन में यह तय किया होगा कि हमारी शक्ति है तो बहुत थोड़ी, परन्तु इन मूर्खों को वह बहुत बड़ी मालूम होती है, क्योंकि राष्ट्र-निर्माण का वा आपस में एका करके विदेशियों से लड़ने का महत्त्व वे नहीं जानते हैं, आपस के लड़ाई-भगड़ों के या पेट के लिए दूसरों को घर बुलाकर उनकी नौकरी-चाकरी करने में इन्हें जव शर्म नहीं आती तव इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेड्रिक जॉन शीअर नामक अंग्रेज लेखक सन् १८३५ में अपने 'इण्डियन आर्मी' नामक लेख में इसी बात का प्रतिपादन करता है कि हिन्दुस्तानियों में आत्म-विश्वास नहीं है, न राष्ट्राभिमान है और वे एका भी नहीं कर सकते—यही हमारे साम्राज्य का सामर्थ्य है—

इस कथन का कि 'हमारा भारतीय-साम्राज्य लोकमत के आधार पर खड़ा है, अर्थ मैंने अब समझा है। इसका अर्थ समझा तो यह जाता है कि लोग हमारे न्याय-भाव पर और हमारी बात पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और इसलिए हिन्दुस्तानियों से हमारी हुकूमत को ज्यादा पसन्द करते हैं। परन्तु जिस राजनीतिज्ञ ने यह पहला रूप बनाया उसका अर्थ इतना ही है कि—हिन्दुस्तानी यह जानते हैं कि हमारा सामर्थ्य बहुत है और इसलिए हमारा विरोध करना व्यर्थ है। परन्तु यदि वे एका

कर लें तो बहुत आसानी से हमारा नामोनिशाँ मिटा सकेंगे—ऐसा मुझे भय है। जो हो, हमारे साम्राज्य का आधार तो तलवार ही है, जनता की इच्छा व प्रेम नहीं। यदि हमारी फौज वापिस बुला ली जाय या उसकी संख्या कम कर दी जाय तो इसकी प्रतीति हो जायगी, लेकिन उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा।*

भारतीय सेना की वफादारी के सम्बन्ध में वह लेखक कहता है—
‘मतलब यह कि अपने गाँव के अलावा हिन्दुस्तानी नहीं जानते कि देश-प्रेम क्या चीज है ? किसी अधिकारी अथवा स्वामी के प्रति उसका प्रेम और वफादारी हो सकती है, परन्तु सारा राज्य-व्यवस्था के बारे में वह वेफिकर रहता है। जो वेतन देते हैं उनके लिए वह लड़ता है और यदि कहीं उसे ऐसा दिखाई दिया कि जिस सरकार की मैं नौकरी करता हूँ वह गिर या टूट रही है तो उसकी नौकरी छोड़कर ज्यादा वेतन अथवा लूट का आशा से शत्रु के वहाँ भी नौकरी कर लेगा।’ †

ऐसी सस्कृति में पले सैनिकों को खुश रखने के लिए उन्होंने दो उपाय ईजाद किये थे। एक तो यह कि उन्हें काफी और नियमित समय पर वेतन दे देना और ऐसा कोई काम न करना जिससे उनके जात-पाँत या अंध-विश्वासों को धक्का लगे। इतनी सावधानी रखने पर उन्हें बहुत से सैनिक मिल जाते थे और उनका यह अनुभव था कि उन्हें कवावद-परेड सिखाकर नये शस्त्रास्त्र दे दिये जाते हैं तो फिर उनके आगे देशी राजाओं की दाल नहीं गल सकती। परन्तु मनरो, एल्फिन्स्टन आदि पहले के उदार समझे जानेवाले अंग्रेज मुसद्दियों को इस बात का भी पता था कि भरपूर तनखाह और धार्मिक मामलों में दस्तंदाजी न करने की नीति से सिपाहियों को खुश रखने के बाद भी यह सावधानी रखना आवश्यक है कि उनमें राजनैतिक स्वातन्त्र्य के विचारों का प्रवेश न हो। इसीलिए उनका यह मत था कि हिन्दुस्तानियों को मुद्रण-स्वतंत्रता न दी जाय। कम-से-कम उनपर बहुतेरे बन्धन तो जरूर ही लगा दिये जायं। मनरो, एल्फिन्स्टन, माल्कम ये गवर्नर लोग और उनकी नीति

* Notes on Indian Affairs, By F.J. Shore, Vol. II, P.419

† Ibid P 521

को चलाने वाले गवर्नर-जनरल लार्ड विलियम बैंटिंक—सबने समय-समय पर ऐसे विचार प्रदर्शित किये हैं कि भारतवासियों में शिक्षा का प्रचार किया जाय, धीरे-धीरे शासन-कार्य में उनका अधिकाधिक प्रवेश कराया जाय और समय पाकर जब वे स्वतन्त्र होने के योग्य हो जायेंगे तब ऐसी सावधानी रखकर उन्हें स्वतंत्र होने देना चाहिए, जिससे हमारा व्यापार और हमारी स्थापित संस्थाएँ सुरक्षित रहें। फिर भी वे इस बात पर तो जोर ही दिया करते थे कि उन्हें मुद्रण-स्वातंत्र्य न दिया जाय, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे राजनैतिक स्वतन्त्रता के खयाल और भाव लोगों के अन्दर पैदा होंगे और वे हिन्दुस्तानी सेना में तुरन्त फैल जावेंगे। मद्रास का गवर्नर सर टॉमस मनरो इस विषय में १८२२ ईस्वी में लिखता है :

‘इस देश के लोगों को मुद्रण-स्वातंत्र्य देने के विषय में विचार करते हुए मैं इस बात को नहीं भुला सकता कि इन लोगों को मुद्रण-स्वातन्त्र्य उपयोग करने देने की शर्त पर हम इस देश में नहीं रह सकते। इसीलिए देश में शांति-रक्षा तथा हमारे साम्राज्य की रक्षा दोनों दृष्टियों से वर्तमान तमाम बन्धनों को कायम रखना मुझे जरूरी मालूम होता है। यदि यहाँ के सभी लोग हमारे देशबंधु होते तो आत्यन्तिक मुद्रण-स्वातन्त्र्य को मैं पसंद कर सकता था; परन्तु जब कि वे ऐसे नहीं हैं, उन्हें मुद्रण-स्वातंत्र्य देना सबसे भयंकर बात होगी। इसके उपयोगी ज्ञान का प्रसार होने के बजाय, अथवा शासन-कार्य में सुधार होने के बजाय लोगों में उद्दण्डता, बगावत और अराजकता फैलने की ही सम्भावना है।

‘मुद्रण-स्वातन्त्र्य और विदेशी-शासन ये दोनों बिल्कुल परस्पर असंगत बातें हैं और इनका मंयोग अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता, क्योंकि स्वतंत्र आवचारों का पहला कर्तव्य क्या है? अपने देश को विदेशियों के जवड़े से छुड़ाना और इस महान् ध्येय की सिद्धि के लिए तमाम लुद्र विचारों को छोड़ देना। और हमने यदि यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी दोनों को वसतविक मुद्रण-स्वातंत्र्य दे दिया तो उसका इसके सिवा दूसरा नतीजा हो ही नहीं सकता।’

‘मुद्रण-स्वातंत्र्य के समर्थक कहते हैं कि हमारा यह प्रयत्न इसलिए

है कि हमारी शासन-व्यवस्था में सुधार हो और यहाँ के निवासियों की स्थिति तथा मन-बुझ पर भी अच्छे संस्कार पड़ें। परन्तु उनका यह इच्छित हेतु उन संस्थाओं को जन्म दे नहीं हो सकता जिनका अस्तित्व बनाने के लिए हमें समय-बाध का विचार करने से बचना चाहते हैं। हमें अतः समय-बाध का विचार करने के लिए दो मार्गों का ध्यान करना पड़ेगा—पहला जिन संस्थाओं को जन्म देना चाहिये। पहली बात तो यह कि हमारे देश में धार्मिक-संस्थाओं तक कायम रहे, और दूसरा यह कि हमारे देश में धार्मिक-संस्थाओं में स्वातंत्र्य-मण्डित तथा सार्वजनिक संस्कार स्थापित करने इतनी जल्दता आ जानी चाहिये, जहाँ-तक संभव हो सके। स्वतंत्र्य में ही पूर्ण पढ़ सकती है। व्यापक रूप से धार्मिक-संस्थाओं की पूर्ण स्वतंत्रता से ये संस्थाएँ निश्चय ही न होंगी; क्योंकि संस्कारों में उत्तम-वर्गीय करने से वे सब काम में आ जायेंगे जो कि हमें अपने तथा समाजों के लिये करने से हो सकते हैं।

“जो देश सभ्यता के लिये है उनके देश के लोगों में ज्ञान-प्रसाद होने में बाधा नहीं पड़ सकती। उनमें ज्ञान के लिये स्वतंत्रता ही आवश्यक है क्योंकि वह स्वतंत्रता के लिये ही है। और धार्मिक-संस्थाओं का अराजकता से धार्मिक-संस्थाओं में स्वतंत्रता के लिये ही है। ज्ञान-प्रसाद का स्वतंत्रता ही मार्ग है जिनमें धार्मिक-संस्थाओं का प्रचार करना तथा सब तरफ से धार्मिक और नैतिक ज्ञान का प्रचार करना। न केवल धार्मिक-संस्थाओं के निकट सम्पर्क में आने से ही धार्मिक-संस्थाओं का प्रचार करना। हम आज़ाद हों और अपना राज-राजसुद चलायें—यह आज़ाद प्रजा में देना के पहले सामान्य जनता में होना और संस्कारों के लिये और ही सुधार के पहले पीढ़ियों में होने चाहिये, यद्यपि हमें उत्तम संस्कारों के लिये ही समय में करने के फेर में पड़कर हम कार्य में आ सकें। हमें ही हमें कोई मन्त्रेह नहीं है कि स्वतंत्रता की यह आकांक्षा हिन्दुत्वान में धर-धर अवश्य फैलेगी। यदि हमने सौम्य और न्याय-युक्त शासन-व्यवस्था रखी, लोगों के धार्मिक भावों पर हमला न करने हुए जनता के स्वतंत्रता का उनमें प्रचार किया, उनके द्वारा स्थापित शिक्षण-संस्थाओं को सहायता देकर जहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती हो वहाँ आर्थिक सहायता दी या उनका सम्मान किया, जिन संस्थाओं की आर्थिक सहायता की जरूरत है उन्हें यह दी,

और सबसे अधिक स्थानिक विद्वानों को अधिकार और सम्मान के पद देकर उनके दिलों में यह आकांक्षा पैदा की कि हम शिक्षा और ज्ञान संपादन करें, तो हम उन्हें शासन-कार्य में अधिक भाग लेने का मौका देकर धीरे-धीरे उनकी धर्मान्धता दूर कर देंगे और हमारे देश में जिन उदात्त मतों और तत्त्वों का प्रचार हुआ है, उन्हें इन लोगों में भी फैला सकेंगे।”

“परन्तु यदि हमने इसके विरुद्ध मार्ग ग्रहण किया और मुट्ठी भर यूरोपियन पत्रकारों के हित पर दृष्टि रखकर यदि यूरोपियनों के चारित्र्य और सत्ता के प्रति हिन्दुस्तानियों के आदर-भाव में मुद्रण-स्वातन्त्र्य की सुरंग लगादी तो देशी सेना में हम असन्तोष के बीज बो देंगे और हम बगावत और विद्रोह के संकट से कभी मुक्त न हो सकेंगे, निःशंक न रह सकेंगे। इस संकट के लिए यह जरूरी नहीं है कि आज की अपेक्षा उनकी बुद्धि अधिक तीव्र हो, या उन्हें राष्ट्रीय अथवा मानवी स्वत्वों का अधिक ज्ञान हो। हमारे अधिकारियों और यूरोपियनों के चारित्र्य के प्रति जो आदर आज उनके मन में है वह खत्म हुआ कि बस। जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन वे हमारे खिलाफ बगावत का झण्डा खड़ा कर देंगे—मगर इस बगावत की मन्शा यह न होगी कि उन्हें आजादी मिले, बल्कि यह होगी कि उनके हाथों में सत्ता आ जावे और वे लूट-पाट कर सकें। हम एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ—वह यह कि जिस राष्ट्र की सेना के सहारे अपना प्रभुत्व कायम रखना और उसी समय मुद्रण-स्वातन्त्र्य प्राप्त करके हमें यहाँ से निकाल बाहर करने और अपने देश को आजाद करने का पाठ उन्हें पढ़ाना। यह अन्देशा सिर्फ हिन्दुस्तानी पत्रकारों के त्रारे में ही है और इन विचारों की खलचली जब हमारी देशी सेना में मचेगी तभी उसके भयानक परिणाम हमें दिखाई देने लगेंगे। एक ओर जहाँ बहुतेरे लोग हिन्दू अखबारों के प्रयत्नों की तारीफ करने लगेंगे और ऐसी आशा बाँधने लगेंगे कि अब हमारे लोगों में खूब ज्ञान-प्रसार होगा, तहाँ उसी समय दूसरी ओर इन्हीं अखबारों के प्रचार से जन्मी एक भयंकर क्रान्ति हमारी सत्ता को असमय में उखाड़ फेंकने की तैयारी करने लगेगी और यदि ऐसा हुआ तो हमारी

सब आशाएँ चूर-चूर हो जायेंगी और हमने हिन्दुस्तान को जिस स्थिति में देखा था, सुधार की दृष्टि से वह उससे भी अधिक निराशामय स्थिति में जा गिरेगा ।”*

इसी तरह १८२६ ई० में बरकपुर - विद्रोह को मिटाने के बाद एलफिन्स्टन सर चार्ल्स मेटकाफ को लिखता है —

“मुझे ऐसा लगता था कि हमारा साम्राज्य काँच का ही बना हुआ है । परन्तु पहले और अब जो आघात उसने सफलता के साथ सहन किये हैं उन्हें देखते हुए ऐसा भासित हो सकता है कि वह फौलाद का है । परन्तु मेरा यह विश्वास है कि वह फौलाद का है तथापि यदि वह गाफिल लोगों के हाथों में जा फँसा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने की भी संभावना है । ” †

फिर भी १८३५ में लार्ड विलियम वेंटिक के चले जाने के बाद १८३६ में जेम्स सर चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर - जनरल हुआ तो उसने हिन्दुस्तान को मुद्रण - स्वातन्त्र्य के अधिकार दे दिये । इस ‘अपराध’ के लिए उसे उसके पद से हटा दिया गया, फिर भी उसने अपना यह मत न बदला कि मुद्रण - स्वातन्त्र्य देने में ही भारतीयों तथा हमारे साम्राज्य का वास्तविक हित है । उसकी दलीलें इस प्रकार हैं —

“यदि यह कहा जाता हो कि ज्ञान - जागृति के फल - स्वरूप हमारे भारतीय राज्य का खातमा हो जायगा तो इसपर मेरा जवाब यह है कि नतीजा जो कुछ भी हो, उन्हें ज्ञान - लाभ कराना हमारा कर्तव्य ही है । यदि हिन्दुस्तानियों को अज्ञान में रखने से ही यह देश हमारे साम्राज्य में रह सकता हो तो हमारा प्रभुत्व इस देश के लिए शाप - रूप ही सिद्ध होगा और उसका अन्त हो जाना ही आवश्यक होगा ।

“परन्तु मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह मानना ही अधिक युक्ति - युक्त और साधारण है कि लोगों को अज्ञान बनाये रखने में ही अधिक डर है । मैं तो यह सोचता हूँ कि ज्ञान - जागृति से हमारा साम्राज्य अधिक ही बलिष्ठ होगा । इससे शासक और प्रजाजन दोनों में सहानुभूति

* Memoir of Sir Thomas Munro, Dated 12th April 1822

† Mount Stuart Elphinston by J. S. Colton, P.186

पैदा होगी और परस्पर एकता का भाव बढ़ेगा और आज जो खाई उनमें है वह धीरे-धीरे त्रिक्कुल पट जायगी।”*

ज्ञान-जागृति से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ अधिक मजबूत होगी या ढीली, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर अवलम्बित है कि वह ज्ञान किस प्रकार का होगा। अंग्रेजों के प्रथम शासन-काल में यहाँ के शिक्षित लोगों में जिस ज्ञान का प्रचार हुआ उससे ब्रिटिश साम्राज्य को कुछ समय तक तो निस्संदेह बल ही मिला। इस प्रकरण के आरम्भ में ‘लोक-हितवादी’ का जो उद्घरण दिया गया है उसमें यह परिणाम साफ तौर पर दिखाई देता है। उसमें वे स्पष्ट ही कहते हैं — “सुज्ञ लोगों को चाहिए कि वे अंग्रेजों के जाने की इच्छा कदापि न करें।” क्योंकि वे समझते थे कि इससे फिर अराजकता फैलेगी।

‘लोकहितवादी’ का यह लेख १८५० का अर्थात् मेटकाफ द्वारा मुद्रण-स्वातन्त्र्य मिलने के पन्द्रह साल बाद का है। उससे १८२२ में सर टामस-मनरो को मुद्रण-स्वातन्त्र्य देने से जिन भयंकर परिणामों का डर लगता था वह सच नहीं मालूम होता। बल्कि अंग्रेजी शिक्षा से जिनकी आँखें खुल गई थीं उन्हें ऐसा नहीं मालूम हुआ, और उलटा वे ऐसा प्रचार करने लगे कि जबतक हमारे देश का भीतरी और बाहरी सारा रंग नहीं बदल जाता, तबतक अंग्रेजी राज्य रहना चाहिए और किसी भी बुद्धिमान् मनुष्य को यह इच्छा न करनी चाहिए कि अंग्रेजों का राज्य यहाँ से चला जाय। उन्होंने अपने देश के सर्वांगीण सुधार का बीड़ा उठाया और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य का विचार कुछ समय के लिये दूर रख दिया। इससे मेटकाफ का ही यह विचार सच साबित हुआ कि मुद्रण-स्वातन्त्र्य से तो हमारे साम्राज्य की जड़ और मजबूत ही होगी।

१८२३ ईसवी में बंगाल के राजा राममोहन राय आदि सुशिक्षित भारतीय नेताओं ने मुद्रण-स्वातन्त्र्य के विषय में एक निवेदन-पत्र ब्रिटिश राजा को भेजा था। इसमें वे लिखते हैं — “महाराज इस बात को जानते हैं कि मुद्रण-स्वातन्त्र्य की बंदौलत किसी देश में आजतक राज्य-

* The Development of an Indian Policy by Anderson and Subedar, P. 143

क्रान्ति नहीं हुई, क्योंकि जहाँ स्थानिक अधिकारियों की शिकायतें बड़े अधिकारियों तक पहुँचने का मार्ग सुलभ हो और वे दूर कर दी जाती हों, वहाँ असन्तोष - जनित क्रान्ति का कारण ही नष्ट हो जाता है। इसके खिलाफ जहाँ मुद्रण - स्वातन्त्र्य विल्कुल नहीं है और इसलिए न तो शिकायतें प्रकट ही की जा सकती हैं, न दूर ही होती हैं, वहाँ दुनिया के सब हिस्सों में असंख्य राज्यक्रान्तियाँ हो चुकी हैं और सरकार ने शस्त्र-बल का आश्रय लेकर जहाँ - जहाँ उन्हें रोक दिया है, वहाँ - वहाँ लोग बगावत करने के लिए सर्वदा तैयार रहे हैं।” *

आधुनिक प्रजातन्त्र-शास्त्र का यह तात्त्विक सिद्धान्त मनरो आदि को मालूम न था, सो बात नहीं। परन्तु उन्हें डर यह था मुद्रण - स्वातन्त्र्य मिलने से कि हमारा साम्राज्य विदेशी होने के कारण, पहले ये लोग इस राज्य का ही नाश करने में जुट पड़ेंगे और बाद का अन्तर्गत सुधारों की तरफ ध्यान देंगे। परन्तु अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से जब यहाँ के पढ़े-लिखे लोगों को यह ज्ञान हुआ कि हम तो अपने देश की शासन-व्यवस्था करने के विल्कुल अयोग्य हैं, तब तो मेटकाफ का मत ही अधिक ठीक साबित हो गया। अंग्रेजी ज्ञान और विद्या के प्रचार ने जो पहला काम किया उसका विचार यदि केवल राष्ट्रियता की दृष्टि से किया जाय तो सब लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वह कुछ समय के लिए तो राष्ट्रीयता का मारक ही सिद्ध हो गया था। महाराष्ट्र के इतिहासकार्य श्री० राजवाड़े ने राष्ट्रीयता की एक बढ़िया व्याख्या की है—

“जिस समाज के बहुमत व्यक्तियों में यह भावना पैदा हो गयी कि अपने देश की सारी व्यवस्था, खास करके शासन-व्यवस्था, हम खुद करेंगे और उसके लिए जिस समाज के लोग प्राण अर्पण करने को तैयार हो गये हों, उस समाज को राष्ट्र कहना चाहिये। जबतक यह भावना समाज में पैदा न हुई हो तबतक उसे ‘लोक’ कहना होगा। उस ‘लोक’ में भले ही एक देश, एक भाषा, एक आचार-विचार, एक वंश, एक धर्म और एक कानून हो—इतने सब समान बन्धन विद्यमान हों तो

* Indian Speeches and Documents on British Rule, P. 21 by J. K. Majumdar.

भी यदि उनमें अपना शासन - भार खुद उठाने की अर्थात् स्वराज्य-संचालन करने की उत्कट इच्छा नहीं है तो उस 'लोक' को 'राष्ट्र' नहीं कह सकते ।”

अंग्रेजी शिक्षा के संस्कारों से और अंग्रेजी शासकों के प्रोत्साहन से जो सर्वांगीण सुधारक वर्ग उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में यहाँ पैदा हुआ, उसने चाहे धार्मिक और सामाजिक विषयों में अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये हों परन्तु यह भावना कि हम अपने देश का शासन करने के अयोग्य हैं, दूर न करके उल्टे अधिक ही फैलायी । इससे मनरो का यह सिद्धान्त कि स्वतन्त्र पत्रकार का पहला कर्त्तव्य है अपनी मातृ-भूमि को राजनैतिक दासता से मुक्त करना, निर्मूल सिद्ध हुआ और इसीलिए इस पाठ और उपदेश से ऊत्रकर १८वीं सदी के चौथे चरण में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने जोर की आवाज उठायी — “हमारे देश की प्रकृति में अभी कोई कहने लायक खराबी नहीं हुई है, उसकी नाड़ी साफ चल रही है ।” ऐसा कहकर उन्होंने लोगों के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जाग्रत करना शुरू किया । इसी पर से यह चर्चा हुई कि पहले राजनैतिक सुधार हो, या सामाजिक सुधार और यह कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय दलवालों को सामाजिक सुधार प्रिय नहीं हैं । इसके लिए उचित कारण भी थे ।

फिर भी निष्पक्ष दृष्टि से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के राष्ट्रीय पक्ष ने सामाजिक सुधारों का विरोध करने में अतिरेक से काम लिया तथापि लोकमान्य तिलक ने अपने जीवन के अन्तिम समय में राष्ट्रीय पक्ष की जो सामाजिक नीति निश्चत की थी वह अब भी माननीय ही मालूम होती है । एक जगह उन्होंने कहा है—“स्वाभिमान, उत्साह, स्वराज्य-निष्ठा—यही राष्ट्र के सच्चे प्राण हैं । और यह सजीवता जहाँ होगी तहाँ, सुई के पीछे धागे की तरह, सामाजिक सुधार भी अपने-आप आते चले जायँगे । इतिहास इसका सच्ची है । इसीलिए राष्ट्रीय पक्ष राजनैतिक आन्दोलन को जितना महत्त्व देता है उतना सामाजिक आन्दोलन को नहीं ! उसका यह कहना नहीं है कि राष्ट्र की सामाजिक प्रगति न होनी चाहिए बल्कि यह कि वह राजनैतिक प्रगति और स्वाभिमान के साथ-साथ होनी चाहिए । राष्ट्रीय पक्ष का सिद्धान्त यह है कि यदि

हम ढीला-ढाला विरोध करते हुए राजनैतिक परतंत्रता को मंजूर करते रहेंगे तो सजीव सुधार हरगिज न हों सकेंगे।”*

खैर ; किसने क्या किया होता तो क्या हुआ होता—इस बात को छोड़ दें तो अंग्रेजी पढे-लिखे लोग १८वीं सदी के पूर्वार्द्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रामाणिक प्रचारक बन गये और राजनैतिक स्वातन्त्र्य का प्रश्न अति भविष्य काल पर छोड़ सामाजिक और धार्मिक सुधार का बीड़ा उठाकर राष्ट्रनिर्माण के कामों में प्रवृत्त हुए; परन्तु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। भारतीय राष्ट्र-संस्कृति विश्व-संस्कृति के मुकाबले में दो-तीन सदी पिछड़ गयी थी और उस समय के शिक्षित मध्यमवर्ग को यह खयाल हुआ कि हमें इस अन्तर को मिटा देने का यह अच्छा अवसर मिल गया है। १६वीं सदी से यूरोप में जो-जो नवीन राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक विचार पैदा हुए वे सब अंग्रेजों के राज्य के साथ ही यहाँ आये। इन सुशिक्षित लोगों ने ईमानदारी से यह महसूस किया कि इन्हें आत्मसात् किये वगैरे संसार में हम एक स्वतन्त्र राष्ट्र की हैसियत से खड़े नहीं रह सकते और इसीलिए वे इनमें जुट पड़े। उस समय उन्हें यह ठीक-ठीक खयाल न हुआ कि अंग्रेज लोग विदेशी हैं और उनके राज्य से हमें कितनी आर्थिक हानि होगी। उन्हें यह तो स्पष्ट दिखाई देता था कि हमारे देश के सरदार, जागीरदार और विद्वानों में खपने-वाले शास्त्री-पण्डित राष्ट्र का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं; परन्तु ऐसा आत्म-विश्वास उनमें नहीं था, जिससे वे खुद राजनैतिक मैदान में कूद पड़ते और जनता को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का मार्ग दिखा देते, और इसके अभाव में राजनैतिक क्षेत्र के लिए आवश्यक त्याग भी उनसे नहीं हो सकता था। उसी प्रकार यह अनुभव भी इन लोगों को हो रहा था कि अंग्रेजी लिख-पढ़ गये, या थोड़ा-बहुत व्यापार करने लगे तो अंग्रेजी सरकार में नौकरी और अंग्रेज व्यापारियों की दलाली मिल जाती है जिससे धन भी कमा सकते हैं। इन लोगों के मन में यह आशा उत्पन्न हो गयी थी कि अब हमारे देश में सामन्तशाही-युग समाप्त होकर जो व्यापारी-मध्यम-वर्ग का युग शुरू हुआ है उससे हमारे देश में ज्ञान और

धन दोनों की वृद्धि होगी और इंग्लैण्ड की तरह यहाँ भी सब तरह के सुधार हो जायँगे एवं इसी के बल पर अङ्गरेज राजनीतिज्ञों को अपने साम्राज्य को बल मिलने की आशा हो रही थी। पेशवाई के डूबने के बाद बंगाल में ऐसा वर्ग तैयार हो रहा था। मनरो-एल्फिन्स्टन ने इस वर्ग को धीरे-धीरे शासन-कार्य में जोतने की नीति स्वीकार की थी और आँख खोलकर की थी। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि आज हमने इन्हें छोटे अधिकार के पद दिये तो कल ये सारे शासनाधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे; परन्तु वे यह भी जानते थे कि हमारे साम्राज्य को स्थिर करने का दूसरा कोई कारगर उपाय नहीं, और इसीलिए वे इस नीति का विरोध करनेवाले अपने देश-बन्धुओं के आक्षेपों को बहुत महत्त्व नहीं देते थे। १८२४ में एल्फिन्स्टन ने कोर्ट आफ डाइरेक्टर को एक शिक्षण-विषयक वक्तव्य भेजा था। उसमें वह कहता है—

“यह आपत्ति उठाई जायगी कि यदि हमने यहाँ के लोगों को शिक्षा देकर अपने बराबर का दर्जा दे दिया और शासन-कार्य में भी उन्हें हिस्सा देते चले गये तो वे उन पदों पर ही सन्तुष्ट नहीं रह सकेंगे जो हम उन्हें देंगे; बल्कि वे सारे शासन पर अपना अधिकार साबित किये बिना खामोश न बैठे रहेंगे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसा डर रखने के कई कारण हैं। परन्तु दूसरी किसी नीति द्वारा हम अधिक स्थायी बन सकेंगे—ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। यदि हमने देशी लोगों को नीचे ही दबा रखा तो उनके प्रतिकार से ही हमारा राज्य उथल-पुथल हो जायगा और यह संकट पूर्वोक्त संकट की अपेक्षा अधिक भयङ्कर और अधिक अकीर्तिकर होगा। इस खींचा-तानी में हमें सफलता मिल भी गयी तो हमारे साम्राज्य के लोगों से एकरस न होने के कारण विदेशी आक्रमण से अथवा हमारे ही वंशजों की बगावत से उसके उखड़ पड़ने की सम्भावना है। हमारी कीर्ति और हित दोनों दृष्टियों से एवं मानव जाति के कल्याण की दृष्टि से भी विचार किया जाय, तो जिन लोगों के हित के लिए इस सत्ता की धरोहर ईश्वर ने हमें दी है उन्हीं के हाथों में उसे वापस सौंप दें, यही बेहतर है बनिस्वत इसके कि उसे विदेशी हमसे छीन लें या हमारे ही

कुछ मुट्टी भर उपनिवेशवासी जन्म-सिद्ध अधिकार कहकर अपने हाथ में ले लें।”*

मुद्रण - स्वातन्त्र्य और अधिकार के पद की तरह पश्चिमी शिक्षा का प्रवेश करते समय भी इस प्रकार की चर्चा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने की है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने से आगे जाकर हमारा राज्य नष्ट हो गया तो भी आज तो उसी के द्वारा हमारे साम्राज्य को बल मिलनेवाला है और आगे जब कभी हमारा साम्राज्य नष्ट होगा तब कम-से-कम हमारा व्यापार तो कायम रहेगा और इस देश में बसनेवाले हमारे देश-वन्दु तो मुग्धित रहेंगे—इस बात को सोच-समझकर और सारे प्राणियों का खयाल करके ही उन्होंने पूर्वोक्त नीति निश्चित की थी। उस समय अंग्रेज राजनीतिज्ञों का यह अनुमान था कि सामान्तशाही-युग से निकलकर हाल में ही भारतीय राष्ट्र के लोक-सत्तात्मक राष्ट्र बनने में और हमारे उपदेश से निर्मित सर्वाङ्गीण सुधार-वर्ग के राजनैतिक आन्दोलन में पड़ने में १००-१५० साल लग जायेंगे। इतना समय बीतने पर यदि हमारी इस नीति के फल-स्वरूप साम्राज्य पर आन्तर्गिक संकट आया भी तो उस समय उन्हें व्यवहार्य राजनीति की दृष्टि से उसका विचार करने की जरूरत नहीं थी। तत्कालीन परिणाम की दृष्टि से देश-लोगों को सुशिक्षित बनाना, उन्हें अधिकार के पद देकर शासन-कार्य में अधिकाधिक सहायता उनसे लेते जाना और मुद्रण-स्वातन्त्र्य देकर उनका उपयोग सामाजिक और धार्मिक सुधारों में करने का प्रोत्साहन देना, यही नीति सबसे अधिक हितकर है। ऐसा एल्फिन्स्टन, मनरो, माल्कम के काल में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का मत था और वैटिक तथा मेटकाफ आदि गवर्नर-जनरलों के शासन-काल में इसका खुलकर श्रीगणेश किया गया। तत्कालीन शिक्षित भारतवासियों को यह नीति आकर्षक मालूम हुई और इस कारण वे ब्रिटिश साम्राज्य के चाहक और पृष्ठ-पोषक बन गये। जो जो राजा-नवाब, सरदार और जागीरदार अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार करके पारतन्त्र्य में सुख अनुभव करते थे उनके साथ भी प्रेम और आदर का व्यवहार रखना यह एल्फिन्स्टन व माल्कम की नीति थी। इस कारण

अपने स्वतन्त्रता - हरण से असन्तुष्ट होते हुए भी इन लोगों के स्वतन्त्रता के लिए बगावत कर बैठने की आशङ्का न थी । मतलब यह कि उनके प्रति व्यवहार की ऐसी नीति अंग्रेजों ने अख्तियार की थी जिससे हिन्दुस्तानी फौज यदि बगावत भी कर बैठे तो सामान्य जनता अथवा राजा - सरदार उसका नेतृत्व न करें, बल्कि उलटा उसे दबाने में उनकी सहायता करें । इसमें उन्होंने तत्कालीन लोगों की धर्म - भावनाओं का भी खूब विचार कर लिया था और इस बात का पूरा ध्यान रक्खा था कि लोगों के धार्मिक भावों को आघात न पहुँचाया जाय । इस सारी नीति का लाभ उन्हें १८५७ के सैनिक - विद्रोह के समय मिला ।

१८५७ के गदर के बाद ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह विचार कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से राज - सत्ता ले ली जाय । तब कम्पनी ने ऐसा न करने के लिए एक आवेदन - पत्र ब्रिटिश राजा की सेवा में भेजा था । उसमें कम्पनी की तरफ से कहा गया है—

“हमारा धर्म खतरे में है’ ऐसे निराधार भय से जो गदर हुआ, ऐसा कहते हैं, उसमें राजा - सरदारों ने हमारी सहायता करने के बजाय यदि उनका नेतृत्व ग्रहण किया होता या सामान्य जनता उसमें शरीक हुई होती तो उसका दूसरा ही परिणाम निकला होता । उसी प्रकार यदि इस सन्देह के लिए भी कि धर्म - परिवर्तन के आचोताव में ब्रिटिश सरकार का हाथ है, कुछ गुञ्जायश होती तो ये दोनों बातें कितनी सम्भवनीय होतीं, यह बताने की जरूरत नहीं है ।”*

इस गदर के समय कलकत्ते में एक ‘संवाद भास्कर’ नामक प्रसिद्ध अखबार निकलता था । उसने गदर के समय में लोगों से सरकार की सहायता करने की जोरदार अपील की थी—

“जो सैनिक राज्य की रक्षा करते थे उन्होंने उसके खिलाफ हथियार उठाये हैं । इसलिए सरकार अपने मित्रों से धन - जन की सहायता चाहती है । सारे राज - भक्त प्रजाजन को इसका अच्छा उत्तर देना चाहिए । यदि बाहर के धनी - मानी लोगों ने राजधानी की रक्षा की जिम्मेदारी अपने पर ले ली तो गवर्नर - जनरल की चिन्ता कम होगी । यदि यह

आपत्ति इतनी गम्भीर न होती तो सिंधिया और पटियाला नरेश ने अपनी सेना सरकार की सहायता के लिए न भेजी होती। ब्रिटिश सरकार के शासन में हमें प्रायः पूर्ण स्वातन्त्र्य प्राप्त है। मुसलमानों के शासन - काल में इतनी सुरक्षितता थी क्या ? अंग्रेजों ने हमें ज्ञान - दान दिया है और हमारे लिए सुख - सुरक्षितता से जीवित रहना संभव बनाया है। यह रामराज्य से कम नहीं है। इसलिए लोगों को इस समय सरकार की हर तरह सहायता करनी चाहिए।”

पेशवाई के अन्त से १८५७ के गदर तक ४० साल में हिन्दुस्तानियों की कैसी स्थिति थी, इसका वर्णन स्व० राजवाड़े इस प्रकार करते हैं—

“इस अवधि में तंजौर, सतारा, इंदौर, धार, ग्वालियर, बड़ौदा, पूना, कोल्हापुर, नागपुर, बुन्देलखण्ड आदि रियासतों में बड़ी - बड़ी क्रान्तियाँ हो गयीं, कितनी रियासतें बिल्कुल तहस - नहस हो गयीं, कितनों का आजादी कम हो गयी और कितनी ही केवल जमींदारी की हालत को पहुँच गयीं। लड़वैये घर बैठ गये, जनता निःशस्त्र हो गयी, कारकुनों और मुन्शियों का पेशा डूब गया, व्यापारियों का व्यापार चौपट होने लगा, कारीगरों का रोजगार बैठने लगा, सोना पश्चिम की तरफ बहने लगा, खेती पर लोगों की गुजर - बसर का कटिन अवसर आया, पंडे - पुजारियों की वृत्तियाँ बन्द हुईं, शास्त्री - पण्डित निराश्रय हो गये, मतलब कि अब लोगों में गोलमाल हो गया। परन्तु इस अमर्याद क्रान्ति का परीक्षण करके इसे रोकने की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तत्कालीन समाज का चरित्र, समाज के घटना - चक्र का कार्य - कारण - सम्बन्ध, अथवा समाज का शास्त्र, और समाज का तत्त्वज्ञान—इनमें से किसी का भी पता इन चालीस सालों में न था। जो विचारशील और तत्व - जिज्ञासु थे, वे एकदेशीय साधु - संत और विरक्त थे। वे सन्यास और योग - साधना में मर्क थे और जो दुनियादार अथवा संसार - व्यवहारी राजा - नवाब, सरदार - जागीरदार, व्यापारी, कारीगर, मुत्सदी, कारकुन थे, वे इन घटना - चक्रोंका अर्थ ही न समझ पाये और मोहान्ध होकर किसी तरह संसार और समाज का गाड़ी खींच रहे थे। ‘विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः’। हम कर क्या रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं— इसे समझने की जरूरत जिन्हें नहीं मालूम

हुई, उन मोहान्ध लोगों को क्या तो राष्ट्र की और क्या लोक-व्यवहार और इतिहास की परवाह !!

इस स्थिति का अन्त १८५७ के ज्वालामुखी सदृश विस्फोट से हुआ। यह विस्फोट संन्यासी, तत्त्वज्ञानी और अविचारी हिन्दू-मुसलमान नेताओं ने बंगाल के सैनिकों की सहायता से किया। काल्पनिक तत्त्वज्ञान का और सुयंत्रित शासन का यह भगड़ा था। पहले के पृष्ठपोषक हिन्दू-मुसलमान नेता थे और दूसरे के पाश्चात्य थे। इसमें सुयंत्रित शासन की विजय हुई। इधर यह तूफान उठ खड़ा हुआ; उधर उत्तर-हिन्दुस्तान, पंजाब, और कर्नाटक के राजे-रजवाड़े, महाजन और साधारण जनता कुछ समय तक तो शंकित रहकर तटस्थ रहे, पर अन्त को विजेता पक्ष में शामिल हो गये। हलके दर्जे के, कुलहीन और ऐरे-गैरे छोटे-बड़े शिक्षित और अल्प-शिक्षित परराज्य-सेवकों का जो नवीन वर्ग बना था, अथवा सच पूछो तो बनाया गया था, वह विजयी होनेवाले और विजयी हुए सुयंत्रित-पक्ष की ओर पहले से ही था। उसकी शिक्षा में स्वराष्ट्र, समाज जैसे शब्द ही नहीं थे। बंगाल, राजपूताना और महाराष्ट्र प्रान्तों के कितने ही बड़े नौकर लोग कहते हैं कि १८५७ के इस तूफान का मर्म समझने की क्षमता ही हममें नहीं थी, फिर स्वपक्ष और पर-पक्ष में आने-जाने की तो बात ही दूर रही। प्राचीनता के अभिमान और स्मरण से पैदा होनेवाला सहज जोश भी इन कुलहीन, राष्ट्रहीन व समाजहीन लोगों में नहीं था।

१८५७ के गदर में ब्रिटिश-सत्ता पर ऐसा मर्माघात होते हुए भी उसका लाभ उठाकर स्वतंत्र राष्ट्र-निर्माण करने का सामर्थ्य और ज्ञान हिन्दुस्तान में किसी के पास नहीं था— यह साबित हो जाने पर भारतीयों में राष्ट्रीयत्व के अभाव का दूसरा प्रमाण और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की नीति की सफलता की दूसरी गवाही देने की आवश्यकता नहीं है। इस आपत्ति से ब्रिटिश राज्य कैसे बच गया इसकी मीमांसा सर जॉन सीली ने इस प्रकार की है—

“एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को लड़ाकर ही बहुतांश में यह गदर मिटाया गया है, जबतक ऐसा किया जा सकता है और जबतक-

यहाँ के लोग सरकार की आलोचना करने और उसके खिलाफ बग़ावत करने के आदी नहीं हो जाते तबतक इंग्लैण्ड में बैठकर हिन्दुस्तान में हुकूमत की जाती है और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है। परन्तु यदि—यह हालत बदल गयी और किसी भी तरह लोगों में समरसता पैदा होकर एक राष्ट्र बन गया और यदि हिन्दुस्तान और हमारा सम्बन्ध थोड़ा भी आस्ट्रिया या इटली की तरह बन गया, तो मैं इतना ही नहीं कहता कि हमारा प्रभुत्व नवतरे में है बल्कि उसके आगे हमें अपने प्रभुत्व के कायम रहने की आशा भी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए।”*

अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने १८५७-५८ में यह साबित ही कर दिया कि जबतक हिन्दुस्तान में एकता कायम नहीं होती तबतक महज गदर से हमारा साम्राज्य नष्ट नहीं हो सकता। अब इस बात का विचार करना चाहिये कि भारतीय नेताओं ने एक राष्ट्रियता निर्माण करने के क्या-क्या प्रयत्न किये। ऐसे पहले प्रयत्न का जन्म राजा राममोहन राय की सर्वांगीण सुधारवाद प्रणाली से हुआ और उसी को स्व० रानाडे ने नरम प्रागतिक राजनीति का रूप १९वीं सदी में दिया।

: ३ :

२१०१

सर्वांगीण सुधार की आधुनिक ज्ञान - ज्योति

“जो बात व्यक्ति की, वही देश की। वास्तविक उन्नति के लिए पहले उन्नत धर्म का प्रचार होना चाहिये। राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए चाहे राष्ट्रीय सभा (कांग्रेस) कीजिये, चाहे प्रान्तिक सभा; अथवा सामाजिक सुधार करने के लिए सामाजिक परिषद् कीजिये; परन्तु जबतक धर्म - जागृति नहीं हुई है, तबतक देश को इसमें वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती। सबसे पहले आत्मा की उन्नति होनी चाहिए।”†

“इस युग के प्रारंभ में पश्चिमी शिक्षण से नास्तिकता और पाखंड-वाद की ऐसी जबरदस्त लहर उठी थी। कि उसने जैसा कि कितने ही

* The Expansion of England by Seely, Page 233.

† स्व० डा० भण्डारकर - ‘यांचे धर्म पर लेख व व्याख्यान’, पृ० ३४२-४३

लोग कहते हैं, शीघ्र ही सारे देश में फैलकर हिन्दू-धर्म को जड़ से उखाड़ फेंक दिया होता। परन्तु ईश्वर की अभिनय नियति के कारण उस समय राजा राममोहन राय के रूप में एक अलौकिक पुरुष पैदा हुआ और उसने 'एकेश्वरी पन्थ' की एक नवीन लहर पैदा की जिससे यह भावी आपत्ति टल गयी।”

इधर महाराष्ट्र में मराठी साम्राज्य के रसातल में पहुँचने और अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के रूप में राज्यक्रान्ति हो रही थी, उधर उन्हीं दिनों बंगाल में राजा राममोहन राय के नेतृत्व में पच्छिमी ज्ञान से नवीन दृष्टि-प्राप्त बंगाली हिन्दू अपने धार्मिक आचार-विचार में क्रान्ति करके आधुनिक भारत के निर्माण का यत्न कर रहे थे। वे भारतीय समाज में एक सर्वांगीण क्रान्ति करना चाहते थे और उसके लिये हमारे धार्मिक आचार-विचार में पहले क्रान्ति होनी चाहिए, यह उनका दृढ़ विश्वास था। पहला धार्मिक सुधार, दूसरा सामाजिक सुधार और फिर तीसरा राजनैतिक सुधार—यह क्रम उन्होंने अपने मन में निश्चित कर रक्खा था। इसका अर्थ यह न लगाना चाहिए कि धर्म-सुधार के अन्तिम शिखर तक पहुँचने के बाद समाज-सुधार का श्रीगणेश किया जाय और उसके शिखर तक पहुँचकर राजनैतिक सुधार की पहली सीढ़ी पर कदम रक्खा जाय। सर्वांगीण सुधार के विरोधी आलोचक उनके भाषणों और कृतियों का ऐसा अर्थ करते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है। धर्म समाज का हृदय है और यदि समाज के सत्र व्यवहारों में सुधार, परिवर्तन अथवा क्रान्ति करनी है तो पहले उसके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए—अथवा डाक्टर भण्डारकर के शब्दों में “पहले आत्मा की ही उन्नति होनी चाहिये” ऐसा राजा राममोहन प्रभृति सर्वांगीण सुधारकों का मत था। उनकी राजकीय नीति के संबंध में किसी का कितना ही मतभेद हो, अथवा उनके प्रतिपादित धार्मिक या सामाजिक सुधार-विशेष का कोई कितना ही तीव्र विरोध करता हो, तो भी इस विवाद में अधिक मतभेद नहीं हो सकता कि यदि किसी समाज में सर्वांगीण सुधार, परिवर्तन अथवा क्रान्ति करनी हो तो सबसे पहले उसकी आत्मा की उन्नति होनी

चाहिए, उसका हृदय-परिवर्तन होना चाहिए, अथवा उसके धार्मिक विचार, भावना और आचार-व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, खासकर उस समाज के सर्वांगीण सुधार पर तो यह न्याय और भी अधिक लागू पड़ता है जिसके सब व्यवहारों पर धर्म का नियंत्रण रहता है। प्राचीन समय में और मध्ययुग में यूरोपीय और भारतीय दोनों समाजों के सब व्यवहारों पर धर्म की सत्ता चलती थी। धर्म की इस सर्वव्यापिनी सत्ता को नष्ट करके राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवहार के स्वतन्त्र शास्त्र-निर्माण करना और धर्म के पास सिर्फ अन्तरंग सुधार का अथवा आत्मिक उन्नति का काम रखना आधुनिक यूरोपीय संस्कृति का एक लक्षण है। आधुनिक यूरोपीय सुधार में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक व्यवहारों से धर्म का कुछ वास्ता नहीं रहा है; यही नहीं, बल्कि यह भी प्रतिपादन किया जाता है कि नीतिशास्त्र का भी धर्म या आत्मा से कुछ संबंध नहीं है। यही विचारसरणि आज हमारे देश में प्रचलित होना चाहती है। परन्तु राजा राममोहन राय के समय हिन्दू-समाज की ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय का हिन्दू-समाज मध्ययुगीन यूरोपीय-समाज के जैसा था। उसके मन में ये स्पष्ट कल्पनाएँ नहीं थीं कि राज्य-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र, आदि शास्त्र, धर्म-शास्त्र से पृथक् हो सकते हैं। उसके सब व्यवहारों पर धर्म की सत्ता पूरी-पूरी नहीं तो भी तत्त्वतः जरूर चल रही थी। निदान भारतीय समाज की यह मान्यता और श्रद्धा थी कि ऐसा होना ही साहजिक व इष्ट है। इस अवस्था में जो समाज हो उसके सर्वांगीण सुधार में लगनेवाले का पहले धार्मिक सुधार में प्रवृत्त होना विल्कुल स्वाभाविक है। राजनैतिक परतन्त्रता के जबड़े में फँसे राष्ट्र के लिए पहले सर्वांगीण सुधार करना ठीक है या राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थापना करके फिर इस महत्कार्य में पड़ना उचित है, इसमें मतभेद हो सकता है। परन्तु यदि हम इस बात को मानकर ही चलें कि सर्वांगीण सुधार हुए बगैर हम अथवा हमारा राष्ट्र स्वतंत्रतापूर्वक रह ही नहीं सकता तब मध्ययुगीन अवस्था के धर्माधिष्ठित समाज का सर्वांगीण सुधार चाहनेवालों के लिए उसके धार्मिक आचार-विचार-भावनाओं के सुधार को प्रथम स्थान देना विल्कुल स्वाभाविक है। राजा राममोहन राय द्वारा बंगाल में स्थापित ब्रह्म-समाज

की महाराष्ट्रीय शाखा 'प्रार्थना - समाज' के एक अध्वर्यु स्वर्गीय डा० भंडारकर का जो अवतरण इस प्रकरण के शुरु में दिया गया है, उसमें यही दृष्टि - कोण है ।

इसी के नीचे एक और उद्धरण 'नवयुग - धर्म' के लेखक श्री फडके का दिया गया है । श्री फडके उन लोगों में से हैं जिन्हें ब्रह्म - समाज का धार्मिक और सामाजिक - सुधार अधिकांश में मान्य नहीं है और न राजा राम मोहन राय की विभूतिमत्ता के प्रति ही जिन्हें अकारण आदर हो सकता है । उनके जैसे लोग राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित एकेश्वरी ब्रह्म - समाज को किस दृष्टि से देखते हैं और उनके कार्य को कितना महत्त्व देते हैं, यह दिखलाने के लिए ही उनके वचन उद्धृत किये गये हैं । राजा राममोहन राय के कुछ धार्मिक विचार मान्य न हों तो भी उन्होंने धार्मिक - सुधार की जो एक जबरदस्त लहर १९वीं सदी के प्रारंभ में पैदा की उसके कारण पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान के संस्कारों से ईसाई - धर्मी शासकों के प्रति होनेवाले कुतूहल और आदर के कारण ईसाई - धर्म की दीक्षा लेने से मिलनेवाले मौलिक लाभों के लोभ से, जबरदस्तों के सामने सिर झुकाने की हीन मनोवृत्ति के कारण, (ईसाई - धर्म - प्रचारकों के दिखाये हमारे धर्म के मिथ्या - दावों के कारण,) और आधुनिकता का प्रकाश बहुत वर्षों से न मिलने के कारण हिन्दू - धर्म को जो हीन व अवनत स्वरूप प्राप्त हुआ, उससे, हिन्दू - शिक्षित लोगों का जो झुकाव ईसाई - धर्म ग्रहण करने की ओर हो रहा था, वह रुक गया और उन्हें यह निश्चय हो गया कि भारतीय राष्ट्र के सर्वांगीण सुधार के लिए उसे ईसाई - धर्म की दीक्षा देने की आवश्यकत नहीं, बल्कि ऐसा करना सुधार का वास्तविक उपाय नहीं है ।

अंग्रेजों ने जब हिन्दुस्तान में राज्यस्थापना की, तब उन्होंने अपनी यह शासन - नीति रखी थी कि हिन्दुओं के धर्म में हस्तक्षेप न किया जाय तथापि उनका उस समय यह दृढ़ विश्वास था कि जबतक कोई राष्ट्र या समाज ईसाई - धर्म का अनुयायी नहीं हो जाता तबतक उसे ऐहिक अभ्युदय और पारमार्थिक सद्गति नहीं मिल सकती । यह मत ईसाई - पादरियों का ही नहीं, यहाँ आनेवाले अंग्रेज अधिकारी और व्यापारियों का भी था । फर्क इतना ही था कि राजकाजी लोग अपने इस विश्वास के

लिए भारतीय जनता में सद्धर्म का प्रचार करके अपने राज्य और व्यापार को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते थे। इस कारण ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारी पादरियों के धर्म-प्रचार-संबंधी उत्साह को एक मर्यादा में रखने का कोशिश करते रहते थे। अंग्रेज राजकाजियों में, जिन्हें भारतीय संस्कृति के प्रति आदर या उमका ज्ञान न था, वे जिस तरह यह चाहते थे कि हिन्दुस्तानी ईसाई धर्म ग्रहण कर लें, उसी तरह जिन अंग्रेज राजकाजियों को या विद्वानों को भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान और उसके प्रति आदर था, एवं जो यह चाहते थे कि भारतीय समाज सुधार में आगे बढ़े तथा अन्त को जाकर स्वतन्त्रता भी प्राप्त करले, उन्हें भी यह आशा थी कि हिन्दुस्तानी आज या कल ईसाई धर्म को अवश्य ग्रहण कर लेंगे। अलदत्ते ये लोग, धर्म-प्रचार के लिए पादरी जिन साधनों का उपयोग करते थे, परिणाम की दृष्टि से उनका निषेध करते थे और यह स्पष्ट रूप से कहते थे कि सरकार-द्वारा होने वाले लोक-शिक्षण के प्रयत्नों में धर्म-प्रचार का प्रत्यक्ष मिश्रण न किया जाय।

फ्रेडरिक जॉन शोअर नायक अंग्रेज अधिकारी ने सन् १८३७ में एक पुस्तक लिखी थी—'Notes on Indian Affairs'। यह ब्रिटिश राज्य के दोषों और तत्कालीन भारतीय संस्कृति के गुणों का ध्यान में रखकर लिखी गई थी। ब्रिटिश शासन-पद्धति के घोर आर्थिक परिणाम, लोगों पर होनेवाले अन्याय, जबरदस्त कर और लोगों को विश्वास में न लेकर, बल्कि उन्हें तुच्छ समझकर चलाई हुई शासन-पद्धति के बदौलत तत्कालीन जनता के मन में उत्पन्न असंतोष और तिरस्कार का बहुत अच्छा वर्णन उसमें किया गया है। ऐसे सहानुभूति-पूर्ण लेखक को भी यह विश्वास होता था कि हिन्दू जनता धीरे-धीरे ईसाई बन जायगी। यह कैसे होगा, इसके संबंध में उसके विचार इस प्रकार के थे :

“मानवी प्रयत्नों में ये ये साधन मुख्यतः फलदायी हो सकते हैं—
 (१) हमें अपने उदाहरण से लोगों को यह दिखला देना चाहिए कि हम जिस धर्म का प्रचार करते हैं उसपर हमारी सच्ची श्रद्धा है और हमारा आचरण भी उसी के अनुसार है (२) नवीन पीढ़ी में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए (३) एक वर्ग ऐसा तैयार करना चाहिए जिसमें

धर्मान्तरित लोगों का समावेश किया जा सके और उनका जाति से बहिष्कार न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यदि इन उपायों से काम लिया गया तो थोड़े ही समय में बहुत सफलता मिल सकती है। धर्म और जाति - सम्बन्धी बहुत से पुराने अन्धविश्वास अब कमजोर हो गये हैं, उनमें जिज्ञासा बढ़ रही है और जो लोग अँग्रेजी से दूर-दूर भागते थे, यहाँ तक कि किसान लोग भी, पादरियों के पास आने लगे हैं और ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं कि सचमुच हमारा कोई धर्म है भी, और यदि है तो उसमें क्या-क्या बातें हैं? उसमें शिक्षा का तथा नवीन विचारों का खूब प्रचार होने के बाद उन्हें अपनी मूर्ति-पूजा की पद्धति का दोष दिखाई देने लगेगा। आज भी उन्हें इतना तो महसूस होने लगा है कि इस धर्म से उनके अन्तःकरण को शांति और समाधान नहीं मिलता। हिंदुओं में यदि कोई राजा अथवा प्रभावशाली पुरुष कान्स्टेनान की तरह (धर्म - प्रचार करने के लिए) कमरबस्ता हो जाय तो उसका अनुकरण करके जनता सामुदायिक धर्मान्तर के लिए तैयार हो जायगी। जबतक ऐसा न हो तबतक अकेले धर्माधिकारियों या पादरियों को चाहिए कि वे बलिस्मा देकर धर्मान्तर करने की विशेष उत्कण्ठता न दिखावें।” *

इसी लेखक ने अँगरेजी सेना के दो ब्राह्मण सिपाहियों का एक संवाद दिया है जो उस समय का है जबकि काशी में हिन्दू - मुसलमानों का दंगा हुआ और मंदिरों में गाय का खून तथा मसजिदों में सूअर का मांस डाला गया था। एक कहता है—“देखोजी, जो बात अबतक सपने में नहीं हुई, वही सामने दिखाई देती है। शंकर के हाथ का त्रिशूल नष्ट-भ्रष्ट हो गया है और थोड़े ही दिनों में हम सब एक जाति के हो जायेंगे। यदि ऐसा हुआ तो हमारा धर्म क्या होगा?” दूसरा जवाब देता है—“मैं समझता हूँ वह ईसाई धर्म होगा।” तत्रपहला समर्थन करता है—“मैं भी ऐसा ही समझता हूँ क्योंकि अभी जो काण्ड हुए उन्हें देखकर तो हम मुसलमान हरगिज न बनेंगे।” इस संवाद के आधार पर इस लेखक का कहना है कि इस देश में ऐसे खयालात फैल रहे हैं कि सब हिन्दू

ईसाई हो जायेंगे। तात्पर्य यह कि यह कहना यदि सही हो कि अंग्रेज शासकों ने इस देश में सर्वांगीण सुधारों की आकांक्षा जाग्रत की तो उसके साथ यह भी सच है कि उसके फल-स्वरूप उन्हें अपने साम्राज्य को कुछ समय के लिए बल मिलने और जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र होगा तब अपना व्यापार कायम रहने और सब हिन्दुओं को ईसाई बनाने की आशा भी थी। उन्हें यह आशा नहीं थी कि यहाँ के मुसल्मान ईसाई होंगे। पूर्वोक्त लेखक मुसल्मानों के ईसाई मजहब-संबंधी 'रुख के बारे में लिखता है— 'हिन्दुओं की वनिस्वत मुसल्मान कम दुराग्रही और सहिष्णु हों, और उनके विचार अधिक उदार हों तो भी उन्हें ईसाई धर्म में दानित करना औरों की अपेक्षा कठिन होगा। इस विषय में मुसल्मानों की भावना बड़ी विचित्र है। उधर वृत्तपरस्त कहकर वे हिन्दुओं को तुच्छ मानते हैं और उधर ईसाइयों से भी नफरत करते हैं। इसलिए नहीं कि हम ईसा-मसीह को मानते हैं (क्योंकि उन्हें तो वे भी पैगम्बर मानते हैं) बल्कि इसलिए कि हम उनके पैगम्बर मुहम्मद को नहीं मानते हैं ।*

यह धर्म-संशोधन का आन्दोलन हिन्दुओं में ही चला — मुसल्मानों और पारसियों में नहीं, क्योंकि उन्हें उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज के प्रवर्तकों को यह आशा रही कि हिन्दू-धर्म-संशोधन का असर दूसरे धर्मों पर भी पड़ेगा। वस्तुतः ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज को आगे जाकर संशोधित हिन्दू धर्म का ही रूप प्राप्त हो गया।

अब हम राजा राममोहन राय के समय की परिस्थिति का उनकी दृष्टि से अधिक विचार करें। इस समय बंगाल में ईसाई-धर्म-प्रचारकों ने हिन्दू धर्म पर खुला हमला शुरू कर दिया था और छिद्रान्वेषण-बुद्धि से उसपर टीका करने का बीड़ा उठा लिया था। उनका सम्बोधन कर वे कहते हैं— "ब्रिटिश सरकार ने अपनी यह नीति जाहिर की थी कि धर्म के संबंध में तटस्थता रक्खी जायगी, अतएव अब विजेता के धर्म का खुला प्रचार करने देना और पराजित लोगों के धर्म की खुली निन्दा करने की इजाजत देना उसके विरुद्ध है। दूसरे हिन्दू व मुसल्मान धर्मों के दोष-दर्शन के ही

लिए व्याख्यान देना अथवा पत्र-पत्रिका बाँटना अनुचित है। तीसरे, भौतिक उन्नति का प्रलोभन देकर धर्मान्तर करना अश्लाघ्य है। सरकार के बंगाली प्रजाजन दुर्बल और दरिद्र हैं — अंग्रेजों का नाम सुनते ही वे भयभीत हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर राज-सत्ता की सहायता से सख्ती करना बहुत निंद्य है।” इस तरह हिन्दू धर्म पर होनेवाले पादरियों के आक्रमण का प्रतिकार करना भी राजा राममोहन राय का एक अंगीकृत कार्य था; परन्तु ब्रह्मसमाज की स्थापना करने में ईसाई धर्म का प्रतिकार करना, यह मूल प्रेरक भावना नहीं थी। हिन्दू धर्म में सुधार किया जाय, एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके यह बताया जाय कि सब धर्मों का अंतरंग एक ही है, और इस तरह संसार के धर्म-भेदों का अधकार दूर करनेवाले सार्वत्रिक विश्व-धर्म के सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैलाना उनकी एक बड़ी महत्वाकांक्षा थी।

“जिस तरह भिन्न-भिन्न शरीरस्थ जीवात्मा उन-उन शरीरों को चैतन्य देकर उसका नियमन करते हैं, उसी तरह अखिल विश्वरूप समष्टि शरीर को चैतन्य देकर उसका नियंत्रण करनेवाले एक सत्त्व की हम आराधना करते हैं। हमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे धर्म के आधुनिकों ने छोड़ दिया है तथापि वह पवित्र वेदान्त-धर्म से सम्मत है। हम सब प्रकार की मूर्ति-पूजा के विरुद्ध हैं। परमेश्वर की प्रार्थना का हमारा एक ही साधन है — भूत-दया अथवा परोपकार-भाव से परस्पर व्यवहार करना।”*

राजा राममोहन राय ने वेदान्त तथा ईसाई और इस्लाम धर्मों के तत्वों का अच्छा अध्ययन किया था। उनकी धर्म-जिज्ञासा बड़ी प्रखर थी और उनकी बुद्धि निष्पक्ष, निरहंकार और सर्व-संग्राहक थी। हिन्दू-समाज का उद्धार करने की ‘तड़प’ उन्हें उपनिषदों के वेदान्त से मिली थी। अंग्रेज राज-काजी उनसे ईसाई-धर्म ग्रहण करने की आशा रखते थे और पादरी उन्हें इसका खुला उपदेश भी करते थे। क्योंकि वे मानते थे कि हिन्दू लोगों के ईसाई हो जाने से अपने राजनैतिक और व्यापारिक साम्राज्य को स्थिरता मिलेगी।

वेदान्त - प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप का शुद्ध और उच्च ज्ञान लोगों

को मिले, इसलिए राजा राममोहन ने काफी प्रचार-कार्य किया। वे ईसाई मजहब की खुर्ली तारीफ करते थे, ईसा-मसीह को पूज्य मानते थे और कहते थे कि नीतितत्वों का जितना सामूहिक विवेचन ईसाई-धर्म में किया है उतना मैंने किसी धर्म में नहीं देखा। इससे ईसाई-धर्म-प्रचारकों को यह खयाल हो गया था कि वे ईसाई हो जायेंगे। वे यह तो मानते थे कि ईसा के जीवन और उपदेश का संदेश देवी है। वे उस महान् विभूति के प्रति आदर भी करते थे और समझते थे कि ईसा के चारित्र्य से मनुष्य की नैतिक उन्नति में जितनी सहायता हुई है उतनी और किसी से नहीं; परन्तु ईसाइयों का यह मत उन्हें मान्य नहीं था कि ईसा ईश्वर का प्रत्यक्ष पुत्र था। इस कारण पादरी लोग उनसे नाराज भी रहते थे।

उनका यह मत था कि हिन्दुओं का उद्धार वेदान्त के आधार पर, मुसलमानों का कुरान के सहारे और ईसाइयों का इंजील की सहायता से किया जाय। और ऐसा करते हुए प्रत्येक धर्म के शुद्ध एकेश्वरी विचारों के लोग परमेश्वर की उपासना करने या तत्वज्ञान की देन-लेन करने के लिए एकत्र हों-इसी में सारे जगत् के उद्धार का बीज उन्हें दिखाई देता था। उनका यह विश्वास था कि तलवार, बंदूक, लोभ, मोह अथवा नीति की सहायता में धर्मान्तर का आन्दोलन चलाने और दूसरे के धर्म की निंदा करके धर्म-कलह फैलाने में संसार का किसी प्रकार हित नहीं है। वे मानते थे कि नीति-प्रचार में ईसाई-धर्म आगे निकल गया है, मुसलमानों का देवता-कारण (Theology) शुद्धतम है और हिन्दुओं का वेदान्त-सिद्धान्त अत्यंत प्रगल्भ है। ब्रह्म समाज किसी भी ग्रन्थ को ईश्वर-निर्मित नहीं मानता। वह एक शुद्ध और बुद्धिगम्य एकेश्वरी पंथ है। सब धर्मों का संशोधन करके उन्हें एकेश्वरी रूप देना और सब तरह की मूर्ति-पूजा नष्ट करना उनका श्येय था। फिर भी उनका यह मत था कि प्रत्येक धर्म का संशोधन उसी परम्परा के लोगों को करना चाहिए। इसलिए वे अपने को 'एकेश्वरी हिन्दू' (Hindu Unitarian) कहा करते थे।

राजा राममोहन राय के धार्मिक सुधार की नीति दो प्रकार की थी एक तो वे हिन्दू समाज के ब्राह्म विधि-विधानों और कर्मदत्ता की जड़ को

खोद डालना चाहते थे, क्योंकि इन बाहरी आधारों के फेर में पड़ जाने से अन्तःकरण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति, जो धर्म का मूल उद्देश्य है, वह एक तरफ रह जाता है और धर्म को सकाम कर्म का बाजारू स्वरूप प्राप्त हो जाता है। भौतिक फल के लिए भौतिक प्रयत्न करना छोड़कर मनुष्य दैववादी, आलसी और अन्धा बन जाता है; एवं चमत्कार और अद्भुतता के चक्कर में पड़कर सृष्टि-नियमों का ज्ञान प्राप्त करने से विमुख हो जाता है। प्रत्येक धर्म-सुधारक को सकाम व्रतादि, धर्म के बाहरी क्रिया-कांड का खंडन करके धर्म का अन्तरंग लोगों के सामने रखना पड़ता है। भागवत-धर्म के सन्तों ने भी मध्ययुग में यह काम किया था; और वेदान्त के आधार पर शुद्ध परमार्थ-ज्ञान का प्रचार किया था।

राजा राममोहन राय मायावाद को मानते थे और उसका समर्थन भी करते थे; परन्तु माया को वे एक अव्यक्त परमात्मा की शक्ति मानते थे। माया को परमात्मा की शक्ति मानने से निर्गुण ब्रह्मवाद का महत्व कम हो जाता है, इसलिए शांकर-वेदान्त के साम्प्रदायिक अनुयायी उसे शक्ति नहीं कहते और न यही मानते हैं कि इस शक्ति की सहायता से परमात्मा ने जगत् निर्माण किया है। क्योंकि उनके मतानुसार जग और माया दोनों असत् अर्थात् मिथ्या हैं। इसी में निवृत्तिमार्ग का उद्गम हुआ है। राममोहन राय निवृत्ति मार्ग के अनुयायी नहीं थे और जगन्मिथ्यावाद उन्हें मान्य न था। जगन्मिथ्या अथवा इसके जैसे उपनिषद् के वचनों का अर्थ इन्होंने यह किया है कि परमात्मा के अतिरिक्त जगत् का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे वेदान्त को प्रवृत्ति-पर बनाने के पक्ष में थे और आधुनिक समय में इन्होंने निवृत्तिपरक समाज को कर्म-प्रवण बनाने का प्रथम प्रयत्न किया है। उनका यह भी मत था कि वेदान्त-ज्ञान के साथ ही हिन्दुओं में भौतिक विद्या का ज्ञान भी फैलाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने सरकार-द्वारा संस्कृत अध्ययन पर होनेवाले खर्च को कम करके पश्चिमी शिक्षा और विद्याओं के लिए खर्च करने पर जोर दिया।

इंग्लैण्ड में जवसे लार्ड वेकन ने अनुभवगम्य ज्ञान का युग शुरू किया, तबसे मनुष्य को यह विश्वास होने लगा कि हम अपने ज्ञान-बल के द्वारा

किसी पर प्रभुत्व कर सकते हैं और ज्ञान-प्राप्ति के साधन की दृष्टि से ग्रंथ प्रामाण्य की अपेक्षा अनुभव-प्रामाण्य और बुद्धि-प्रामाण्य को अधिक-प्रभुत्व मिलने लगा। वस्तुतः ग्रन्थों की उत्पत्ति भी मनुष्य के अनुभव और तर्क से होती है, परन्तु ग्रंथकार के प्रति रहनेवाले पूज्य भाव से विभूति-पूजा जन्मती और विभूति-पूजा का अन्त ग्रंथ-विशेष को परमेश्वर-निर्मित मानने की प्रवृत्ति में होता है। ऐसा होने पर ग्रंथ-प्रामाण्य का अतिरेक होता है और मनुष्य की बुद्धि अपने अनुभव से न चलकर अथवा स्वतंत्र तर्क का उपयोग न करके प्राचीन ग्रन्थों की और उनके शब्दों और वचनों की दासी बन जाती है। इस तरह अगली पीढ़ी जब पिछली पीढ़ी की दासता स्वीकार कर लेती है, तब ज्ञान की प्राप्ति रुक जाती है और मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग सिर्फ शब्दार्थ करने में ही करने लगता है। वह यह भूल ही जाता है कि अनुभव और तर्क से ही सृष्टि का ज्ञान धीरे-धीरे होता है। पेशवाई के अंतिम और ब्रिटिश राज्य की स्थापना के समय हमारे शास्त्री-परिदत्तों की यही अवस्था हो गई थी।

इस ग्रन्थ-प्रामाण्य के युग के विरुद्ध बगावत का झण्डा खड़ा करने का श्रेय हमारे यहाँ आधुनिक काल में राजा राममोहन राय को देना होगा। ब्रह्म समाज अथवा प्रार्थना समाज की स्थिति के सम्बन्ध में डा० भांडारकर कहते हैं—“प्रार्थना समाज वेद को ईश्वर-प्रणीत नहीं मानता। यही सत्य-पक्ष है। धर्म का बीज सबके अन्तःकरण में है और यह ईश्वर से मिला हुआ है। किसी के हृदय में यह प्रफुल्लित, विकसित मिलता है और ऐसी के उपदेश अथवा ग्रन्थों के द्वारा दूसरों को धर्म-संबंधी ज्ञान होता है। इस तरह ईश्वर ही अपना ज्ञान विकसित करता है और यह क्रम शुरू से अन्त तक चला आ रहा है। एक ही समय अथवा एक ही व्यक्ति को ईश्वर ने सारा धर्म-ज्ञान दे दिया— यह सम्भवनीय नहीं। क्योंकि धर्म सर्वदा विकासशील है। परमेश्वर धर्म-तत्वां का प्रचार मनुष्यों के द्वारा ही कराता है और मनुष्य की शक्ति परिमित है। उसकी दुर्बलता के कारण सत्य बहुत बार एक तरफ रह जाता है और असत्य की तरफ वह झुकने लगता है। इस कारण सभी धर्मों में सत्य है और असत्य भी है। इसलिए असत्य को छोड़कर हमारी वृत्ति हमेशा सत्य ग्रहण करने की ओर रहनी चाहिए।

वेद में प्रार्थना समाज के सत्र तत्वों का बीज मात्र है। उपनिषद् और गीता में वह विकसित हुआ है।” *

इसलिए वह सत्र धर्मों के प्रति समबुद्धि रखकर सार्वत्रिक अथवा विश्व-धर्म का विश्वास करने के पक्ष में है। हिन्दुओं के वेदान्त-सिद्धांत से उन्हें ॐ व्यापक और सहिष्णु वृत्ति मिली है; लेकिन ईसाई धर्म-प्रचारक और इस्लाम धर्मानुयायी को वह नहीं पटती है। यूरोप में यह बौद्धिक दासता वेकन के वाद नष्ट हो गई और लोग भौतिक ज्ञान में आगे बढ़ गये। इसी उद्देश्य को लेकर हमारे देश में पश्चिमी शिक्षा व ज्ञान के प्रचार के लिए अनेक उद्योग हुए। राजा राममोहन राय के सर्वांगीण सुधार का यह दूसरा अङ्ग था। उन्होंने, भिन्न-भिन्न शिक्षा-संस्थाओं के द्वारा दोनों दिशाओं में प्रयत्न किया। समाज-सुधार की दिशा में सती-प्रथा को मिटाने के आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया। सती-प्रथा, स्त्री-दास्य की एक प्रतीक थी। राममोहन राय ने स्त्री-स्वातंत्र्य के व्यापक प्रश्न को प्रथम गति दी और स्त्रियों को घरकी संपत्ति में विरासत का हक मिले, इसका भी प्रयत्न किया। कन्या-विक्रय, बहु-विवाह आदि कुरीतियाँ बन्द करने के लिए भी उन्होंने लोक-जागृति की।

सती की प्रथा तो लार्ड बेंटिक ने कानून-द्वारा बन्द कर दी; परन्तु उसमें लोगों की दुर्बलता और भोरुता का सहारा लिया गया था। जिस विभाग में सती की प्रथा थी, उसकी प्रतिकार-भावना बिलकुल मृतवत् हो गई है, वे दुर्बल और भीरु हैं, इसका फायदा उठाकर लोगों के भाव और मत के विरुद्ध किसी विदेशी सरकार का कोई कानून लोगों पर लादा जाना, राष्ट्रीय दृष्टि से प्रशस्त नहीं मालूम होता। राष्ट्रीय राजनीति की लड़ाई में असली पूँजी लोगों की प्रतिकार-भावना ही है। यह पूँजी यदि न रही तो लोग विदेशियों के अत्याचारों के खिलाफ बगावत कैसे करेंगे? इसी विचार को लेकर १८ वीं सदी के अन्त में राष्ट्रीय राजनीति की नींव डालनेवाले लो० तिकल ने विदेशी सरकार के कानून के द्वारा सामाजिक सुधार करने के तरीके के खिलाफ आवाज उठाई थी।

परन्तु अभी हिन्दुस्तान में आधुनिक राष्ट्रवाद का निर्माण होना बाकी

था। राजनैतिक गुलामी सच्चे सामाजिक व धार्मिक सुधार में कैसी विघातक होती है इसका अनुभव सर्वांगीण सुधारकों को होना चाकी था। उस समय के शिक्षित लोग यह साफ तौर पर नहीं जानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही हमारी आर्थिक उन्नति में किस तरह से बाधक हो रही है। राजा राममोहन राय को इस बात की बड़ी चिन्ता थी कि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों की प्रतिकार-भावना जाग्रत न हो और लोग बगावत न कर बैठें। आधुनिक राष्ट्र-निर्माण के लिए आवश्यक सामाजिक और धार्मिक मनोरचना आज लोगों में नहीं है और उसके होने तक अंग्रेजी राज्य का रहना आवश्यक है, ऐसा वे मानते थे। १९वीं सदी के चौथे चरण में इस विश्वास को धक्का पहुँचाने वाली विचार-सरणी और मनोरचना शिक्षित वर्ग में निर्माण होने लगी।

‘सामाजिक सुधार’ शब्द में स्त्री-शूद्र को अर्थात् समाज के दीन, दुर्बल, दलित लोगों को समानता प्राप्त करा देना मुख्य है। यह समता-तत्त्व श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और मध्ययुगीन साधु-सन्तों के ग्रन्थों और प्रयत्नों में मिलता है। समाजशास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो प्राचीन और मध्ययुगीन धर्म-सुधारकों की तरह अर्वाचीन सुधारकों को समत्व-भाव की अध्यात्म-वृत्ति से अपने सुधारों का आधार मिला था। फिर भी यह समता किस परिस्थिति में कितनी अमल में लाई जाय, इसका विचार समाज के भौतिक ज्ञान और साधनों की दृष्टि से करना चाहिए। आर्थिक समता सामाजिक समता का आधार है, मगर आर्थिक समता समाज की धनोत्पादन कला व पद्धति की प्रगति पर और आध्यात्मिक उन्नति पर अवलम्बित है। इस दृष्टि से विचार किये बगैर वर्ण-भेद और जाति-भेद दृष्ट वा अनिष्ट इसका सही निर्णय नहीं हो सकता। १९वीं सदी में जो व्यक्तिवादी सामाजिक तत्वज्ञान अंग्रेजों द्वारा हिन्दुस्तान में आया उसमें यह विचार नहीं था और इसलिए वह भारतीय सुधारकों में नहीं पाया जाता। उनकी विचार-श्रेणी में भूत-दया व समता इस आध्यात्मिक वृत्ति तथा व्यक्तिवादी अर्थोन्नति व राष्ट्र-भावना (Individualist Nationalism) की ही प्रधानता थी।

राजा राममोहन राय इस बात को तो जानते थे कि हमारे समाज के

आर्थिक संगठन में एक जबरदस्त उथल-पुथल हो रही है। पहले समाज में एक जमींदार-जागीरदारों का उच्चवर्ग था और दूसरा गरीब और दुर्बल किसानों का। व्यापारी व कारीगरों के पास बहुत धन-सम्पत्ति न थी। यह स्थिति बदलती जा रही है और उसकी जगह अंग्रेज व्यापारियों और पूँजीपतियों के सहारे एक मध्यम व्यापारी व शिक्षित वर्ग हमारे समाज में बनता जा रहा है और उसकी सम्पत्ति बढ़ती जा रही है। वे इस आर्थिक बनाव-बिगाड़ का महत्व भी जानते थे और उन्हें यह आशा थी कि अन्त में इसी वर्ग में से राजनैतिक लोक-सत्ता का आन्दोलन करने-वाला दल तैयार होगा और इंग्लैंड की तरह यहाँ भी लोक-नियन्त्रित राज-सत्ता स्थापित हो जायगी; परन्तु वे यह नहीं जानते थे कि इस वर्ग की वृद्धि और उन्नति में भी ब्रिटिश साम्राज्य बाधा डाल रहा है। वे यह भी नहीं जानते थे कि इस व्यापारी मध्यम वर्ग में से कारखानेदारी निर्माण होने के लिए हमें संरक्षक चुंगी अथवा स्वदेशी जैसे आन्दोलन की जरूरत रहेगी। और उसमें ब्रिटिश शासक, अंग्रेज व्यापारी और अंग्रेज पूँजीपतियों का हिन्दुस्तानी मध्यम व्यापारी वर्ग में से पैदा होनेवाले पूँजीवालों का विरोध उत्पन्न होगा। आर्थिक दृष्टि से वे खुले व्यापार के प्रेमी थे। उनका मत था कि ब्रिटिश माल, पूँजी और पूँजीवालों के इस देश में अधिक परिमाण में आने से देश का अहित नहीं, हित ही होगा। हाँ, वे यह जरूर कहते थे कि हिन्दुस्तान से बाहर जानेवाले माल पर अंग्रेज लोग जो भारी कर लगाते हैं वह उन्हें उठा देना चाहिए।

१८२० से १८३० तक राममोहन राय प्रभृति बंगाली नेता यह समझते और कहते थे कि हिन्दुस्तान सघन होता जा रहा है, क्योंकि शहरों में मजदूरी की दर बढ़ गई थी, और मध्यम वर्ग के कुछ लोगों को अच्छी नौकरियाँ मिल रही थीं। परन्तु वे यह भूल जाते थे कि इससे अधिक मात्रा में भाव भी बढ़ गये थे और इसलिए १५-२० वर्ष के बाद ही महाराष्ट्र के 'लोकहितवादी' ने विलायती माल के बहिष्कार और स्वदेशी व्रत की पुकार मचाई।

अब राममोहन राय के राजनैतिक विचारों को देखें। पहले के मुसल्मान जमींदारों के शासन में हिन्दुओं को जितने बड़े-बड़े पद व अधिकार मिलते

थे, उतने अंग्रेजी राज में नहीं मिलते । इससे उन्हें दुःख होता था; परन्तु मुसलमानों के शासन की अपेक्षा इसमें नागरिक स्वातंत्र्य और धर्म-स्वातंत्र्य मिलता है और जान-माल अधिक सुरक्षित व स्थायी रहता है । फिर इनके साहचर्य से हमारे देश में अनेक विद्या, कला आदि का उदय हो रहा है, इसे वे अधिक महत्व देते थे । नागरिक - स्वातंत्र्य व धर्म - स्वातंत्र्य के रहने से हमारे देश में सर्वांगीण सुधार का ज्ञान-रवि उदय हो रहा है और उससे हमारा जो हित हो रहा है उसकी तुलना पहले के बड़े अधिकारों और जागीरों से नहीं हो सकती, ऐसा वे समझते थे । परन्तु जब लार्ड हेस्टिंग्स के जमाने में नागरिक स्वातंत्र्य पर पदाघात हुआ और अखबारों की स्वतंत्रता छीन लेने का सिलसिला शुरू हुआ तब ब्रिटिश राज्य के प्रति उनकी श्रद्धा को धक्का लगा और ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार के खिलाफ उन्होंने ब्रिटिश राजा तक दाद मांगी । भारत सरकार के अन्याय के विरुद्ध वैध प्रतिकार का यह पहला उदाहरण है । मगर उनके प्रतिकार का कुछ फल न निकला । मुद्रण-स्वातंत्र्य छीन लिया गया । अखबारों के लिए इजाजत लेने का कानून बन गया और अखबारों पर सेंसर बैठ गया । इसके विरोध में उन्होंने अपना अखबार बन्द कर दिया ।

१८३१ में वे विलायत गये । वहाँ ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने उनका खूब सम्मान किया । वहाँ कंपनी के बोर्ड आफ कंट्रोल को जो मत-पत्रिका उन्होंने भारतीय शासन के संबंध में पेश की, उसमें उन्होंने ये सुझाव पेश किये : (१) पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानियों को बड़ी-बड़ी नौकरियाँ दी जायँ और अपढ़ लोगों को सैनिक शिक्षा देकर फौजी स्वयंसेवक दल तैयार किये जायँ । (२) न्याय और शासन - विभाग अलग-अलग रखे जायँ और न्याय - विभाग में हिन्दुस्तानियों की भर्ती अधिक की जाय । (३) सदर दीवानी अदालत को 'हेव्स कार्स रिट' देने का अधिकार देकर नागरिक स्वातंत्र्य सुरक्षित किया जाय । (४) न्याय-विभाग में पंचायत - पद्धति व जूरी - पद्धति का प्रवेश किया जाय । (५) जमींदार लगान कम करें । (६) सरकार जमींदारों से कम मालगुजारी ले और इसकी पूर्ति के लिए ऐश-आराम के माल पर कर बैठाया जाय । (७)

इंग्लैंड से नमूने के तौर पर कुछ जमींदार यहाँ लाये जायँ और उनके द्वारा यहाँ लोगों को कृषि-सुधार की शिक्षा दी जाय। (८) किसानों को मौरूसी हक दिया जाय। (९) भारत-सरकार का विलायत में होने वाला खर्च कम किया जाय और (१०) भारत सरकार को कुछ बातों में विलायत-सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखा जाय। इसमें प्रतिनिधिक संस्थाएँ स्थापित करने की माँग नहीं की गई है, परन्तु इसके १५ वर्ष बाद महाराष्ट्र के लोकहितवादी ने पार्लामेंट स्थापित करने की सूचना दी है। इस तरह 'स्वदेशी' की तरह 'स्वराज्य' की कल्पना का स्पष्ट उच्चारण प्रचार पहले-पहल महाराष्ट्रीय सुधारक ने किया।

अब यहाँ पर महाराष्ट्र के आदि सुधारकों से परिचय कर लेना ठीक होगा। महाराष्ट्र में सुधार-आन्दोलन का जन्म बंबई में १८४० के लगभग हुआ। पहले-पहल श्री बालशास्त्री जाँथेकर ने १८३२ में 'दर्पण' नामक साप्ताहिक और 'दिग्दर्शन' नामक मासिक शुरू किया। इन्होंने विधवा-विवाह का तथा पतित-परावर्तन अर्थात् दलितोद्धार तथा शुद्धि का श्री-गणेश किया। इनके सहायक थे मराठी के सुप्रसिद्ध व्याकरणकार श्री दादोबा पांडुरंग तखेड और बंबई के नगरसेठ श्री जगन्नाथ नाना शंकर सेठ। श्री दादोबा पांडुरंग ने १८४० में बंबई में एक 'परमहंस मंडली' नामक गुप्त संस्था जाति-भेद को तोड़ने के लिए स्थापित की। इसी संस्था की राख में से १८६७ में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। स्व० रानडे व भारद्वाज-जैसे विद्वान और सुशील लोगों का हाथ इसमें होने के कारण कुछ समय तक इसका खूब बोल-चाला रहा। फिर भी बंगाल की तरह महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज को अधिक महत्व नहीं मिला। महाराष्ट्र में चिपलूणकर, आगरकर और तिलक इन तीन महान् विभूतियों ने राष्ट्रवाद और बुद्धिवाद की स्थापना की। १८८० में तिलक-आगरकर ने आजन्म देश-सेवा की दीक्षा लेनेवाले लोगों का एक दल खड़ा करने की जो अपूर्व प्रथा डाली, उससे प्रार्थना समाज की सुधारक-मंडली का तेज फीका पड़ गया और महाराष्ट्रीय युवकों के हृदय में तिलक-आगरकर ने घर कर लिया। फिर भी महाराष्ट्र में सर्वांगीण सुधार का सर्वव्यापक और सर्वस्पर्शी विचार लोगों के सामने रखने और राजनैतिक

तथा आर्थिक अवनति से अपना सिर उँचा उठाने का नवीन मार्ग सरदार गोपालहरि देशमुख उर्फ 'लोकहितवादी' ने दिखाया। पहली पीढ़ी में यदि यह सम्मान 'लोकहितवादी' को मिला तो दूसरी पीढ़ी में इस गौरव की माला स्व० रानडे के गले में डालनी पड़ेगी। १८३४ में लोकहितवादी ने सुभाषा था—'हम सब गरीब-अमीरों को मिलकर रानी के पास एक अर्जा भेजनी चाहिए कि वर्तमान शासन-पद्धति से हमें लाभ नहीं है और हमारे राज्य-संबंधी हक मारे जाते हैं। अंग्रेज भी वैसे ही मनुष्य हैं जैसे कि हिन्दू। इनका वर्तमान भेद मिटाकर इन्हें एक समान बनाने के लिए हिन्दुस्तान में पार्लामेंट स्थापित की जाय और उसकी बैठक बम्बई में हो। उसमें सब जातियों और स्थानों के समान प्रतिनिध हों। तभी लोगों की दरिद्रता दूर होगी और अंग्रेजों का यह भ्रम भी दूर होगा कि भारतवासी मूर्ख हैं। इससे राज्य में उत्तम सुधार होंगे और लोगों को यह सहज दिखाई पड़ेगा कि राजा के शासन में क्या सुख था और लोकसत्तात्मक राज्य में क्या सुख है।' इस अवतरण से लोकहितवादी की बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और देश-सुधार के उपाय का अचूक निदान ये गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं।

परन्तु राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए केवल बौद्धिक साहस अथवा प्रतिभा-सम्पन्न कवि-कल्पना काफी नहीं होती। उसके लिए असाधारण स्वार्थ-त्याग, दीर्घकालीन उद्योग और निश्चय, संगठित लोकमत की शक्ति और उस शक्ति को जाग्रत करने के लिए आवश्यक राजनीतिज्ञता और दुर्बल, भीरु, स्वार्थी लोक-समाज में स्वार्थ-त्याग, धैर्य, आत्मविश्वास और प्रभावकारक सामर्थ्य-निर्माण करने के लिए आवश्यक साहस, और दृष्ट-निश्चय इन गुणों से मण्डित चारित्र्य नेता के पास होना चाहिए। ऐसे नेता महाराष्ट्र को १८८० के लगभग विप्लवकर, आगरकर और तिलक के रूप में मिले।

लोकहितवादी के समय में ही विष्णुवुवा ब्रह्मचारी ने 'सुखदायक राज-प्रकरणों' नामक निबन्ध में समाजवाद का प्रतिपादन किया है—यह देखकर सबको आश्चर्य होगा। वे कट्टर ब्राह्मण थे और हमारी प्राचीन संस्कृति में से ही हमें अपने भावी अभ्युदय का मार्ग मिलेगा—ऐसा उनका खयाल था। वे कहते हैं—

“सब लोग मिलकर सारी जमीन जोतें और बोंवें और हर गाँव में अनाज के कोठार रखे जायँ और उनमें से ग्रामवासी पेटभर अन्न और पशुओं के लिए आवश्यक घास-दाना ले लिया करें। यह सब पैदावार एक के ही कब्जे में रहे और सब उससे आवश्यक सामग्री ले जायँ। राजा को चाहिए कि वह सूत, ऊन, रेशम के कपड़े तैयार करावे और जिसको जिस कपड़े की जरूरत हो वह ले जाय। गहने भी गढ़वा के हर गाँव में रखे जायँ और सब स्त्री-पुरुष उनका इस्तेमाल करें। हर प्रकार के शस्त्र, यन्त्र और खेल प्रत्येक गाँव में रहें। रेल और तार भी रहें। राजा, कारखाने के मालिक और किसान सब एक-सा अहिंसक भोजन करें और वह सबको एक ही कोठार से मिले। सबकी शादियाँ राजा विवाह-विभाग के द्वारा वर-वधू की इच्छा और रजामन्दी से कराये और जिसको कोई स्त्री पंसद न हो या जिसे कोई पति पंसद न हो, उसे दूसरी स्त्री या पति का प्रबन्ध कर दिया जाय अर्थात् स्वयंवर की प्रथा डाली जाय। पाँच वर्ष का बालक होते ही उसे राजा के तावे कर दिया जाय। उसकी शिक्षा-दीक्षा और काम-धन्धे का प्रबन्ध राजा करे। वृद्ध स्त्री-पुरुषों को पेंशन मिले और इन भिन्न-भिन्न विभागों के लोग पार्लामेंट के सभासद हों।”*

कार्ल मार्क्स से अपरिचित विष्णुबुवा को ये कम्युनिज़्म के ढंग के विचार सूझे कैसे ? इसका जवाब यह है कि एक ही बाह्य परिस्थिति को देखकर सात्विक व राजस अथवा परार्थी व स्वार्थी मन पर भिन्न-भिन्न परिणाम होते हैं। इन्द्रियों के द्वारा मन पर और बुद्धि पर होनेवाले संस्कार एक से होते हैं ; परन्तु जिसकी बुद्धि स्वार्थ से मलिन हो गई है उसे उनमें से स्वार्थ का मार्ग सूझता है और जिसकी बुद्धि परार्थी बनी हुई है उसको उस स्थिति में परार्थ का मार्ग दिखाई दे जात है। ऐसी दशा में संन्यस्त-वृत्ति और लोक-कल्याण में ही आनन्द माननेवाले सात्विक शुद्ध मन में पूर्वोक्त सर्व-सुख और समान-सुख की कल्पना क्यों न आनी चाहिए ?

लोकहितवादी की धर्म-सुधार-सम्बन्धी सूचनाएँ इस प्रकार है :

* 'आजकालचा महाराष्ट्र, पृ० ११२-११३

(१) सत्र लोग ईश्वर का भजन सच्चे मन से करें ।

(२) अपने जैसा ही दूसरे को समझें ।

(३) उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि क्रिया—इन तीन संस्कारों के अलावा सत्र संस्कार रद्द किये जायँ—जो कर्म कराये जायँ वे स्वभाषा में हों ।

(४) अपने विचार के अनुसार लिखने, बोलने और चलने की आजादी रहनी चाहिए ।

(५) धार्मिक तथा लोक-व्यवहार में स्त्री-पुरुषों के अधिकार समान हों । इसमें विधवा-विवाह आ गया ।

(६) लोकाचार की अपेक्षा नीति को प्रधानता दी जाय ।

(७) वेमतलब की कोई बात न बोलनी चाहिए ।

(८) किसी मनुष्य को तुच्छ न समझना चाहिए । जाति - अभिमान न रखना चाहिए । सत्रके साथ दया का व्यवहार किया जाय और सबका कल्याण करना चाहिए ।

(९) स्वदेश के प्रति प्रीति और उसका कल्याण विशेष रूप से किया जाय ।

(१०) जिसको जो धन्धा पसंद हो वह करे ।

(११) जाति - भेद का आधार गुण व कर्म हो, कुल न हो ।

(१२) सरकार से प्रजा के अधिकार अधिक हों अर्थात् जनता के लिए जो कानून हितकारी हों वे सरकार से लड़कर बनवाने चाहिए ।

(१३) जो नियम राजा ने बनाये हों और जो ईश्वरी बुद्धि-सूचित हों उन्हें मानना चाहिए ।

(१४) सत्र विद्या-वृद्धि के लिय परिश्रम करें । दुखी को सुख, बीमार को दवा, मूर्ख को ज्ञान व कंगाल को धन यथा-शक्ति देना चाहिए ।

(१५) सत्र सत्य पर चलें— सत्य के विरुद्ध कुछ न करें ।

इन प्रन्द्रह नियमों में स्वदेश - भक्ति, लोक - सत्ता, विद्या - वृद्धि इत्यादि सत्र बातें आ जाती हैं । इनके समकालीन एक दूसरे सुधारक ज्योतिराव फुले थे । उन्होंने महाराष्ट्र में अत्राह्मण - आन्दोलन को जन्म दिया । उसमें स्थापित सत्यशोधक समाज के द्वारा सामाजिक आन्दोलन को सामाजिक वर्ग - विग्रह का रूप प्राप्त हुआ । ब्राह्मण जाति के प्राधान्य के खिलाफ यह

हलचल अब्राह्मणों में स्वाभिमान पैदा करने की दृष्टि से आवश्यक भी थी। इसने ब्राह्मण-जाति के दुराराध्य व दुराग्रही लोगों को सामाजिक समता के तत्व पर विचार करने के लिए बाध्य करने का काम किया भी। लेकिन इस आन्दोलन के उत्पादकों और प्रचारकों में ब्रिटिश राजनीति को पहचानने की योग्यता न थी— इससे कुछ समय तक यह नौकरशाही के हाथ की कठपुतली बनती रही और मांटेगू-सुधार के बाद इसने आराष्ट्रीय राजनीति का विघातक रूप धारण किया। महाराष्ट्र में अस्पृश्यता-निवारण के आन्दोलन का प्रथम श्रेय श्री ज्योतिराव फुले को ही प्राप्त है।

१८६७ में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। उसके आचार्य थे स्व० डा० भाण्डारकर और रानडे। इनमें रानडे ही वास्तविक सर्वो-गीण सुधारक थे। वे प्रार्थना समाज को हिन्दू धर्म का ही एक सुधारक पंथ मानते थे। दोनों हिन्दू धर्म के बड़े अभिमानों थे। 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' इस तत्व का उन्हें विशेष अभिमान था। प्रार्थना भौतिक फल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के ही लिए करनी चाहिए—ऐसा उनका मत था। प्रार्थना समाज ने भौतिक व्यवहारों में अवैज्ञानिक चमत्कारों को हटाया है। अवतारों को वे सर्वांश में देवता नहीं, बल्कि परम आदरणीय व पूज्य विभूति मानते थे। मूर्ति-पूजा के वे खिलाफ थे। उनके मान्य सामाजिक सुधारों का समावेश 'लोक हितवादी' के १५ नियमों में हो जाता है।

१८७० के बाद महाराष्ट्र के इतिहास को एक नई दिशा मिली और उसका प्रभाव सारे भारतवर्ष पर पड़ा। १८७१ में सार्वजनिक सभा स्थापित हुई। १८७४ में चिपलूणकर की निबंधमाला शुरू हुई। १८८० में न्यू इंग्लिश स्कूल, केसरी व मराठा का जन्म हुआ। १८८५ में राष्ट्रीय महासभा-कांग्रेस की स्थापना हुई। १८८८ में 'सुधारक' निकला। १८९५ में लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक सभा हस्तगत की, आगरकर का शरीरान्त हुआ और पूना के उद्धारक बनाम सुधारकवाद को गरम-नरम राजनैतिक वाद का रूप मिलने लगा। इस वर्ष महाराष्ट्र में जो दो राजनैतिक दल बने उन्होंने सारे भारत खण्ड में प्रचण्ड आन्दोलन खड़े किये और १९२० तक के उसके इतिहास पर अपनी छाप डाली है।

१८८५ में कांग्रेस की स्थापना होने के पहले ही दादाभाई और रानडे ने भारतीय राजनीति और अर्थनीति की नींव डाल दी थी। इन दोनों विभूतियों के विचारों में आगे की नरम - गरम राजनीति के बीज दिखाई देने हैं जिसका अवलोकन हम अगले प्रकरण में करेंगे।

: ४ :

भारतीय राजनीति और अर्थनीति का पाया

“I entreat most earnestly that the first element viz. the material condition of India— may be most carefully lifted; and the necessary remedies be applied. If this question be not boldly and fairly grappled with, it will be, in my humble opinion, the principal rock on which the British rule will wreck. It is impossible for any nation to go on being impoverished without its ultimate destruction or the removal of the cause.” —Dada Bhai, in 1871.

“Be united, persevere and achieve self - government so that the millions that are perishing by poverty, famine and plague and the scores of millions that are starving on scanty subsistence may be saved and India may once more occupy her proud position of yore among the greatest and civilized nations of the world.”

“Self - government is the only and chief remedy. In self - government lies our hope, strength and greatness.”

—Dada Bhai in 1906.

उन्नीसवीं सदी के मध्य में अर्वाचीन राजनीति की बुनियाद डाली गई। १८३३ में जव ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नई सनद दी गई तब उस समय के कानून में एक इस आशय की धारा भी डाली गई कि किसी भी भारतीय को धर्म, देश, वंश या वर्ण के कारण कम्पनी की नौकरी,

अधिकार अथवा पद के लिए अयोग्य न समझा जायगा । इसका जो कुछ भाष्य तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लार्ड मेकाले ने किया उससे यह नतीजा निकलता है कि उन्हें स्वार्थ, कीर्ति और राजनीति इन सब दृष्टियों से लोगों को धीरे-धीरे सुधार कर उच्च अधिकार देना और उनकी सुस्थिति में अपना स्वार्थ देखना अभीष्ट था । राज्य की अपेक्षा व्यापार की ओर उनका ध्यान अधिक था । सच पूछिए त व्यापारी संस्कृति का यह एक उच्चतम स्वरूप है । उसमें दूरदर्शी स्वार्थ का ही अर्थ 'परार्थ' किया जाता है । इस संस्कृति का हीन स्वरूप है परार्थ का टोंग करके दूसरे को ठगना । अंग्रेज शासक की अपेक्षा व्यापारी अधिक हैं और साम्राज्य-लोभ से व्यापार-लोभ उनके रोम-रोम में अधिक समाया हुआ है । उनके देश जीतने का हेतु व्यापारी, उनकी लूट व्यापारी, उनकी नीतिमत्ता व्यापारी और धर्म भी व्यापारी ! लक्ष्मी उनकी आराध्य देवी और स्वार्थ-पोषक परार्थ उनका परमार्थ और वही उनका मोक्ष !! अमरीका के स्वतन्त्र हो जाने पर भी उनके द्वारा उलटा इङ्गलैंड का व्यापारिक लाभ बढ़ गया । इस अनुभव से ब्रिटिश लिबरल दल में यह भाव बढ़ रहा था कि साम्राज्यान्तर्गत देश यदि सुसंस्कृत और सम्पन्न होकर फिर स्वतंत्र हुए तो उससे हमें आर्थिक हानि नहीं हो सकती । नेपोलियन के पराभव (१८१५) के बाद ब्रिटिश व्यापारी-वर्ग को यह डर नहीं मालूम होता था कि अपने साम्राज्य के देश दूसरे यूरोपीय साम्राज्य के शासन में चले जायेंगे । उसी प्रकार उन्हें इस समय यह अनुभव हो रहा था कि औद्योगिक क्रान्ति के फल-स्वरूप धनोत्पादन के जो प्रचण्ड साधन हमें उपलब्ध हुए हैं उनके कारण खुले व्यापार में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता । अर्थात् इस समय उनका साम्राज्य-लोभ, जो वास्तव में व्यापार-लोभ से ही पैदा हुआ था, कुछ कम हो गया था । जगत् के सुधार में हमारा लाभ है, क्योंकि जंगली लोग हमारे माल की खरीद नहीं कर सकते, यह वेदान्त उस समय लिबरल पक्ष के मुत्सद्दी दुनिया को सिखा रहे थे ।

इस समय हिन्दुस्तान में जो गोरे अधिकारी, व्यापारी व धर्म-प्रचारक आये थे वे इस वेदान्त का प्रचार लोगों में करते हुए कहते थे कि तुम्हारे शिक्षित, सफल और स्वतन्त्र होने में ही हमारा हित है और यही हमारा

ध्येय है। इस तरह वे यहाँ के शिक्षित लोगों के दिलों में ब्रिटिश राज्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करते थे और संसार की संस्कृति में दो-ढाई शतक पिछड़े गये हमारे इस वेदान्त को सुनकर उन्हें देवता मानने लगे। पुराण-परम्परावाले तो यह कहकर रोते थे कि सतयुग में देवता पृथ्वी पर निवास करते थे, अब वे स्वर्ग में रहने चले गये, तो इधर नव-शिक्षित यह प्रतिपादन कर रहे थे कि स्वतंत्र, सुखी व सम्पन्न बनाने के लिए अँग्रेजों को ईश्वर ने देवदूत के रूप में यहाँ भेजा है। भारतीयों की बुद्धि एक गुलामा से निकलकर दूसरी गुलामा में प्रवेश कर रही थी और उसी को स्वतंत्रता कहती थी। ऐसी अवस्था में भारतीय मानस के लिए ब्रिटिश राजनीतिज्ञता का यह कृष्ण अन्तरंग अथवा ब्रिटिश साम्राज्य का कृष्ण-पद्म समझ लेना बहुत कठिन था। यह कठिन कार्य जिस एक महात्मा ने किया है, उसे हमने 'आधुनिक भारत के पितामह' की महान् पदवी दी है। इस प्रकरण में हमें इसी बात का विचार करना है कि राष्ट्र-पितामह दादाभाई नौरोजी और स्व० रानडे इन दो अर्थशासन-विशारद् राजनीतिज्ञों ने भारतीय राजनीति और अर्थनीति की नींव कब और किस प्रकार डाली ?

१८३२ में इंग्लैंड में पार्लियामेंट में सुधार हुआ, जिसके फलस्वरूप व्यापारी कारखानेदारों का प्रभुत्व पार्लियामेंट पर अधिक हो गया। इस समय इंग्लैंड में इस वर्ग के हित के अनुकूल एक नवीन सामाजिक दर्शन बना। इस दर्शन का दारोमदार व्यक्ति-स्वातंत्र्य पर था। व्यक्ति-स्वार्थ और राष्ट्र-हित, राष्ट्रस्वार्थ और जगत्कल्याण इसमें सचमुच द्वैत नहीं है—यह इस तत्त्वज्ञान का मूलमंत्र था। इस दर्शन से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि परार्थ में स्वार्थ अपने आप साध जाता है। दूसरा यह कि स्वार्थ साधने में परार्थ अपने आप हो जाता है। जब पहली बात कहते हैं, तब उसमें स्वार्थ का अर्थ बहुत व्यापक और आध्यात्मिक दृष्टि से करना पड़ता है। स्वार्थ-भाव से परार्थ करने के सिद्धान्त पर जो लोग थोड़ा-बहुत भी चलते हैं, उनसे दुनिया का अधिक नुकसान नहीं होता। 'नीति के तौर पर सचाई' से चलनेवालों से लोगों का नुकसान प्रायः नहीं होता। परन्तु जब 'नीति' और 'सचाई' में

अन्तर पड़ता है तब ऐसे लोगों के लिए सचाई को ताक पर रखकर नीति को पकड़ रखने का अन्देशा रहता है ; परन्तु दूसरा अर्थ यानी स्वार्थ साधने में ही परार्थ है इस सिद्धान्त को मानकर चलनेवालों से दुनिया का बड़ा नुकसान होता है । १८वीं सदी के मध्य में अंग्रेज सामाजिक तत्ववेत्ता अपने वेदान्त का प्रतिपादन पहले अर्थ में करते थे तो उनके राजनीतिज्ञ उसका आचरण दूसरे अर्थ में करते थे । हमारे शिक्षित लोगों पर ब्रिटिश तत्वज्ञों ने मोहिनी डाल रखी थी और ब्रिटिश राजकाजी और व्यापारी हमारी जनता को लूट रहे थे । यह 'लूट' लोक-सेवा और लोकहित का जामा पहने हुए थी । व्यापारी अथवा आर्थिक साम्राज्य-शाही का ऐसा ही मायावी मोहक रूप होता है । उस माया के उस पार निगाह पहुँचाकर उसके रक्तशोषक आसुरी रूप को देखकर उसे लोगों और शासक वर्ग के सामने रखना, नित्य के अनेक व्यवहारों में व्यस्त जनता के चित्त को पुनः पुनः उसी सत्य की ओर खींचते रहना, जन्म भर इसी एक सिद्धान्त का और उसके भीषण परिणामों का चिन्तन करना यही एक मार्ग उस समय उस वास्तविक ज्ञान को पाने का अथवा नये यंत्र के दर्शन का था । राष्ट्र-पितामह दादाभाई ने अपने सारे जीवन में यही एक कार्य किया और वे अपने जीवन के अन्तिम दिनों में भारतीय जनता को और कांग्रेस को स्वराज्य का मन्त्र देकर ८० वर्ष की अवस्था में राष्ट्रसेवा से निवृत्त हुए । पारतन्त्र्य के मोहान्धकार में पड़े हुए और उसी में आनंद माननेवाले अपने अज्ञानी देश-बन्धुओं के अन्तःकरण का ज्ञान-प्रदीप उन्होंने प्रज्वालित किया और इस ब्रिटिश मायावी साम्राज्य में अपने कगेड़ों देशबन्धु दरिद्रता और फाँकेकशी में मर रहे हैं और इस मोहान्धकार को कालरात्रि में हम इसा तरह खुराँटे भरते रहेंगे तो आग्वीर में हम सबका विनाश निश्चित है, इसका ज्ञान भारत-वासियों को सबसे पहले उन्होंने कराया । इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि इस भावी आपत्ति को टालने के लिए हमें किन-किन दिशाओं में उद्योग भी करना चाहिए । उन्होंने उन मार्गों पर चलनेवालों का नेतृत्व किया और अन्त में भावी पीढ़ी को अपने कर्तव्य का दिग्दर्शन कराके वे मातृभूमि के ऋण से मुक्त हुए ।

१८५२ में दादाभाई ने बम्बई में 'वावे एसोसियेशन' की स्थापना की; उधर १८५१ में बंगाल में श्री प्रसन्नकुमार टागोर, डा० राजेन्द्र लाल मित्र आदि ब्रिटिश इंडिया एसोसियेशन नामक राजनैतिक संस्था स्थापित कर रहे थे। ऐसा ही एक संस्था— मद्रास नेटिव एसोसियेशन मद्रास में उदय हुई थी। पूना में एक डेक्कन एसोसियेशन बनी। इस तरह १८५१-५२ में तीन बड़े इलाकों की राजधानियों में लोकसत्तात्मक राजनीति का जन्म हुआ। १८५३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जो नई सनद देने का कानून बना उसी के द्वारा हिन्दुस्तान में सबसे पहले धारा-सभा की स्थापना हुई, जिसमें कुल चारह सरकारी अधिकारी सभासद थे। गैर-स कारा या प्रतिनिधि जैसे कोई न थे। मगर फिर भी इस सिलसिले में पार्लामेंट में भाषण देने हुई लार्ड डर्बी ने कहा था कि मनुष्यता, उपकारिता, नीतिमत्त और धर्म—सभी दृष्टियों में हमारा यह कर्तव्य है कि भारतीयों को आन्तरिक शासन की देखरेख में अधिकारिक अधिकार दिया जाय। पार्लामेंट में यह नीति और धर्म की भाषा पहली बार सुनी गई।

परन्तु अनुभव दूसरा ही हो रहा था। १८३३ के कानून में यह आश्वासन दिया था कि बिना जात-पात, देश, धर्म के भेदभाव के हिन्दुस्तानियों को उच्च अधिकार दिये जायँगे; परन्तु १८५३ तक, बीस साल में, इस कानून का फायदा एक भी हिन्दुस्तानी को न मिला। १८५१-५२ से १९०६ तक—५५ साल तक—भारतीय राजनीति में काम करने के बाद दादाभाई ने कहा था—“शुरू से लेकर अबतक मुझे इतना चार निराश होना पड़ा है कि दूसरा कोई होता तो उसका दिल टुक टुक हो गया होता और मुझे भय है कि वह चागा बन गया होता।” फिर भी उन्हें ब्रिटिश न्याय पर विश्वास रहा था और साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य प्राप्त करना उनका ध्येय था। १९०६ में यही ध्येय उन्होंने कांग्रेस के सामने स्पष्ट शब्दों में रखा था और इसके लिए अग्रगण्य आन्दोलन करने और करते रहने का संदेश उन्होंने दिया था। हमें जो अपने राज-नैतिक उद्देश में सफलता नहीं मिली उसका कारण वे यही बताते थे कि हम आन्दोलन नहीं करते। वंग-भंग आन्दोलन को देखकर उन्हें संतोष

हुआ और बंगालियों की वे स्तुति करते थे । भांवी पीढ़ी को उन्होंने सन्देश दिया था— “एक होओ । दृढ़ उद्योग से काम लो और स्वराज्य प्राप्त करो ।”

आर्थिक साम्राज्यशाही क्या है और विजित राष्ट्र का रक्तशोषण किस प्रकार होता है इसकी ठीक कल्पना दादाभाई के लेख और भाषण पढ़ने से होती हैं । कार्ल मार्क्स ने पूँजीवाद की मीमांसा अथवा विश्लेषण किया और बताया कि उसकी रचना में ही किस तरह उसके विनाश के बीज हैं । उसी तरह पूँजीवाद से पैदा होनेवाली आर्थिक साम्राज्यशाही कितनी भयानक है और उसके रक्त-शोषण में ही उसके विनाश के बीज किस तरह छिपे हुए हैं यह दादाभाई ने संसार के सामने रक्खा । कार्ल मार्क्स का जन्म एक स्वतंत्र पूँजीवादी राष्ट्र में हुआ था और इसलिए उसने एक ही राष्ट्र का एक वर्ग जन-साधारण का रक्त-शोषण किस तरह करता है इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया । दादाभाई का जन्म साम्राज्यवादी के जवड़े में फँसे परतंत्र राष्ट्र में हुआ था इसलिए उन्होंने इस बात का वैज्ञानिक खोज की कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का रक्त-शोषण कैसे करता है और अपने लोगों को तथा ब्रिटिश शासकों को दिखाया कि इसी रक्त-शोषण में साम्राज्यवाद के विनाश के बीज हैं । मार्क्स ने बताया कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण को रोकने का उपाय है—समाजवाद । दादाभाई ने बताया कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण को मिटाने का उपाय है—स्वराज्य । मार्क्स का जन्म जिस देश में हुआ था वह औद्योगिक प्रगति और राजनैतिक स्वातंत्र्य की दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ था और दादाभाई जहाँ जन्मे वह देश दोनों दृष्टियों से पिछड़ा हुआ था । इस कारण दादाभाई ने जिन प्रश्नों को हाथ में लिया उससे आगे की अवस्था में पैदा होनेवाले प्रश्न मार्क्स के विचार में आये—यह उसकी परिस्थिति का परिणाम है । अस्तु ।

१८५१ से ७१ तक, बीस वर्ष में, दादाभाई ने इस बात का ठीक अन्दाज कर लिया कि हिन्दुस्तान के धन का शोषण किस-किस तरह हो रहा है और उससे भारतीय जनता किस तरह दरिद्र होती जा रही है एवं उन्होंने अपना यह निश्चित मत बना लिया कि जबतक यह द्रव्य-शोषण

बन्द न होगा तबतक उसका उद्धार किसी तरह नहीं हो सकता। उन्होंने यह सप्रमाण सिद्ध किया था कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी को वार्षिक आमदनी २०) ४० है और यह आमदनी उससे भी कम है जो सरकार एक कैदी के लिए खर्च करती है। उनकी राय में इस द्रव्य-हरण के दो रूप हैं— एक राजनैतिक, दूसरा व्यापारिक अथवा औद्योगिक। यूरोपियन अधिकारी जो रुपया विलायत भेजते हैं, भिन्न-भिन्न जरूरतों के लिए यहाँ तथा विलायत में जो खर्च किया जाता है; इंग्लैंड में नियुक्त अधिकारियों को जो वेतन और पेंशन आदि दी जाती है और भारत सरकार विलायत में जो खर्च करती है यह एक स्वरूप हुआ। और दूसरा स्वरूप है गैर-सरकारी यूरोपियन जो यहाँ से धन कमाकर विलायत भेजते हैं वह। यहाँ से विलायत गया रुपया वे फिर पूँजी के रूप में वापिस लाते हैं और उन्हें मानो यहाँ के व्यापार व उद्योग का ठेका ही मिल जाता है। हिन्दुस्तान में पूँजी जमा नहीं होती है उसका मूल कारण टाटाभाई की दृष्टि में यह विलायत की ओर बहनेवाली सम्पत्ति की नदी ही है। वे यह नहीं कहते थे कि ब्रिटिश पूँजीपति हिन्दुस्तान में पूँजी न लगावें, उनका इतना ही कहना था कि वे हिन्दुस्तान की लूट बन्द कर दें, उसे दुखी व असहाय न बनावें और उन्हें लूटकर एकत्र किये धन को अपनी पूँजी न बचावें। १८८० में क्रेपिन कमीशन के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा था—“दूसरे देशों में लगनेवाली और हिन्दुस्तान में लगनेवाली ब्रिटिश पूँजी में भेद है। और देशों में ब्रिटिश पूँजीपति सिर्फ व्याज ही लेते हैं; परन्तु यहाँ तो मुनाफा और डिविडेंड भी लेते हैं। इसलिए जबतक यहाँ हिन्दुस्तानी अपनी पूँजी से कारखाने न खोल सकें तबतक उन्हें सरकार चलावे और उनमें भारतीयों से काम लें, यूरोपियनों से नहीं। इसमें हिन्दुस्तान के शरीर में फिर से रक्त-संचार होने लगेगा। हिन्दुस्तान को ब्रिटिश पूँजी की जरूरत जरूर है; परन्तु सिर्फ पूँजी ही चाहिए। अपनी पूँजी को लेकर जो वे इस देश पर हमला करते हैं और पूँजी के द्वारा जो धन पैदा होता है उसे भी खा जाते हैं यह हमें मंजूर नहीं है।... यह कहना एक गप्प है कि हिन्दुस्तान में धन और जीवन चिरस्थायी है।

एक अर्थ में वे सुरक्षित तो हैं अर्थात् अनियंत्रित हिन्दुस्तानी राजाओं के अत्याचार से वे सुरक्षित हैं; परन्तु इंग्लैंड जो हिन्दुस्तान से वित्त-हरण कर रहा है उससे धन और इसलिए जीवन त्रिकुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ यदि कोई सुरक्षित है तो इंग्लैंड। निश्चित और निःशंक है तो इंग्लैंड। तीन-चार करोड़ पौंड प्रति वर्ष वे हिन्दुस्तान का धन खाते या अपने देश में बहा ले जाते हैं। यहाँ तो ज्ञान और समझदारी भी सुरक्षित नहीं है। हिन्दुस्तान के लाखों लोगों का जीवन अधपेट रोटी, फाकेकशी, अकाल और बीमारी से मौत—यही है।”

“जो द्रव्यहरण इस सदी के प्रारंभ में हर साल ३० लाख पौंड होता था वह आज ३ करोड़ पौंड हो गया है। मुहम्मद गज़नी ने १८ वार हिन्दुस्तान को लूटा। उसकी सारी लूट आपके १ साल की लूट से कम है। फिर उसने जो जखम किया वह १८ हमले के बाद बन्द तो हो गया, परन्तु आपके किये जखम से तो खून की धारा बन्द होने की गुंजायश ही नहीं।...आपका यह वैभवशाली साम्राज्य हिन्दुस्तानियों के धन और खून पर खड़ा है। हिन्दुस्तान अब आपके द्रव्यहरण से त्रिकुल थक चुका है फिर भी रक्त-साव बन्द नहीं होता। इससे वह मौत की तरफ चला जा रहा हो तो आश्चर्य नहीं।”*

अन्त को दुखी और निराश होकर उन्हें यहाँ तक कह देना पड़ा कि या तो इस रक्त-शोषण से हिन्दुस्तान बरबाद हो जायगा, या फिर वह जाग उठा तो उस चूमनेवाली शक्ति को ही ले बैठेगा।

इस तरह हिन्दुस्तान के सामने सबसे महत्व का प्रश्न जनता की दरिद्रता और भुखमरी का था और उसका एक ही उपाय था स्वराज्य। इसका उच्चार और प्रचार सबसे पहले दादाभाई ने ही किया। इसी प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश—यह सब भारतीय जनता के रक्त-शोषण और उसके भयंकर दरिद्र्य में है उसका भी वैज्ञानिक प्रतिपादन पहले उन्होंने किया। इस सबका यह स्वाभाविक परिणाम होना था कि सब कार्यकर्त्ताओं की सारी शक्ति राजनीति में ही लगे। उन्हीं के

* Dada Bhai's speeches and writings P. 203—4 and 236—38.

इन विचारों के कारण हिन्दुस्तान में उग्र राजनीति की बुनियाद पड़ी। १८८० के बाद पूना में चिपलूणकर, आगरकर और तिलक ने जो उग्र विचारों का नया राष्ट्रीय पक्ष खड़ा किया उसके आधारभूत राजनीति और अर्थनीति के सिद्धान्त दादाभाई के पूर्वोक्त विचारों में मिलते हैं। फर्क इतना ही है कि दादाभाई का विश्वास ब्रिटिश न्याय पर कायम रहा और अगली पीढ़ी का उड़ गया तथा वे अपने कर्तव्य पर विश्वास करने लगे।

१८८० से १८९५ तक का समय महाराष्ट्र में बड़े विचार-मंथन का समय था। इसी बीच वहाँ रानडे दल और तिलक दल बने और आगरकर की सरस्वती इस त्रिवेणी संगम में कहीं गुत हो गई।

दादाभाई और रानडे के विचारों में एक बड़ा भेद था। दादाभाई हिन्दुस्तान की आर्थिक लूट और उसके राजनैतिक कारण पर ही सारा भार देते थे और औद्योगिक सुधार का गौण मानते थे। हिन्दुस्तान के भाषण दारिद्र्य से पैदा होनेवाली क्रान्ति का पूर्व सूचना देकर शासकों को तथा जनता को जागृत करने की उनका सतत प्रवृत्ति भी रानडे का वृत्ति से भिन्न थी। रानडे की दृष्टि में दादाभाई 'गरम' थे। रानडे का मत था कि विदेशी पूँजी का भारतवर्ष में आना लाभदायी है। उनका कहना था कि यदि हमें औद्योगिक उन्नति करना है, और यदि उसके लिए आवश्यक पूँजी हमारे पास नहीं है और यदि वह हमें अंग्रेज देते हैं तो अच्छी ही बात है। दूसरे देश यदि इंग्लैंड से पूँजी लेकर मालामाल होते हैं तो हम क्यों न लें? दूसरे पक्ष का कहना था कि अंग्रेज यहाँ में धन लूट-लूट कर ले जाते हैं—इससे यहाँ पूँजी जमा नहीं होने पाती। फिर यहाँ खाली अंग्रेजी पूँजी ही नहीं आती, अंग्रेज पूँजीपात भी आते हैं और निधन पाकर हमें औद्योगिक गुलाम बनाते हैं। इसके अतिवा के यह पूँजी भी तो हिन्दुस्तान से ही लूट ले जाते हैं। यह ब्रिटिश पूँजी क्या है? हमारे असहाय देश पर होनेवाला एक औद्योगिक चढ़ाई ही है। तिलक-आगरकर की पीढ़ी यह मानती थी कि हमारे और अंग्रेजों के स्वार्थ एक दूसरे से भिन्न और विरोधी हैं। इस बात की ओर नें आँखें मूँद लें तो यहाँ राजनैतिक काम नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी

अर्थ-नीति भी उनके और हमारे इस विरोध या द्वैत को बिना माने नहीं चल सकती।

लेकिन रानडे के कार्य का महत्त्व एक दूसरी दृष्टि से है और उसमें उनकी चतुरस्र राजनीतिज्ञता विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। १८७१ से वे पूना आये। तबसे १८८० तक सरकारी पद पर रहकर उन्होंने सार्वजनिक सभा के कार्य को राजनैतिक आन्दोलन का रूप दिया। उससे महाराष्ट्र में एक नवान चेतना आई और वैध राजनीति की बुनियाद पड़ी। इसके विषय में लो० तिलक ने कहा था कि उस समय पूना की शिथिलता दूर करके उसमें नवजावन लाने का, दिन-रात विचार करने और अनेक उपायों से उसे पुनः सर्जीव करने का विचकट काम सबसे पहले रानडे ने ही किया। उनके कारण पूना बम्बई प्रान्त का 'बौद्धिक और राजनैतिक राजधानी' बन गया था। १८८५ में जब कांग्रेस की स्थापना करना तय हुआ तब उसका पहला अधिवेशन पूना में करना निश्चित हुआ। उस समय पूना को जो महत्त्व मिला उसका श्रेय रानडे को ही है। फिर १८९५ में पूना में गरम राजनैतिक दल बना। तबसे पूना को राजनीति में जो अखिल भारतीय महत्त्व प्राप्त हुआ वह लो० तिलक के अवसान (१९२०) तक कायम रहा। नरम दल या प्रागतिक पक्ष रानडे को 'आधुनिक भारत का जनक' कहता है और राष्ट्रीय पक्ष अपने संप्रदाय का जन्मदाता लो० तिलक को मानता है।

रानडे के पूना के नेतृत्व के दो भाग हो जाते हैं—एक १८७१ से १८८० तक और दूसरा १८८० से १८९३ तक। पहले भाग में उनके दाहिने हाथ थे—स्व० गणेश वासुदेव जोशी उर्फ 'सार्वजनिक काका'। १८७० में इन्होंने सार्वजनिक सभा की स्थापना की और उसके मन्त्री रहे। शीघ्र ही रानडे के प्रयत्न से इस संस्था को राष्ट्रीय राजनैतिक स्वरूप प्राप्त हुआ। 'सार्वजनिक काका' खुद अपने काते सूत की खादी पहनते थे। यह व्रत उन्होंने आमरण कायम रखा। औद्योगिक उन्नति के कार्यक्रम में वे रानडे के दाहिने हाथ थे। पश्चिमी टंग की औद्योगिक क्रान्ति करने के उद्देश्य से संरक्षक-कर के सिद्धान्त का प्रतिपादन रानडे ने शुरू किया था; परन्तु जर्मन महायुद्ध जैसा

भीषण युद्ध भुगताने के बाद अंग्रेजों ने साम्राज्य के माल के लिए रिश्वत करके बाहर के माल पर कर लगाने की थोड़ी सुविधा हिन्दुस्तान को दी। इसमें भी भारतीय कारखानों को संरक्षण मिलने की अपेक्षा सरकारी तिजोरी की कमी की पूर्ति करने की नीति प्रधान थी। इसलिए उसका विशेष लाभ भारत को न मिला। इस कारण रानडे की अर्थनीति की अपेक्षा 'सार्वजनिक काका' के स्वार्थ-त्यागी उत्साह से जो स्वदेशी आन्दोलन पैदा हुआ उसी के द्वारा स्वदेशी कारखानों को वास्तविक प्रोत्साहन मिला और सच्चा देशप्रेम जाग्रत व संगठित हुआ।

रानडे ने जिस अर्थशास्त्र की बुनियाद डाली वह फ्रेड्रिक लिस्ट, कैरे प्रभृति जर्मन व अमरीकन अर्थशास्त्रियों के विचारों के आधार पर डाली थी। एडम स्मिथ, रेकार्डों प्रभृति इंग्लिश अर्थशास्त्रज्ञों ने व्यक्तिवादी खुले मैदान का अर्थशास्त्र यूरोप में रूढ़ किया था। उसमें स्थूल रूप से यही प्रतिपादन किया जाता था कि जो व्यक्ति का हित है वही राष्ट्र का हित है और राष्ट्र का हित ही जगत् का हित है। ये अर्थशास्त्रज्ञ उपदेश करते— "वैयक्तिक स्वार्थ, वैयक्तिक स्वार्थ और अन्तर्राष्ट्रीय खुले व्यापार की बदौलत जो व्यक्ति, जो राष्ट्र और जो वर्ग आगे आवेंगे वही अपना और संसार का भौतिक हित साध सकेंगे और इस प्राकृतिक चुनाव का विरोध करके व्यक्ति-विशेष, वर्ग-विशेष और राष्ट्र-विशेष को कानून के कृत्रिम बन्धनों से बाँधकर और बाड़ लगाकर संरक्षण देना मानो नालायकों को सहायता देना है जिससे कि संसार का धनोत्पादन नालायक लोगों के हाथ में जाकर समष्टि रूप से जगत् का अहित ही होगा। इस तरह खुले मैदान के और अनियंत्रित व्यक्ति-स्पर्धा के तत्व का सर्वत्र प्रचार हो जाय तो उससे यह स्पष्ट ही है कि दुनिया के पिछड़े हुए राष्ट्र, दुर्बल व्यक्ति और निर्धन वर्ग का नाश होगा और उन्हें आगे बढ़े हुए राष्ट्र, प्रबल व्यक्ति, सधन वर्ग की आर्थिक और राजनैतिक गुलामी में पड़े रहना पड़ेगा।" परन्तु यह स्पष्ट सत्य नैपोलियन को पराजित करनेवाले और इस कारण 'निर्वीरुमुर्वीतलम्' करने का अभिमान रखनेवाले ब्रिटिश पूँजावाद को उन्नीसवीं सदी के अन्त तक पटा नहीं। स्वार्थ-अविरोधी ब्रह्मिक स्वार्थ-पोषक मिद्धान्त कायम करके उसका अभिमान-पूर्वक प्रचार करने में इस

युग में ब्रिटिश पूँजीवाद ने अपूर्व सफलता प्राप्त की है। परन्तु १६ वीं सदी के मध्य से जर्मनी और अमरीका इन औद्योगिक प्रगति में पिछड़े हुए राष्ट्रों में राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र का उदय हुआ। उसने सरञ्जक जकात के सिद्धान्त का प्रतिपादन जोरों से किया। इस अर्थशास्त्र का रहस्य स्वर्गीय रानडे ने बहुत खूबी से बतलाया है—“बुद्धि और साधन जहाँ समान हों वहाँ ऐसी स्वतंत्रता देने में हर्ज नहीं, परन्तु जहाँ ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ ऐसी भाषा बोलना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। मुठ्ठा भर प्रचल और बहुसंख्यक गर्जमन्दों में उत्पत्ति का विभाजन करते समय भी इसी सिद्धान्त का अर्थात् न्याय और सम-बुद्धि का अवलंबन करना चाहिए और जीवन के तमाम व्यवहारों में पुराने अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को निर्दोष न मानकर उनपर पुनर्विचार करना आवश्यक है।” पूँजीपतियों के मुकाबले में सरकार को निर्धन मजदूरों का पक्ष लेकर उन्हें क्यों सहायता करनी चाहिए, यह इससे अच्छी तरह समझ में आ सकता है।

परन्तु अब तो इससे भी आगे जाने का समय आ गया है; क्योंकि आज अर्थशास्त्रीय जगत् में नियोजित आर्थिक संगठन, समाजवाद और स्वयंपूर्ण प्रदेश — इस प्रकार के नवीन विचार संचार कर रहे हैं और उन सबका मन्थन करके नवीन राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पाया डालने की जरूरत है। अब जब कि गांधीवाद और समाजवाद का उदय हो गया है और औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समान व न्यायोचित विभाजन के प्रश्न देश के सामने आ रहे हैं, रानडे का अर्थशास्त्र इनका हल ढूँढने में असमर्थ साबित होता है।

“हिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का महज राजनैतिक प्रभुत्व ही नहीं है, बल्कि औद्योगिक प्रभुत्व भी स्थापित हो गया है और यह प्रच्छन्न औद्योगिक प्रभुत्व देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके कारण राष्ट्रीय जीवन को सब शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और वह देश अपंग हो जाता है।” यह सिद्धान्त रानडे ने सबसे पहले लोगों के सामने रक्खा और यह आज भी सही है। फिर भी राष्ट्र-पितामह दादाभाई-द्वारा प्रतिपादित यह सत्य हमारे सामने सदैव बना रहना चाहिए कि एक देश

का दूसरे देश पर जो औद्योगिक प्रभुत्व हो जाता है उसका मूल कारण राजनैतिक प्रभुत्व है। इसका अर्थ यह कि आज के व्यापारियों और औद्योगिक युग में राजनैतिक साम्राज्यशाही का परिणाम औद्योगिक प्रभुत्व में होता है और इसलिए यह साम्राज्यशाही पहले की सामन्तशाही से परिणाम में अधिक भयावह है। इस कारण जो देश पहले के अनेक सामन्तशाही साम्राज्य से बच रहा वही इस औद्योगिक साम्राज्य के ५०-७५ साल में ही मौत की तरफ जाने लगा ! जो देश खेती और उद्योग-धन्धों दोनों में प्रसिद्ध था, वही महज कृषि-प्रधान रह गया और जिस देश का पक्का माल यूरोप में खपता था उसपर अपने कच्चे माल को परदेश से पक्का बनवाकर लाने की नौबत आ गई ! ब्रिटिश राजनीति का और राजनैतिक लूट का यह अपरिहार्य परिणाम था और इसलिए ऐसे देश में स्वभावतः ही राजनीति का प्रधानता मिलने लगी। १८८० में ही दादाभाई ने लिखा था—“लोग अब राजनीति में अधिकाधिक डूबने लगे हैं।”

हिन्दुस्तान में वैध राजनीति की बुनियाद डालने का श्रेय रानडे को है। देश में कानून की प्रस्थापना कर्मा शासकों का धर्म है और उसका चुपचाप पालन करना प्रजाजनों का धर्म है; यह उनकी राजनीति का प्रमुख सूत्र है। ब्रिटिश शासक भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार करें और भारतीय ब्रिटिश-साम्राज्य के प्रति बफादार रहें यह उनका मत था; क्योंकि वे मानते थे कि कानून और शान्ति का राज्य स्थापित करने के लिए हो ईश्वर ने अंग्रेजों का यहाँ भेजा है। मनुष्य-नीति के मव व्यवहारों में न्याय की स्थापना करना और वश-भेद या श्रद्धाभेद (धर्म-भेद) न रखते हुए सबको समान दर्जा देना—इसे वे प्रागतिक तत्व (Spirit of Liberalism) कहते थे। अंग्रेज अधिकारियों ने १८३३ में ईस्ट इंडिया कम्पनी का सनद देते हुए जो कानून बनाया उसमें इस तत्व को माना है। और बाद में १८५८ में रानी की घोषणा में भी इसका समर्थन किया गया है इसलिए रानडे इत्यादि इसे भारतीय प्रजा का ‘मेगनाचार्ट’ मानते थे। इस सनद के अनुसार अंग्रेजों की तरह यहाँ भी प्रातिनिधिक शासन-प्रणाली जारी हो और ब्रिटिश छत्रच्छाया में हिन्दुस्तान

को माण्डलिक (औपनिवेशिक) स्वराज्य मिले यह रानडे का अन्तिम राजनैतिक ध्येय था। मगर १८८० से ही पूना में चिपलूणकर, आगरकर, तिलक आदि का तरुण राष्ट्रीय पक्ष बन रहा था और उन्हें मांडलिक स्वराज्य का ध्येय उस्ताह-वर्धक नहीं मालूम होता था। १८८२ में चिपलूणकर पर लिखे मृत्युलेख में आगरकर लिखते हैं— 'कभी-कभी उनका कल्पना-विहंग जब आकाश में ऊँची उड़ानें भरने लगता तब उन्हें हिन्दुस्तान स्वतंत्र और प्रजासत्ताक शासन-प्रणाली में सुख से भ्रूमता हुआ दिखाई देता।'

रानडे प्रागतिक तो थे ही पर वैध-मार्गी भी थे। उनके वैध मार्ग का अर्थ था—बहुत दूर के ध्येय की तरफ ध्यान न देते हुए एक दम आगे देखकर चलना और इसमें समझाने-बुझाने तथा देन-लेन की समझदारी से काम लेना। वे क्रान्तिकारक विचारों को नापमन्द करते थे और उन्हें बिल्कुल अवसर न दिया जाय ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी। सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक किसी भी क्षेत्र में क्रान्ति का विचार उन्हें सहन न होता था। उनके पट्टशिष्य गोखले और गोखले के शिष्य माननीय शास्त्री ने भी अपने भाषणों में कानून के राज्य को धक्का न लगाने पड़े ऐसा ध्वनि प्रकाशित की है। और यही कारण है जो न्याय-स्थापना अथवा सत्यनिष्ठा के लिए कानून भंग करने का सिद्धान्त रखनेवाले महात्मा गांधी भारत-सेवक-समाज के सदस्य न बन सके।

मगर दादाभाई अथवा ह्यूम, इनका खयाल रानडे से भिन्न था। ये भी राज्य-क्रान्ति नहीं चाहते थे मगर उन्हें यह भय था कि ब्रिटिश राजनीति के कारण हिन्दुस्तान में जो भयंकर दरिद्रता फैल रही है उससे यहाँ राज्य-क्रान्ति अवश्य हो जायगी। इसे मद्देनजर रखकर ये लोग जो कुछ कहते थे और प्रचार करते थे वह शासकों को गरम और राजद्रोही मालूम होता था। उनके इसी रुख में से पहले महाराष्ट्र में और फिर सारे हिन्दुस्तान में गरम राजनीति का जन्म हुआ। इसके चिह्न दिखाई देते ही रानडे ने 'सार्वजनिक सभा' में भिन्न 'डेकन सभा' कायम की। कुछ समय तक कांग्रेस के सब सूत्र इन्हीं के पक्ष के हाथ में रहे। बाद में वह लोकमान्य के गरम दल के हाथ में चली गई तब रानडे पक्ष ने 'प्रागतिक पक्ष' नामक संस्था खड़ी की।

एक ओर रानडे अपने वैध - मार्गी से लोगों के अंदर अखिल भारतीय संयुक्त राज्य, उत्तरदायित्व के अधिकार, ब्रिटिश राष्ट्र के बराबर का दर्जा और भारतीय पार्लामेंट, इत्यादि भावनाओं के बीज बोते रहे और दूसरी ओर, १८७६ में, वासुदेव बलवंत फडके ने नगर नासिक, खान-देश के रामोशी और भीलों की सहायता से लोक - सत्ता की स्थापना करने का एक क्रान्तिकारी प्रयत्न किया ।

: ५ :

कांग्रेस का जन्म और प्रचार

“जब कि लार्ड लिटन ने शाही दरवार में बैठे हुए यह घोषणा की थी कि इंग्लैंड की रानी अब भारत की सम्राज्ञी के पद पर प्रतिष्ठित हुई हैं, उसके बीस वर्षोंके अन्दर ही उसी स्थान और उन्हीं दिनों में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म हुआ ।”

—लाला लाजपतराय

एक ओर महाराष्ट्र में १८७५ से १८८२ तक चिपलूणकर, आगरकर और तिलक ने नवीन युग प्रवर्तित किया तो दूसरी ओर बंगाल में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने और रामकृष्ण मिशन ने, पंजाब में आर्य समाज ने और मद्रास में थियोसोफी ने राष्ट्रीयता का एक नया युग स्थापित किया । इस समय यद्यपि नरम दल का प्राधान्य था तथापि गरम दल धीरे-धीरे उदय हो रहा था और फडके-जैसे सशस्त्र - क्रान्ति चाहनेवाले लोग भी थे । जनता की दरिद्रता और फाकेकशी को देखकर उनके हृदय को बड़ी पीड़ा होती थी और उससे उसका एवं राष्ट्र का उद्धार करने के लिए ब्रगावत के सिवा उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं सुझाई देता था । अंग्रेज राजनीतिज्ञों को यह भी डर होने लगा कि हिन्दुस्तान में जबर्दस्त राज्य-क्रान्ति हो जायगी, यदि समय पर उसकी रोक न की गई । इसे बचाने के लिए हिन्दुस्तानी देश - भक्त और कुछ अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने बम्बई में २७ दिसम्बर १८८५ ईसवी को कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें एक ओर ह्यूम, वेडरबर्न और दूसरी ओर दादाभाई, रानडे, बनर्जी, बोस, और

तैलंग मुख्य थे। सहयोग और साम्राज्य-निष्ठा की नींव पर वैध आंदोलन के आधार पर कांग्रेस कायम हुई।

कांग्रेस की स्थापना के पहले एक-दो अ० म० आन्दोलन हो चुके थे। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के 'इंडियन एसोसियेशन' ने सिविल सर्विस-परीक्षा के बारे में आन्दोलन उठाया था। वे उम्मीदवारों की उम्र २१ के बजाय १६ वर्ष चाहते थे। इसका वाद ही सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को १८८३ में अदालत की तौहीन के अपराध में दो महीने की सादी कैद की सजा हुई। इधर महाराष्ट्र में इन्हीं दिनों तिलक-आगरकर को चर्चे प्रकरण में तीन-तीन महीने की सादी सजा मिली। इससे बंगाल और महाराष्ट्र में इन लोगों का प्रभाव काफी बढ़ गया। बनर्जी ने एक और आंदोलन भी उठाया जिसका संबंध था फौजदारी मामलों में वर्ण-भेद नष्ट करने के लिए पेश हुए इलवर्ट बिल से। सुरेन्द्रनाथ ने इस बिल का समर्थन किया। इन आन्दोलनों के संबंध में अंग्रेजों ने जो रुख अख्तियार किया उसने दिखा दिया कि अंग्रेज लोगों और हिन्दुस्तानियों के दिलों में मेल बैठना मुश्किल है।

बम्बई कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सारे देश के ७२ प्रतिनिधि आये थे। उमेशचन्द्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। वे ईसाई थे। उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया था कि हिन्दुस्तान में लोकसत्ता राज्य-पद्धति कायम करने के मानी ब्रिटिश साम्राज्य का द्रोह हर्गिज नहीं है। इस अधिवेशन का काम तीन दिन चला और नौ प्रस्ताव पास हुए।

पहला प्रस्ताव हम आशय का था कि शासन-व्यावस्था की जांचके लिए एक रॉयल कमीशन मुकर्रर किया जाय। एक प्रस्ताव का धारा-सभाओं में बड़ी तादाद में लोकनियुक्त प्रतिनिधि लिए जायँ, बजट धारा-सभाओं में पेश किये जायँ, आदि था। एक प्रस्ताव के द्वारा इंडिया कांसिल गढ़ करने की माँग की गई थी। एक प्रकार से ये प्रस्ताव अनियंत्रित पद्धति को मिटाने लोक-प्रतिनिधियों का प्रवेश शासन-कार्य में हो, इस दृष्टि में किये गये थे। इन माँगों का पूरा होना तो दूर, धारा सभा में लोक-नियुक्त प्रतिनिधियों के प्रवेश १९०६ के लिए तक राह देखनी पड़ी। लेकिन तबतक भारतीय नेताओं का वध-मार्ग से विश्वास हट

चुका था और देश में निःशस्त्र-क्रान्तिवादी और सशस्त्र क्रान्तिवादी ये दो नये दल हो गये थे। इसके बाद यहाँ की नौकरशाही में हिंदुस्तानियों का अधिक प्रवेश हो, सिविल सर्विस परीक्षा हिन्दुस्तान में हो, सैनिक खर्च न बढ़ाया जाय, भारत सरकार के कर्ज की जिम्मेदारी साम्राज्य-सरकार ले, इत्यादि प्रस्ताव पास हुए हैं। फिर भी कांग्रेस के आठ साल मुख्यतः पूर्वोक्त सुधार कराने के प्रयत्न में गये। १८६३ में लार्ड क्रॉस का इंडियन कॉंसिल बिल कानून बनकर सामने आया जिससे भारतीय नेताओं को विश्वास हो गया कि अब दस-बारह साल तक किसी सुधार की आशा नहीं। इस कानून में लोक-नियुक्त प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं दिया गया था। इन सुधारों के थोड़े ही दिनों के बाद गरम-नरम दो दल बन गये, हिंदू-मुसलमानों के दंगे शुरू हुए और कांग्रेसने शासन-सुधार का आन्दोलन बन्द कर दिया। वह लोकमत प्रदर्शित करनेवाला वार्षिक सम्मेलन मात्र रह गई। गरम दल के लोग नौकरशाही के रोग के शिकार बनकर राजद्रोह के अपराध में जेल की हवा खाने चले गये। यह गरम-नरम राजनैतिक मतभेद, हिंदू-मुसलमानों के दंगे और गरमदल वालों के कारावास की घटनाएं बम्बई-पूने में हुईं इसलिए इनकी तरफ सारे राष्ट्र का ध्यान अपने-आप चला गया।

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ते में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तीसरा मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में, हुआ। पहले अध्यक्ष ईसाई, दूसरे पारसी और तीसरे मुसलमान — यह देखकर नौकरशाही के मन में कांग्रेस का द्वेष और डर पैदा होने लगा। मद्रास-अधिवेशन के बाद कांग्रेस की बढ़ती हुई लोक-प्रियता को देखकर ह्यूम साहब ने तय किया कि उसे इंग्लैंड का 'एटी कान ला-लांग' की तरह लोगों में आन्दोलन करनेवाला संस्था का रूप दिया जाय। उन्होंने अपने भाषणों में 'भारत माता' की पवित्र भूमि में रहनेवाले प्रत्येक भारतीय से सहकारी, भाई, और आवश्यकता पड़ने पर सैनिक, बनने की आशा प्रकट की। कांग्रेस के द्वारा आन्दोलन और लोक-जागृति करने की इस नीति से सरकार में और उसमें विरोध पैदा होने लगा। १८८६ में तो कलकत्ते में दूसरे अधिवेशन के बाद खुद लार्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों

को एक 'वनभोजन' दिया था और मद्रास अधिवेशन में ता वहाँ के गवर्नर गये भी थे ; परंतु चौथे अधिवेशन के समय इलाहाबाद में मंडप के लिए जगह भी न मिल सके, ऐसी कार्रवाई सरकारी अधिकारियों ने शुरू कर दी । अधिवेशन में आनेवाले प्रतिनिधियों पर रुकावटें लगाने और कार्यकर्त्ताओं से जमानतें लेने की कार्रवाई शुरू की गई । पंजाब में ५-६ हजार लोगों से जमानत-मुचलके मांगे गये । इस विरोध से कांग्रेस का लोक-प्रियता बढ़ने लगी । इस अधिवेशन में १२४८ प्रतिनिधि आये थे और कलकत्ते के यूरोपियन व्यापारी मि० यूल अध्यक्ष के स्थान पर थे । अपने भाषण में उन्होंने प्रातिनिधिक राज्यपद्धति का समर्थन किया और लार्ड पामस्टन की प्रातिनिधिक योजना अमल में न आये तबतक इंग्लैंड को चाहिए कि वह अपने को हिन्दुस्तान का ट्रस्टी समझकर राजपाट चलावे, ऐसा विचार उन्होंने प्रकट किया ।

इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस के प्रधान मंत्री ह्यूम और युक्तप्रान्त के गवर्नर सर आँकलैंड कोलविन में पत्रव्यवहार भी हुआ ! सर आँकलैंड ने बताया कि सरकार और अधिकारी वर्ग के विरुद्ध जो आप कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और विरोधी प्रचार करते हैं उससे द्वेष फैलने और विरोधी पक्ष खड़े हो जाने की संभावना है । इससे बेहतर है कि आप राजनैतिक सुधार की अपेक्षा समाजिक सुधार की तरफ ही कांग्रेस को ले जायें । इसके जवाब में ह्यूम साहब ने लिखा कि हम तो अंग्रेज सरकार के प्रति द्वेष नहीं प्रेम ही फैलाते हैं । हाँ, अत्याचारों का निषेध अवश्य ही करते हैं । विरोधी प्रचार तो यहाँ के सुट्टी भर अधगोरे कर रहे हैं । देहात के लोगों में शासन-व्यवस्था के प्रति बहुत असन्तोष है । दुःख और अन्याय उनके लिए अब असह्य हो गया है और उसे मिटाये बिना भावी संकट अब टल नहीं सकता ।

शासकों के इस रोप की परवाह न करते हुए ह्यूम साहब ने अपना काम जोरों से जारी रक्खा । इधर दादाभाई ने इंग्लैंड में पार्लामेंट के सदस्यों को सहानुभूति प्राप्त की और वहाँ धारा-सभा के सुधार के लिए एक त्रिल पार्लामेंट में लाने का उद्योग किया । जॉन ब्राइट, फॉसेट और चार्ल्स ब्रेडलॉ पार्लामेंट के ये सदस्य कांग्रेस के साथ बड़ी सहानुभूति रखने

जागे। ब्रेडलॉ १८८६ के बन्धनवाले अधिवेशन में आये भी थे और उन्होंने एक भाषण भी दिया था। इस वर्ष मि० वेडरवर्न अध्यक्ष थे। इसके बाद का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ जिसका अध्यक्ष पद फीरोजशाह मेहता ने स्वीकार किया था। इस समय यह हुकम निकाला गया कि कांग्रेस में सरकारी अधिकारी दर्शक के तौर पर भी न जायें। एक डेपुटेशन इंग्लैंड भेजने का प्रस्ताव पास हुआ और १८६३ वाला अधिवेशन इंग्लैंड में ही किया जाय ऐसा प्रस्ताव हुआ। इसपर से मि० ह्यूम को यह सूझा कि फिलहाल कुछ साल तक हिन्दुस्तान में कांग्रेस का अधिवेशन ही रोक दिया जाय, और इंग्लैंड में शुरू कर दिया जाय। इस आशय का एक परिपत्र भी उन्होंने निकाला। इसपर कांग्रेस के नेताओं में बड़ी चर्चा हुई। नरमदल वालों को वह राजद्रोह की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। नागपुर में आखिर इसका निर्णय करने के लिए भागत के बहुत से प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं का एक मंडल नियुक्त किया गया जिसने अन्त में यह फैसला दिया कि कांग्रेस के अधिवेशन जारी रहें; परन्तु उसे मि० ह्यूम जो आन्दोलनकारी रूप देना चाहते थे, वह न हुआ और केवल वार्षिक सम्मेलन होते रहे।

इससे पूना के युवक दल के नेता तिलक और आगरकर को बहुत चुरा लगा और उन्होंने उस परिपत्र का आशय अखबारों में छापकर अपने पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की चुनौती सरकार को दी। अन्त में निराश होकर ह्यूम साहब विलायत चले गये। उनका किसी ने साथ न दिया। पूना के सिर्फ दो युवक देशभक्तों ने उनका समर्थन किया— तिलक और आगरकर ने। इनमें से आगरकर तो जल्दी ही स्वर्गवासी हो गये और लोकमान्य तिलक पर कांग्रेस को आन्दोलनकारी संस्था बनाने का भार आ पड़ा। ह्यूम और दादाभाई के समय आरम्भ के १०-१२ वर्षों में जो उत्साह कांग्रेस में रहा, वह बाद के मेहता और वाचा युग के १०-१२ वर्षों में नहीं रहा और युवक वर्ग पर यह असर पड़ता रहा कि कांग्रेस सरकारी रोप के सामने दब गई।

आरम्भ के दस अधिवेशनों में कांग्रेस पर दो संकट आये। एक

सरकार के रोष का और दूसरा हिंदू-मुसलमानों के दंगों का, और उसके पहले पड़ा सिर्फ १८६३ का खोखला सुधार-कानून। फिर उस समय की हालत को देखते हुए, यही कहना होगा कि कांग्रेस की यह प्रगति सन्तोषजनक थी। यहाँ से अब अर्थात् १८६५ के बाद महाराष्ट्र लोकमान्य तिलक का स्वतंत्र राष्ट्रीय दल कायम हुआ। बाद में वह सब जगह फैला। इसके आगे का राजनैतिक घटना-क्रम देने के पहले १८७५ से १८६५ तक २० साल में सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति के संबंध में कौन-कौन से नये विचार-प्रवाह भारतीय वातावरण में संचार कर रहे थे, इसका विचार कर लें।

: ६ :

भारतीय संस्कृति का तत्वमंथन

“हमारा मनुष्यत्व मुक्त हेना चाहिए, हमारी अशाएं ऊँची उठलनी चाहिएँ, कर्तव्यपालन में कभी गलती न करनेवाली श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, सबसे समदृष्टि से व्यवहार करनेवाली न्यायबुद्धि प्रज्वलित होनी चाहिए, बुद्धि पर आये हुए सब बादल विखर जाने चाहिएँ और सब प्रकार के बांधों से मुक्त होकर हमारे प्रेम की गंगा बहने लगनी चाहिए—तभी हिन्दुस्तान को नवजीवन प्राप्त होगा और संसार के अन्य राष्ट्रों में अपना योग्य स्थान प्राप्त करके यह देश अपनी परिस्थिति पर और भविष्य पर अपना प्रभुत्व जमा सकेगा।...उस समय अकाल और रोग, जुल्म और दुःख ये बातें सिर्फ दंत-कथा रह जायंगी और जिन पुराणों को हम आज केवल दंत-कथा कहते हैं उसी पुराण-काल के अनुसार पुनः भगवान इस भूमि पर अवतार लेंगे और वे मानव समाज में संचार करने लगेंगे।”

— न्या० रानडे

“ज्यों-ज्यों बुद्धि का विकास होता जाता है और कार्य-कारण का सम्बन्ध अच्छी तरह समझ में आने लगता है, त्यों-त्यों प्राथमिक और पौराणिक कल्पना मिथ्या प्रतीत होने लगती है और भूत, पिशाच, देव-दानव आदि महज कल्पना से उत्पन्न की हुई शक्तियों की असत्यता की प्रतीति होती है, पूजा व प्रार्थना का जोर कम होता है और कुछ समय सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करके उसका परिपालन व नाश करनेवाले एक परमात्मा की कल्पना उद्भूत होती है; लेकिन, आगे चञ्चक

वेदांत-विचार के कुंड में प्रज्वलित हुई अग्नि में द्रव्य भी भस्म हो जाता है और 'अहं ब्रह्माऽस्मिन्' यही अनिर्वचनीय विचार पीछे रह जाता है ! व्यक्ति के और राष्ट्र के धर्म-विचारों की यह पराक्रांता है ।”

—गो. ग. आगरकर

“इस वनह से काम, बुद्धि (ज्ञान) और प्रेम (भक्ति) इन तीनों का विरोध नष्ट होकर सारे जीवन को यज्ञमय करने का प्रतिपादन करनेवाला गीताधर्म सारे वैदिक धर्मों का सार है । यह नित्यधर्म पहचानकर सिर्फ कर्तव्य समझकर प्राणी मात्र के हित के लिए महान् उद्योग करनेवाले और पुरुषार्थी पुरुष जब इस भारत-भूमि को अलंकरण करने थे तब वह देश परमेश्वर की कृपा का पात्र था । और ज्ञान के ही नहीं ऐश्वर्य के भी शिखर पर पहुंचा हुआ था; और जब यह दोनों जगह श्रेयस्कर पूर्वक धर्म छूट गया तबसे अस्की हालत गिरने लगी ।

—लो. तिलक

१८७५ ई० से १८६५ ई० तक के समय में हिंदुओं का अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का पता चला । पहले जो पश्चिमी सभ्यता के प्रकाशन से नुशिक्षित लोगों की दृष्टि चौंधिया गई थी अब वह स्थिति बदल गई थी और उनमें अपनी कार्य-शक्ति का आत्मविश्वास और अपने राष्ट्र के भविष्य के सम्बन्ध में उज्ज्वल आशा प्रतीत होने लगी । १८७५ के पहले के हम लोगों के और उसके बाद के देशभक्त कार्यकर्ताओं के उद्गारों में वहां मुख्य अन्तर दिखाई देता है । इस समय जो-जो नई इलचलें उत्पन्न हुईं वे सब इसी नये आत्मविश्वास पर अधिष्ठित थीं । पुगनी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को भी यह नया दृश्य देखकर अपने राष्ट्र के भविष्य के बारे में आशा होने लगी । पराधीनता के आघात से मूर्च्छित इस खडगुल्य प्रचण्ड राष्ट्र में नव चैतन्य का संचार होने लगा । अपनी स्वतन्त्रता की झलक उसे दिखाई पड़ने लगी । इस नवजीवन और नूतन आशावाद के समय में लोक-जागृति करनेवाले भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय पैदा हुए और उनके द्वारा आधुनिक भारत के मन पर भिन्न-भिन्न संस्कार पड़ने लगे ।

महाराष्ट्र में विष्णुशास्त्री चिपलूणकर ने १८७४ में निवन्धमाला शुरू करके एक नवीन स्वाभिमानी राष्ट्रीय विचार-सम्प्रदाय उत्पन्न किया । उसीको आगे बढ़ाकर लोकमान्य तिलक और इतिहासकार्य राजवाड़े

ने महाराष्ट्रीय इतिहास की पार्श्वभूमि पर आधुनिक भारत का चित्रपट खींचने की शुरुआत की। इस सम्प्रदाय की सामाजिक सुधार-सम्बन्ध तात्विक भूमिका लोकमान्य के शब्दों में इस प्रकार है—“जबतक स्वतंत्रता का अथवा राष्ट्रीयता का अभिमान या तेज कायम और जागृत है तबतक समाज-रचना में कुछ दोष भी हो तो राष्ट्र की उन्नति अथवा उत्कर्ष में बाधक नहीं होता। इसलिए (विशिष्ट) समाज-रचना की अपेक्षा लोगों में अपनी संस्थाओं और अपने देश के प्रति अभिमान जागृत रखने की चेष्टा प्रत्येक देशभक्त को करनी चाहिए। इसीको हमने स्वाभिमानी राष्ट्रवाद नाम दिया है। इसका आधार सामान्यतः वर्णाश्रम-धर्म है और महाराष्ट्र के इतिहास में इसीको महाराष्ट्र-धर्म कहा गया है। भगवद्गीता और दासबोध इस राष्ट्रवाद या राष्ट्रधर्म के आधार हैं। शिवाजी महाराज इस धर्म के आराध्य देव और भगवान श्रीकृष्ण का प्रवृत्ति-परक कर्मयोग और शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धान्त और सनातन धर्मनिष्ठा यह परस्परप्राप्त संस्कृति-धन है। इसे सामाजिक सुधार तो अभीष्ट है; परन्तु इसका यह मत है कि हमारी संस्कृति का पाया पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ तत्वों पर डाला गया है और इसने महाराष्ट्र में यह श्रद्धा पैदा की है कि सारे जगत् का मार्ग-दर्शन करने का सामर्थ्य भारतीय संस्कृति में है। महाराष्ट्र में गरम राजनीति को इसी सम्प्रदाय ने व्यापक किया है और इसी पक्ष के धुरन्धर नेता लो० तिलक ने प्रगति दल से हटाकर कांग्रेस को गरम राष्ट्रीय दल के हाथों में सौंप दिया।

महाराष्ट्र के राष्ट्रवाद के इतिहास में आगरकर का भी खास स्थान है। १८८० से १८९५ तक उन्होंने शुद्ध विवेकवाद के आधार पर उग्र राष्ट्रीयता के निर्माण करने का प्रयत्न किया है। उन्हें अगर सब बातों में पश्चिमी लोगों की नकल करना अर्थात् एक प्रकार की देशाभिमान-शून्यता पसन्द न थी, तो सब पूर्वोक्त बातों के समर्थन करने का देशाभिमान भी पसन्द नहीं था। वे कहते थे कि सच्चा मार्ग दोनों के बीच का है। उनका मत था कि हमारी मूल प्रकृति अर्थात् भारतीय आर्यत्व को न छोड़ते हुए नवीन पश्चिमी शिक्षा और उसके साथ आनेवाले नवीन

विचारों को उचित तौर पर अगीकार करने में ही हमारा भला है ।

इसी समय बंगाल, पंजाब और मद्रास के प्रांतों में भी एक प्रकार की विचार-क्रान्ति हो रही थी और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता, वेदान्त-विचारों की महत्ता, वर्णाश्रम-धर्म के समाज-धारणा के लिए उपयोगी तत्व, इनको सब जगह प्रधानता मिल रही थी । बंगाल का रामकृष्ण मिशन, पंजाब का आर्य समाज और मद्रास की थियॉसाफी—ये सब विचार-संप्रदाय भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता पर आधारित थे ; परन्तु महाराष्ट्र और दूसरे प्रांतों की विचार-जागृति में एक बड़ा अंतर था । महाराष्ट्र में जैसे लोकमान्य समाज-सुधार को अप्रधानता देकर राजनैतिक आन्दोलन को प्रधानता देने और आगरकर-जैसे शुद्ध बुद्धिवाद के आश्रय पर सर्वांगीण सुधार का समर्थन करनेवाले नेता थे वैसे दूसरे प्रांतों में नहीं थे ।

यहाँ पर यह साफ कर देना जरूरी है कि इस सुधार के मामले में रानडे और आगरकर पक्ष के मत तत्त्वतः त्रिस्तुल्य भिन्न थे । रानडे अद्वैत-वाद और बौद्धमत को नास्तिक मत समझते थे और इसलिए अपने प्रार्थना समाज को उन्होंने ब्रह्म समाज नाम न देने दिया । इसका कारण उन्होंने यह बताया कि ब्रह्म शब्द से वेदान्तियों के निर्गुण परब्रह्म का बोध होता है इसलिये हमारे द्वैत अथवा विशिष्टाद्वैत विचारों के लिए प्रार्थना समाज नाम अधिक मौजूं होगा । उनका मत था कि अपनी परम्परा को न छोड़कर प्रचार करना चाहिए । हिंदू संस्कृति में जिस तरह गौतम बुद्ध और शंकराचार्य दो महान् विभूतियाँ प्राचीन समय में हो गईं, उसी तरह महाराष्ट्र में आधुनिक समय में आगरकर और तिलक ये दो महान् विभूतियाँ हुईं हैं । बुद्ध और शंकराचार्य दोनों प्रखर बुद्धिवादी थे ; पर एक ने वैदिक परम्परा और वर्ण-व्यवस्था पर प्रकट आक्रमण किया और बुद्धिवाद के आश्रय से निरीश्वरवाद की मंजिल तक पहुँचे और दूसरे ने अद्वैत वेदान्त का आश्रय लेकर मायिक ईश्वर का अस्तित्व मान्य करके वैदिक परम्परा और वर्ण-व्यवस्था को धक्का न पहुँचाते हुए हिन्दू संस्कृति का उद्धार किया । आगरकर का पंथ गौतम बुद्ध के प्रयत्न की तरह था और तिलक का प्रयत्न शंकराचार्य की तरह था । आगरकर का बुद्धिवाद

जैसा तिलक को सूचिकर न हुआ उसी प्रकार वह रानडे को भी पहले से मान्य न था। रानडे की राजनीति भी श्रद्धा-युग की थी और उन्हें परम्परा भंग होने की अपेक्षा भी राजशासन भंग होने की भीति अधिक मालूम होती थी। आगरकर की स्वतंत्र बुद्धि कहती थी कि जरूरत पड़ जाय तो परम्परा और राज्य-शासन दोनों का उल्लंघन करके हमें अपनी सत्यनिष्ठा कायम रखनी चाहिए। अपनी इसी स्वतंत्र बुद्धि के कारण आगरकर ने उग्र राजनीति और उग्र समाजनीति का बीजारोपण महाराष्ट्र में किया और तिलक ने सामाजिक और धार्मिक विषय में परंपरा-रक्षण का सिद्धांत स्वीकार करके राजनैतिक विषय में परतंत्रता की परंपरा तोड़ने का उपदेश दिया और अपने प्रखर बुद्धिवाद पर वेदांत का आवरण चढ़ाकर वर्णाश्रम-धर्म की बुनियाद को जरा भी न हिलाते हुए राष्ट्र-निर्माण करने का प्रयत्न किया तथा सारे राष्ट्र की शक्ति और बुद्धि उग्र राजनीति पर केन्द्रित की।

बंगाल में इन्हीं दिनों कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर के मन्दिर में एक महान् विभूति आकर रही थी जिसने वहाँ के लोगों का ध्यान ब्रह्म समाज की ओर से अपने वेदान्त की तरफ खींच लिया। वे थे रामकृष्ण परमहंस। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज में महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर और केशवचन्द्र सेन ये दो प्रसिद्ध नेता हुए। १८४२ में देवेन्द्रनाथ और १८५७ के बाद केशवचन्द्र सेन आगे आने लगे। केशवचन्द्र ने ब्रह्म समाज को ईसाई धर्म की तरफ झुकाया और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नामक स्वतंत्र शाखा १८६६ में स्थापित की। तब पुराने ब्रह्मसमाज का नाम 'आदि ब्रह्म समाज' पड़ गया। आदि ब्रह्म समाज का झुकाव भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की तरफ है और उसका यह विश्वास है कि पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के मेल से ही वास्तविक मानव-सुधार होगा। कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथ इस ब्रह्म समाज की आधुनिक भारत को बहुमूल्य देन है और महात्मा गांधी के बाद संसार में भारत की कीर्ति फैलाने में उनकी विभूतिमत्ता कारण हुई। वे जैसे सर्वश्रेष्ठ कवि थे वैसे ही तत्वज्ञ भी थे और उनके तात्विक धर्म-प्रवचन भक्तिरस से लज्जालत्र और औपनिषदिक ज्ञान से भरे हुए होते थे। पश्चिमी लोगों की संकुचित

राष्ट्रभावना से उत्पन्न साम्राज्यवाद, भौतिक सुखों के लिए उनकी अमर्याद तृष्णा, पूँजीवाद का संगठित लोभ और सैनिकवाद की संगठित हिंसा इस यूरोपीय संस्कृति का अंधानुकरण न करो। दूसरी तरफ अपनी संस्कृति की प्राचीन आध्यात्मिक भूमिका को छोड़कर जापान की तरह पश्चिमी जड़वादी और हिंसक न बनो। यह सन्देश वे भारतवर्ष को दे रहे थे।

१८७५ के बाद केशवचन्द्र सेन खुद भी परमहंस से प्रभावित हुए और बाद में नरेन्द्रनाथ दत्त जो कि नास्तिक थे और स्पेन्सर के अनुयायी थे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आये। उन्होंने परमहंस से पूछा, “क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा देंगे?” उन्होंने उत्तर दिया “हाँ”। तब नरेन्द्रनाथ उनके शिष्य हो गये, जो बाद में स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए। परमहंस के प्रसाद से उन्हें यह निश्चय होता गया कि भारतवर्ष में परमेश्वर-प्राप्ति का भी एक अनुभवगम्य शास्त्र है और इस अध्यात्मशास्त्र के सिद्धान्त भी भौतिक शास्त्र की तरह प्रमाण-सिद्ध और अनुभवगम्य हैं। वह धर्म-ब्राह्म विधि-विधानों की या कर्मठता की कवायद नहीं है; बल्कि आत्म-साक्षात्कार का विषय है और आत्म-साक्षात्कार ही सब धर्मों का साध्य है। उनके बहिरंग कैसे ही विविध बल्कि विरोधी क्यों न दिखाई दें; परन्तु वास्तविक धर्म एक ही है और भिन्न-भिन्न धर्म उसी एक विश्वधर्म के विशिष्ट सम्प्रदाय अथवा पंथ हैं। ये दो सिद्धान्त उन्हें अपने गुरु से मिले। १८६३ में शिकागो की सर्व-धर्म-परिषद में वे ‘अहं ब्रह्माऽस्मि’ इस सिद्धान्त पर आधारित अद्वैत तत्वज्ञान की सर्वश्रेष्ठता और उसके आधार पर विश्वधर्म की प्राप्ति का संदेश देने गये। अपने गुरु के स्मारक के रूप में उनका संदेश सारी दुनिया में फैलाने के लिए १८८६ में उन्होंने रामकृष्ण मिशन नामक संस्था स्थापित की। सनातन हिन्दूधर्म के आधार पर व्यापक विश्वधर्म का संदेश दुनिया को देना, लोगों को यह विश्वास करा देना कि अद्वैत वेदान्त भौतिक शास्त्र की प्रगति के कारण मिथ्या नहीं ठहर सकता, भौतिक प्रगति को और प्रवृत्ति-परता को प्रधानता देकर वेदान्त को कर्म-

प्रवण बनाना, ईसाई पादरियों की तरह घर्माचरण में लोक-सेवा को प्रधानता देना और धर्म के आधार पर राष्ट्र-भक्ति और स्वाभिमान की ज्योति जलाकर लोगों में परतंत्रता के विरुद्ध-क्रांति भाव फैलाना—इस प्रकार बहुविध कार्य रामकृष्ण-मिशन ने किया है ।

पंजाब में भी कुछ पहले से विचार-क्रांति हो रही थी । उसका श्रेय आर्य समाज को है । उसके संस्थापक स्वामी दयानन्द का जन्म १८२४ में काठियावाड़ के एक ब्राह्मण-कुल में हुआ । धर्म-प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य-व्रत धारण किया । फिर संन्यास लेकर १८७५ में बम्बई में आर्य-समाज की स्थापना की जिसकी एक शाखा १८७७ में पंजाब में कायम हुई । लाला हंसराज, लाला मुन्शी राम उर्फ स्वामी श्रद्धानन्द और लाला लाजपतराय इन तीन विभूतियों के कारण पंजाब की इस शाखा को बहुत महत्त्व मिला ।

आर्य समाज के सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार हैं—परमेश्वर के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान वेदों में है, इसलिए वेदों का अध्ययन करना हिन्दू मात्र का कर्त्तव्य है । वेदाध्ययन का अधिकार मनुष्य-मात्र को है । वेद आर्यों के पवित्र ग्रन्थ हैं और उन्हें सत्र हिंदुओं को प्रमाण मानना चाहिए । वैदिक काल में मानव-संस्कृति पूर्णविस्था को पहुँची हुई थी और समाज-रचना के सत्र श्रेष्ठ तत्त्व वर्णाश्रम धर्म में हैं । चातुर्वर्ण्य जन्मसिद्ध नहीं, गुण-कर्म पर अवलम्बित होना चाहिए और जिसमें जिस वर्ण के गुण हों उसे उसी वर्ण के अधिकार मिलने चाहिए । आर्यों के वैदिक धर्म का द्वार सत्र धर्म वालों के लिए खुला रहना चाहिए और शुद्धि करके किसी भी धर्म के माननेवाले को वैदिक धर्म में आने की छुट्टी रहनी चाहिए । आर्य धर्म की दीक्षा सारे जगत् को देना यही जगदुद्धार का मार्ग है और आर्यावर्त आर्यों का ही देश है ।

आर्य समाज ने हिन्दू समाज को आक्रामक स्वरूप देने का प्रयत्न किया अर्थात् ईसाई और मुसलमान धर्म-प्रचारकों की कटुता और आक्रामक शक्ति हिन्दू समाज में पैदा करने की कोशिश की । उसी तरह मूर्तिपूजा, बालविवाह, स्त्रियों को गुलामी, जन्मसिद्ध असृश्यता

इत्यादि दोषों पर भी उन्होंने जबरदस्त हमला किया। इसकी वदौलत सुधार-दल में त्याग और सन्यासवृत्ति, लोक-सेवा का व्रत और धर्मनिष्ठा का तेज निर्माण हुआ। आर्य समाज ने राष्ट्रीयता और उग्र राजनीति और हिन्दू समाज की राजनैतिक क्रान्ति-भावना को गति दी थी। इसमें कोई सन्देह नहीं।

स्वामी व्यानंद के निमंत्रण पर थियोसॉफी के दो संस्थापक मैडम ब्लेवे-टस्की और कर्नल अल्कॉट हिन्दुस्तान में आये और उन्होंने वंगई में अपने भाषण में हिन्दुस्तानियों को बताया कि भारतवर्ष का नेतृत्व भारतवासियों को ही करना चाहिए। भारत को अपनी आध्यात्मिक संस्कृति का अभिमान कभी न छोड़ना चाहिए। इसीसे हिन्दुस्तान का सच्चा उद्धार होगा। थियोसॉफी सर्वधर्म-संग्राहक विचार-संप्रदाय है। १८६३ में एनीबेसंट हिन्दुस्तान में आईं। कर्नल अल्कॉट का मुकाबला बुद्धधर्म की तरफ था और मिसेज वेमैट श्रीकृष्ण की भक्त थीं। उन्होंने काशी में सेंट्रल हिंदू कालेज कायम करके हिंदुओं में धर्म-जागृति और राष्ट्रभक्ति पैदा करने का प्रयत्न किया। आखिर में वे राजनैतिक क्षेत्र में भी आईं; परन्तु उग्र राष्ट्रीयता को उनकी तरफ से बहुत सहायता नहीं मिली। फिर भी हिन्दुस्तानियों में अपनी संस्कृति के प्रति अभिमान पैदा करने का काम उन्होंने ठीक-ठीक किया है।

यद्यपि इस तरह भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न महान् व्यक्तियों के द्वारा विचार-क्रान्ति हो रही थी तो भी राजनैतिक क्षेत्र में जो जागृति लो० तिलक के द्वारा हुई उसकी तुलना किसीसे नहीं की जा सकती। उनके पुरुषार्थ से ब्रिटिश सत्ता भी हिल गई। उनके स्वतंत्र राजनैतिक कार्य का प्रारम्भ १८६५ से हुआ। परन्तु ४-५ साल में ही उनकी कीर्ति सारे हिन्दुस्तान में फैल गई और अंग्रेज अधिकारियों ने यह शोर मचाना शुरू किया कि महाराष्ट्र में तिलक दल क्रान्तिवाद का जनक है। इस चिह्नाहट से अथवा सत्ताधारियों ने जो भास उन्हें दिया, उससे उनका बल उल्टे बढ़ता चला गया और १८०५ के लगभग उनके नेतृत्व में हिन्दुस्तान के तमाम युवक देशभक्तों ने एकत्र होकर कांग्रेस को

गरम नीति पर लाने का निश्चय किया ।

लोकमान्य ने सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन के आधार पर जो राष्ट्रीयता निर्माण की उसके कारण उनके जीवन - काल में महाराष्ट्र में अब्राहमण जनता में विशेष राजनैतिक जाग्रति नहीं हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद इसी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का आधार लेकर उनके अनुयायी कहलानेवाले कुछ लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं और यह कहकर विदेशी सत्ता से सहयोग भी करते हैं कि यदि हमारी अपनी संस्कृति की रक्षा न होती हो तो हमें स्वराज्य की भी जरूरत नहीं । इससे यह नतीजा निकलता है कि स्वसंस्कृति का अभिमान हमेशा प्रखर राष्ट्रीय राजनीति का पोषक होगा, यह नहीं कह सकते । यही नहीं बल्कि आज तो ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो पश्चिमी पूँजीवाद को ही अपनी संस्कृति समझकर प्रेम से उसके गले लिपटते हैं और हिंदू संस्कृति के नाम पर फासिद्धम का समर्थन करते हैं । इसके विपरीत हमारी राजनीति में एक ऐसा समाजवादी दल आज हिन्दुस्तान में उदय हो रहा है जो कहता है कि हमारी राजनीति को प्राचीन संस्कृति का नहीं, बल्कि दूसरे देशों के सफल सिद्धान्तों का आधार लेकर क्रान्तिकारक स्वरूप दिया जाय । राष्ट्रीय राजनीति में प्राचीन इतिहास से स्फूर्ति पानेवाले महात्मा गांधी और उसमें आधुनिक जगत् के इतिहास से स्फूर्ति लानेवाले पं० जवाहर लाल नेहरू ये आधुनिक महाराष्ट्र के इतिहास के तिलक और आगरकर के नये अवतार प्रतीत होते हैं । तिलक और आगरकर के समय मिल और स्पेन्सर के सिद्धान्त आ रहे थे, आज मार्क्स और एजल्स के सिद्धान्त आ रहे हैं । मिल-स्पेन्सर के सिद्धान्त में से लोकसत्ता और सामाजिक समता के भावों को अपनाकर हिन्दुस्तान ने आज आत्मसात् कर लिया है । और ऐसा करते हुए भी वह अपनी प्राचीन संस्कृति के अभिमान को धारण किये हुए है । अब इस नवीन समाजवादी तत्वज्ञान की क्या दशा हांगी, यह प्रश्न है । हमारा ख्याल तो है कि इस नवीन तत्वज्ञान को भी हजम करके भारतीय संस्कृति की विशेषता और श्रेष्ठता कायम रहेगी ; परन्तु यह बात इस पुस्तक के अंत में ही पाठकों का समझ में आ सकेगी ।

: ७ :

क्रान्तिकारी राजनीति

“इस तरह हिन्दुस्तान का पहला जन-ग्रान्दोलन दक्षिण में शुरू हुआ। पूना उसका केन्द्र था और तिलक थे उसके जीवनदाता। हालांकि तिलक ने कभी क्रान्तिकारी ग्रान्दोलन में भाग नहीं लिया, परन्तु उन्हीं के लेखों आदि से प्रेरित होनेवाले कुछ लोग बाद में क्रान्तिकारी बन गये और देश में क्रान्तिकारी या आतंकवादी हलचल चलाने का श्रेय या दोष महाराष्ट्र के ही जिम्मे है।”

बंगाल और महाराष्ट्र में अंग्रेजों का संबंध अलग-अलग तरह से हुआ, इसलिए अंग्रेजी राज्य के प्रति दोनों प्रान्तों का रुख शुरू में कुछ अलग-अलग रहा। बंगाल में राजा राममोहन राय को यह प्रतीत होता था कि अंग्रेजी राज्य हिन्दुस्तान के लिए एक ईश्वरीय प्रसाद है इसलिए बंगाल में उन्होंने मुसलमान सूत्रा के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ का सारा व्यापार गोरों के हाथ में चला गया। फिर भी दो-तीन पीढ़ी तक बंगाली यही समझते रहे कि गोरों के सहयोग से हिन्दुस्तान की सर्वांगीण उन्नति हो रही है। महाराष्ट्र में भी शुरू में यही भावना रही। लोकहितवादी और रानडे राममोहन राय के ही पदचिह्नों पर चले; परन्तु शीघ्र ही वहाँ तिलक-आगरकर की उग्र विचार-सरणी लोगों के सामने आई। दादाभाई और ह्यूम के लेखों और भाषणों के आधार पर ऐसे विचार लोगों के सामने आने लगे कि हिन्दुस्तान में दृष्टता दिनों-दिन बढ़ रही है। इसलिए फ्रांस की राज्य-क्रान्ति की तरह वहाँ भी एक प्रचण्ड राज्य-क्रान्ति होगी। तिलक और आगरकर ने राजा और प्रजा, विजित और विजेता के हितविरोध पर जोर देकर उग्र राजनैतिक विचार लोगों में फैलाए। रानडे का वैध सर्वांगीण सुधारवाद, आगरकर का उग्र सर्वांगीण सुधारवाद और चिपलूणकर—तिलक का उग्र राजनीतिवाद,—इस तरह ये तीन स्वतंत्र विचार-प्रवाह

* Landmarks in Indian Constitutional and National Development : by G.M. Singh, page 3002.

महाराष्ट्र में दिखाई पड़ते हैं। १८६५ के पहले १०-१५ साल तक जो विचार-मंथन महाराष्ट्र में हुआ, उसमें इन तीन विचार-प्रवाहों का त्रिवेणी संगम दिखाई पड़ता है। उसके बाद आगरकर के विचारों की सरस्वती गुप्त हो गई और रानडे का वैध प्रागतिक दल तथा तिलक का उग्र राष्ट्रीय दल, ये दो ही दल महाराष्ट्र में रह गए।

परतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्रों में 'राजनैतिक सुधार'—इन शब्दों के अर्थ में बड़ा भेद रहता है। स्वतंत्र राष्ट्र के लोगों के सामने एक विशिष्ट वर्ग के हाथ की सत्ता सामान्य वर्ग के हाथ में ले जाने का सवाल रहता है। इसलिए वे सामान्य जनता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार के सुधारों के अनुकूल रहते हैं। परन्तु परतंत्र राष्ट्र के सामने तो विदेशियों के आक्रमण और गुलामी से छूटने का सवाल मुख्यतः सामने रहता है। उसे हल करने के बाद वे सामाजिक पुनर्गठन का विचार कर सकते हैं। इसीसे स्वतंत्र देश में सामाजिक क्रान्ति के बाद राजनैतिक क्रान्ति के विचार पैदा होते हैं। जैसे इंग्लैंड में १६वीं सदी में एक सामाजिक क्रान्ति हुई, जिससे सामन्त वर्ग पीछे हटा और मध्यम व्यापारी वर्ग आगे बढ़ा। बाद में इस वर्ग ने लोकसत्तात्मक क्रान्ति की। इसी तरह १८वीं सदी के मध्य से १९वीं सदी के प्रथम चरण तक एक और औद्योगिक क्रान्ति हुई और उसके बाद अब फिर सामाजवादी क्रान्ति के विचार फैल रहे हैं। परन्तु परतंत्र देश में सामाजिक क्रान्ति के कारण राजनैतिक क्रान्ति के विचार शुरू में पैदा नहीं होते; बल्कि विदेशियों का आक्रमण और आधिपत्य देखकर मन में जो विरोध और प्रतिकार का भय पैदा होता है उससे क्रान्तिकारी राजनीति का जन्म होता है। लोकमान्य ने विरोध की इसी प्रतिकार-भावना को प्रबल बनाकर उग्र राजनीति को जन्म दिया, जिससे स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार, क्रान्ति, स्वतंत्रता के भाव संज्ञ जगह फैलने लगे, क्योंकि विदेशी सत्ता के आक्रमण से देश में जो दरिद्रता और बेकारी दिन-दिन बढ़ रही थी उसे देश का बच्चा-बच्चा महसूस करने लगा था।

इन भावनाओं से प्रेरित होकर भिन्न-भिन्न लोगों ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के भिन्न-भिन्न उपाय शुरू कर दिये। किसीने शस्त्रास्त्र जमाकर स्वराज्य-स्थापन करने का प्रयत्न किया तो किसीने जालिम अधिकारियों को कत्ल

कर डाला, किसी ने शिवाजी क्लब स्थापित करके बलोपासना शुरू की, किसीने राजे-रजवाड़ों की सहायता से क्रान्ति करने का विचार बाँधा, किसीने भारतीय राजे-रजवाड़ों को निकम्मा समझकर अफगानिस्तान और नेपाल-जैसे दूर के स्वतंत्र राज्यों का आश्रय लिया, किसीने रामदासी मठों को पुनर्जीवित करने का उद्योग किया और किसीने मंत्र-सामर्थ्य और योग-सामर्थ्य से काम लेना चाहा। मगर लोकमान्य की राजनीति इन सबसे भिन्न थी। वह उग्र ज़रूर थी, मगर साथ ही वह अश्वैव नहीं थी। उनका वह निश्चित मत था कि जबतक आम जनता में ज़बरदस्त जागृति न हो जायगी और कांग्रेस-जैसी सगठित संस्था का नेतृत्व उसे प्राप्त न होगा तबतक हिन्दुस्तान को स्वराज्य नहीं मिल सकता। इसलिए उनकी राजनीति का संचालन महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा के द्वारा और भारत में कांग्रेस के द्वारा चल सकता था। इसलिए लोकमान्य ने पहले सार्वजनिक सभा और बाद में कांग्रेस पर कब्ज़ा किया। तिलक की राष्ट्रीय राजनीति अंत में तो क्रान्तिवादी है; परन्तु तात्कालिक दृष्टि से वह विधिविहित ही थी, क्योंकि वे मानते थे कि जबतक कांग्रेस जनता की प्रातिनिधिक संस्था नहीं बन जायगी, तबतक क्रान्ति नहीं हो सकती। इसलिए तबतक विधि-विहित राजनीति से ही काम लेना चाहते थे। उनकी सारी कोशिशें इसी दिशा में हो रही थीं कि कांग्रेस जनता की सच्ची प्रतिनिधि बने और उसकी राजनीति अग्रगामी हो। उनका मत था कि जो राष्ट्र का राजनैतिक नेतृत्व करना चाहता हो उसे आगे बढ़ते रहने की और, लोग मेरे पीछे चलते हैं कि नहीं, यह देखते रहने की आवश्यकता रहती है। अब किस समय राष्ट्र की कितनी तैयारी हो गई है इस बारे में नेताओं में मतभेद हो सकता है। ऐसे समय लोकमान्य बहुमत का निर्णय मानने के पक्ष में थे। अपने ४० साल के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने इस सिद्धांत के विपरीत कभी आचरण नहीं किया। उसका उल्लंघन करनेवालों पर वे अपराधीयता का आरोप करते थे।

तिलक की राजनीति वृद्धिशील राष्ट्रीयता की और क्रान्तिवाद की राजनीति थी। अपनी राजनीति में शक्ति लाने के लिए तिलक ने १८६४ में गणपति-उत्सव को सार्वजनिक स्वरूप दिया और १८६५ में शिवाजी-

उत्सव शुरू किया। इससे उन्होंने लोगों की धर्म-भावना और ऐतिहासिक विभूतियों के प्रति पूज्य भावना का बल अपनी राजनीति को देने का प्रयत्न किया। जिस समय नवीन राष्ट्रीय भावना लोगों के अन्दर जोरदार नहीं थी उस समय उत्सवों के द्वारा लोक-हृदय में उसका बीजारोपण करने का यह प्रयत्न था। कांग्रेस जो काम कर रही थी उसे जन-साधारण में व्यापक करने का यह उद्योग था। इन उत्सवों के अन्दर लोगों की धर्मभावना जाग्रत करके उन्हें नैतिक, सामाजिक और राजनैतिक शिक्षा आसानी से दी जा सकती थी। प्राचीन समय में जो यात्रा और मेले लगते थे, वे राष्ट्र को धार्मिक, औद्योगिक और सामाजिक हलचलों के भारी-भारी प्रदर्शन होते थे। इसके बाद लोकमान्य ने जनता के दुःख-दर्द और शिकायतों का प्रश्न हाथ में लेने का उद्योग किया। १८९६ में अकाल पड़ा और लोकमान्य ने निश्चय किया कि सार्वजनिक सभा द्वारा किसानों का लगान माफ अथवा स्थगित कराया जाय और इसके लिए उनमें जागृति की जाय। इसके द्वारा उन्होंने किसानों में अपने हकों का ज्ञान उत्पन्न करना और विधि-विहित रीति से उन्हें सरकार से किस प्रकार लड़ना चाहिए यह सिखाना शुरू किया। सार्वजनिक सभा के द्वारा हर गाँव में जाकर यह प्रचार किया गया कि पैदावार नहीं हुई है तो लगान मत जमा कराओ। इधर 'कैसरी' के द्वारा भी इस संवध में खूब हलचल शुरू की जिससे लोगों में हिम्मत आने लगी और किसान हजारों की तादाद में सभाओं में आने लगे। इसपर सरकारी अधिकारी तिलक महाराज को 'हिंदुस्तान का पारनेल' कहकर उनकी निंदा करने लगे।

इधर १८९६ में सरकार ने विलायत में आनेवाले सूत की जकात उठा ली और विलायत से यहाँ आनेवाले और यहाँ बननेवाले सब कपड़ों पर पाँच की जहग साढ़े तीन फीसदी जकात बँटा दी। मेनचेस्टर के कपड़ों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से गरीब लोगों के लिए आवश्यक कपड़ों पर साढ़े तीन फीसदी जकात बँटाना एक नवीन अन्याय था। अबतक विलायत से यहाँ आनेवाले कपड़े और सूत पर साढ़े पाँच फीसदी जकात थी; लेकिन देशी सूत और कपड़ों पर जो जकात थी वह सिर्फ २० नम्बर के ऊपर के ही कपड़ों पर थी। मगर अब नीचे

के नंबर के मोटे सूत पर भी ३॥ सैकड़ा जकात चैट गई और ऊपर के नंबर के देशी और विलायती सूत और कपड़ों की जकात साढ़े तीन से साढ़े पांच तक आ गई । नतीजा यह हुआ कि विलायती मिलवालों को मोटे कपड़े में भी स्वदेशी मिलवालों से प्रतिस्पर्धा करना आसान हो गया एवं महीन कपड़े पहननेवाले सम्पन्न लोगों पर कर कम हो गया और मोटे पहननेवाले गरीबों पर लग गया । इसका लोकमान्य ने जोरों से विरोध किया । उन्होंने लोगों से कहा—“इस अन्याय का जितना प्रतिकार कर सको, करो । इसका प्रतिकार करना तुम्हारे हाथ में है भी, और वह यही कि तुम स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू कर दो ।” इस तरह लोकमान्य ने पहली बार यह सीधा प्रतिकार का उपाय बताया । हमारी माँगों के पाँछे लोक-संगठन का बल होना चाहिए और लोक-संगठन के लिए लोगों में और नेताओं में स्वार्थ-त्याग और धैर्य-बल होना चाहिए—यह भाव कांग्रेस की राजनीति में टाखिल करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को है । इस नवीन शक्ति का जन्म १८८६ में शहरों के मध्यमवर्ग में स्वदेशी हलचल के रूप में और देशत के किसानों में अकाल-आंदोलन के रूप में हो रहा था । इस तरह शक्ति को संगठित करके उसके आचार पर सरकारी सत्ता को शह देने का अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य महाराष्ट्र में लोकमान्य कर रहे थे ।

लोगों में जो यह प्रतिकार-भावना पैदा हो रही थी, वह उस समय विल्कुल चाल्पावस्था में थी । इसलिए कभी-कभी वह उच्छृङ्खल भी बन जाती थी । यह उच्छृङ्खलता लोकमान्य की निगाह में आ जाती थी । फिर भी उससे उन्होंने अपनी प्रतिकार-शक्ति को बढ़ाने के कार्य में खलल न पड़ने दिया । यह मानकर कि ऐसा तो होता ही रहेगा, वे अपने कार्य दृढ़ निश्चय से आगे चलाते गए । उन्हें यह देखकर ही आनन्द होता था कि लोगों में प्रतिकार-शक्ति आ रही है । वे प्रभावकारी संगठन के रूप में उसका नियन्त्रण और रोक करने का प्रयत्न तो करते रहे, फिर भी उन्होंने लोगों का उत्साह भंग करने अथवा जोश में आकर लोग कुछ ऊटपटांग कर गुजरेंगे, इस डर से उनमें उत्साह ही न पैदा करने की नीति मजूर नहीं की । उनकी बुद्धि ने यह निर्णय कर लिया था कि मौजूदा

परिस्थिति में हमारा आन्दोलन कानून की मर्यादा में रहते हुए चलाया जाना चाहिए और उसके द्वारा जितनी प्रतिकार-शक्ति पैदा हो सकती है, उतनी वे कर रहे थे। इसी नोंति के व्यवहार से भावी भारतीय स्वराज्य-निर्माण करनेवाली शक्ति जन्म ले रही है और इसी शक्ति के द्वारा हिन्दुस्तान में स्वराज्य उपस्थित होनेवाला है और उसका स्वरूप जन-तन्त्रात्मक होगा, इस विषय में इनके मन में कोई सन्देह न था। उन्हें यह आत्मविश्वास था कि जो शक्ति हम निर्माण कर रहे हैं वह बहुमत के द्वारा कांग्रेस में जरूर डाली जा सकती है। उन्हें यह भी विश्वास था कि जबतक कांग्रेस इस शक्ति का अवलंबन और सत्कार न करेगी, तबतक उसकी राजनीति सफल नहीं हो सकती। वे यह मानते थे कि कांग्रेस को इसपर आमादा करा देना हमारा पहला कर्तव्य है। कांग्रेस को छोड़कर स्वतंत्र रीति से अपनी राजनीति चलाने का विचार उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हिन्दुस्तान को स्वराज्य कांग्रेस-जैसी संस्था के द्वारा ही मिल सकता है और उसीके द्वारा भारतीय राजनीति को प्रत्यक्ष प्रतिकार का अथवा क्रान्तिवादी स्वरूप दिया जा सकता है। वे क्रान्तिवादी थे; परन्तु उनका क्रान्तिवादी वर्धिष्णु था और उसकी भित्ति आम जनता के प्रतिकार-सामर्थ्य पर खड़ी हुई थी। उनके सामर्थ्य के अनुसार बढ़ने या घटनेवाला और घटकर भी फिर बढ़नेवाला उनका क्रान्तिवाद था। लोग क्रान्ति के लिए तैयार नहीं है इसलिए उन्होंने क्रान्तिवाद को नहीं छोड़ा और हम क्रान्तिवादी हैं; लेकिन लोग क्रान्ति के लिए तैयार नहीं है इसलिए उन्होंने लोगों को भी छोड़ नहीं दिया। वे क्रान्तिवादी थे इसलिए 'लोकनायक' हुए और लोगों को साथ लेकर चले इसलिए 'लोकमान्य' हुए। उनकी लोकमान्यता उनके लोकनायकत्व पर अवलंबित थी और 'मुखरस्तत्र हन्यते' न्याय के अनुसार लोकनायक पर होनेवाले आघात उन्होंने आनन्द से शिरोधार्य किये और जब लोगों की और सरकार की लड़ाई छिड़ गई तब उन्होंने कभी रणांगण से पीठ नहीं दिखाई। इसीलिए उनकी लोकमान्यता कभी अस्तंगत नहीं हुई। उनके प्रतिपत्नी अथवा उनके अन्ध अनुयायी जैसा मानते हैं, वह लोकानुरंजन के सस्ते दाम में मिली कुछ लोकमान्यता न

थी, बल्कि दृढ़ निश्चय, अलौकिक साहस और सुख तथा स्वार्थ-त्याग के दाम पर खरीदी हुई बहुमूल्य वस्तु थी। १८६७ में पूना में जो प्लेग-प्रकरण हुआ उसमें उनके इन सद्गुणों की परीक्षा का समय आ गया। मि० रेंड पूना में प्लेग-कमिश्नर नियुक्त हुए। उसके बाद फरवरी से मई तक पूना में प्लेग हटाने के लिए एक प्रकार का कठोर फौजी शासन जारी किया गया। गोरी और काली सेना बुलाई गई और गोरे सैनिकों के द्वारा लोगों के घरों की तलाशियाँ ली गईं। घर साफ कराये गए। घरों में धुआँ देकर सफेदी कराई गई। इस सिलसिले में लोगों पर भारी जुल्म किया गया। इसके बाद हा श्री रेंड और श्री आयर्स्ट का खून वहाँ हो गया। ऐसा होते ही सारे ब्रिटिश साम्राज्य में तहलका मच गया और विलायत से पूना तक सब जगह हिन्दुस्तान में बढ़ते हुए अस्तोप और राजद्रोह की चर्चा हुई। इसपर तिलक की उग्र राजनीति से लोगों की इस प्रतिकार-भावना का वादरायण-सम्बन्ध जोड़कर पूना के अखबारों पर जब सरकारी अधिकारी और अंग्रेजी अखबार टूट पड़े, तब लोकमान्य तिलक ने निडर होकर सरकार से सवाल किया— क्या सरकार का दिमाग मुकाम पर है ? उन्होंने कहा— शासन करने का अर्थ बदला लेना नहीं है। इस तरह सरकारी सख्तियों के विरोध में उन्होंने अपनी आवाज उठाई।

१८६५ से चाफेकर बन्धुओं—दामोदर व बालकृष्ण चाफेकर—ने पूना में एक संस्था कायम की थी। उसके युवकों का ध्येय था, धर्म-रक्षण जो एक अर्थ में स्वराज्य-प्राप्ति है। स्वधर्म-रक्षण और स्वराज्य-प्राप्ति में उस समय भेद नहीं किया जाता था और शिवाजी तथा गणपति-उत्सवों में इसी नीति को लेकर व्याख्यान आदि होते थे। बम्बई में महारानी विक्टोरिया की मूर्ति पर डामर लगा देनेवाला व्यक्ति चाफेकर बन्धु की इसी संस्था का आदमी था। इस तरह चाफेकर बन्धु के स्वधर्म-रक्षण के हेतु और स्वसंस्कृति के अभिमान से प्रेरित युवक गए उस समय गुप्त पद्धतियों के द्वारा और अखाड़े स्थापन करके शिवाजी महाराज का उदाहरण सामने रखकर स्वातंत्र्य-प्राप्ति का यत्न कर रहे थे और यह सत्य है कि उनके अन्तःकरण में देशाभिमान की ज्योति प्रज्वलित करने में लोक-

मान्य तिलक और उनका 'केसरी' कारणीभूत थे। परन्तु ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि क्रान्तिकारियों का मार्ग लोकमान्य को पसन्द रहा हो। यद्यपि सरकारी अधिकारी इस खून का दोष देशभक्त समाचारपत्रों के मध्ये मढ़ रहे थे; परन्तु ऐसे अत्याचारों की वास्तविक जिम्मेदारी उन जुल्मों और अत्याचारों पर है जो अधिकारियों द्वारा राजकाज के सिलसिले में किये जाते हैं। ऐसे अवसर पर सरकारी अन्याय और अत्याचार की आलोचना करके विधिवत् मार्ग से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना और लोगों पर वेकायदा होनेवाले जुल्मों के प्रतिकार का न्यायोचित मार्ग उन्हें दिखाना देश-भक्त लोकनायकों का आवश्यक कर्तव्य है। लोगों के दिलों में पराधीनता के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करना और उनकी प्रतिकार-शक्ति को जाग्रत करना राजद्रोह नहीं है, बल्कि सशस्त्र बगावत को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देना वास्तविक राजद्रोह है। ऐसा करनेवालों को सजा देना और अत्याचारी लोगों को तलाश करके उनके लिए मुनासिब कार्रवाई करना अधिकारियों का कर्तव्य है; परन्तु इस कर्तव्य का पालन करते हुए अपराधी और निरपराध दोनों पर एक साथ दूट पड़ना समझदारी नहीं है। अत्याचार की प्रवृत्ति नष्ट करने का मार्ग यह नहीं है, बल्कि लोगों पर अत्याचार न करना है। सरकार यदि खुद कानूनों का पालन करे और अपना दिमाग ठण्डा रखे तो लोगों के भी दिमाग का पारा नहीं चढ़ता। सशस्त्र क्रान्ति को रोकने की जिम्मेदारी जिस प्रकार लोकनायकों पर है उसी प्रकार सरकारी अधिकारियों पर भी है। अगर वे उसको यथावत् न निभावें तो फिर लोकनायकों को लोगों के अत्याचारों के लिए जिम्मेदार ठहराना और वे महज देशभक्ति, धर्मभक्ति व प्रतिकार-भावना जाग्रत करते हैं। इस बिना पर उन्हें राजद्रोही सिद्ध करना अन्याय है। राज-द्रोह की मीमांसा करते हुए लोकमान्य लिखते हैं :

“जिस लेख (या भाषण) के द्वारा राज्य में उथल-पुथल अथवा विप्लव होने की संभावना हो उसका समावेश राजद्रोह में होता है; परन्तु सरकार के द्वारा जो भूल और अन्याय होता है : उसे साफ तौर पर सरकार को बताना या लोगों को समझाना या उसपर कठोर टीका करना किसी प्रकार आपात्तजनक नहीं समझा जा सकता।”

परन्तु चाद में राजद्रोह की मूलधारा में सरकार ने संशोधन किया और सरकार के प्रति अप्रीति उत्पन्न करना अपराध ठहराया और प्रीति के अभाव को अप्रीति मानकर 'केसरी' के लेखों के कारण लोकमान्य को डेढ़ साल की सजा दी गई । इसी समय पूना के सरदार घराने के दोनों नारू-बन्धुओं को १८२७ के २५ वें रेगुलेशन में पकड़कर बिना मुकद्दमा चलाये जेल में डाल दिया गया और इसी समय महाराष्ट्र और पूना के बाहर के कई अखबारों पर भी मुकद्दमे चले और सजाएँ हुईं । परन्तु लोकमान्य पर जो मुकद्दमा चलाया गया, उसने सारे हिन्दुस्तान का ध्यान आकर्षित कर लिया । यहाँ तक कि १८६६ के कांग्रेस-अधिवेशन के अध्यक्ष श्री शङ्करराज नायर को यह कहना पड़ा कि लोकमान्य पर अन्याय हुआ है । उन्होंने यह भी राय दी कि हिन्दुस्तान में राजद्रोह के मामलों में ज्यूरी हिन्दुस्तानी ही होनी चाहिए । उन्होंने अपने भाषण में भारतीय और ब्रिटिश नागरिकों के समान अधिकारों और दर्जों के सिद्धान्त का जोरों से प्रतिपादन किया और कहा कि 'स्वराज्य तथा भाषण और लेखन-स्वातंत्र्य मिलाने चाहिए । इनके बिना जनता का दारिद्र्य और रोगों से छुटकारा नहीं हो सकता ।' अपने भाषण के अन्त में उन्होंने कहा कि 'ब्राह्मणों से लेकर अस्पृश्य तक सबके समान अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं । इसी समता की भावना से हम अपने शासकों के उन कृत्यों की टोका करते हैं जिसमें विपमता का परिचय मिलता है । यूरोपियनों और हिन्दुस्तानियों में कानूनी विपमता जिस अंश तक दूर होगी और जिस हद तक हमें स्वराज्य दिया जायगा, उसी हद तक हम मानेंगे कि स्वतंत्रता की दिशा में हमारी प्रगति हो रही है ।'

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इन गिरफ्तारियों और कारावास का निषेध करनेवाले प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा—'पूना में जो ज्यादा पुलिस चिटाई गई है, वह बेजा हुआ । श्री तिलक और पूना के दूसरे संपादकों को कारावास दिया गया, यह और भी बड़ा भूल हुई । श्री तिलक के प्रति सहानुभूति से मेरा हृदय भर गया है और सारे देश की आँखों से आज आँसू बह रहे हैं ।' इस प्रकार अपने स्वार्थत्याग और अलौकिक धैर्य से लोकमान्य ने सारे राष्ट्र के अन्तःकरण में अपना वर कर लिया । उनकी जेल-

यातना सारे राष्ट्र ने अपनी यातना समझी और सारे संसार को यह दिखा दिया कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है, उसकी संवेदना-शक्ति जागृत है और अपने जालिमों की अपेक्षा अपने लिए जुल्म सहनेवालों के प्रति अधिक निष्ठा रखने की पावन वृत्ति हिन्दुस्तान में भी जीवित है। इस समय यह भी सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पर राज्य करने का नैसर्गिक अधिकार उन लोगों को नहीं है, जो उसके द्रव्य का अपहरण करके उसपर मुल्की सत्ता चलाते हैं, बल्कि उन लोगों का है जो कि इस जुल्म और द्रव्य-हरण का प्रतिकार करने के लिए विधि-विहित और न्यायोचित मार्ग से भगड़ते हैं और उस मार्ग में आनेवाली अनिवार्य आपत्तियों को झेलने के लिए खुशी-खुशी तैयार होते हैं। परन्तु अभी वह समय नहीं आया था, जब कि इस सिद्धांत का ज्ञान लोगों को हो और कांग्रेस की नीति उसके अनुसार निर्धारित की जाय। अब भी कानून और जावते से सजा पानेवाले देशभक्तों का खुल्लमखुल्ला अभिनन्दन करने का साहस कांग्रेस में नहीं आया था।

इसी समय महाराष्ट्र में एक और युवक नेता अखिल भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उदय पाने लगा था। यह थे माननीय गोखले। माननीय गोखले अपनी राजदरबारी राजनीति के कारण इतने प्रसिद्ध हो गये कि जैसे तिलक को लोगों ने 'लोकमान्य' पदवी दी उसी प्रकार मानो लोगों ने गोखले को भी 'माननीय' पदवी दे दी हो। लोगों की ओर से राजदरबारी राजशासकों का विरोध करके भी सरकार-मान्यता कायम रखने का सम्मान सबसे पहले उन्हींको मिला। परन्तु लोग जो यह कहते हैं कि राजमान्यता और लोकमान्यता ये दोनों वैभव उन्हींने भोगे, यह ठीक नहीं। तिलक को जैसे राजमान्यता अपने जीवन में कभी नहीं मिली, करीब-करीब वैसे ही गोखले को अपने जीवनकाल में अधिक लोकमान्यता भी कभी नहीं मिली। राजमान्यता और लोकमान्यता दोनों का भरपूर उपयोग तो आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी को ही प्राप्त हुआ। फिर भी अपने जीवन-काल में दरबारी राजनीति में माननीय गोखले ने अग्रस्थान प्राप्त किया और १८६७ से अगले २० साल का आधुनिक भारत का इतिहास गोखले और तिलक इन दो

महाराष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में काम करनेवाले दो अखिल भारतीय राजनैतिक पक्षों का इतिहास है, ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। गोखले तिलक से १० साल छोटे थे, फिर भी राजनैतिक विचारों में वे तिलक के पहले की पीढ़ी के शिष्य थे, इससे उस पीढ़ी की राजनीति के नेतृत्व करने का गौरव उन्हें मिला और दरबारी राजनीति और कांग्रेस के कार्य में उनकी प्रगति उनकी उम्र के लिहाज से बहुत तेजी से होती गई। पहले जब वे 'डेकन एजुकेशन सोसायटी' में आये, तब ऐसा कहते हैं कि आगरकर की अपेक्षा तिलक के विचारों की तरफ ही उनका झुकाव अधिक था; लेकिन थोड़े ही दिनों में सुधारक के नाते उन्होंने आगरकर का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और 'सुधारक' पत्र निकलने के बाद चार वर्ष तक उसके एंग्रेजी सम्पादक का काम किया। पर थोड़े ही दिनों में वे न्यायमूर्ति रानडे की कक्षा में आ गये और शीघ्र ही उनके शिष्य बन गए। तिलक और आगरकर ने जिस प्रकार अपने स्वतंत्र बुद्धि से अपना स्वतंत्र मार्ग निश्चित किया था, ऐसी स्थिति गोखले की नहीं थी। वे न्यायमूर्ति रानडे के श्रद्धापूर्वक शिष्य बने और अपने समस्त बुद्धि-सर्वस्व से उस श्रद्धा के प्रकाश में दिखनेवाले मार्ग का अनुसरण करने लगे। रानडे उनके दृष्टा गुरु थे और गोखले कभी इस बात को नहीं भूले कि वे उनके एकनिष्ठ शिष्य हैं। उनकी प्रज्ञा चाहे अलौकिक न हो; पर उनकी श्रद्धा अलौकिक थी इसमें संदेह नहीं। इस श्रद्धा के बल पर उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व प्राप्त किया और प्रागतिक राजनीति को स्वार्थ-त्याग को आध्यात्मिक भूमिका पर अधिष्ठित किया। प्रागतिक राजनीति में यद्यपि क्रान्तिकारियों की वीरवृत्ति के लिए बहुत गुंजायश नहीं थी, तो भी निरन्तर लोकसेवा और आजन्म स्वार्थत्याग के जीवन में इसकी आवश्यकता तो है ही, यह जानकर उन्होंने 'भारत सेवक समिति' (Servants of India Society) नाम की अपूर्व संस्था स्थापित की। प्रागतिक राजनीति कोई स्वार्थरक्षा का धन्धा नहीं है और प्रागतिक पक्ष कोई राव साहब और राव बहादुरों का पिंजरापोल नहीं है और न धनिक वर्गों का 'हितरक्षक संघ' ही है, बल्कि क्रान्ति-मार्ग से होनेवाली प्रगति की व्यर्थता को देखकर क्रम विकास का मार्ग निश्चयपूर्वक और

नित्य सेवात्मक स्वार्थत्यागपूर्वक ग्रहण करनेवाले देशभक्तों का एक सम्प्रदाय है यह सिद्ध करने का श्रेय माननीय गोखले को ही है। अनेक मामूली बुद्धिमानों से माननीय गोखले की बुद्धिमत्ता असामान्य थी; परन्तु उन्होंने यह देख लिया कि राष्ट्रीय उन्नति के शिखर तक जाने का स्वतंत्र मार्ग खोज निकालने के लिए आवश्यक दृष्टत्व या स्वतंत्र प्रज्ञा अपने में नहीं है। एकदृष्टा गुरु के उपदेशानुसार दृढ़ श्रद्धा व द्रुत गति से प्रगति-पथ पर चलते हुए ध्येय-शिखर तक पहुँचनेवाले वे एक असामान्य भारतपुत्र थे, इसमें शङ्का नहीं।

“अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति” इस गीता की उक्ति के अनुसार न पूरा शिष्यत्व और न पूरा दृष्टत्ववाली अवस्था में अपना स्वतन्त्र मार्ग निश्चित करने और नेतृत्व की महत्त्वाकांक्षा रखकर अपना और अपने अनुयायियों का विनाश करनेवाले वे न थे। हिन्दुस्तान के सदृश खण्डितुल्य प्रचंड और प्राचीन राष्ट्र को स्वतन्त्रता का अभिनव मार्ग दिखाने का कार्य बहुत ही थोड़े लोग कर सकते हैं; परन्तु दृष्टा पुरुषों द्वारा दिखाये मार्ग का अनुसरण करना प्रत्येक सामान्य प्रज्ञावाले मनुष्य के लिए भी निश्चय, श्रद्धा और त्याग के बल पर संभवनीय होता है। परन्तु ये गुण भी बहुत दुर्लभ हैं। आजन्म शिष्यत्व का पेशा स्वीकार करते हुए स्वतन्त्र प्रज्ञा का अहंकार नहीं छूटता और इसलिए अन्त को ‘न इस घाट, न उस घाट’ वाली स्थिति में डूबते-उतराते हुए अहंकार से संसार के उपाहास के पात्र बननेवाले और त्रिक्कुल मामूली प्रज्ञा पर राष्ट्र के स्वतंत्र नेतृत्व का मान-सम्मान खरीद करने की इच्छा रखनेवाले लोग बहुत मिलते हैं। परन्तु संसार के इतिहास का यह अनुभव है कि यह सम्मान का सौदा इतना सस्ता नहीं है।

हिन्दुस्तान के आय-व्यय की जाँच करने के लिए १८६६ में वेल्ची कमीशन नामक रॉयल कमीशन विलायत में नियुक्त हुआ था। इस कमीशन को विठाने में दादाभाई आदि हिन्दुस्तानी नेताओं और भारतीय जनता के अंग्रेजी हितेच्छुओं का यह उद्देश था कि ब्रिटिश पार्लामेंट को यह दिखा दिया जाय कि ब्रिटिश शासन-पद्धति के कारण हिन्दुस्तान दिन-ब-दिन कैसा भिखारी होता चला जा रहा है और शासन-कार्य में भारतीय

लोगों का प्रवेश कराया जाय, सैनिक खर्च में कमी की जाय, साम्राज्य-विस्तार के लिए हिन्दुस्तान पर लादा जानेवाला खर्च इंग्लैंड उठावे, विलायत में भारतमंत्री और भारतमंडल (India Office) में होने-वाला खर्च इंग्लैंड चलावे। मतलब यह कि हिन्दुस्तान और इंग्लैंड का सारा आर्थिक व्यवहार मालिक और गुलामवाले सिद्धांत पर न चलाते हुए एक साम्राज्य के दो समान दर्जे के हिस्सेदार होने के तत्व पर चलाया जाय और भारतीय आय-व्यय पर भारतीय जनता का थोड़ा-बहुत नियंत्रण हो। खुद दादाभाई इस कमीशन में नियुक्त हुए थे, जिससे लोगों के दिल में बहुत आशा उत्पन्न हुई थी। इसके सामने गवाही देने के लिए सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, वाचा, सुब्रह्मण्यम् अय्यर जैसे बड़े-बड़े नेता थे। इस समय पूना की डैकन सभा की तरफ से प्रो० गोखले भेजे गये थे। इंग्लैंड में इस काम के लिए पूना से किसी लोक-प्रतिनिधि के जाने का यह पहला ही सुयोग था। माननीय गोखले ने वेल्थी कमीशन के सामने जो गवाही दी, वह बहुत ही युक्तियुक्त और बढ़िया रही, और तभी से लोगों को विश्वास हो गया कि रानडे का यह युवक शिष्य आगे चलकर इंग्लैंड में बसीठी करने के लायक सिद्ध होगा। खुद लो० तिलक ने भी यह कबूल किया कि गोखले ने अपनी विलायत-यात्रा से अपने विद्वान गुरु का गौरव बढ़ाया। भारतीय राजनीति का स्वरूप शुरू से आखिर तक द्विविध सरकाराभिमुख और लोकाभिमुख रहा है, इन दोनों अभिमुखां के पाँछे एक अन्तःकरण और एक शक्ति जबतक न होगी, तबतक उसे सफलता नहीं मिल सकती। सार्वजनिक सभा अथवा कांग्रेस जैसी लोक-प्रतिनिधि सभाओं के द्वारा और उनके अनुशासन में यह राजनीति लोकसत्ता के तन्त्रानुसार बहुमत से चलती है। इसी में इसका वास्तविक स्वास्थ्य और बल है; परन्तु दुर्दैव से महाराष्ट्र में रानडे-पक्ष और तिलक-पक्ष ऐसे दो पक्ष जो इस समय निर्माण हो गये, वे इस प्रकार की एक संस्था में रह नहीं सके। इसलिए सरकाराभिमुख और लोकाभिमुख राजनीति का अन्तःकरण एक नहीं रह सका। इससे राष्ट्र की वेशुमार हानि हुई है, फिर इसमें दोष किसी का ही रहा हो।

रैंड और आयर्स्ट के खून की तथा पूने की दो महिलाओं पर गोरे

सैनिकों द्वारा अत्याचार होने और एक के प्राण देने की खबर गोखले को इंग्लैंड में लगी, जिसे उन्होंने 'मैनचेस्टर गार्जियन्' में छपवाया : परन्तु सबूत न मिलने के कारण अन्त में माफी माँगी । इस घटना से गोखले लोकनिन्दा के भाजन बने । निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो कहना होगा कि इस प्रकरण में गोखले ने कोई भूल की हो ऐसा प्रतीत नहीं होता । परन्तु तिलक-जैसे राजनीतिज्ञों को यह महसूस होना स्वाभाविक था कि माफी के शब्द नपे-तुले न थे । तिलक की ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को देखने की भूमिका शत्रुता की थी और गोखले की भूमिका ब्रिटिश साम्राज्य की और परमेश्वरीय प्रसाद की दृष्टि से देखने की भावनात्मक थी और यही दोनों में मूल अंतर था । तिलक की राजनीति में माफी के लिए जगह तो थी ; परन्तु वह सिर्फ जावते-कानून को भुगताने के लिए । गोखले की राजनीति में माफी का स्वरूप एक प्रकार से धार्मिक प्रायश्चित्त के तौर पर था । १८६७ में अमरावती में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें इन दोनों राजनीतियों का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो गया और यह दिखाई दिया कि तिलक की राजनीति लोगों को मान्य हो रही है ।

वैल्ची कमीशन के थोड़े ही दिन बाद हिन्दुस्तान में लार्ड कर्जन का जमाना शुरू हुआ । १८६६ में वे हिन्दुस्तान के वायसराय हुए । उनके जमाने को हिन्दुस्तान की गरीबी और दुर्दैव का जमाना कहना चाहिए । १८६७ में सारे हिन्दुस्तान में अकाल और प्लेग का जवर्दस्त दौर-दौरा रहा । १८६६ और १९०० में तो अकाल के कारण लाखों लोग अन्न-अन्न करके मर गये । यह अकाल ४ साल तक रहा । इन अकालों और प्लेग से भारत भूमि मानो श्मशान भूमि बन गई । इन संकटों के कारण यद्यपि प्राकृतिक थे तथापि इन्हें दूर करने के साधन उपलब्ध होने पर भी हम उनका उपयोग नहीं कर सकते । इसका कारण हमारी राज-नैतिक गुलामी है, ऐसा हिन्दुस्तान की निवृत्ति-मार्गी और अल्प-संतुष्ट जनता भी समझने लगी । हम मर्त्यलोक में रहते हैं और हमें एक दिन मरना ही है, अतः मनुष्य को मरण का भय न रखना चाहिए—यह ठीक है । परन्तु जब हर घर से युवक, प्रौढ़ और बालक-बालिकाओं की चिता जलाने की नौबत आती है और घर-घर में बाल-विधवाओं की संख्या

बढ़ने लगती है तो इसे मर्त्यलोक का शाश्वत चिह्न नहीं कह सकते। इसे समझने के लिए बहुत पांडित्य की भी जरूरत नहीं थी। इसी तरह हमारे देश से करोड़ों मन अनाज विदेशों को जा रहा है, जिसके फल-स्वरूप देश के लाखों किसान भूखों मर रहे हैं। इसमें भी परमेश्वर का कोई दोष नहीं, बल्कि अपना अथवा अपनी राजनैतिक परिस्थिति का ही कुछ दोष होगा, यह एक अपद आदमी भी समझ सकता था। एक और बात भी थी। एक ओर तो जनता दरिद्रता, अकाल और गेगों से पीड़ित होकर मौत के मुँह में जा रही थी, दूसरी ओर हमारी आँखों के सामने ही अधिकारी लोग चंन की वंसी बजा रहे थे। एक ओर किसानों का दिवाला निकल रहा था तो दूसरी ओर सरकार के खजाने में रुपयों की वर्षा हो रही थी। यह वैपम्य सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने १९०२ में अहमदाबाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए बड़ी मार्मिकता से प्रदर्शित किया था—“एक ओर सरकारी खजाने में रुपये की बाढ़ आ रही है और दूसरी ओर जनता भूखों मर रही है यह वैपम्य किसी को भी खटके बिना नहीं रह सकता। १८७७-७८-८९-९०-९१ और १९०० के तमाम अकालों में मिलकर ११-२ करोड़ लोग काल के ग्रास हो गए। इधर सरकार तरह-तरह से अपनी आमदनी बढ़ाने में मशगूल थी। १८८४-८५ से लेकर १९०२ तक के सालों में करीब २८ करोड़ रुपये की बचत सरकार को हुई और इसका मुख्य कारण यह है कि १८८५ से इस तरह कर लगाये गये कि जिससे ९ करोड़ रुपये ज्यादा आमदनी होती थी। माननीय गोखले ने लार्ड कर्जन-कालीन बजट पर बहुत ही युक्तियुक्त सुबोध और सरस भाषण दिये और यह दिखलाया कि सरकार को प्रतिवर्ष बचत क्यों हो रही है और राष्ट्र-संवर्द्धन में उसका उपयोग कैसे किया जाय? लोगों के सिर से कर का बोझ कम करना सरकार का कर्तव्य है और यह बचत देश का उत्कर्ष साधित नहीं कर रही, बल्कि उचित से अधिक कर लगाने की अर्थात् एक तरह से जुल्म करने की प्रवृत्ति जाहिर कर रही है, यह उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सिद्ध कर दिया। गरीब देश का बजट कैसा होना चाहिए, किस वर्ग पर कितना कर लगाना चाहिए, कौन-सा कर कैसे कम किया जाय,

आम जनता की हालत सुधारने में कैसे मदद करनी चाहिए और सुशिक्षित नेताओं का नियंत्रण यदि देश के आय-व्यय पर हो तो वे उसकी कैसी व्यवस्था करेंगे, इसका शास्त्र-शुद्ध, सुबोध और साधार किन्तु सरस विवेचन गोखले के इन भाषणों में मिलेगा। इस कारण जिन गोरे अखबारों ने लोकमान्य तिलक को 'पारनेल' की उपमा दी उन्हीं ने माननीय गोखले को 'ग्लैडस्टन' की उपमा दी। ये दोनों उपमाएँ यथार्थ हैं। फर्क इतना ही है कि ग्लैडस्टन भर पेट वेतन लेकर देश-कार्य करते थे और गोखले का देश पराधीन था, इसलिए उन्हें दरिद्रता का बर्तन होकर सरकारी नाति पर निष्फल टोका करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और देश-भक्ति का प्रदर्शन करके ही रह जाना पड़ता था। लोकमान्य तिलक और पारनेल में भी ऐसा ही फर्क था। चारित्र्य की शुद्धता और तेजस्विता इन दो गुणों में तो लोकमान्य पारनेल से श्रेष्ठ थे ही; परन्तु उनका देश आयलैंड से १५-२० गुना बड़ा है और उसी मात्रा में उसकी स्थिति भी अधिक अवनत थी। ऐसे खरडतुल्य प्रचण्ड राष्ट्र को जाग्रत कर प्रतिकार-क्षम बनाने का कार्य उस आइरिश नेता के काम की अपेक्षा अनेक गुना अधिक विकट और कम फलदाई था। इस देश में ऐसा काम एक निष्काम कर्मयोगी ही कर सकता था। इस दृष्टि से विचार करते हुए माननीय गोखले और लोकमान्य तिलक का वास्तविक योग्यता ग्लैडस्टन अथवा पारनेल से एक व्यक्ति के नाते बहुत बड़ी थी। परन्तु उनका जन्म 'पिछड़ी हुई' संस्कृति में होने के कारण उनकी तुलना यूरोपियन संस्कृति में जन्मे श्रेष्ठ मुत्सद्दियों से हो सकती है, यह देखकर उस समय के लोग एक प्रकार का अभिमान अनुभव करते थे और उन्हें यह आत्मविश्वास होता था कि हम फिर अपनी प्राचीन श्रेष्ठता को पा लेंगे अथवा कम-से-कम दूसरे राष्ट्रों की बराबरी में तो आ ही सकेंगे।

हिन्दुस्तान की गौरा-समाज नौकरशाही और ब्रिटिश पूँजीपतियों की प्रतिनिधित्वरूप भारत सरकार यह परम्पराक्षक (Conservative) पक्ष और भारतीय जनता का प्रतिनिधिभूत सुशिक्षित नेता वर्ग यह प्रागतिक अथवा लिबरल पक्ष—ऐसी गोखले की राजनीति की भूमिका थी जहाँ लोकमान्य के राज-कारण में ब्रिटिश सरकार विदेशी नेता और

ब्रिटिश पूँजी की गुलामी से छुड़ाकर भारतीय नेता आज़ादी में ले जाने-वाले जनता के विश्वस्त लोकनायक के रूप में आते थे। पहले पक्ष को भारतीय राजनीति अनियंत्रित राजसत्ता को लोकसत्ता में परिवर्तित करने-वाली प्रतीत होती है तो दूसरे पक्ष को एक राष्ट्र के जवड़े से दूसरे राष्ट्र को मुक्त करनेवाली मालूम होता है। पहले के लिए यह स्पष्ट स्थिति भूल जाना कि हम 'गुलाम राष्ट्र हैं', शक्य नहीं था। उसी प्रकार दूसरे के लिए 'हमारा भारी स्वराज्य लोकसत्ताक होगा' यह विस्मृत होना भी संभवनीय न था। परन्तु पहले का जोर लोकसत्ताक उदार तत्त्वों पर विशेष था तो दूसरे का स्वातन्त्र्य-प्राप्ति की जावबल्य राष्ट्रीय भावना पर अधिक था। पहले की राष्ट्रीय भावना चन्द्रमा की तरह शीतल और सौम्य थी तो दूसरे की स्वातन्त्र्य-भावना मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रखर और तेजस्वी थी। पहले पक्ष के कुछ लोग कभी-कभी इस बात को भूल जाते थे कि गुलाम देश के हैं और अधिकारारूढ़ पक्ष से ऐसा ही व्यवहार करते थे, मानो एक ही देश के भिन्न वर्ग और पक्ष हैं तो दूसरे पक्ष के कुछ लोग इस बात को भूलकर कि भारतीय स्वराज्य आम जनता के बल से ही मिलनेवाला है और लोकसत्ताक ही होगा, देश की स्वतन्त्रता के अवशेष-स्वरूप मध्ययुगीन राजे-रजवाड़ों की ओर स्वातन्त्र्य-प्राप्ति की आशा से देखते थे। इन दोनों पक्षों के मूलभूत दृष्टिकोण में यह तात्विक भेद था। लॉर्ड कर्जन के मनमाने और उद्दण्ड शासन-काल में यह तात्विक भेद अधिकाधिक स्पष्ट एवं विशद होता गया और उसी के हिसाब से दोनों पक्षों का अन्तर भी बढ़ता गया।

लॉर्ड कर्जन का ध्येय अथवा नीति ही यह थी कि हिन्दुस्तान के प्रागतिक पक्ष अर्थात् नरम दल की राजनीति का पाया ही ढीला कर दिया जाय। प्रागतिक राजनीति का आधार था—महारानी विक्टोरिया की १८५८ की घोषणा और ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के समय-समय पर दिये गए अभिवचन। लॉर्ड कर्जन ने कई बार यह स्पष्ट कह दिया कि यह घोषणा राजा और प्रजा में हुआ कानूनी ठहराव नहीं है और उनका यह भी मत था कि आनुवंशिक तथा परंपरागत संस्कारों के कारण अंग्रेज नौकर-शाही में जो कार्यक्षमता है वह हिन्दुस्तान के पढ़े-लिखे लोगों में कभी-

नहीं आ सकती इसलिए यहाँ की बड़ी और ऊँची नौकरियाँ अंग्रेजों को ही मिलनी चाहिए । अपने उच्चार और आचार के द्वारा वे यह भी दिखलाते थे कि भारतीयों को धीरे-धीरे योग्य बनाकर शासन-भार उनके हाथ में सौंप देना हमारा ध्येय है, ऐसा जो राजनीतिज्ञ लोग कहा करते हैं उसपर विश्वास करनेवाले लोग बड़े मूर्ख हैं । वे यह भी प्रदर्शित करते थे कि हिन्दुस्तान की आम जनता तो राजभक्त ही है, कांग्रेस के द्वारा सुट्टी भर लोग उछल-कूद करते हैं । दलीलवाजी से उनका यह भ्रम दूर करना शिक्षित लोगों के लिए शक्य न था । तत्र विरोध और बाधा डालने का ही मार्ग नेताओं के सामने बाकी था । परन्तु गोखले के पक्ष के द्वारा इसके होने की आशंका न थी । लोकमान्य तिलक ने सब बातों से यह निचोड़ निकाला कि इसके लिए कांग्रेस को विरोध की नीति अख्तियार करनी चाहिए । अतः उन्होंने लार्ड कर्जन के शासन-काल के अंत कांग्रेस को अपने कब्जे में करने का उद्योग किया ।

इधर लार्ड कर्जन ने हिन्दुस्तान का शासन सब तरह से अनियन्त्रित या एकतंत्रीय करना शुरू किया । इसमें उनका मुख्य हेतु यह था कि हिन्दुस्तान के बाहर ब्रिटिश राज्य का विस्तार किया जाय । सरहद्द प्रान्त को स्वतंत्र करना, अफगानिस्तान को जोर देना, तिब्बत पर चढ़ाई करके चीन पर हावी होना और रूस को जकड़-बन्द कर देना उनकी साम्राज्य-विषयक और सैनिक नीति थी । अनियन्त्रित सत्ता के इस केन्द्रीकरण और आक्रामक परराष्ट्र नीति के आगे भारतीय नेताओं की बढ़ती हुई लोकसत्ता की आकांक्षाओं की कोई गुजर नहीं थी । परन्तु अपनी जिस स्वेच्छाचारिता और अहम्न्यता के कारण लार्ड कर्जन का नाम आधुनिक भारत के इतिहास में अमर हो गया है, वह था—बंग-भंग । बंगाल में जो निःशस्त्र और सशस्त्र क्रांतिवाद का जन्म हुआ और जिस बंगाल की राष्ट्रीय शक्ति को कांग्रेस की राजनीति के पक्ष में खड़ी करने के लिए लोकमान्य तिलक ने भगीरथ प्रयत्न किया उसका प्रथम आविर्भाव बंग-भंग के प्रतिकार के रूप में हिन्दुस्तान में हुआ ।

: ८ :

क्रान्तिकारी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद

“अतः दमन अनिवार्य था और वह इसलिए भी आवश्यक था कि सारी जनता राष्ट्रीयता की ओर झुके ; किन्तु दमन से राष्ट्रीयता का जन्म नहीं हुआ । कंस ने यादवों पर जो अन्याय और अत्याचार किये उनसे कृष्ण का जन्म नहीं हुआ ; परन्तु उनकी आवश्यकता इसलिए थी कि मथुरा के निवासी अपने मुक्तिदाता की कामना करें और जैसे ही उसका जन्म हो उसकी सत्ता स्वीकार कर लें । राष्ट्रियता एक अवतार है और उसका नाश नहीं किया जा सकता । राष्ट्रीयता ईश्वर द्वारा नियुक्त शक्ति है और सार्वभौम शक्ति में, जहाँ से उमका उद्गम हुआ है, अपना अस्तित्व विनाश करने के पूर्व उसे अपना ईश्वर-प्रदत्त कार्य पूरा करना चाहिए ।”
बन्दे मातरम्*

१९०४ से १९०७ तक कांग्रेस के अधिवेशन दिन-दिन अधिक उत्साह से और अधिक महत्वपूर्ण होने लगे । एक नवीन स्वामिभानी राष्ट्रीय पक्ष संगठित होने लगा था ; इधर इंग्लैंड में अनुदार दल की जगह उदार दल के हाथ में शासन-सत्ता आने से दादाभाई इत्यादि को हिन्दुस्तान के लिए कुछ आशा होने लगी । दादाभाई इत्यादि यह कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के स्वामिभानी उग्रदल और विनीत प्रागतिक दल दोनों के सहयोग से कांग्रेस को मजबूत किया जाय और गोखले के उत्साह और वक्तृत्व का लाभ कांग्रेस को मिले और तिलक के साहस और तेजस्विता से भी कांग्रेस को बल मिले । लोकमान्य तिलक का असली भगड़ा ह्यूम व दादाभाई नौरोजी से नहीं था, बल्कि गोखले से था । तिलक अपने दृग से कांग्रेस को उसी नीति पर ला रहे थे जो आगे चलकर दादाभाई के १९०६ में कांग्रेस को दिये संदेश के द्वारा प्रकट हुई । अर्थात् यह कि “आन्दोलन करो, अविराम आन्दोलन करो व दृढ़ निश्चय या एकता के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करो ।” दादाभाई इत्यादि समझ गये थे कि इस कार्य के लिए गोखले के उत्साह व वक्तृत्व से काम नहीं चलेगा, बल्कि तिलक पक्ष के साहस और ज़बरदस्त तेजस्विता की आवश्यकता होगी, और इसलिए कांग्रेस के मूल संस्थापक

बुजुर्गों की यह इच्छा थी कि उसमें फूट न पड़े और तिलक पक्ष के गुणों का संपूर्ण उपयोग उसमें हो। तिलक का भी यही मत था। उसमें विचार कितने ही उग्र और क्रांतिकारी क्यों न हों, वे इस बात में दादा-भाई से सहमत थे कि आगे के राजनीति-क्षेत्र में युद्ध करने के लिए कांग्रेस हमारे पास एक बड़ा हथियार है। उनका यह मत अंत तक कायम रहा कि नवीन पक्ष को चाहिए कि अपना बहुमत करके कांग्रेस में अपनी नवीन नीति का प्रवेश करे। उनका यह विश्वास था कि स्वराज्य की लड़ाई लड़ने के लिए हिन्दुस्तान में कांग्रेस का जन्म हुआ है और वही उसे चला सकती है। १९०५ में उन्होंने 'केसरी' में लिखा था : "अंग्रेजी हुकूमत की अथवा लार्ड कर्जन की फिजूल स्तुति करना निरर्थक है और न छोटी बातें लेकर व्यक्तियों का आलोचन-विवेचन करने में कुछ लाभ है। असली प्रश्न तो है शासन-पद्धति का, मनुष्यों की व्यक्तिगत शिकायतों का नहीं। असल बात यह है कि केनेडा या आस्ट्रेलिया की तरह हिन्दुस्तान राष्ट्रीय स्वराज्य चाहता है और जब हम सरकार को यह दिखा देंगे कि हम इस ध्येय को पाने के लिए तुल पड़े हैं तो हमें कुछ-न-कुछ सफलता अवश्य मिलेगी।" इसी वर्ष बाबू विपिन चन्द्र पाल ने प्रागतिक पक्ष की राजनीति व राजनिष्ठा का अर्थ कानून-विहित राजनिष्ठा किया अर्थात् राजनिष्ठा या साम्राज्यनिष्ठा का अर्थ राजा के प्रति निष्ठा नहीं, बल्कि कायदे-कानून के प्रति निष्ठा है; ऐसा प्रतिपादन किया। उन्होंने अंधाधुन्धी व उपद्रव के खिलाफ अपनी राय दी और बताया कि परतंत्र भारतीयों में हार्दिक साम्राज्यनिष्ठा नहीं हो सकती। हमारी राजनीति का सच्चा आधार तो राष्ट्र-भक्ति ही हो सकती है और उसीपर राष्ट्रीय राजनीति की दीवार खड़ी हो सकती है। इसी वर्ष बनारस कांग्रेस में इस राजनीति की नई स्थापना हुई और इस नवीन पक्ष का नेतृत्व लोकमान्य तिलक के हाथ में आया।

बंगाल में जिस प्रकार बाबू विपिन चंद्र पाल नवीन क्रांतिकारी भावना पैदा कर रहे थे उसी तरह महाराष्ट्र में स्वर्गीय शिवराम महादेव परांजपे अपने 'काल' पत्र के द्वारा पूर्ण स्वातन्त्र्य का ध्येय प्रतिपादन करके नवयुकों में क्रान्तिकारी दंग की राजनीति फैला रहे थे। उनके

लेखों से युवक महाराष्ट्रीय आजादी पाने के लिए वेचैन हो रहे थे और उसके लिए अधिक-से-अधिक कुर्बानी करने के लिए छुटपटा रहे थे। लोकमान्य भी ऐसा मानते थे कि विजित लोगों के अंतःकरण में एक प्रकार की क्रान्तिकारी भावना सदैव जीती-जागती रहना बहुत आवश्यक है। वह जबतक कानून की मर्यादा नहीं लाँघती अथवा शान्ति-भंग नहीं होने देती तबतक उसका निषेध करने की जरूरत नहीं होती। हिन्दुस्तान की राजनीति इंग्लैंड के जैसे स्वतंत्र व 'लोकसत्ताक' देश की वैधानिक राजनीति की जैसी नहीं हो सकती, उसे किसी-न-किसी प्रकार का क्रान्तिकार स्वरूप प्राप्त हुए बगैर नहीं रह सकता, ऐसा उन्हें दिखाई देता था। भारतीय हृदय की इस क्रान्तिकारी स्वातंत्र्य-भावना को बहिष्कार-योग की निःशस्त्र क्रान्ति का रूप देकर उस शक्ति को कांग्रेस का राजनीति के पीछे खड़ी करना और उसके बल पर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को कांग्रेस की मांगें मंजूर करने पर मजबूर कराना उस समय लोकमान्य की नीति थी। १९०४ की कांग्रेस में जो वाईस प्रस्ताव हुए, उनसे उनकी राजनीति का स्वरूप अच्छी तरह जाना जाता है; अबतक चार प्रकार की मांगें सरकार से की जाती थीं—एक आर्थिक और उद्योगों-संबंधी सुविधाओं की; दूसरी शासन-व्यवस्था में सुधार होकर लोक-प्रतिनिधियों का नियंत्रण होने संबंधी; तीसरी न्याय-विभाग और शासन-विभाग को अलग करने के संबंध में, व चौथी आक्रामक विदेशी नांति और बढ़ते हुए सैनिक खर्च के विरोध के संबंध में।

इन चार प्रकार की नित्य मांगों के अलावा वंग-भंग की योजना के तथा दमनकारी कानूनों के विरोध-संबंधी नैमित्तिक प्रस्ताव भी समय-समय पर होते रहते थे। महज राजनैतिक सुधारों के तार्त्विक विवेचन और सुशिक्षित देशभक्तों के शासन-कार्य संबंधी मत-प्रदर्शन की दृष्टि से अबतक का कार्य ठीक था। लेकिन इस राजनैतिक तत्त्वज्ञान को व्यावहारिक राजकारण का परिणामकारक स्वरूप प्राप्त करा देने के लिए उन मांगों के पीछे संगठित लोकशक्ति का बल होना चाहिए और उसके द्वारा प्रत्यक्ष कृति से लोगों को यह सिद्ध कर दिखाना चाहिए कि प्रचलित शासन-प्रणाली हमें

असह्य हो गई है। इसके सिवा, ये मांगें प्रतिपक्षी कबूल नहीं करेंगे यह विचार लो० तिलक, बाबू विपिन चन्द्र पाल और लाला लाजपत राय इन तीनों ने १९०५ में एकही साथ कांग्रेस के सामने रक्खा। इस नीति पर कांग्रेस के राजकारण को ले जाने का प्रयत्न १९०५ से १९०७ तक उन्होंने किया। परन्तु सर फिरोजशाह मेहता के नेतृत्व में नरम दलवालों ने यह जिद पकड़ी कि यह प्रयत्न सफल न हो, जिसके फलस्वरूप १९०७ में कांग्रेस की नैया सूरत में टूट-फूट गई और लाल, बाल, पाल के ये प्रयत्न व्यर्थ गए। इस प्रकार अंग्रेज राजनीतिज्ञों की भेद-नीति को सफलता मिली और कांग्रेस कमजोर पड़ गई। मॉर्ले-मिण्टो के खोखले सुधार देश के पल्ले पड़े, राष्ट्रीय पक्ष का दमन हुआ, उस्ताही नवयुवक देशभक्तों ने सशस्त्र क्रान्ति का अव्यवहार्य मार्ग स्वीकार किया और कुछ समय तक ब्रिटिश साम्राज्य की संगठित, वैज्ञानिक और भेदनीति-प्रधान दमन-नीति का ताण्डव नृत्य सारे देश में जारी हुआ।

बंगभंग की योजना में अंग्रेजों की भेदनीति काम कर रही थी। बंगाल के दो टुकड़े इस ढंग से किये गए थे कि पूर्व बंगाल मुस्लिम-प्रधान प्रान्त बन जाता था और पश्चिम बंगाल में विहार और उड़ीसावासियों की बहुसंख्या हो जाती थी। अर्थात् दोनों टुकड़ों में बंगाली अल्पसंख्यक हो जाते थे। मुसलमानों को फोड़ लेने की यह नीति थी। १९ जुलाई, १९०५ को बंगभंग की योजना प्रकाशित की गई और १६ अक्टूबर, १९०५ को बंगाल के दो टुकड़े कर दिये गए। इस योजना का श्रेय लार्ड कर्जन को था। ७ अगस्त १९०५ को इसके विरोध का भूँडा कलकत्ते में और बंगाल के दूसरे बड़े शहरों में ग्राम सभा में खड़ा किया गया जिसमें अंग्रेजी माल का बहिष्कार करने की कसमें खाई गई। लोकमान्य ने इस आन्दोलन का जोरों से समर्थन किया। उन्होंने 'केसरी' के अपने एक लेख में यह बताया कि 'स्वतंत्र राष्ट्र की विधिविहित राजनीति से परतंत्र राष्ट्र की राजनीति किस प्रकार भिन्न होती है।' उन्होंने लिखा कि "नाक दबाये बिना मुँह नहीं खुलता। यदि हम ऐसा कार्यक्रम न बनायेंगे जो सरकार को चुभनेवाला हो तो सरकार का दर्प कभी नहीं जायगा। हजारों-लाखों लोगों का समुदाय निश्चय की रस्सी से बँध जाना चाहिए। लोक-

मत का बल निश्चय में है, केवल समुच्चय में नहीं। शब्दों का जरूरत नहीं कृति चाहिए, और वह भी निश्चययुक्त। हिन्दुस्तान के लोकमत-विकास के इतिहास में आज ऐसा दिन आ पहुँचा है जबकि हमारे नेताओं को निश्चय के साथ आगे बढ़कर कार्य सिद्ध करना चाहिए या मुँह की भाप से दूषित वातावरण में व्यर्थ दम घुटकर मर जाना चाहिए। ऐसे आनन्दान के समय में अपने नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपने ठीक कदम नहीं उठाया या ढाले पड़ गये तो आपकी विद्या, आपके वचन और आपके देशाभिमान से लोगों का विश्वास उठ जायगा।

“इंग्लैंड और हिन्दुस्तान दोनों की स्थिति एक-दूसरे से भिन्न है। इंग्लैंड एक स्वतंत्र देश है और वहाँ की शासन-पद्धति के अनुसार भिन्न-भिन्न दल के लोगों के अधिकारारूढ़ होने की सम्भावना रहती है। जिसका बहुमत हो उसके दाय में वहाँ राजसत्ता आ जाती है इसलिए वहाँ के नेता बहुमत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते रहते हैं। परन्तु हिन्दुस्तान की स्थिति ऐसा नहीं है। यहाँ इंग्लैंड के जैसी बहुमत की कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ लाखों की सभाओं में प्रदर्शित राय की सरकार जरा भी परवाह नहीं करती, यह बंग-भंग के इस आन्दोलन से स्पष्ट हो रहा है। और यदि हमने इसके प्रतिकार का कोई उपाय न किया तो ऐसे आन्दोलनों पर से लोगों का विश्वास बहुत जल्दी उठ जायगा अब ऐसा समय आ पहुँचा है कि जब हम इस जवानी जमा-खर्च से आगे बढ़ें, नहीं तो हमें निरन्तर गुलामी में रहने के लिए तैयार रहना चाहिए।”

महाराष्ट्र में इस आन्दोलन को देखकर लो० तिलक के मन में जैसी उत्साह की लहर उठी उसी तरह विलायत में पितामह दादाभाई की आँखों में भी यह दृश्य देखकर आनन्द के आँसू आ गए। टेक्सटन हॉल की सभा में उन्होंने कहा, “हमारे शासक कहते हैं कि तुम्हारे देश को स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। हम ऐसा मौका ही नहीं देंगे जिससे तुम लोग स्वराज्य के लायक बन सको। इसके विरुद्ध हिन्दुस्तानी अब जाग्रत होकर कहने लगे हैं कि इस हालत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शासकों के और उनके बीच यही सवाल है। वे एक-दूसरे से भिड़ पड़े हैं। शासक कहते हैं कि हम विदेशी और विजेता बनकर

ही यहाँ राज्य करेंगे और तुम्हारे देश की धन - सम्पत्ति को अपने देश में बहा ले जाकर तुमको अकाल, प्लेग, दरिद्रता और फ्राकेकशी के मुँह में डाल देंगे । इसके बखिलाफ हिन्दुस्तानी कहते हैं कि हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे । कलकत्ते में इस संबंध में जिस दिन पहला सभा हुई वह दिन हिन्दुस्तान के इतिहास में कुंकुम से लिखने जैसा है । परमेश्वर का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जो मैं भारतीयों की स्वतंत्रता के जन्मदिन को देखने के लिए जिन्दा हूँ । अब सवाल यह है कि प्रजाजन और शासकों के इस संघर्ष का नतीजा क्या होगा ? बम्बई के गवर्नर और पोलिटिकल एजेंट सर जॉन मालकम ने ब्रिटिश शासन - पद्धति के अनिवार्य परिणाम के संबंध में लिखा है, इसका नतीजा महज हमारे अधःपात के रूप में ही न होगा; बल्कि हमारे साम्राज्य के विनाश के बीज भी इसमें निहित हैं । अंग्रेजों के ही मतों के निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान से ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जायगा । लोगों पर भी अब अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी आ पड़ी है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है । उन्होंने कह दिया कि अब हम गुलाम बनकर नहीं रहेंगे । अब उन्हें एसा निश्चय कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अंग्रेजों को यह विश्वास हो जायागा कि हिन्दुस्तानियों ने स्वराज्य प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो फिर मुझे कोई शंका नहीं है कि वे स्वराज्य देकर ही रहेंगे । संभव है वह सुदिन देखने के लिए मैं जिन्दा न रहूँ; परन्तु मुझे निश्चय है कि यह बात अवश्य होकर रहेगी ।”*

इस समय स्वर्गीय गोखले और लाला लाजपतराय ये दो तरुण नेता कांग्रेस की ओर से इंग्लैंड गए । इस समय इंग्लैंड में माननीय गोखले ने बसीठी का जैसा काम किया जिसकी तारीफ खुद लोक० तिलक को भी करनी पड़ी । इसका कारण यह कि दादाभाई की सलाह के अनुसार वैध मार्ग को नाकाफी समझकर बहिष्कार जैसे प्रत्यक्ष प्रतिकार के साधन की ओर वे भुके और ब्रिटिश जनता के सामने उन्होंने खुल्लमखुल्ला बहिष्कार का समर्थन किया । कांग्रेस के पुराने और नये दोनों पक्ष के नेता अब बुद्धि - बल का मार्ग छोड़कर प्रत्यक्ष कृति अथवा प्रत्यक्ष प्रतिकार के रास्ते

की तरफ आ रहे हैं ऐसा दृश्य १९०५ में दिखाई देने लगा था और इसी से लो० तिलक को इतनी खुशी हुई थी ! इस समय पूर्व बंगाल में एमफील्ड फुलर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और वे भेद तथा दमन-नीति का यथेच्छ उपयोग करके इस प्रत्यक्ष प्रतिकार की क्रान्तिकारी भावना को जवाने का अत्याचार-पूर्वक प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु लोकमान्य को यह विश्वास था कि यदि लोग निग्रह के साथ एक निश्चय से प्रत्यक्ष प्रतिकार के मार्ग पर दृढ़ रहे तो 'फुल्लरशाह' को झुके बिना चारा नहीं है। स्व० गोखले द्वारा बहिष्कार का समर्थन होते देखकर उन्हें इतनी खुशी हुई थी कि जब गोखले हिन्दुस्तान में आये तो पूना में लोकमान्य ने उनका अर्वाचनिक रूप से अभिनन्दन किया।

इस समय भारतीय राजनीति में जो बहिष्कार-आन्दोलन चल रहा था वह बढ़ते-बढ़ते अन्त को निःशस्त्र अथवा सशस्त्र क्रान्ति का रूप धारण कर लेगा—यह अन्दाज उनका था। ज्यों-ज्यों भारतीय राजनीति क्रान्तिवादी बनने लगी, त्यों-त्यों उनका सम्बन्ध इंग्लैंड के समाजवादी दल से अधिकाधिक होने लगा। अब तक भारतीय नेताओं का सम्बन्ध इंग्लैंड के उदार दल से था और दादाभाई आदि राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास उस पक्ष के नेताओं पर था। मगर सितम्बर १९०४ को एम्सटर्डम में समाजवादी नेताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद् हुई। उसमें दादाभाई ने भारत की करुणास्पद दुःस्थिति का हृदयस्पर्शी चित्र खींचा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य-द्वारा जकड़वन्द हिन्दुस्तान की ओर संसार के समाजवादी क्रान्तिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। उस समय उन तमाम समाजवादियों ने खड़े होकर दादाभाई के भाषण का गौरव बढ़ाया और दादाभाई का जय-घोष किया। इस समय दादाभाई का स्नेह-सम्बन्ध इंग्लैंड के समाजवादी नेता हिएडमन से हो गया था। जुलाई १९०५ में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विलायत में 'इंडिया हाउस' नामक संस्था खड़ी की और उसका उद्घाटन हिएडमन साहब से कराया। उस जल्से में दादाभाई भी मौजूद थे। हिएडमन साहब ने अपने भाषण में बहिष्कार की व्याप्ति का जो उल्लेख किया उसपर लोकमान्य तिलक के नीचे लिखे उद्गारों से अच्छा प्रकाश पड़ता है :

“शासक जब लोगों की बात नहीं सुनते तब लोग लुब्ध होकर खुद राज्य-शासन करने के लिए उठ खड़े होते हैं। खुद इंग्लैंड के इतिहास में ही इसका उदाहरण मिलता है। अनेक आचार-विचारों से छिन्न-विछिन्न और शासकों द्वारा निःशस्त्र किये गए बेचारे हिन्दुस्तान के लिए यह उपाय शक्य नहीं है; परन्तु, यदि उत्तम रामबाण औषध न मिले तो क्या मामूली दवा-दारू भी न की जाय...अत्रतक यह समझा जाता था कि विलायत में रोने-धोने से हमारी कोई सुनवाई न होगी; परन्तु अब हिण्डमन साहब ने अपने इस भाषण में ऐसा साफ साफ कह दिया है कि यह ख्याल गलत है। अधिकार और स्वार्थ के कारण जो पदां आखों पर पड़ा है वह मुँह की भाष से कभी उड़ नहीं जाता...न लॉर्ड कर्जन सुनते हैं, न ब्रॉडरिक साहब, न पार्लामेंट ही, तब क्या किया जाय ? ऐसा कुछ इलाज करना तो जरूरी है कि जिससे इनकी आँखें खुलें। शस्त्रास्त्रों के द्वारा इस मनमानी का प्रतिकार करना तो असम्भव है तब संघ-शक्ति का प्रयोग विधिवत् शासकों का नशा उतारने में किया जा सके तो साहस और दृढ़ता से ऐसा उद्योग करना हिन्दुस्तान का हित चाहनेवाले प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हिण्डमन साहब ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन अपने भाषण में किया है...ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जाय तो ‘राष्ट्रीय बहिष्कार’ ही इसका एक उपाय मालूम होता है। सर डब्ल्यू० वेडरबर्न ने ‘ग्रीनविच एथिकल सोसाइटी’ में कांग्रेस पर भाषण देते हुए कहा कि इटली जब आस्ट्रिया के कब्जे में था तब इटालियन लोगों ने विदेशी आस्ट्रियन अधिकारियों का बहिष्कार करके शासन-व्यवस्था असम्भव कर दी थी। वेडरबर्न साहब ने कहा—यदि हिन्दुस्तान के लोग इसी पद्धति को स्वीकार कर लें तो हिन्दुस्तान का शासन करना शासकों के लिए कठिन हो जाय। जिस बहिष्कार का भय उन्हें था वही अबसर आज उपस्थित हो गया है।” *

अर्थात् इस बहिष्कार में महज विलायती कपड़े का बहिष्कार ही नहीं बल्कि विलायती माल का बहिष्कार भी शामिल था और वह भी इस बहिष्कार-योग की पहली सीढ़ी थी। अन्त को जाकर कानून-भंग और

करवन्दी रूपा निःशस्त्र क्रान्त के अन्तिम शिखर तक पहुँच जाना, इस वहिष्कार-योग की परसी थी। दादाभाई नौरोजी ने तो १८८० में ही यह कह दिया था कि स्वदेशी आन्दोलन और विलायती माल के वहिष्कार का हलचल वा अन्त ब्रिटीश राज्य के वहिष्कार में हो जायगा और हिन्दुस्तान में क्रान्तिवादी राजनीति फैल जायगी। अब खुल्लम-खुल्ला इस मार्ग का उपदेश करनेवाला एक दल हिन्दुस्तान में पैदा हो गया था और लोकमान्य तिलक उसके नेता बनने जा रहे थे। इन्हीं दिनों आयरलैंड में भी एक निःशस्त्र क्रान्तिवादी दल आर्थर ग्रिफिथ के नेतृत्व में बना और लोकमान्य तिलक को जो कि, पहले से ही आयरलैंड के नेताओं से प्रेरणा लेते रहते थे, ग्रिफिथ साहब का निःशस्त्र क्रान्तिमार्ग ग्रहण करने की प्रवृत्ति हुई हो तो आश्चर्य नहीं। पारनेल की मृत्यु के बाद आयरिश राजनीति पार्लियामेंट में बाधा पहुँचाकर शासन-यंत्र को बेकार बना देने और प्रतिस्पर्धी शासन-व्यवस्था कायम करने के निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग तक आ पहुँची थी। ऐसी दशा में भारतीय राजनीति का क्रम-विकास वहिष्कार-योग के बल पर निःशस्त्र क्रान्तिमार्ग की ओर होना स्वाभाविक था। आर्थर ग्रिफिथ का सिनफीन दल पहले निःशस्त्र क्रान्तिवादी था। उसका साग जोर स्वदेशी, स्वावलंबन, वहिष्कार और निःशस्त्र प्रतिकार—इन माथनों पर था। एक ओर पार्लियामेंट में स्कावट डालना और दूसरी ओर मशस्त्र क्रान्ति इन दोनों के बीच का यह निःशस्त्र क्रान्तिमार्ग था। इस समय समाजवादी क्रान्तिकारियों में भी आम हड़ताल के रूप में एक प्रकार का निःशस्त्र क्रान्तिवाद पैदा हो रहा था। परन्तु इन सब निःशस्त्र क्रान्तिवादी विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने का काम सिर्फ हिन्दुस्तान में ही हुआ है और उसका बहुत कुछ श्रेय महात्मा गांधी तथा उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान को है।

यद्यपि स्वर्गीय गोखले के वहिष्कार-समर्थन से और लो० तिलक द्वारा उनके सार्वजनिक अभिनन्दन से कुछ समय ऐसा भासित हुआ मानो पूना का पक्ष-भेद मिट गया; परन्तु जानकार और सूक्ष्मदर्शी लोग जानते थे कि दोनों की राजनीति की मूल भूमिका अलग-अलग है लो० तिलक भारतीय राजनीति को वैधमार्गी सुधारवाद से हटाकर

निःशस्त्र क्रान्तिवाद की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय माननीय गोखले अपने गुरु की वैध राजनीति को चिरंतन करने के लिए 'भारत-सेवक-समाज' की स्थापना कर रहे थे। १२ जून १९०५ को यह संस्था खुली। उसकी उद्देश्य-पत्रिका में 'ब्रिटिश साम्राज्य-अंतर्गत स्वराज्य' अपना राष्ट्रीय ध्येय बताया गया है और श्रद्धा व्यक्त की गई है कि अंग्रेजों का हिन्दुस्तान से सन्बन्ध जोड़ने में हिन्दुस्तान का हित करने की ही ईश्वरीय इच्छा है। इसका यह अर्थ हुआ कि अब ब्रिटिश संबंध तोड़कर पूर्ण स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयत्न करना मानो ईश्वरीय इच्छा या आज्ञा का भंग करना है।

यह मानना कि एक राष्ट्र का हमेशा दूसरे राष्ट्र के अधीन बना रहना उचित है मानो यह कहना है कि मनुष्यों की दो पृथक् जातियाँ हैं। एक का विशेष साम्य पशु से है मगर उसे संयोग से मनुष्य नाम दे दिया गया है। अफलातून, अरस्तू आदि पुराने ग्रीक दार्शनिकों का कुछ ऐसा ही ख्याल था और आजकल भी उन बलाढ्य राष्ट्रों के कुछ लोग जो दुर्बल विदेशियों पर शासन कर रहे हैं ऐसी बातें कहा करते हैं। परन्तु अब इन विचारों को कोई भी विचारशील मनुष्य नहीं मानता। हैलेनिक (ग्रीक) लोग ही अकेले शासन करने योग्य है ऐसी दलील अब कोई नहीं सुन सकता। अब तो शासन-सम्बन्धी विचारों का भुकाव यह मानने की तरफ है कि प्रयत्न या पुरुषार्थ से इच्छित स्थिति प्राप्त की जा सकती है। फिर भी यदि कोई यह साबित कर दे कि फलों जाति या देश अब किसी तरह आगे नहीं बढ़ सकता तो यह कहना कि उनका समूह नाश हो जायगा गलत न होगा और उनका नाश जल्दी-से-जल्दी हो ऐसी इच्छा करना अनैतिक न होगा।*—इस तरह १९०५ तक के समय में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जो जागृति लोकमान्य आदि नेताओं ने की उसकी बदौलत भारत-पुत्रों को यह विश्वास होने लगा था कि अब हमारा नाश किसी तरह नहीं हो सकता, बल्कि हम स्वतंत्र होकर रहेंगे और संसार का नेतृत्व करेंगे।

यह दैवयोग की ही बात है कि 'हिन्दुस्तान का परतंत्र होना एक

* आगरकर का 'निबंध-संग्रह' भाग १ पृ० १८३

ईश्वरीय प्रसाद है, यह ख्याल जिस तरह एक बंगाली हिंदू नेता ने ही शुरू किया उसी तरह इसके विपरीत एक बंगाली हिन्दू ने ही इस भावना को फैलाया कि ईश्वर का आदेश हो चुका है कि हिन्दुस्तान आजाद हो और आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता परमात्मा की एक अवतार-शक्ति ही है । यह जोरदार प्रेरणा लोगों को (योगी) अरविन्द से मिली । जिन-जिन के दिलों में राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की भावना ने संचार कर लिया था वे सुख-दुःख के द्वन्द्व से मुक्त हो गये थे, बल्कि इस भावना की अभिव्यक्ति के लिए हर तरह के कष्ट उठाने में ही अपने जीवन की सार्थकता मानकर एक प्रकार का पारमार्थिक आनन्द अनुभव करने लगे थे । इन अद्वैतानुभवी मुक्त आत्माओं को, जो सुख-दुःखादि द्वंद्वों से परे हो गये थे, कोई भी काम करना कठिन नहीं मालूम होता था न कोई आपत्ति ही दुस्तर मालूम होती थी । वे यह अनुभव करते थे कि जो आपत्ति को प्रचण्ड लहरों दमारे सामने मुँह बाये आ खड़ी होती है वे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अन्तःकरण की उससे भी प्रचंड शक्ति को अपना प्रचण्डतर सामर्थ्य व्यक्त करने के लिये प्रेम-पूर्वक आवाहन कर रही हैं । उन्हें यह भास होने लगा था कि ऊपर से प्रचण्ड दिखाई देनेवाली भौतिक शक्ति पर भी अपना प्रभुत्व चलानेवाली एक प्रचंडतर शक्ति हमारे अन्तःकरण में है और जो ध्येय या आदर्श मानवी बुद्धि में स्फुरित होते हैं वे इस आत्मशक्ति से ही पैदा होते हैं, बल्कि वास्तवतः विरोधी दिखाई देनेवाली भौतिक शक्ति भी सचमुच हमारे अन्तःकरण की आत्मशक्ति की विरोधक नहीं, किंतु ऊपर से जड़ दिखाई देनेवाला उसका एक स्वरूप है । बंगाली युवक यह अनुभव करने लगे थे कि आपत्ति की हिलोरों को पार कर जाना हमारे हृदय के असीम प्रेरणा-बल की एक दैवी लीला है और इसलिए उन्हें आध्यात्मिक मोक्ष तथा राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य में कोई भेद नहीं दिखाई देता था । राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के विषम विग्रह से उत्पन्न आपत्ति की लहरों का मुकाबला वे देहज्ञान भूलकर करते थे और राजनैतिक संग्राम में आध्यात्मिक मोक्ष पद का अनुभव करने लगे । इतल तरह जो बंगाली सारे हिन्दुस्तान में बोदे और दब्वू माने जाते थे वे राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य-संग्राम में सबसे आगे निकल गये और जो

वेदान्त इस बात के लिए दुनिया भर में बदनाम था कि वह व्यक्ति या राष्ट्र को सांसारिक जीवन-कलह के अयोग्य बना देता है उसी का आधार लेकर वे प्रवृत्ति-क्षेत्र में कूद पड़े और सारे संसार को राष्ट्र-संगठन और राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य के मार्ग-दर्शन का गौरव इस प्राचीनतम भरतभूमि के पुत्रों को ही मिलेगा, ऐसी आत्म-विश्वास की भाषा भी बोलने लगे।

इस त्रंगाली आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का यथार्थ वर्णन योगी अरविंद के एक भाषण में मिलता है। उपनिषद् के दो पक्षियों की एक कथा का आधार लेकर अरविंद वाचू कहते हैं— “इस कथा में कहा गया है कि मीठे और कड़वे फलों से लदे एक विशाल वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। एक तो पेड़ के अग्रभाग पर बैठा है और दूसरा उसके नीचे की शाख पर। दूसरा पक्षी जब ऊपर देखता है तब उसे अपने सारे पंख फैलाकर एक वैभव का आनन्द लेनेवाले पहले पक्षी का दर्शन होता है और वह प्रेम से उसपर मोहित हो जाता है। उस समय उसके मन में यह भावना पैदा होती है कि यह वैभवशाली पक्षी कोई गैर नहीं, बल्कि मेरा ही श्रेष्ठतम अन्तरात्मा है। परन्तु जब वह उस वृक्ष के मीठे फलों का स्वाद लेता है तब उसकी मिठास से इतना मुग्ध हो जाता है कि वह अपने इस प्रियतम प्राण-सखा को भूल जाता है। थोड़ी ही देर के बाद उस पेड़ के कड़वे फल खाने की बारी आती है जिसके कड़वे रस से उसकी मोहनी उतर जाती है और वह फिर अपने तेजपुञ्ज सहचर की ओर देखने लगता है। जाहिर है कि यह कथा जीवात्मा और मोक्ष से सम्बन्ध रखती है। यह राष्ट्रीय मोक्ष पर भी उसी तरह घटित होती है। हम हिन्दुस्तानी विदेशियों की माया के फेर में पड़ गये थे और उसका जाल हमारी आत्मा पर भी फैल गया था। यह माया थी उन विदेशियों के शासन-प्रबन्ध की, विदेशी संस्कृति की, विदेशियों के शक्ति और सामर्थ्य की। हमारे शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक जीवन पर डाली गई मानों ये वेड़ियाँ ही थीं। हमारी भी यही धारणा बन गई कि हम स्वराज्य और राजनीति के योग्य नहीं हैं। इंग्लैंड की ओर हम एक आदर्श राष्ट्र की दृष्टि से देखने लगे और यह मानने लगे कि वही हमारी मुक्ति करेगा पर वह सब माया थी और थीं वेड़ियाँ।... हिन्दुस्तान में जो कुछ चैतन्य

था उसे नष्ट करने में हमोंने उन्हें सहायता दी—छिः छिः, हमों अपने बन्धन के साधन बन गए ! हम बगाला उनकी नौकरी में घुसे और उनका राज्य स्थापित किया । हमें अपनी रक्षा, अपनी शिक्षा और अपने भरण-पोषण के लिए दूसरों की आवश्यकता मालूम पड़ने लगी । हमारी स्वावलम्बन-शक्ति इतनी नष्ट हो गई थी कि हम मानवी जीवन के किसी भी कार्य को करने में असमर्थ बन गये थे ।

“इस माया का विध्वंस बिना दमन और क्लेश के नहीं हो सकता । बंग-भंग का जो कटु फल लांड कर्ज । न हमें चन्न या उससे हमारा मोह नष्ट हो गया । हम ऊपर निगाह उठाकर देखने लगे और संसार-वृत्त की चोटी पर बैठे तेजःपुञ्ज पत्नी दूसरा नहीं, हमारा ही अन्तरात्मा है, हमारा वास्तविक प्रत्यगात्मा ही है—यह ज्ञान हमें हो गया । इस तरह हम समझ गये कि हमारा स्वराज्य हमारे ही अन्दर है और उसे पाने तथा उसका साक्षात्कार करने की शक्ति भी हमारे अन्दर है ।

“लोग कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत हममें नहीं । उसके लिए विदेशियों की सहायता लेने की जरूरत है । इसलिए उसका विरोध करते हुए भी उनसे सहयोग करना चाहिए । पर हम एक ही समय में परमेश्वर और माया दोनों पर अवलम्बित रह सकते हैं ?... तुम शस्त्र के संकटों से न डरो । तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालनेवाली शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों न हो. तुम चिन्ता न करो । ‘तुम स्वतंत्र हो’ यह परमेश्वर का आदेश है और तुम्हें स्वतन्त्रता प्राप्त करनी ही चाहिए. यदि तुमने आत्मस्वरूप को पहचान लिया तो तुम्हें डरने जैसी कोई बात नहीं है । संसार में सत्य, प्रेम और श्रद्धा के लिए अमाध्य कुछ नहीं है । यही तुम्हारा धर्म-मन्त्र है और इसके द्वारा बड़े चमत्कार दिखाई देंगे । अपनी सुरक्षितता या सुख के लिए दुमानी भाषा मत बोलो, दुर्बलता को पास मत आने दो । तनकर सीधे खड़े रहो । स्वदेशी का जो दमन किया जा रहा है इसीसे उसका तेज बढ़ रहा है । लोग कहते हैं, हममें एका नहीं है, यह एका हो कैसे ? सब पुत्र मिलकर मातृभूमि की पुकार पर दौड़ पड़ेंगे तो इसीसे एकता हो जायगी । दूसरे झूठे उपायों से हरगिज न होगी ।..यह काय हमारा नहीं है—हमसे भी बढ़कर

एक प्रचण्ड शक्ति हमें आगे बढ़ा रही है और वह हमें तबतक प्रेरणा देती रहेगी जबतक हमारे सब बन्वन टूट न जायँ और हिन्दुस्तान सारी दुनिया में एक स्वतन्त्र देश न बन जाय ।” * एक जगह और वे कहते हैं—“इस परमेश्वरी शक्ति से व्याप्त यह सारा राष्ट्र जब जाग्रत होकर खड़ा हो जायगा और सर्वशक्तिमान् परमेश्वर उसे प्रेरणा करेगा तब कोई भी ऐहिक शक्ति उसका प्रतिकार न कर सकेगी और उसकी प्रगति को संसार की कोई भी आपत्ति या बाधा नहीं रोक सकेगी ; क्योंकि इसमें परमेश्वर का अधिष्ठान है । यह उसी का कार्य है । वह हमसे कुछ काम करा लेना चाहता है ।”

बंगाल में बंगभंग के प्रतिकार को लेकर जो एक प्रचण्ड शक्ति निर्माण हो रही थी उसे निःशस्त्र क्रान्ति का रूप देकर कांग्रेस की राजनीति को उसका बल मिले, यह नीति लोकमान्य की १९०५ से लेकर १९०८ तक थी । इसके विपरीत सर फीरोजशाह आदि पुराने नेताओं की नीति थी कि कांग्रेस को नवीन मार्ग पर न जाने देकर पहले के ही परावलम्बन के पथ पर जोर से खींचकर पकड़ रखें, क्योंकि उन्हें यह आशंका थी कि नवीन शक्ति के प्रकाश में दिखाई पड़े इस पथ पर कांग्रेस चली गई तो न जाने किस खोह में जा गिरेगी ! मा० गोखले व बाबू सुरेन्द्रनाथ थे तो यद्यपि पुराने पथ के ही पथिक, फिर भी उन्हें सर फीरोजशाह की नीति में हठ और दुराग्रह मालूम होता था । परन्तु इस नवीन शक्ति के खुल्लमखुल्ला स्वागत करने का साहस उनमें न था और उनका विश्वास तो पुरानी नीति पर था ही, इसलिए अन्त में उन्हें सर फीरोजशाह के झंडे के नीचे ही रहना पड़ा । इस रस्ता-खिंचाई का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस में फूट पड़ गई जिससे अंग्रेज शासकों ने खूब फायदा उठाया । फलतः भारतीय राष्ट्रशक्ति कुछ साल तक निश्चेष्ट पड़ी रही !

लोकमान्य ने १९०५ में ही कांग्रेस के दायरे में नवीन दल को बहिष्कार-योग की दीक्षा देकर लाला लाजपतराय और बाबू विपिन चन्द्र पाल की सहायता से नवीन निःशस्त्र क्रान्तिकारी दल को स्थापन की । †

* Speech of 'Aurobindo Ghose p. 61—66.

† Yong India by Lajpatrai P. 175.

उस वर्ष गोखले, जिन्होंने 'भारत सेवक समाज' की स्थापना करके पुरानी राजनीति को चिरंतन करने का प्रयत्न किया था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने भाषण में औपनिवेशिक स्वराज्य को ही हमारा अंतिम माध्य बताया था, फिर भी उन्होंने बंगाल की विलायती माल के बहिष्कार की हलचल का समर्थन और अभिनन्दन किया था और स्वदेशी-आन्दोलन की पुष्टि की थी। मगर, चूँकि उनके मूल विचारों की भूमिका वही रही, राजनिष्ठा और राष्ट्रनिष्ठा का समन्वय करके उन्होंने अपने भाषण में युवराज के आगमन का स्वागत किया था। इधर बंगाली युवक इसके विरोध में थे। यहाँ तक कि गोखले को कह देना पड़ा कि यदि युवराज के स्वागत का प्रस्ताव गिर गया तो मुझे अध्यक्ष का स्थान छोड़ देना पड़ेगा। तब लोकमान्य और लालाजो के बीच-बिचाव से यह तय हुआ कि बंगाली युवक प्रस्ताव के विरोध-स्वरूप सभा से उठकर चले जायँ और प्रस्ताव बहुमत से मंजूर किया जाय। इस तरह बनारस का कांग्रेस-अधिवेशन निर्विघ्न पूरा हुआ।

सन् १९०६ का साल दो-तीन बातों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो इस बहिष्कारयोग का परिणाम बंगाल में शांति-युक्त कानून-भंग के रूप में हुआ जिससे बंगाली नेताओं को तात्कालिक सफलता मिली। इसके कुछ ही दिन बाद (लोकमान्य की प्रेरणा से) श्री दादा सा० खापर्डे ने इस आशय की एक विज्ञप्ति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजी कि आगामी कांग्रेस में कांग्रेस की नीति को नई दिशा मिलनी चाहिए। इसका समर्थन करते हुए लोकमान्य ने लिखा कि जबतक निःशस्त्र कानून-भंग तथा बहिष्कार का अवलंबन करके शासन-यंत्र को बेकार नहीं बना दिया जायगा तबतक मोर्ले साहब भी हमें कुछ न दे सकेंगे। उधर विलायत में गोखले और मोर्ले की बातचीत चलती रहती थी जिससे मोर्ले के उदार विचारों से गोखले प्रभावित हो गए और उनकी साम्राज्य-निष्ठा और भी मजबूत हो गई— यहाँ तक कि वे तिलक के नवीन प्रयत्न का विरोध करने के लिए भी आमादा हो गये। इधर बंगाली नेताओं ने कानून-भंग का जो छोटा-सा उद्योग किया, उनके साथ ही उन्हें जेल में डाल दिया गया और जब हजारों लोगों ने उनका अनुकरण किया तो

उनके सिर फोड़े गए । यह दृश्य देखकर लोकमान्य के आगे की पीढ़ी के कुछ युवकों का विश्वास निःशस्त्र क्रान्ति पर से उठ गया और वे सशस्त्र क्रान्ति की ओर चल पड़े ।

तीसरी महान् घटना यह हुई कि दादाभाई ने कांग्रेस को स्वराज्य का मन्त्र पढ़ाया और पुराने तथा नये दोनों दल के लोगों का सहयोग लेकर स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार और स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव पास करा लिए और नवीन पीढ़ी को 'दृढ़ संकल्प रखो, एक होओ और स्वराज्य प्राप्त करो' यह दिव्य संदेश दिया । इस कारण १९०६ की कांग्रेस, जो कलकत्ते में हुई, आधुनिक भारत के इतिहास में चिर-स्मरणीय और युग-प्रवर्तक मानी जाती है । दादाभाई द्वारा निर्धारित यह नीति यदि पुरानी पीढ़ी के लोगों ने मंजूर कर ली होती तो आज कांग्रेस का तथा भारत का इतिहास कुछ और ही बना होता ; परन्तु ऐसा उज्वल इतिहास बनाने जैसी राष्ट्रीय बुद्धि हमारे देश में उस समय पैदा नहीं हुई थी । कांग्रेस पर नवीन पीढ़ी का प्रकृति-दत्त अधिकार है, यह पुरानी पीढ़ी के लोग अभी महसूस नहीं करते थे । कर्मठ सनातनियों की तरह अपनी राजनीति को उन्होंने अचल व चैतन्यशून्य बना दिया था और अपनी साम्राज्यनिष्ठा को परमेश्वर-निष्ठा जैसी त्रिकालाबाधित सत्यनिष्ठा बनाने का मोहान्ध प्रयत्न कर रहे थे । आत्म-प्रत्यय का अभाव और विदेशी सत्ता के दमन से कुचले जाने की भीति— ये दो इस मोहान्धता के वास्तविक कारण हैं । पुराने दल के लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उनके इस मोहान्धकार में यदि कांग्रेस की नैया हट से खेने में टकराकर चूर-चूर भी हो जाती तो उनके कर्णधारों को दुःख नहीं होता । इधर नवीन दल में अहंकार की कमी न थी ; परन्तु उनके पीछे आत्म-श्रद्धा और आत्माहुति की चैतन्यशक्ति थी । इसलिए, यद्यपि कांग्रेस की नैया के टूटने का कारण दोनों तरफ का अहंकार था, तथापि उसके दोष की जिम्मेदारी पुराने दल के लोगों पर ही आता है । आगे की घटनाओं से यह साफ समझ में आ जायगा ।

१९०५ के आरम्भ में इंग्लैंड में उदार मतवादियों का मन्त्रि-मण्डल बना जिसमें मोर्ले साहब ने यह जाहिर किया कि वंग-भंग के रह करने की

आशा किसी को न रखनी चाहिए और न ही यह अपेक्षा रखनी चाहिए कि शासन-व्यवस्था में भी उदार दल कोई जल्दी सुधार करेगा। इसपर लोकमान्य ने स्वावलम्बन का, निश्चय का, निग्रह-सामर्थ्य दिखाने का और विदेशी कपड़े की होली जलाने का उपदेश लोगों को दिया। उन्होंने कहा, “मोलें उदार विचार के तत्ववेत्ता हैं; परन्तु भारत-मन्त्री के नाते उनसे हमारे लाभ की कोई भी बड़ी बात कभी नहीं हो सकती जबतक कि हम अपने तेज और बल का परिचय न दें। उन्हें जबतक यह न मालूम हो जायगा कि ब्रिटिश शासन-पद्धति के कष्ट हमारे लिए असह्य हो गये हैं, और अब हम उनको दूर करने के लिए तुल पड़े हैं, एवं जबतक वे दूर न हो जायँगे तबतक ब्रिटिश शासन निर्विघ्न नहीं चल सकता, तबतक मीठे लेकिन सूखे शब्दों के सिवा मोलें से हमें कुछ नहीं हासिल हो सकता। ‘आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः’ ही हमारा आधार होना चाहिए।”

इस आत्मनिग्रह और दृढ़निश्चय का परिचय लोग किस तरह दें, इसका नमूना अप्रैल में मिल गया। नवम्बर १९०५ में पूर्व बंगाल के ले० गवर्नर फुलर साहब के सेक्रेटरी ने हुकम निकाला कि ‘वन्देमातरम्’ का नारा न लगाया जाय तथा स्वदेशी बहिष्कार-आन्दोलन को दबाने के लिए गोरखों को बुलाकर उन्होंने फौजी-शासन का दौर-दौरा शुरू किया। इसका विरोध करने के लिए त्रारीसाल में, १९०६ में, प्रान्तीय परिषद् करना तय हुआ। इसपर यह हुकम निकला कि इस परिषद् में विद्यार्थी भाग न लें और जिन विद्यालयों के विद्यार्थी इसमें जायँगे उनको सरकारी सहायता न मिलेगी। लोगों का कहना था कि ‘वन्देमातरम्’ का घोष करने से शान्ति भंग होती है ऐसा मानकर हुकम निकालना ही बेकायदा है। अतः उन्होंने उस हुकम के खिलाफ सत्याग्रह करने का निश्चय किया। परिषद् के सभापति के जुलूस में हजारों लोगों ने ‘वन्देमातरम्’ का जयघोष किया और उसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। ‘वन्देमातरम्’ का जय-घोष होते ही बाबू सुरेन्द्रनाथ गिरफ्तार कर लिये गए। पुलिस की लाठियों ने जुलूसवालों के सिर अच्छी तरह फोड़े। इसपर लोकमान्य ने ‘केसरी’ में लिखा: “जिस प्रकार बाकायदा जुल्म लोगों पर किया जाता है

उसी प्रकार शान्ति से, स्थिर भाव से और संकट के सामने हिम्मत न हारकर दृढ़ निश्चय से जुल्म के हुकमों का प्रतिकार भी प्रजा कर सकती है। जुल्म आखिर जुल्म ही है, फिर वह चाकायदा हो या बेकायदा। जुल्म यदि चाकायदा है तो शान्ति और कष्ट-सहन के द्वारा दृढ़ निश्चय से उसका प्रतिकार करना चाहिए। बंगाल के लोगों ने इस हुकम को न मानकर कष्ट-सहन करने की अपनी इच्छा व स्वार्थ-त्याग के द्वारा यह दिखा दिया है कि यह आशा अन्यायपूर्ण है। सरकार ने अप्रत्यक्ष रीति से उस हुकम को रद्द कर दिया, इसका श्रेय लॉर्ड मिंटो व मा० मोर्ले को देना चाहिए। 'वन्देमातरम्' का खुल्लमखुल्ला जयघोष करने का हक प्राप्त करने के लिए बंगाल के नेताओं ने जो अनुकरणीय तेजस्विता दिखाई वह अभिनन्दनीय है।”

यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि आज्ञा-भंग चाकायदा कैसे हुआ ? इसका अर्थ यह हुआ कि अन्यायपूर्ण कानून का भंग करने के बाद उसकी सजा शान्ति के साथ भुगतने के लिए जबतक लोग तैयार हैं तबतक वह प्रतिकार चाकायदा ही है—ऐसा लोकमान्य तिलक का मत था। कानून कहता है कि ऐसा करो नहीं तो सजा भुगतो। इसमें से किसी भी एक बात को मान लेना एक तरह से चाकायदा ही हुआ, क्योंकि दोनों मार्ग पर चलनेवाले लोग कानून बनानेवालों की सत्ता मानते ही हैं। अतएव कानून भंग करके सजा भुगतने को तैयार होना—यह सत्याग्रही विधि एक तरह से चाकायदा प्रतिकार की—शान्ति, आत्मक्लेश और दृढ़निश्चय-युक्त प्रतिकार की—ही विधि है। इसके अनुसार लोकमान्य ने इसी सत्याग्रह का मार्ग ग्रहण करने का उपदेश कांग्रेस को देना शुरू किया। इसके दूसरे ही सप्ताह में दादा सा० खापर्डे की गश्ती चिट्ठी घूमी और लोकमान्य ने 'केसरी' में लिखा—

“विधि-विहित आन्दोलन से सफलता मिलेगी, ऐसा कहनेवालों के मुँह पर मोर्ले ने यह जो (बंग-भंग-संबंधी) चपत लगाई है, उसे सहन करनेवालों को तथा अब भी भिक्षा-वृत्ति के गीत गानेवालों को पागल या निर्लज्ज समझना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि अपने दुःख-दर्द

अधिकारियों पर प्रकट न करें या उनके सामने अपनी माँगें पेश न करें। परन्तु राजनैतिक बातों में ब्राह्मणी माँग से काम नहीं चल सकता। मद्रास की प्रान्तिक सभा के अध्यक्ष श्रीकृष्ण स्वामी अय्यर ने भी अपने भाषण में कहा है—हमारे राजनैतिक आन्दोलन की दिशा में अब कोई विशेष परिवर्तन करना चाहिए। 'हिन्दू' के विलायती संवाददाता का भी ऐसा ही कहना है। वह कहता है कि 'पैसिव रेजिस्टेंस' यदि किया जाय तो विलायत के उदार मतवादी लोग उनका समर्थन करेंगे। यह तत्त्व अब सर्वमान्य हो चुका।

लो० तिलक के इधर महाराष्ट्र में सत्याग्रह-मार्ग का उपदेश देकर कांग्रेस में नई नीति दाखिल करने की घोषणा करते ही बंगाल के नेता बाबू विपिन चन्द्र पाल ने 'वन्देमातरम्' में यह जाहिर किया कि पूर्ण स्वतन्त्रता ही हमारा ध्येय है और सत्याग्रह अथवा निःशस्त्र प्रतिकार हमारा साधन। उसमें उन्होंने कहा है कि स्वतन्त्रता के ध्येय का अर्थ यह है कि विदेशी नियंत्रण विलकुल न रहे। यह विलकुल विधिविहित ध्येय है। निष्क्रय प्रतिरोध हमारा साधन है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सरकार को स्वेच्छापूर्वक किसी प्रकार की सहायता न दें। कौन कह सकता है कि ये साधन पूरी तरह विधि-विहित नहीं हैं ?

इन दिनों लॉर्ड मॉर्ले भारत-मंत्री थे। वे तत्त्ववेत्ता माने जाते थे। स्वर्गीय गोखले ने लोकमान्य से कहलाया कि मॉर्ले साहब जो सुधार देना चाहते हैं उनका विरोध मत करो। लोकमान्य ने एक तरह से इसके जवाब में ही 'केसरी' में एक लेख लिखकर दिखलाया कि, "जबतक सरकार की गाड़ी रुक नहीं जायगी, तबतक हमें कोई वास्तविक सुधार नहीं मिलेंगे। जब मॉर्ले साहब ही नहीं कर्जन साहब को ऐसा विश्वास हो जायगा कि हिन्दुस्तान के लोगों को महत्त्वपूर्ण अधिकार दिये बिना गति नहीं है, तभी हिन्दुस्तान का कुछ लाभ हो सकता है। यदि हम केवल उदात्त तत्वों के मनोराज्य में डूबकर, तत्वज्ञान का विश्वास पकड़कर बैठ रहें तो कहना होगा कि हमारे जैसा हतभागी कोई नहीं। हमें यह भूलना न चाहिए कि यह राजनीति है, तत्वज्ञान नहीं।"

लोकमान्य का मतलब यह था कि हमारी माँग ब्राह्मण की नहीं, क्षत्रिय की होनी चाहिए। उसके पीछे बल होना चाहिए। तत्त्ववेत्ता मॉर्ले और राजनेता मॉर्ले की भूमिका में फर्क है। उनका तत्त्वज्ञान कार्य-रूप में कैसे परिणत हो, इसका मार्ग लोकमान्य ने बताया।

वारीसाल-परिषद् में निःशस्त्र जनता का जो सिर-फुड़ौव्वल हुआ वह दृश्य बाबू अरविन्द घोष ने देखा था। निःशस्त्र प्रतिकार का वह उत्साह-वर्द्धक दृश्य देखकर उन्होंने बड़ौदा का अपना शिक्षाधिकारी का पद छोड़कर बंगाल की निःशस्त्र क्रान्ति के कार्य में पड़ जाने का निश्चय किया। 'वन्देमातरम्' के वे सम्पादक हुए। राष्ट्रीय शिक्षण का काम जोर-शोर से शुरू किया। अरविन्द बाबू की प्रवृत्ति पहले से ही आध्यात्म-प्रवण थी। इससे इस निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग में उन्हें संसार का एक अभिनव क्रान्तिशास्त्र दिखाई दिया और उस दृष्टि से वे भारतीय राजनीति का आध्यात्मिक स्वरूप लोगों को दिखाने लगे। परन्तु उनके छोटे भाई वारीन्द्रकुमार घोष का इस निःशस्त्र मार्ग पर विश्वास नहीं बैठा। उन्होंने उन्हीं दिनों स्वामी विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त की सहायता से आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही, मगर सशस्त्र क्रान्ति का प्रसार बंगाली युवकों में करने का उपक्रम किया। इन्हीं दिनों नासिक में श्री विनायकराव सावरकर 'अभिनव भारत समाज' संस्था के द्वारा सशस्त्र क्रान्तिवाद की दीक्षा दे रहे थे। लोकमान्य तिलक इन स्थितियों से परिचित थे। नासिक में उन्होंने इस विषय पर कहा था कि ये अविचारी युवक किसी दिन अपने गले में फाँसी लगवा लेंगे और निश्चय ही नासिक के नेताओं को सिर नीचा करने का मौका आ जावेगा। वेलगाँव में भी लोकमान्य ने कहा था कि नासिक में कुछ युवक मुझे मिले थे। उनमें बड़ा उत्साह और बड़ी महत्वाकांक्षा है; परन्तु अविचार भी है। ऐसे अविचार और मूर्खता से कार्य-हानि होती है। उनकी बुद्धि ने यह मान लिया था कि आज का राजनैतिक कार्य निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग से ही चलना चाहिए। अविचारी नवयुवकों को सदुपदेश देकर वे उचित मर्यादा में रखने का प्रयत्न करते थे। लोकमान्य महसूस करते थे कि एक ओर भिक्षा देनेवाली वैध राजनीति और दूसरी ओर

सशस्त्र क्रान्तिवाली त्वरित और व्यवहार-शून्य राजनीति दोनों को एक ओर रखकर निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग से कांग्रेस की नैया चलाई जाय और यह नवीन दल उसका कर्णधार बने। इसी खयाल से लाला लाजपतराय को कलकत्ता अधिवेशन के सभापति बनाने की तजवीज श्री० खापर्डे के पत्रक में की गई थी। बंगाल से पालवाबू ने लोकमान्य तिलक का नाम पेश किया। यह देखकर अंग्रेजी अखबारों के रोप का ठिकाना न रहा। अन्त को बाबू सुरेन्द्रनाथ और भूपेन्द्रनाथ—इन नरम दली नेताओं ने दादाभाई नौरोजी को सभापति बनाना तय किया। दादाभाई का नाम पेश होते ही नवीन दल ने अध्वक्षपद का विवाद खत्म कर दिया; क्योंकि उन्हें विश्वास था कि दादाभाई नवीन दल के साथ सहानुभूति रखकर ही काम करेंगे। इस अधिवेशन में स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, बहिष्कार और स्वराज्य—ये चार मुख्य प्रस्ताव पास हुए। चारों पर नरम-गरम दलों में खूब वादविवाद हुआ। स्वदेशी के प्रस्ताव पर 'Even at a sacrifice' अर्थात् 'त्याग और कष्ट-सहन करके भी' इन शब्दों का नरम दल की ओर से विरोध किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा-संबंधी प्रस्ताव पर 'राष्ट्रीय नियंत्रण में' इन शब्दों का विरोध किया गया। दोनों में नरम दल की करारी हार हुई। तीसरा महत्व का प्रस्ताव था बहिष्कार का। इस प्रस्ताव पर बहुत गरमा-गरमी हुई। तब फिर एक गोलमोल मजमून "Boycott movement inaugurated in Bengal" बनाकर पास किया। नरम दल को व्यापक और सार्वत्रिक बहिष्कार मंजूर नहीं था। पूर्वोक्त गोलमोल भाषा से दोनों दल अपना-अपना अर्थ निकाल सकते थे। एक और विवादग्रस्त मुद्दा था अन्तिम ध्येय और स्वराज्य की मांग-संबंधी। नवीन दल का मत था कि हमारा अंतिम ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए। फिर भी वे तात्कालिक मांग के रूप में औपनिवेशिक स्वराज्य का स्पष्ट उल्लेख करके उसकी पहली किस्त के रूप में कुछ सुधार तुरन्त दिये जाने का प्रस्ताव मान लेने के पक्ष में थे। तदनुसार इसी आशय का प्रस्ताव पास किया गया। इसके साथ ही कुछ सुधारों की मांग पेश की गई थी। सरकारी नौकरी के लिए हिन्दुस्तान और इंग्लैंड

में एक साथ परीक्षा लेने, भारत-मंत्री, वाइसराय और गवर्नर के शासन-मण्डल में हिन्दुस्तानियों को काफी प्रतिनिधित्व देने, केन्द्रीय और प्रान्तिक धारा-सभाओं में लोक-प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें आय-व्यय और शासन-प्रबन्ध में अधिक नियंत्रण के अधिकार देने तथा स्थानिक स्वराज्य की वृद्धि करने-संबंधी वे माँगें थीं। इसमें नवीन दल की नीति यह थी कि इन तात्कालिक सुधारों के मिलते ही उनके आधार पर औप-निवेशिक स्वराज्य की मांग की जाय। अंतिम ध्येय तो पूर्ण स्वतंत्रता उनका कायम था ही। पालत्राबू का मत था कि दादाभाई ने अपने भाषण में इसी ध्येय को मंजूर कर लिया है। दादाभाई के भाषण में ध्येय के सम्बन्ध में ये शब्द थे—“Self government of Swaraj alike that of the United Kingdom or the Colonies.” इंग्लैंड-जैसे स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता ही है। फिर दादाभाई ने अपने भाषण में सिर्फ स्वराज्य का ही उल्लेख किया है। (Be united, persevere and achieve Self-governmet--एका करो, दृढ़ उद्योग करो और स्वराज्य प्राप्त करो)। इसमें इंग्लैंड या उपनिवेश का कोई जिक्र नहीं था। दादाभाई के सन्देश पर लोकमान्य तिलक ने लिखा था कि “वृद्ध पितामह दादाभाई ने स्वराज्य की और कांग्रेस की जो गाँठ या शृंखला बांध दी है वह अब किसी तरह नहीं तोड़ी जा सकती है।... स्वराज्य प्राप्त किये बगैर हमारे उद्धार का रास्ता नहीं है, ऐसा जोर के साथ स्पष्टता से और सरल भाषा में, गद्गद् करण से, दादाभाई ने उपदेश दिया है। इस समय ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई वृद्ध देवदूत अपनी युवापीढ़ी को अन्तिम उपदेश देने के लिए आसमान से उतरा हो।”

नवीन दल की नीति पर प्रकाश डालते हुए लोकमान्य तिलक ने बताया कि “गरम और नरम शब्दों का अर्थ काल-क्रमानुसार बदलता जायगा। गरम शब्द प्रगति-सूचक है। आज हम गरम कहलाते हैं तो कल हमारे लड़के हमें नरम कहेंगे। प्रत्येक नवीन दल जब पैदा होता है, तब गरम कहलाता है और नरम होकर अंत पाता है। व्यावहारिक राजनीति का क्षेत्र अमर्याद है। नरम दल वालों का विश्वास ब्रिटिश

राज्य से मदद माँगने पर है और हमारा नहीं; इसलिए हमें दूसरे साधन की जरूरत है और वह हमारे पास है भी। हम न निराश हैं और न निरशावादी हैं। हमें स्वयं अपने ही प्रयत्न से ध्येय-प्राप्ति की आशा है और इसी के लिए नवीन दल का निर्माण हुआ है। श्रीकृष्ण बसीठी के लिए गये थे; परन्तु कौरव और पाण्डव दोनों अपनी-अपनी सेना की तैयारी कर रहे थे इस ख्याल से कि कहीं बसीठी सफल न हो तो फिर लड़ाई की परिस्थिति का मुकाबला किया जा सके। इसे कहते हैं राजनीति। हमारी माँग यदि ठुकरा दी गई तो हमारे पास लड़ने की तैयारी है क्या? हमारे पास एक प्रबल राजनैतिक शस्त्र है, वह है बहिष्कार। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि नियंत्रण की सब सत्ता, हमारे घर की सब कुँजी हमारे तावे रहनी चाहिए। स्वार्थ-त्याग और आत्म-संयम के द्वारा विदेशी-सरकार को हमपर शासन करने में सहायता न देना हमारे बहिष्कार का अर्थ है। लगानवसूली, शान्ति-रक्षा, विदेशों को पैसा ले जाना, न्याय-दान आदि में हम सरकार की सहायता न करेंगे। यदि मुझे पूरी रोटि न मिली और आधी भी मिली तो मैं आधी ही लेकर फिर पूरी हासिल करने का प्रयत्न करूँगा।” इस तरह लोकमान्य के इस भाषण से यह सिद्ध होता है कि उनके मत में एक और वैध राजनीति और दूसरी और सशस्त्र क्रान्तिकारी राजनीति दोनों के बीच निःशस्त्र क्रान्ति का एक स्वतंत्र राजनीति है। सन् १९०५ से उसका खुल्लमखुल्ला प्रचार हुआ। इस बहिष्कार पर तात्त्विक या नैतिक दृष्टि से खुद ‘गाखले’ को भी आपत्ति न थी। आपत्ति थी तो इतनी ही थी कि उस परिस्थिति के लिए वह अव्यवहार्य ही है। जब असहयोग के रूप में यही कार्यक्रम महात्मा गांधी ने देश के सामने रक्खा और उसकी व्यावहारिकता की प्रतीति ब्रिटिश राजनेताओं को करा दी, तब स्वर्गीय गोखले के अनुयायी आज तीस वर्ष हो जाने पर भी उसपर वही अव्यवहारिकता का आक्षेप करते आ रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि खुद लोकमान्य तिलक के अनुयायी कहलाने वाले महाराष्ट्र के कुछ लोग भी वही टीका इसपर करते हैं।

आगे चलकर स्वर्गीय गोखले को भी लोकमान्य तिलक आदि की

स्वतंत्र राजनीति को देखकर अपनी राजनीति में परिवर्तन करना पड़ा । ४ फरवरी १९०७ को प्रयाग में पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में “हमारे सामने का कार्य” इस विषय पर मा० गोखले का एक सुप्रसिद्ध व्याख्यान हुआ । उसमें उन्होंने कहा था, “मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार के वर्ण-भेद अथवा धर्म-भेद का लिहाज न करके हमारे देश के स्त्री-पुरुषों को अपने देश के सत्र गुणों का पूर्ण विकास करने का अवसर मिले और उसपर किसी प्रकार के कृत्रिम अथवा विकास-विरोधी बंधन न डाले जायँ । मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक साहित्यिक, शास्त्रीय और कलात्मक सब क्षेत्रों में हिन्दुस्तान को संसार के बड़े राष्ट्रों में उचित स्थान मिले ; लेकिन मेरा यह ख्याल है कि यह सब चीजें हमें वस्तुतः और सारतः इसी साम्राज्य में मिल सकेंगी । वैध राजनीति में पहली बात यह है कि शस्त्र-बल का त्याग हो ; विद्रोह या बगावत, दूसरे बाहरी राज्य का नियंत्रण या सहायता और अत्याचार-या हिंसा का अवलंबन, ये तीन बातें वर्ज्य हैं । अर्थात् जो कुछ वैध हो, वह समझदारी और व्यावहारिकता से युक्त होगा ही, यह नहीं कह सकते । अनुरोध-विनय से लेकर कर-बन्दी तक अर्थात् निःशस्त्र प्रतिकार तक यह सब वैध-मार्ग में आ जाता है । अतः हमारे देश में आज जो-कुछ हो रहा है वह सब अवैध है, ऐसा नहीं कह सकते । दूसरा लक्षण यह भी बताया जा सकता है कि हमें जो-कुछ न्याय प्राप्त करना है वह अपने देश की प्रस्थापित राज्यसत्ता से ही प्राप्त कर लेना है और इसके लिए हमें सत्ताधारियों पर दबाव डालते रहना चाहिए । इस दबाव का आधार होगा हमारे पीछे रहनेवाले लोकमत का बल और निश्चय । यह बल निर्माण करने का हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए । केवल इतनी सदिच्छा से काम न चलेगा कि हमारे देश से उद्योग-धन्धों की तरफ़ी होनी चाहिए । स्वदेशी में इस कल्पना का भी समावेश होता है कि स्वदेशी उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए हम शक्ति भर स्वेच्छा से कुछ त्याग करें । परन्तु इसके लिए बहिष्कार शब्द का प्रयोग करना उचित न होगा ; क्योंकि बहिष्कार में दूसरों को नुकसान पहुँचाने की प्रतिहिंसा का भाव आता है, जिससे अकारण विरोधी भावना जाग्रत

होकर स्वदेशी के कार्य में विघ्न उपस्थित होते हैं ।... (राजकीय) बहिष्कार को इस परिस्थिति में शक्य मानना तो विचित्र ही होगा । सरकार को जितने नौकर मिल जाते हैं उतने यदि न मिल सकें तब तो इस बहिष्कार का असर सरकार पर होगा ; परन्तु यह विचार तो व्यवहार्य-कोर्ट में ही नहीं आता । स्थानिक स्वराज्य, म्युनिसिपैलटी, धारा-सभा आदि संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे तो उन खाली जगहों पर दूसरे लोग आ धमकेंगे और उनके द्वारा हमें जो लोक-सेवा करने का अवसर मिला था वह व्यर्थ चला गया, ऐसी प्रतीति खुद दृष्ट जानेवालों को ही हो जायगी । अतएव इस मार्ग का अवलम्बन करने से राष्ट्र का हित नहीं, अहित होगा । जो यह कहते हैं, स्वराज्य प्राप्त करने का एक मात्र या एक उपाय है सार्वजनिक बहिष्कार ही ; उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि करवन्दी निःशास्त्र प्रतिकार का अत्यन्त प्रभावशाली और सरल उपाय है । जिनकी यह राय है कि वर्तमान परिस्थिति में निःशस्त्र प्रतिकार करना चाहिए वे यदि करवन्दी का अवलम्बन करेंगे तो उन्हें तुरन्त पता लग जायगा कि हम कहाँ हैं ।”*

दुर्भाग्य की बात है कि आज यही आपत्तियाँ लोकमान्य के कुछ अनुयायी कांग्रेस के असहयोग पर करते हैं । विदेशी माल के बहिष्कार का जिक्र किया नहीं कि वे कहते हैं कि देश के लिए आवश्यक सारा विलायती माल एकदम तैयार करके दे दीजिए । सरकारी स्कूलों के बहिष्कार की बात चलाते हैं तो वे भ्रष्ट से कह देते हैं कि उनकी जगह राष्ट्रीय स्कूल खोलकर बताइए । निःशस्त्र प्रतिकार अथवा सत्याग्रह का नाम लिया नहीं कि उन्होंने चुनौती दी नहीं : अच्छा, हिंदुस्तान में सब जगह करवन्दी की घोषणा करके देखिए ! जो लोगों को आगे ले जाना नहीं चाहते या इसका सामर्थ्य नहीं रखते उनका यह सनातन आक्षेप-शास्त्र ही समझिए । यह राष्ट्र को आगे बढ़ाने का तरीका नहीं है । बहिष्कारयोग के सम्बन्ध में लोकमान्य सदा ‘स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्’ या ‘न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति’ भगवद्गीता के इस वचन का आधार लिया करते थे । राष्ट्रीय पक्ष को

उस समय सिर्फ विलायती माल के बहिष्कार का तथा लियन सर्कुलर-जैसे अन्यायपूर्ण हुकमों को न मानने के रूप में सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सामने रखना था और यह दिखा देना था कि इनके अवलम्बन से अन्त में बहिष्कारयोग के अन्तिम शिखर तक पहुँचकर स्वराज्य प्राप्त किया जा सकेगा ; परन्तु प्रागतिक पक्ष की उस समय इतनी तैयारी नहीं थी। वह तो स्वातन्त्र्यवादी युवक दल को कांग्रेस में रहने ही नहीं देना चाहता था। परन्तु दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में हुई कांग्रेस में उनकी बात नहीं चली और बहिष्कार-योग पास हो गया। तत्र प्रागतिक दल ने यह निश्चय किया कि अगले साल इस प्रभाव को केवल विदेशी माल व बंगाल तक मर्यादित कर दिया जाय, कांग्रेस का अन्तिम ध्येय औपनिवेशिक स्वराज्य बना दिया जाय, जिससे बंगाल का युवक दल अपने आप उससे बाहर निकल जायगा और फिर हम जैसा चाहेंगे, प्रस्ताव पास कर लेंगे। यह उस समय इनकी नीति थी। इसके विपरीत लोकमान्य का यह दृढ़ निश्चय था कि बंगाल के युवक दल को किसी भी दशा में कांग्रेस से बाहर न जाने दिया जाय और बहिष्कार के प्रस्ताव में कलकत्ते से पीछे त्रिलकुल न हटा जाय।

इस समय बंगाल की राजनीति को एक तरफ वावू विपिन चन्द्र पाल व अरविन्द घोष आगे खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ सर फीरोजशाह मेहता पीछे हटा रहे थे। मा० गोखले, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, लो० तिलक, और लाला लाजपत राय ये दोनों के बीच में खड़े दिखाई देते हैं। इन चारों नेताओं को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कांग्रेस में फूट न फैले, उसकी शक्ति छिन्न-भिन्न न हो और विरोधियों को उसका फायदा न मिल सके। विपिनवावू व अरविन्द घोष को सम्हालने की जिम्मेदारी लो० तिलक ने ली। इधर गोखले व सुरेन्द्र वावू ने मेहता वाच्छा को कुछ आगे खींचने की कोशिश की। फलतः कलकत्ता में दादाभाई के सभापतित्व में व उनके प्रभाव से, यह तजवीज पार पड़ गई। अब यदि दोनों दलों को एक ही संस्था में काम करना था तो कलकत्ते का यह प्रस्ताव नहीं बदला जाना चाहिए था। परन्तु सर फीरोजशाह ठठ ठान बैठे और अन्त को गोखले तथा बनर्जी भी उसके

शिकार हो गये जिससे सन् १९०७ के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए ।

इस साल कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में होनेवाला था ; परन्तु वहाँ का वातावरण अपने अनुकूल न पाकर इसके अधिकारियों अर्थात् प्रागतिक दल के नेताओं ने ऐन वक्त पर सूरत में अधिवेशन करना तय किया । तत्काल बंगाल की नवीन राजनीति को कांग्रेस से हटाने का ही यह उपक्रम था । किन्तु मा० गोखले को यह डर था कि नवीन दल नागपुर में कांग्रेस करने का प्रयत्न करेगा और इस तरह कांग्रेस के दो टुकड़े हो जायेंगे । उन्होंने सर वेडरबर्न को लिखा कि ऐसा होने से नौकरशाही किसी भी दल को दाद न देगी और राष्ट्रकार्य विगड़ेगा । यह पत्र मोर्ले साहब के हाथ लगा और उन्होंने लार्ड मिंटो को लिखा कि यदि गोखले 'सुधार व शांति' इन सिद्धांतों को लेकर सरकार से समझौता कर लेंगे तो कांग्रेस के टुकड़े हो जाने पर भी उनका कुछ नहीं विगड़ेगा और वे शासन में जो-जो सुधार चाहेंगे उनमें ६०-७० फी सदी उनके पल्ले पड़ जायेंगे । मोर्ले साहब की यह इच्छा सफल हुई और राष्ट्र पर संकट आने-सम्बन्धी गोखले की आशंका अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई । यदि पुराने दल के लोग यह आश्वासन दे देते कि कलकत्ते में पास हुए चारों प्रस्ताव ज्यों-के-त्यों कायम रहेंगे तो सारा विरोध और भगड़ा जहाँ-कहाँ खत्म हो सकता था । इसलिए इसकी जिम्मेवारी नये की अपेक्षा पुराने दल पर ही अधिक आती है ।

सूरत में कांग्रेस का अंग-भंग हो जाने के थोड़े ही दिनों बाद सरकार ने राष्ट्रीय दल को नेस्तनाबूद करने के लिए घोर दमन-नीति शुरू की । इसका श्रीगणेश तो हुआ १९०७ में लाला लाजपत राय के निर्वासन से । वे सूरत की कांग्रेस के कुछ दिन पहले ही छोड़ दिये गए ; किन्तु सूरत-कांड के बाद यह दमन का दौरा-दौरा फिर शुरू हुआ । १९०८ के मध्य में लोकमान्य को छः वर्ष कड़ी कैद की सजा ठोकी गई । मद्रास में चिदंबरम् पिल्ले, बंगाल में अरविन्द घोष, विपिनबाबू आदि कई छोटे-बड़े नेताओं पर हाथ साफ किया गया । चारों ओर दमन और भय का राज्य सरकार ने फैला दिया । राष्ट्रीय

दल ने १९०८ के दिसंबर में कांग्रेस-अधिवेशन करने का निश्चय किया, जो गैर-कानूनी ठहरा दिया गया। अब राष्ट्रीय दल के लिए खुल्लमखुल्ला काम करना असंभव हो गया।

इसी समय देश के युवकों में सशस्त्र क्रान्ति व गुप्त षड्यन्त्रों वाली राजनीति का खूब जोर जमा। दिसंबर १९०७ में 'इंडियन सोश्यालाजिस्ट' के द्वारा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने यह कहना शुरू किया कि हिन्दुस्तान में अब गुप्त रूप से तथा रूसी क्रान्तिकारियों के ढंग से आन्दोलन चलना चाहिए। इधर श्री विनायकराव सावरकर श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा से जा मिले और उधर बंगाल में 'युगान्तर' 'सन्ध्या' पत्रों के द्वारा गुप्त षड्यन्त्रों और सशस्त्र क्रान्ति का आन्दोलन फैलाया जा रहा था। वारीन्द्र कुमार घोष बंगाली युवकों का गुप्त रूप से संगठन कर रहे थे। अप्रैल १९०८ में बंगाल का पहला धड़ाका हुआ, जिसपर लेख लिखने के कारण लोकमान्य को सजा दी गई। १९०८ से दो-तीन साल तक इस तरह एक ओर से गुप्त षड्यन्त्रकारियों तथा दूसरी तरफ से सरकारी आतंकवाद के दो-दो हाथ हो रहे थे। इसी बीच गोखले-जैसे नेता शान्ति-रक्षा में सरकार की सहायता कर रहे थे और कांग्रेस असहाय बनकर यह दृश्य देख रही थी। सरकार राष्ट्रीय नेताओं से शान्तिरक्षा में सहयोग की माँग कर रही थी, उधर अरविन्दबाबू कह रहे थे कि जबतक नागरिकता के मूलभूत अधिकार नहीं दिये जाते और स्वराज्य की नींव नहीं डाली जाती तबतक सहयोग नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा—“हम स्वावलम्बन और निःशस्त्र प्रतिकार के द्वारा अपना ध्येय प्राप्त कर सकेंगे। हमारे पास लोगों की न्याय्य आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक ही मार्ग है निःशस्त्र प्रतिकार का। इसके द्वारा हम शांति व सुव्यवस्था की रक्षा में सहयोग दे सकते हैं।” इसका अर्थ यह हुआ कि अरविन्द बाबू की सम्मति में लोगों की स्वातन्त्र्य-भावना का दमन करने में सरकार को सहयोग देना घातक व तत्त्वभ्रष्टता है। और उनका यह कथन अकाट्य है। सरकारी दमनशाही के विषय में 'वन्देमातरम्' ने लिखा—“हमेशा याद रखना चाहिए कि दमन-नीति के द्वारा लोगों को भयभीत करने का यत्न करना मानो आग से खेलना है। प्रेम से प्रेम

बढ़ता है, विश्वास से विश्वास पैदा होता है, समझदारी से समझदारी को गति मिलती है और सहानुभूति से सहानुभूति जाग्रत होती है । इसके त्रिपरीत द्वेष से द्वेष फैलता है, संदेश से संदेश जाग्रत होता है, आतंकवाद आतंकवाद को जन्म देता है । दमननीति से लोगों के विचार, भावना या आकांक्षा कमजोर नहीं पड़ेगी, उल्टी और जोर पकड़ेगी । इस दमन-नीति से लोगों को यह निश्चय हो जायगा कि हमारे नेता ध्येय के लिए आन्दोलन कर रहे हैं । वह ब्रिटिश सरकार के कायम करने तक सम्भव नहीं है । इससे गरम दल का जोर बढ़ेगा और प्रागतिक प्रचार नेस्तनावूद हो जायगा ।”

यदि प्रागतिक दल के लोग सरकार को उचित सलाह देते तो यह स्थिति रुक सकती थी ; परन्तु उन्होंने यह समझ रक्खा था कि गरम राजनीति लार्ड कर्जन के अत्याचारों और मनमानी का एक क्षणिक फल है । ब्रिटिश सरकार यदि दमन बन्द करके शासन में कुछ सुधार कर दे तो यह अपने आप बैठ जायगी । लेकिन यह उनका निरा भ्रम था । इसके उत्तर में अरविन्द बाबू कहते हैं—“राष्ट्रवाद के संदेश का जन्म निराशा से नहीं हुआ है, न वह अत्याचार में से उदय हुआ ।... इसका जन्म श्रीकृष्ण की तरह बन्दागृह में हुआ है । जिन्हें अनियंत्रित किन्तु उदार सुराज्य वाला हिन्दुस्तान जेल की कालकोठरी की तरह असल मालूम होता था उनके हृदय में इसका जन्म हुआ है । श्रीकृष्ण का लालन-पालन जैसे दरिद्र और अज्ञानी जनता के अज्ञात घर में हुआ उसी तरह यह राष्ट्रवाद संन्यासियों की गुहा में, फकीरों के वेष्ट में, युवकों और लड़कों के हृदयों में, जो लोग अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं जानते थे मगर जो मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाना चाहते थे, उनके अन्तःकरण में और जिन पढ़े-लिखे लोगों ने इस यन्त्र का नाम सुनते ही अपनी धन-दौलत और पद-प्रतिष्ठा को लात मारकर लोकसेवा और लोकजागृति का व्रत धारण किया उनके जीवनो में धीरे-धीरे बढ़ा और पनपा है । हाँ, अत्याचार के कारण सारे देश ने उसको अंगीकार जल्द किया मगर उसका जन्म अत्याचार में से नहीं हुआ । यह राष्ट्रधर्म एक अवतार ही है । इसका अन्त कदापि नहीं हो सकता । यह परमात्म-

नियुक्त शक्ति है और वह ईश्वर-नियोजित कार्य को पूरा किये बगैर विश्व की चित् शक्ति में, जहाँ से कि उसका उद्गम हुआ है, फिर नहीं मिलने की।”

एक ओर इस दुर्दमनीय राष्ट्र-शक्ति का वास्तविक स्वरूप प्रागतिक दल के ध्यान में नहीं आता था और दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ताधारी और राजनेता उसे खत्म करने पर कमरबन्दा थे, फिर भी उसका उत्साह सतत बढ़ता जा रहा था। ऐसी दशा में ज्वालित साम्राज्यवाद और क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद में, कुछ समय के लिए क्यों न हो, एक प्रकार का सशस्त्र मुकाबला होने जा रहा था और उसे टालना अरविन्द बाबू को असम्भव-सा सालूम होता था। साथ ही उन्हें यह आशा भी न थी कि इस सशस्त्र मुकाबले में राष्ट्रवाद की विजय होगी। उनकी बुद्धि तो यह मान गई थी कि निःशस्त्र प्रतिकार के रणांगण में राष्ट्रवाद दुर्द्धर्ष होकर रहेगा; परन्तु उनके सामने यह एक समस्या थी कि निःशस्त्र रणांगण में उसे कैसे ले जायँ? न सरकार, न प्रागतिक दल के नेता इसमें उनकी सहायता करने को तैयार थे। इधर यह खबर भी उनके कान तक पहुँची थी कि और नेताओं की तरह उन्हें भी देश-निकाला जल्दी होनेवाला है। उन्होंने यह भी देखा कि राष्ट्र के द्वारा निःशस्त्र क्रान्ति का प्रयोग सफल कराने योग्य नेतृत्व उनके पास नहीं है और कम-से-कम इस समय यह काम उनके हाथों होता नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए उन्होंने तय किया कि कुछ समय देश छोड़कर चले जायँ और योग-साधन के द्वारा वह शक्ति प्राप्त की जाय। वे पांडीचेरी चले गये और योग-साधना में लग गये। जाते समय जुलाई १९०६ में अपने देशबंधुओं के नाम उन्होंने एक अन्तिम पत्र लिखा था जिसका महत्त्व का भाग यहाँ दिया जाता है—

“कुछ लोगों का यह खयाल हो गया है कि राष्ट्रीय पक्ष मर गया। यह गलत है। वह वैसा ही सजीव है। उसकी शक्ति व व्याप्ति बिल्कुल कम नहीं हुई है। हाँ, एक नेता और नीतिकी आवश्यकता जरूर है। नीति तो मिल जायगी; परन्तु नेता परमेश्वर ही दे सकेगा। जबतक ईश्वर-नियोजित नेता नहीं आता और हम परमेश्वरी शक्ति के आविष्कार के साधन नहीं बनते तबतक बड़े आन्दोलन रुके रहते हैं, पर ज्यों ही वह आता है वे

विजय-प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। आज तक जिन लोगों ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया वे जवाँमर्द थे, उनमें बड़े-बड़े गुण थे, महान् प्रतिभा थी। किसी भी बड़े आन्दोलन का नेतृत्व करने जैसी महत्ता उनमें थी; परन्तु इस संसार-व्यापी क्रांति के प्रमुख प्रवाह का अंत तक नेतृत्व करने की उनकी शक्ति पूर्ण नहीं साबित हुई। अतएव राष्ट्रीय दल को, जो कि भावी काल का द्रष्टी है, ऐसे किसी नेता के आने तक अब राह देखना चाहिए। विपत्ति में धैर्य न छोड़े, पराजय में आशा न छोड़े। यह विश्वास रखे कि अन्त में विजय अवश्य मिलेगी और हिन्दु-स्तान की भावी पीढ़ी और संसार में दूसरे राष्ट्रों के प्रति जो जिम्मेदारों हमपर है उसे न भूलें।

“जबतक वह समय न आवे तबतक हमें धीमे-धीमे कदम बढ़ाना चाहिए। इस परिस्थिति में हमारा बल नैतिक है, भौतिक नहीं। इस नैतिक बल पर ही अन्त में हमारे विजय पाने की आशा अवलंबित है। जल्दबाजी में या दुस्साहस से जिस क्षेत्र में हम प्रबल हैं उसे छोड़कर जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं उसमें जाने की गलती न करें। स्वराज्य अथवा पर-निर्धंत्रण-मुक्त पूर्ण-स्वातंत्र्य हमारा ध्येय, स्वावलंबन और प्रतिकार हमारा साधन है। इस ध्येय में किसी राष्ट्र के या हमारे देश पर राज करने-वाली सरकार के प्रति द्वेष का समावेश नहीं। जो यह कहते हैं कि हमारी इस आकांक्षा में द्वेष और अत्याचार का संचार अवश्य हो जायेगा वे गलत कहते हैं। हमारी देश-भक्ति के ध्येय का अधिष्ठान प्रेम और बन्धु-भाव है और उसमें मानवजाति के अंतिम ऐक्य का भी समावेश होता है। जो हमारे इन अधिकारों को देने से इन्कार करते हैं उनके प्रति द्वेष रखने की जरूरत नहीं। उसमें तो सिर्फ प्रयत्न करना, कष्ट भोगना, किसी भी व्यक्तिगत विचार को स्थान न देते हुए सच बोलना और जो सत्ता प्रगति-धर्म का विरोध करती है उसको उलट कर अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए प्रत्येक विधिवत् साधन और नैतिक बल का उपयोग करना—इतनी ही बातों का समावेश होता है।”

राष्ट्रीय और प्रगतिक दल में समझौता कराने की दृष्टि से वे कहते हैं : “स्वराज्य-सम्बन्धी प्रस्ताव में ‘श्रीपनिवेशिक स्वराज्य’ की जगह ‘पूर्ण’

स्वराज्य' शब्द डालने से भगड़ा मिट सकेगा। निःशस्त्र प्रतिकार-सम्बन्धी वाद का लगाव बहिष्कार के प्रस्ताव से है। इस संबंध में राष्ट्रीय दल अपने सिद्धांत का त्याग न कर सकेगा। बहुतेरे प्रागतिक लोग भी उसका समर्थन करते हैं; परन्तु इसका फैसला भी स्वतंत्र रूप से निर्वाचित कांग्रेस के बहुमत द्वारा कर लेने को वह तैयार है। प्रागतिक और राष्ट्रीय दल का मतभेद इसी बात में है कि राष्ट्रीय दल जैसे-तैसे व नाम मात्र के शासन-सुधार स्वीकार करके अपना ध्येय छोड़ने के लिए और लोगों को यह दिखाने के लिए कि हमें वास्तविक अधिकार मिल गये हैं, तैयार नहीं है।”

थोड़े ही दिनों में अरविंद बाबू पांडीचेरी चले गये। उसके बाद बंगाल में प्रागतिक राजनीति का सदा के लिए खात्मा हो गया। युवक बंगाल बहुत-कुछ सशस्त्र क्रान्तिवादी बन गया और यह सशस्त्र क्रान्तिवाद कल तक वहाँ जीवित था। इस क्रान्तिवाद को महज अधिकारियों का खून करनेवाला आतंकवाद न कहना चाहिए। बारीन्द्र कुमार ने अदालत में अपने बयान में कहा था कि हम यह नहीं मानते कि राजनैतिक हत्याओं से स्वाधीनता मिल जायगी। हम तो यह इसलिए करते हैं कि लोगों को उसकी जरूरत है।* ये क्रान्तिकारी संस्थाएं रूस और इटली के गुप्त षड्यंत्रों की लाइन पर काम कर रही थीं।

जब महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति की बागडोर अपने हाथों में ली तब अरविंद बाबू, विपिनबाबू, लोकमान्य तिलक द्वारा प्रवर्तित बहिष्कार-योग का पुनर्जीवन, असहयोग के रूप में हुआ। फलतः बंगाल का सशस्त्र क्रान्तिवाद सब जगह नहीं फैलने पाया। आज तो बंगाल के सशस्त्र क्रान्तिवादी भी महात्मा गांधी के निःशस्त्र क्रान्तिवाद का अवलंबन करने की नीति घोषित कर रहे हैं और निःशस्त्र क्रान्ति की दीक्षा ले चुकनेवाली कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जो लोग सशस्त्र क्रान्ति की अंतिम आवश्यकता को स्वीकार करते हैं वे भी साम्यवाद के क्रान्ति-शास्त्र का अवलंबन करके वर्ग-संगठन का प्रकट कार्य कानून-कायदे और शांति की व्यावहारिक मर्यादा में रूढ़ कर ले लगे हैं। इस तरह आज

* Speeches of Aurobindo Ghose, Appendix.

के हिन्दुस्तान में महात्मा गांधी का अहिंसात्मक निःशस्त्र क्रांतिशास्त्र और साम्यवाद का वैज्ञानिक क्रांतिशास्त्र यही दो क्रांतिकारी राजनीतियाँ चाकी बच रही हैं। इनमें से कांग्रेस ने तो आज महात्मा गांधी के निःशस्त्र क्रांतिशास्त्र को स्वीकार किया है। इन दोनों क्रांतिशास्त्रों में क्या भेद है—इसकी चर्चा हम इस पुस्तक के अंतिम दो प्रकरणों में करेंगे।

: ६ :

राष्ट्रीय आपत्धर्म

१९०६ ईस्वी में मॉर्ले-मिटो-सुधार अमल में आये। १९१० में लार्ड मिटो गये और लार्ड हार्डिंग वाइसराय बनकर आये। तबसे भारतीय राजनीति में एक नवीन युग शुरू हुआ और वह लगभग १० वर्ष तक रहा, जिसे राष्ट्रीय दृष्टि से एक आपत्-काल ही कहना चाहिए। इसे मॉर्ले-मिटो-सुधारकाल कहते हैं। राष्ट्रीय दल को वह मंजूर न था। प्रागतिक बंगाली नेता भी कहते थे कि जवतक बंग-भंग रद्द नहीं हो जाता तवतक हम इन सुधारों को स्वीकार नहीं करेंगे और न नई धारा-सभाओं में जायेंगे। राष्ट्रीय दल दमन की चक्की में पीस दिया गया था और लोकमान्य तिलक मांडले में जेल काट रहे थे। देश के उत्साही युवक सशस्त्र क्रांतिकारी बनकर इधर-उधर हिंसा-कांड करते थे। और अमरीका, यूरोप में जाकर षड्यंत्र रचते थे। इस समय बंगाल और महाराष्ट्र की तरह पंजाब में लाला हरदयाल के नेतृत्व में एक सशस्त्र क्रांति-दल स्थापित हुआ जो अमरीका में गदर पार्टी कहलाया। बाद में इस क्रांतिकारी दल का सूत्र यूरोपीय महाभारत के समय में जर्मनी से जुड़ गया और रूस की राज्यक्रांति के श्री मानवेन्द्र राय आदि भारतीय साम्यवादियों का संबंध रूस के बोलशेविकों से हो गया; परन्तु हिन्दुस्तान में साम्यवादियों का क्रांतिवाद १९२२ तक एक दल के रूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। इसी प्रकार निःशस्त्र क्रांतिवादी राष्ट्रीय दल भी एक प्रकार के प्रच्छन्न रूप में ही काम कर रहा था।

इन दस वर्षों के दो हिस्से हो जाते हैं—१९१० से १९१५ तक और

१९१५ से १९२० तक। १९१० से १९१५ तक दोनों प्रकार के क्रांति-वाद अथवा राष्ट्रवाद किसी तरह जीवित रहने का प्रयत्न कर रहे थे। १९१४ के अन्त में यूरोपीय महाभारत शुरू हुआ। जिससे दोनों राष्ट्र-वादों को अपना जोर जमाने का मौका मिला। जून १९१४ में लोकमान्य तिलक मांडले से छूटकर लौटे और उन्होंने राष्ट्रीय दल के संगठन का काम शुरू किया। १९१५ से १९२० तक राष्ट्रीय दल के संगठन और संवर्द्धन का काम लोकमान्य ने किया और कांग्रेस जो प्रागतिक दल के हाथ में थी उसे अपने प्रभाव में लेकर महात्मा गांधी के निःशस्त्र क्रांति-वादी राजनीति के लिए एक प्रभावशाली राष्ट्रीय संस्था बना दी। अलदत्ता १९०५ के बहिष्कार-योग की क्रांतिवादी राजनीति का पुनरुज्जीवन वे उस समय न कर सके। यह कार्य महात्मा गांधी ने १९२० में किया और १९०७ में सूरत में जो राजनीति की शृंखला टूट गई थी उसे फिर से जोड़ा। लोकमान्य के जेल-काल में गरम राजनीति की स्मृति को जागृत रखने का कार्य श्री न० चि० केलकर ने किया।

१९११ के अंत में दिल्ली-दरबार हुआ जिसमें सम्राट् पंचम जार्ज का राज्याभिषेक घोषित किया गया। इस समय बंग-भंग रह किया गया और राजधानी कलकत्ते से दिल्ली लाई गई। इन्हीं दिनों अर्थात् अगस्त १९११ में लार्ड हार्डिंग ने इस आशय का एक खरीता विलायत भेजा कि मॉर्ले - मिंटो - सुधारों का विकास प्रांतिक स्वराज्य में होना आवश्यक है। इससे वावू सुरेन्द्रनाथ ही नहीं, विपिनवावू भी बहुत संतुष्ट हुए। लार्ड हार्डिंग के दिल्ली-प्रवेश के समय किसी ने उनपर ब्रम फेंका; परन्तु उससे प्रभावित होकर उन्होंने दमन-नीति का आश्रय नहीं लिया और लोकपक्ष से समझौता करने की नीति ही अपनाये रखी। यह समय गोखले की नरमनीति के दौरदौरे का था। दक्षिण अफ्रीका के भारत-वासियों के सत्याग्रह का पृष्ठपोषण करने में माननीय गोखले और लार्ड हार्डिंग दोनों साथ दे रहे थे। ऐसे समय में श्री केलकर ने बहिष्कार-योग की नीति को छोड़ देना ठीक समझा। जब बड़े काम के लायक बड़ा नेता न हो तब सामान्य लोगों को यह कहना ही पड़ता है कि

अपनी शक्ति और सीमा को पहचानकर काम करो; परन्तु जब बड़ा नेता सामने आ जाता है तब यह दलील काम नहीं दे सकती, बल्कि उससे राष्ट्र-कार्य को नुकसान भी हो सकता है। शुद्ध बुद्धिवाद की दृष्टि से भी सामान्य मनुष्य और असामान्य विभूति का यह भेद सच मानना पड़ता है, क्योंकि वह अनुभवगम्य है। फिर भी वह सामान्य मनुष्य द्वारा असामान्य मनुष्य की, असामान्य विभूति की पूजा करने या उसका शिष्य बनकर उसकी नीति पर चलने में रुकावट नहीं डाल सकता। जब असामान्य विभूति या नेता अपने अनुयायियों के लिए कोई कार्यक्रम बना देते हैं तब स्वभावतः ही सामान्य नेता उनपर अमल करते हैं; परन्तु इससे अंधानुकरण का आक्षेप नहीं आ सकता। असामान्य नेता अपनी अंतःप्रेरणा के बल पर नवीन सत्य का प्रकाश देते हैं और संसार में उसकी प्रस्थापना भी कर सकते हैं। इस काम में उन्हें अलौकिक स्वार्थत्याग भी करना पड़ता है। परन्तु संसार में जब किसी विभूति के आत्मबल से नवीन सत्य की स्थापना होती है तब उस अलौकिक स्वार्थत्यागी विभूति को सत्य-प्रस्थापना के कार्य में अनेक साधारण लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है और वह उनसे भी कुछ समय तक स्वार्थत्याग का अपेक्षा करता है। ऐसे समय सामान्य लोग इस असामान्य विभूति का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं और शक्ति भर स्वार्थत्याग करके उसके अंगीकृत महत् कार्य में सहयोग देते हैं। राष्ट्र-निर्माण में महान् नेताओं की इस विभूति-पूजा की जो आवश्यकता है वह इसीलिए।

पंजाब के नेता लाला लाजपतराय ने सूरत कांग्रेस में औपनिवेशिक स्वराज्य का ध्येय मंजूर कर लिया और कांग्रेस में रह गये। अतः वे सरकार के पंजे से बच गये। फिर एक-दो साल के बाद कांग्रेस-कार्य के लिए विलायत गये। वहाँ से अमरीका चले गये। तब फिर भारत-सरकार की कुदृष्टि उनपर पड़ी और सरकार ने उन्हें महायुद्ध खत्म होने तक हिन्दुस्तान में नहीं आने दिया। सरकार को यह सन्देह हुआ कि अमरीका की गदर पार्टी से उनका सम्बन्ध होगा, लेकिन बाद की वह गलत साबित हुआ। १९१४ से १९१६ तक के समय में हिन्दुस्तान में

लोकमान्य ने होमरूल आन्दोलन किया। उन दिनों लालाजी अमरीका में होमरूल-कार्य का प्रचार कर रहे थे। बाबू विपिन चन्द्र पाल सूरत-कांग्रेस के समय ही जेल में डाल दिये गये थे। मगर वे जल्दी ही छूट गये और कुछ समय इंग्लैंड जाकर रहे। लौटने पर उन्होंने अपनी नीति बदल दी और यह कहना शुरू किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहने में ही हमारा और ब्रिटिश साम्राज्य का हित है। दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई उसपर उन्होंने संतोष प्रकट किया। यह भी लिखना शुरू किया कि लार्ड हार्डिंग ने प्रांतिक स्वराज्य की स्थापना का ध्येय मंजूर कर लिया है और हिंदुस्तान शीघ्र ही स्वराज्य-मण्डित संयुक्तराज्य बन जायगा। अंग्रेज राजनेताओं को उसके सहयोग की आवश्यकता मालूम होने लगी। इसलिए अब असहयोग की नीति राष्ट्रीय दल को छोड़ देनी चाहिए। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हमारे मार्ग का एक संकट ही है। मुसलमान राष्ट्र तथा चीन की ओर से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संकट पैदा हो गया है। हमारे लिए भी वह एक संकट है। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारतीय राष्ट्रवाद से आज या कल अवश्य ही समझौता करना पड़ेगा। पैन-इस्लामिज्म के संकट को देखते हुए हिन्दुस्तान को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद छोड़ देना चाहिए और ब्रिटिश साम्राज्य से मित्रता करनी चाहिए। इस विचारधारा का उद्गम बंगाल के तत्कालीन अति गरम नेता विपिनचन्द्र पाल के लेखों में है। आज हिन्दू-सभा के कुछ नेता इसी पैन-इस्लामिज्म का हौवा खड़ा करके एक ओर हिन्दूराज्य की घोषणा करते हैं और दूसरी ओर ब्रिटिश-राज्य से सहयोग करने की पुकार मचाते हैं। मुसलमानी साम्राज्य के द्वेष या भय से बंगाल के नेताओं में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रेम बल्कि अंध भक्ति पैदा हुई थी। इसलिए विपिन बाबू की नीति उस परंपरा के अनुरूप कही जा सकती है। परंतु महाराष्ट्र में जो लोग क्रांतिकारी के नाम से प्रसिद्ध हैं वे मुसलमानी साम्राज्य के भय का हौवा खड़ा करके अंग्रेजों से सहयोग की इतनी आवश्यकता क्यों बताते हैं, यह महाराष्ट्रीय परंपरा की दृष्टि से समझना कठिन है। १८५७ में दिल्ली के तख्त पर बड़े मुगल बादशाह को बैठाकर स्वराज्य-स्थापना का प्रयत्न करते हुए नाना साहब पेशवा, भाँसी की

रानी अथवा तात्या टोपे इन क्रांतिकारियों को भय नहीं मालूम हुआ ; क्योंकि उन्हें यह आत्मविश्वास था कि हिन्दुस्तान में मुसलमान हिन्दुओं पर सदा के लिए अनिर्यंत्रित सत्ता नहीं चला सकते । फिर महाराष्ट्रीय राज-नेता इस बात को जानते थे कि हिन्दू-मुसलमानों की एकता के द्वारा पहले जब हम अपनी गुलामी के बंधन तोड़ने लगेंगे तभी दोनों का भला होगा । जो हो, इस समय तो विपिनत्रावू ब्रिटिश साम्राज्य से सहयोग करने की नीति का प्रतिपादन करते थे और आगे चलकर जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस को असहयोग की दीक्षा दी तब भी उन्होंने गांधीजी का विरोध किया था ।

१९१४ में जब लोकमान्य तिलक जेल से छूटकर आये तब उनके सामने यह प्रश्न था कि देश का बल कैसे बढ़ाया जाय और उसमें फिर साम्राज्यवाद से लड़ने की शक्ति कैसे पैदा की जाय ? देश की हालत कैसी ही हो, उसे कार्य-प्रवण कैसे बनाना चाहिए और प्रतिपक्षा पर उसकी छाप कैसे बैठानी चाहिए, लोकमान्य इस कला में निपुण थे । मनुष्य की बुद्धि परिस्थिति से बँधी हुई रहती है, यह सच हो तो भी वह उसी बुद्धि की सहायता से परिस्थिति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है । इसीलिए बुद्धि के केवल परिस्थिति-निष्ठ होने से काम नहीं चलता । उसे आत्म-निष्ठ भी होना पड़ता है । यह आत्म-निष्ठ बुद्धि ज्ञात परिस्थिति के उस पार जाकर यह पहचान सकती है कि भावी काल की अज्ञात परिस्थिति अपने अनुकूल कैसे बनाई जाय । ज्ञात के उस पार उड़कर जाने की शक्ति मानवी बुद्धि को अंतःप्रेरणा से प्राप्त होती है । सत्य-संशोधन, काव्य-सृष्टि और राष्ट्र-निर्माण जैसे महत् कार्य के लिए आवश्यक नेतृत्व-कला इन सबके लिए इस आत्म-निष्ठ बुद्धि की या अंतःप्रेरणा-युक्त बुद्धि की आवश्यकता होती है । लोकमान्य के जैसा अलौकिक लोक-नायकत्व इसीसे प्राप्त होता है । हाँ, अलवत्ते अंतःप्रेरणा के फेर में पड़कर बुद्धि की परिस्थिति पर की पकड़ ढीली न होने देनी चाहिए । वह ढीली हुई कि मनुष्य सांसारिक कार्यों में और झगड़ों में टिकने के अयोग्य बन जाता है । बुद्धि के पीछे यदि अंतःप्रेरणा का बल न हो तो बुद्धि परिस्थिति की दासी हो जाती है । इसके विपरीत यदि अंतःप्रेरणा को बुद्धि की सहायता न हो

तो परिस्थिति के ज्ञान के अभाव में वह मनुष्य व्यवहार-शून्य आदर्श-वादी बन जाता है। राष्ट्रनिर्माण के लिए ऐसा आदर्शवाद बहुत उपयोगी नहीं होता। वास्तववाद और आदर्शवाद का समन्वय जो बुद्धि कर सकती है वही राष्ट्रनिर्माण कर सकती है। लोकमान्य की बुद्धि इसी तरह की थी। 'सुख-दुःख समे कृत्वा लाभो लाभौ जया जयौ' बुद्धि का यह समत्व उनके पास था और 'योगः कर्मसु कौशलम्' में वर्णित कर्मयोग भी उन्हें सहज प्राप्त था।

लोकमान्य की राजनीति का अंतरंग क्रान्तिवादी था; परन्तु उनके मन में पहले से ही यह दृढ़ निश्चय था कि हिन्दुस्तान में क्रांति जनता के द्वारा करानी होगी और उसका स्वरूप लोक-सत्ताक होगा। लोक-बल का संगठन कैसे किया जाय और उनका सामर्थ्य कैसे बढ़ाया जाय यह वे जानते थे। सूरत में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये। प्रागतिक दल वालों ने अपना 'कन्वेंशन' ज्यों-त्यों चालू रखा। राष्ट्रीय दल जिस कांग्रेस को चाहता था वह नष्ट हो गई। इस सारी परिस्थिति पर विचार करके उन्होंने यह तजवीज की कि कांग्रेस पर कब्जा किया जाय। उसका वर्तमान ध्येय स्वीकार करके ही वे उसके अंदर दाखिल हो सकते थे। वे जानते थे कि राजनैतिक संस्था में राष्ट्र-शक्ति के प्रविष्ट हो जाने पर उनके साधन और साध्य उसके विकास के साथ-ही-साथ बदलने चाहिए। जिस मात्रा में राष्ट्र-शक्ति का विकास होता जाता है उसी मात्रा में राष्ट्र की बुद्धि को अधिक उच्च ध्येय सूझने और पटने लगते हैं। अतएव यदि कांग्रेस में घुसने का अवसर न मिला तो राष्ट्र-शक्ति के संगठन के लिए दूसरी संस्था खड़ी करके उसके द्वारा राष्ट्र का काम करने की उनकी तैयारी थी।

अब हम यह देखें कि इस समय कांग्रेस का रुख क्या था। इस वक्त की कांग्रेस प्रागतिकों की कांग्रेस थी, जिसपर सूरत में औपनिवेशिक स्वराज्य का ध्येय व वैध नीति लद गई थी। कुछ प्रागतिकों की यह इच्छा थी कि सूरत की फूट फिर से जुड़ जाय; लेकिन वे अपना नया ध्येय बदलने को तैयार न थे। इनमें सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, पं० मालवीयजी व गोखले तो इस मत के थे कि यदि गरम दल के लोग नई परिस्थिति के अनुकूल होकर कांग्रेस में आना मंजूर करें तो उन्हें लेकर फूट मिश्र ली

जाय ; किन्तु सर फीरोजशाह मेहता गरम दल वालों को किसी तरह कांग्रेस में आने देना नहीं चाहते थे । सूरत के बाद, सन् १९०८ में मद्रास में डा० रासबिहारी घोष के व सन् १९०९ में लाहौर में पं० मालवीयजी के सभापतित्व में कांग्रेस के अधिवेशन हुए । लाहौर-अधिवेशन के अध्यक्ष सर फीरोजशाह मेहता चुने गये थे ; लेकिन गरम दल को कांग्रेस में शामिल न करने के अपने मत के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया व मालवीयजी अध्यक्ष बनाये गये । परन्तु जबतक लो० तिलक छूटकर नहीं आ जाते तबतक इस मेल के प्रयत्न में सफलता मिलनी कठिन थी । फिर जब १९१४ में लोकमान्य छूटकर आ गये तब श्रीमती वेसेंट ने भी इस मत को जोर की गति दी कि गरम दल से मेल कर लेना चाहिए । इस समय तक मा० गोखले ने भी खुद अपने अनुभव से यह देख लिया था कि मॉर्ले-मिंटो सुधार कितने निराशाजनक हैं और उनके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के जैसा प्रश्न भी हल नहीं हो सकता था । इधर ब्रिटिश राजनेता भी यह महसूस करने लगे थे कि लार्ड हार्डिंग के प्रांतिक स्वराज्य-संबंधी सुधारों का विकास करने की आवश्यकता है । फिर यूरोपीय महायुद्ध शुरू हो गया था, इससे सभी यह मानने लगे थे कि युद्ध में हिन्दुस्तान की सहायता लेने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार दिये जायेंगे व दिये जाने चाहिए । ऐसे समय नरम-गरम दोनों दलों के एक हो जाने से देश का बड़ा हित होगा ऐसी राय गोखले, बनर्जी, और मालवीयजी की थी । अंत को डा० वेसेंट व तत्कालीन कांग्रेस के मंत्री श्री मुन्नाराव पंतलू की मध्यस्थता से यह तय हुआ कि गरम अर्थात् राष्ट्रीय दल तो प्रागतिकों अर्थात् नरम दल वालों का ध्येय स्वीकार कर ले व राष्ट्रीय दल की जो संस्थाएँ इस ध्येय को मान लें, उन्हें प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया जाय । यह शर्त प्रागतिक लोग मंजूर कर लें व दोनों दल के लोग बहुमत के निर्णय पर चलकर एकता से रहें । प्रागतिकों ने यह भी मंजूर किया था कि आगामी मद्रास-कांग्रेस में यह समझौता पास करा लिया जायगा ।

लेकिन इस बीच में तिलक व गोखले के दरम्यान हुई एक बातचीत से गोखले को यह निश्चय हो गया कि तिलक-पक्ष का मत-परिवर्तन नहीं

हुआ है, बल्कि अपने पुराने मत पर उन लोगों की वैसी ही दृढ़ श्रद्धा है। वे एक आपद्धर्म के तौर पर प्रागतिकों का ध्येय मंजूर कर रहे हैं। तब उन्होंने (गोखले ने) मद्रास-कांग्रेस के मनोनीत सभापति श्री भूपेन्द्रनाथ वसु को एक पत्र लिखा व बताया कि तिलक के भाव-विचार क्या हैं व क्यों उनसे समझौता न करना चाहिए। पत्र में उन्होंने कहा कि तिलक तो कांग्रेस के द्वारा सरकार से स्वराज्य की एक ही माँग करना चाहते हैं व जबतक वह मंजूर न हो तबतक अडंगे की नीति के द्वारा सरकार-तंत्र को बेकार बनाकर अंग्रेज राजनेताओं को कांग्रेस की शरण आने पर बाध्य करना चाहते हैं। यदि कांग्रेस के द्वारा यह नीति न चलाई जा सके तो 'राष्ट्रीय संघ' के नाम से अलग संगठन बनाकर उसके द्वारा अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। अर्थात् तिलक वही पुराने तिलक बने हुए हैं, यह उन्होंने भूपेन वावू को बताया। इसके फल-स्वरूप समझौते का प्रश्न फिर एक साल के लिए आगे चला गया। अपने इस रुख-परिवर्तन का स्पर्शीकरण गोखले ने इस प्रकार किया— "हम समझ गये थे कि नवीन परिस्थिति के कारण तिलकपक्ष का मत व नीति बदल गई हैं; किन्तु बाद में हमें अपना यह भ्रम मालूम हुआ। अतएव हमने समझौते का विरोध किया। सच पूछा जाय तो १९०७ में भी गरम-नरम दल का विरोध अन्तिम ध्येय-संबंधी उतना नहीं था जितना इस प्रश्न पर था कि अडंगे की नीति अंगीकार की जाय या सहयोग की, और अपनी शक्ति स्वराज्य की एक ही मूलग्राही माँग पर केन्द्रित की जाय या फुटकर सुधारों पर बिखेरी जाय।"

लो० तिलक को अपनी अडंगा या विरोध-नीति चलाने के लिए कांग्रेस पर कब्जा करना व उसे प्रबल व संगठित बनाना आवश्यक था। उन्हें यह आत्मविश्वास था कि एक बार कांग्रेस में घुस जाने पर वह हमारे अनुकूल ही साबित होगी; क्योंकि वे मानते थे कि सरकारी दमन-नीति के कारण लोकमत दबा हुआ है। यों वह उनकी नीति के अनुकूल ही है।

इधर १९१५ में मा० गोखले व सर मेहता दोनों धुरंधर प्रागतिक नेता परलोकवासी हो गए। उस साल कांग्रेस बंबई में हुई थी। उसमें

समझौते का प्रस्ताव पास हो गया व १९१६ की लखनऊ-कांग्रेस में राष्ट्रीय दल लोकमान्य के नेतृत्व में उपस्थित हुआ। इस साल ऐसा अनुभव होने लगा मानो तिलक ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। इसी साल स्वराज्य की एक सर्वसम्मत माँग पेश की गई व मुस्लिम लीग का भी समर्थन लोकमान्य ने जिना, महमूदावाद के राजा व डा० अनसारी आदि मुसलमानों के नेताओं से समझौता करके प्राप्त कर लिया था। उस समय अपने भाषण में उन्होंने कहा था, “जिस वहिष्कार-संबंधी प्रस्ताव पर इतना भगड़ा हुआ था उससे भी यह प्रस्ताव अधिक महत्त्व का है। हिंदू, मुसलमान, नरम-गरम सब दलवालों ने संयुक्तप्रांत में संयुक्त होकर स्वराज्य की हलचल करने का निश्चय किया है और हमें यह सौभाग्य (Luck) अब (now) लखनऊ (Lucknow) में मिला है।* कुछ लोग यह शिकायत करते हैं कि हिन्दुओं को मुसलमानों के सामने झुकना पड़ा है। पर मैं कहता हूँ कि अगर अकेले मुसलमानों को भी स्वराज्य के अधिकार दिये गये तो हम उसे बुरा न मानेंगे। यह कहते समय मैं हिन्दुस्तान के तमाम हिन्दुओं की भावना व्यक्त कर रहा हूँ। यदि अकेले राजपूत या पिछड़ी जातियों को ज्यादा लायक समझकर उन्हें सब अधिकार दे दिये जायँ तब भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। हिन्दुस्तान के किसी भी वर्ग को दिये जायँ तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है; क्योंकि तब भगड़ा उस वर्ग व श्रेष्ठ समाज के बीच ही रहेगा, आज का तिरंगी सामना तो मिट जायगा।”

लोकमान्य का निश्चित मत था कि स्वराज्य के लिए केवल प्रस्ताव पास करने से काम न बनेगा, सारे देश में जोर का आन्दोलन करना पड़ेगा; लेकिन कांग्रेस के जरिये एकाएक ऐसा होना शक्य नहीं था। अतएव उन्होंने ‘होमरूल लीग’ या ‘स्वराज्य-संघ’ नामक एक स्वतंत्र संस्था खड़ी की। कांग्रेस की माँग के लिए साल भर लगातार आन्दोलन करते रहना इसका काम था। मद्रास में डा० वेसेंट ने भी ऐसा ही एक स्वराज्य-संघ शुरू किया था; लेकिन दोनों को एक कर देने की उनकी तैयारी न थी। मगर लोकमान्य का खयाल था कि कांग्रेस का काम करनेवाले ये दोनों संघ एक हो सकते हैं। उन्होंने अपने लेखों में यह स्पष्ट

* We have that luck now in Lucknow.

किया था कि 'स्वराज्य-संघ' का कांग्रेस से विरोध नहीं, उलटा वे यह काम करेंगे जो कांग्रेस अबतक न कर पाई थी। भिन्न-भिन्न-प्रांतों में 'स्वराज्य-संघ' स्थापित हों तो उनमें परस्पर विरोध होने की कोई गुंजायश नहीं है।

लोकमान्य ने यद्यपि 'स्वराज्य' शब्द का भाषान्तर 'होम रूल' कर दिया व सम्राट के प्रति वफादारी की घोषणा भी कर दी तथापि नौकरशाही यह अच्छी तरह जानती थी कि उनके आन्दोलन से जो लोकशक्ति निर्माण होनेवाली है वह उसके लिए मारक ही साबित होगी। इसलिए उसने १९१६ में लोकमान्य पर राजद्रोह का तीसरा मुकदमा चलाया और इधर बंबई-सरकार ने उन्हीं दिनों डा० वेसेंट को बंबई-प्रांत में आने से रोक दिया; परन्तु बम्बई हाईकोर्ट ने लोकमान्य को बरी कर दिया जिसमें वे लखनऊ जाकर कांग्रेस में स्वराज्य के प्रस्ताव पर एकवाक्यता करा सके। किन्तु लखनऊ के बाद फिर तिलक महाराज व डा० वेसेंट के आन्दोलन को दबाने की शुरुआत नौकरशाही ने कर दी, जिसका पहला कदम था भारत-रक्षा-कानून के मातहत डा० वेसेंट व श्रीएरुडेल को मद्रास-प्रांत में नजरबंद कर देना। इस दमन-नीति के साथ ही मद्रास के तत्कालीन गवर्नर लार्ड पेंटलैंड ने भेद-नीति से भी काम लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 'सरकार कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, स्वराज्य-संघ के विचारों के खिलाफ है। इसपर लोकमान्य ने जवाब दिया कि '१९०८ में सरकार की नीति थी—नरम दल अपनाओ व गरम को दफनाओ। अब कांग्रेस-विरोध न बताना व स्वराज्य-संघ को दबाना वही पुरानी भेद-नीति है। वस्तुतः कांग्रेस व स्वराज्य-संघ के लक्ष्य में कोई अन्तर नहीं है। अतः इस समय हमें 'वयं पंचोत्तरं शतम्' वाली कहावत चरितार्थ करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करेगा वह भावी इतिहास में देशद्रोही गिना जायगा।'

इस प्रकार लोकमान्य के आवाज उठाने पर डा० वेसेंट की नजरबंदी के खिलाफ देश में बड़े जोर की लहर उठ खड़ी हुई व फिर से स्वदेशी, वहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं कौंसिलों से इस्तीफे व सत्याग्रह तक की चर्चा राजनैतिक क्षेत्रों में होने लगी। अबतक जो बड़े-बड़े लोग स्वराज्य-संघ से दूर रहते थे वे उसमें शामिल होने लगे। नरम-गरम का भेद कतई मिट गया। कलकत्ते में तय हुआ कि सारे बंगाल-प्रान्त में स्वराज्य का

आन्दोलन चलाया जाय। लखनऊ में भी मुसलमानों ने पेंटलैंड साहब का विरोध करके डा० वेसेंट के प्रति अपनी हमदर्दी जाहिर की। कौंसिलों के सभासद, वकील, बैरिस्टर, सब हर सूत्रों में होमरूल लीग के सदस्य बनने लगे। हजारों लोग अपना यह दृढ़ संकल्प प्रकट करने लगे कि सरकार नाराज हो तो पर्वाह नहीं, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए हम बराबर उद्योग करते रहेंगे। भारत-रक्षक सेना के लिए जो भरती करना चाहते थे उन्होंने वह बन्द कर दिया। स्वदेशी, बहिष्कार की शपथ ली जाने लगी। पेंटलैंड साहब को वापस बुलाने के लिए विलायत तार जाने लगे। मि० बोमनजी अक्रेले ने स्वराज्य-आन्दोलन चलाने के लिए एक लाख रु० देने का अभिवचन दिया। यह चर्चा भी चली कि श्रीमती वेसेंट को हटाने के लिए सत्याग्रह छोड़ा जाय। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, मुस्लिम लीग, होमरूल लीग आदि संस्थाएँ इसमें दिलचस्पी लेने लगीं। उन्हीं दिनों प्रयाग में पं० मालवीयजी की अध्यक्षता में लो० तिलक का स्वराज्य पर भाषण हुआ जिसमें उन्होंने सत्याग्रह अथवा निःशस्त्र-प्रतिकार के बारे में कहा— 'जो कानून-कायदे न्याय व नीति के विरुद्ध हों उनका हम पालन नहीं कर सकते। निःशस्त्र प्रतिकार साधन है, साध्य नहीं। किसी खास हुक्म को मानने या न मानने से क्या हानि-लाभ होगा, इसका विचार करके काम करना निःशस्त्र प्रतिकार है। यदि हमारी समतोल बुद्धि ने यह फैसला दिया कि खास हालतों में इस हुक्म को तोड़ना ही लाभदायक है तो इस नियम पर चलना नैतिक दृष्टि से समर्थनीय होगा। लेकिन इन प्रश्नों का निर्णय इतनी बड़ी सभा में नहीं किया जा सकता। वह आपको अपने नेताओं पर ही छोड़ना चाहिए। हमारी लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में कृत्रिम व अन्यायी कानून या परिस्थिति बाधक हो उसका मुकाबला करना निःशस्त्र-प्रतिकार है। निःशस्त्र प्रतिकार त्रिलकुल वैध है। इतिहास ने यह साबित कर दिया है कि कानून-संगत व विधि-विहित दो अलग-अलग शब्द हैं। जबतक कोई भी कायदा न्याय व नीति-संगत न हो व १९वीं-२० वीं सदी की नीति के अनुकूल लोकमतानुसार न हो तबतक वह कानून-संगत भले ही हो, विधिविहित नहीं हो सकता। यह भेद आप अच्छी तरह समझ लें। मैं कहता हूँ कि आप त्रिलकुल वैध मार्ग पर

चलिए । परन्तु साथ ही मैं यह कहता हूँ कि प्रत्येक कायदा शास्त्रीय अर्थ में 'वैध' नहीं हो सकता ।”

इन्हीं दिनों महात्मा गांधी हिंदुस्तान में अपना दो साल का प्रारंभिक निरीक्षण-कार्य पूरा करके चम्पारन में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर रहे थे । इसी समय अप्रैल में उन्होंने उस जिले के मैजिस्ट्रेट का हुकम खुल्लम-खुल्ला तोड़ा था व अन्त को सरकार के हुकम से वह निषेधाज्ञा वापस ले लेनी पड़ी थी । इस तरह अब भारतीय राजनीति धीरे-धीरे सत्याग्रह के पथ पर अग्रसर हो रही थी । लो० तिलक इस सिद्धान्त का प्रकट रूप से समर्थन करने लगे थे । इतने ही में डा० वेसेंट छोड़ दी गईं व ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि 'हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलेगा ; लेकिन वह किस्तों में दिया जायगा । पहली किस्त महायुद्ध के बाद मिलेगी, बाकी किस्तें कब दी जायेंगी इसका फैसला पार्लामेंट समय-समय पर करेगी व पहली किस्त की योजना बनाने के लिए व भारत का लोकमत जानने के लिए भारत-मंत्री मांटेगू साहब हिन्दुस्तान आयेंगे ।' इससे वह लुब्ध वातावरण कुछ देर के लिए शान्त हो गया व जबतक मांटेगू-सुधारों का रूप सामने नहीं आ जाता तबतक स्वराज्य के लिए सत्याग्रह का या प्रत्यक्ष प्रतिकार का प्रश्न खड़ा होने का कारण नहीं रहा ।

१९१७ के दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में होनेवाला था । राष्ट्रीय दल ने अध्यक्ष के लिए डा० वेसेंट का नाम सुझाया । वह मंजूर भी हो गया । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि प्रागतिकों को यह पसंद नहीं हुआ ; लेकिन इस समय कांग्रेस में तिलक महाराज का बोलबाला था । इसका फल यह हुआ कि प्रागतिकों ने अपनी अलहदा 'प्रागतिक परिषद्' बनाई । कलकत्ता-कांग्रेस में मुख्य प्रश्न स्वराज्य का ही था । कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने अपनी मांगों की एक तजवीज तैयार कर रखी थी । उसका समर्थन तो करना ही था , पर साथ ही मांटेगू साहब की स्वराज्य-घोषणा पर भी उसे अपनी राय देनी थी । लोकमान्य आदि राष्ट्रीय-नेताओं ने इस योजना के तीन हिस्से किये थे : (१) हिन्दुस्तान को स्वराज्य देना, (२) वह किस्तों में देना और (३) इन किस्तों के स्वरूप व समय का निश्चय पार्लामेंट द्वारा होना । इनमें पहले दो हिस्से नेताओं को मंजूर

हुए ; किन्तु तीसरा हिस्सा त्रिलकुल नामंजूर किया गया, क्योंकि वह स्वयं निर्णय के सिद्धान्त के त्रिलकुल खिलाफ था और इस बात का निश्चय नहीं हो पाता था कि ब्रिटिश पार्लामेंट कब स्वराज्य देगी। इसलिए कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि पूर्ण स्वराज्य देने का एक ही कानून पार्लामेंट जल्दी बना दे और उसी में यह बात दिया जाय कि स्वराज्य की किस्तें कब-कब दी जायँगी। इससे लाभ यह था कि निश्चित मीयाद खत्म होने पर अपने आप स्वराज्य मिल जायगा। ब्रिटिश पार्लामेंट की तरफ देखने की या उसके लिए उससे लड़ने की आवश्यकता न रह जायगी। इस प्रस्ताव के तीन भाग थे : पहले भाग में स्वराज्य का घोषणा के प्रति कृतज्ञतापूर्वक संतोष प्रकट किया गया था, दूसरे भाग में यह कहा गया था कि पार्लामेंट पूर्ण स्वराज्य अमुक समय में देने का कानून तुरंत बना दे और तीसरे भाग में यह चाहा गया था कि कांग्रेस व मुस्लिम-लीग द्वाग तैयार की गई सुधार-योजना स्वराज्य की पहली किस्त के तौर पर मंजूर की जाय। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए लॉ० तिलक ने कहा—“स्वराज्य की घोषणा के प्रति हम कृतज्ञतापूर्वक संतोष व्यक्त करते हैं। किस्तों से स्वराज्य मिलने की शर्त भी हमें मंजूर है। मगर किस्तों का समय व रूप ब्रिटिश सरकार तय करेगी वह हमें मंजूर नहीं। यह बात तो हमारे ठहराने का है। सरकार की लहर पर अवलम्बित रहना मुनासिब नहीं। किस्तें अभी तय कर दीं जाएं। इसके बारे में हम समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस-लीग योजना अभी मंजूर होनी चाहिए। यह हमारी कम-से-कम मांग है। यह स्वराज्य-स्थापना की दागवेल होगी। हमारा सारा घर हमें अपने कब्जे में लेने का अधिकार है। उसका कुछ भाग आपके हवाले रहने देना हमारी तरफ से एक रिश्तायत है। वह इस आशा से दी जाती है कि आप जल्दी-से-जल्दी हमारा घर खाली कर देंगे। हम आपको कुछ दिन और रहने देंगे; लेकिन—घर के मालिक हम हो गये—यह बात आज ही आपको मंजूर कर लेनी होगी। कांग्रेस की योजना का पहला गुण यह है कि उसमें केन्द्रीय सरकार पर लोक-नियुक्त सभा का नियंत्रण रक्खा गया है। केन्द्रीय सरकार में जबतक समान भागीदारी नहीं मिल जाती तबतक म्युनिसिपैलिटी, लोकल-

वोर्ड — जैसी छोटी संस्थाओं में भी स्वराज्य की भावना से काम नहीं हो सकेगा ।”

लोकमान्य का यह भाषण भावी राजनीति की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है । इसमें चार सिद्धान्त थे— (१) एक ही कानून के द्वारा स्वराज्य मिलना चाहिए, (२) हिन्दुस्तान के लोग मालिक हो गये, इस आधार पर कोई समझौता होना चाहिए, (३) स्वराज्य की पहली किस्त में केन्द्रीय सरकार में समान भागीदारी मिलनी चाहिए व (४) सम्पूर्ण स्वराज्य-प्राप्ति की मीयाद इसी कानून द्वारा निश्चित हो जानी चाहिए । पूर्ण स्वराज्य देने का सवाल तो दरकिनार, इनमें से एक भी सिद्धान्त मांटेगू-सुधारों में मंजूर नहीं किया गया था । उस योजना को इन्हीं सिद्धान्तों पर कसकर अमान्य ठहराया गया था । यह माना गया कि न तो यह स्वराज्य है, न स्वराज्य की नींव ही है ।

इधर मांटेगू-सुधार-योजना के प्रकाशित होते ही, प्रागतिक दल को कांग्रेस से फूटकर निकल जाने का एक नया कारण मिल गया । बंबई में लोकमान्य व बंगाल में देशबन्धु दास दोनों इन सुधारों के प्रति सहयोग की नहीं, विरोध-नीति रखते थे— यह बात सुरेन्द्र बाबू को अच्छी तरह मालूम थी । इनको भी सुधार असन्तोष-जनक मालूम होते थे ; फिर भी वे सहयोग के लिए तैयार थे । किंतु इनके एक और नेता, पं० मालवीयजी का कहना था कि तिलक के राष्ट्रीय दल का बहुमत कांग्रेस में विधिवत् हुआ है और बहुमत को खतरे से सावधान रखते हुए अन्त को मान लेना ही हमारा कर्तव्य है । देश की राजनीति परिस्थिति के अनुसार बढ़ती व बढ़ती रहेगी । उसको पुरानी लीकों में ही चलाते रहने का प्रयत्न करना तमोगुणी आग्रह है । इससे राष्ट्र-कार्य की हानि होती है । यह पण्डितजी ने सूरत-काण्ड के बाद अच्छी तरह देख लिया था और इसलिए उन्होंने तमाम प्रागतिक दल से आग्रह किया था कि वह कांग्रेस को न छोड़े ; परन्तु उनकी न चली । लोकमान्य ने भी बहुमत को मानने की दुहाई देकर समझाया, एवं फूट से देश की हानि होगी यह बताया; पर प्रागतिक दल अलग होकर ही रहा ।

इसके थोड़े ही दिनों बाद बम्बई में कांग्रेस की एक विशेष बैठक

हुई जिसमें डा० वेसेंट, लो० तिलक व कुछ प्रागतिक नेताओं के एक-मत से स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पास हुआ व कांग्रेस का शिष्टमण्डल विलायत गया। लो० तिलक भी उसमें थे। इस शिष्टमण्डल के विलायत में रहते हुए दिसम्बर १९१८ में दिल्ली में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसमें स्वराज्य-संबंधी प्रस्ताव बंगाली नेताओं ने बदलकर पूर्ण प्रान्तिक स्वराज्य व केन्द्रीय सरकार में समान भागीदारी की मांग, स्वराज्य की पहली किस्त के तौर पर, करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इस समय विलायत के शिष्टमण्डल में डा० वेसेंट व लो० तिलक में इस बात पर घोर मतभेद हो गया कि ब्रिटिश राजनेताओं के सामने स्वराज्य की कौनसी मांग पेश की जाय। डा० वेसेंट बंबई वाले मांग पर दृढ़ रहीं व लो० तिलक कांग्रेस की आज्ञा, दिल्ली वाले प्रस्ताव, पर कायम रहे। बहुमत को मानने की उनकी नीति के अनुसार लोकमान्य यही कर सकते थे। इसको लेकर आगे तिलक व डा० वेसेंट में बड़ा झगडा खड़ा हुआ। लोकमान्य कांग्रेस के साथ-साथ आगे बढ़ते गये व डा० वेसेंट पीछे फिसलती गईं। विलायत से लौटने पर लोकमान्य ने लोगों को—

“यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदर्यौ।

समेत्य च व्यपेयातां तद्वत् भूतसमागमः॥”

इस सिद्धान्त की शिक्षा दी अर्थात् बहुमत के सामने सिर झुकाना ही चाहिए। जबतक किसी के पीछे राष्ट्र का बहुमत है तभी तक वह राजनीति में काम कर सकेगा। नेता कितना ही बड़ा क्यों न हो, किसी खास परिस्थिति में उसने कितना ही बड़ा काम क्यों न किया हो, यदि राष्ट्र के आगे चलकर उसका नेतृत्व करने की उसकी तैयारी न हो तो राष्ट्र को उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए।

शिष्टमण्डल के विलायत से लौट आने पर, दिसम्बर १९१९ में अमृतसर में होनेवाली कांग्रेस का विषय ही लोकमान्य के सामने सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था। उनके विलायत में रहते हुए ही महात्मा गांधी ने रोलट-कानून के खिलाफ एक प्रचण्ड राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह-आन्दोलन, ६ से १३ अप्रैल १९१९ तक हिन्दुस्तान में चला दिया था। इसी समय जालियाँवाला बाग में अमानुष रक्तकाण्ड करके ब्रिटिश साम्राज्य-

वाद ने अपना शैतानी स्वरूप महात्माजी को दिखा दिया था। फिर भी महात्मा गांधी का रुख था कि हयटर कमेटी को, जो कि पंजाब के फौजी कानून की जाँच के लिए नियुक्त की गई थी, एक मौका और इस बात को जाहिर करने के लिए दिया जाय कि जनरल डायर का यह अमानुष रक्तपात साम्राज्यशाही को पसन्द नहीं है, यह उसका नित्य रूप नहीं है, यह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतरंग को नहीं प्रकट करता है बल्कि एक खास फौजी अफसर की अमानुषिकता का प्रमाण है। तबतक उनका यह कहना था कि कांग्रेस को सहयोग की नीति छोड़कर असहयोग की लड़ाई न छोड़नी चाहिए। उनके मन में यह बात जरूर थी कि अगर हयटर कमेटी की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार का निर्णय असन्तोषजनक हुआ तो मैं खुल्लमखुल्ला असहयोग की लड़ाई ठान दूँगा। देशबन्धु दास आदि बंगाली नेता कहते थे कि अभी से अडंगा नीति चालू करके इस कानून को खत्म कर दिया जाय। इतने ही में सम्राट की नवीन कानून को प्रचलित करने की घोषणा प्रकाशित हुई जिसमें लोगों से सहयोग के लिए कहा गया था। इसके साथ ही राजवन्दियों को छोड़ने की नीति भी जाहिर की गई। लो० तिलक व स्वराज्य-संघ के वैफिटस्टा आदि नेता जब अमृतसर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने यह घोषणा देखी। उन्होंने तुरंत ही सम्राट को यह तार-सन्देश भेजा कि हम सुधार-कानून के प्रति प्रतियोगी सहकारिता की नीति रखेंगे। लोकमान्य की मृत्यु के बाद उनके शिष्य कहलाने वाले कुछ नेताओं ने 'प्रतियोगी सहकारिता' का अर्थ कर दिया 'त्रिला शर्त सहयोग', जिससे वह शब्द आज हास्यास्पद बन गया है। किन्तु खुद लोकमान्य ने उसका अर्थ इस प्रकार किया है—'नौकरशाही यदि सहयोग करने को तैयार हो व करे तो उसको वैसा ही उत्तर देने के लिए लोग भी सहयोग करने को तैयार हैं। यदि वह तैयार न हो तो विरोध करना लाजिम होगा।' अर्थात् प्रतिपक्षी सहयोग करे तो सहयोग व असहयोग करे तो असहयोग करना—यही प्रतियोगी सहकारिता का सच्चा अर्थ है तथा लोग कब सहयोग करें व कब असहयोग करें—इसके निर्णय का अधिकार लोकमान्य के मतानुसार, कांग्रेस को ही है।

इस तरह अमृतसर में महात्मा गांधी सहयोग-नीति, देशबन्धु दास

अडंगा नीति व लोकमान्य तिलक प्रतियोगी सहकारिता की नीति के पक्ष में थे। ये सब लोग इस बात पर सहमत थे कि नवीन कानून के अनुसार जो चुनाव हो उनमें भाग अवश्य लिया जाय। अतएव तीनों के लिए सन्तोपजनक शब्द-रचना उस प्रस्ताव में की गई थी। वह इस प्रकार थी :

(क) यह कांग्रेस अपनी पिछले वर्ष की घोषणा को दुहराती है कि भारतवर्ष पूर्ण उत्तरदायी शासन के योग्य है और इसके खिलाफ जो बातें समझी या कही जाती हैं उनको यह कांग्रेस अस्वीकार करती है।

(ख) वैध सुधारों के सम्बन्ध में दिल्ली की कांग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर ही कांग्रेस दृढ़ है और इसकी राय है कि सुधार-कानून अपूर्ण, असन्तोपजनक और निराशापूर्ण है।

(ग) आगे यह कांग्रेस अनुरोध करती है कि आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार भारतवर्ष में पूर्ण उत्तरदायी सरकार कायम करने के लिए पार्लामेंट को शीघ्र कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

(घ) यह कांग्रेस विश्वास करती है कि जबतक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती तबतक, जहाँ तक सम्भव हो, लोग सुधारों को इस प्रकार कार्य में लावेंगे जिससे भारतवर्ष में शीघ्र पूर्ण उत्तरदायी शासन कायम हो सके। सुधारों के सम्बन्ध में माननीय माण्डेगू साहब ने जो मेहनत की है उसके लिए यह कांग्रेस उन्हें धन्यवाद देती है।

देशबन्धु दास, लो० तिलक व महात्मा गांधी तीनों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। फिर भी प्रागतिक दल इससे सहमत न हुआ; क्योंकि यद्यपि इसमें सुधारों को कार्यान्वित करने (Work the Reform) की बात कही गई है तथापि प्रागतिकों की राय थी कि चूँकि इसमें यह कहा गया है कि ऐसी नीति से काम करना चाहिए जिससे जल्दी-से-जल्दी पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो। इसलिए इन सुधारों को भरसक जल्दी भंग करने की तरफ ही इस प्रस्ताव का झुकाव है। प्रागतिकों की स्वतंत्र परिषद् बन चुकी थी। मा० शास्त्री आदि कुछ प्रागतिक कांग्रेस में गये थे व डा० वेसेंट ने इस प्रस्ताव के विरोध में इस आशय का प्रस्ताव पेश भी किया था कि सुधारों से जितना लोकहित हो सकता है वह किया

जाय व सुधारों की गाड़ी मजे में चलती रहे, किन्तु वह बहुमत से नामंजूर हो गया ।

इधर नवीन चुनावों में कांग्रेस का विरोध करने के लिए प्रागतिक व अब्राहमण-दल एक हो गये । प्रागतिकों का नेतृत्व डा० परांजपे व अब्राहमणों का श्री बालचंद्र कोठारी ने किया । अमृतसर के बाद ही मोलापुर में (अप्रैल १९२० में) प्रागतिक दल की वेत्रई-प्रान्तीय परिषद् हुई जिसमें अब्राहमण-दल भी शरीक हुआ । इसमें उन्होंने अ० भारतीय नेता के रूप में डा० वेसेंट को भी बुलाया था । इसपर लोकमान्य ने अमृतसर प्रस्ताव का आशय इस तरह समझाया था—

‘कांग्रेस कहती है कि जो-कुछ पल्ले पड़ा है उससे फायदा उठाओ । परन्तु जो मिला है वह सन्तोषजनक नहीं, निराशाजनक है । अतः जबतक पार्लामेंट पूर्ण स्वराज्य न दे तबतक आन्दोलन करते रहना चाहिए । ऐसा करते हुए सारे देश के हित की दृष्टि से नौकरशाही के साथ कभी सहयोग तो कभी असहयोग करना पड़ेगा । आवश्यकतानुसार जो इन दोनों साधनों से काम लेंगे वही सच्चे कांग्रेस-भक्त हैं और उन्हींको वोट देना चाहिए, दूसरों को नहीं ।’

कौंसिलों में चले जाने पर कांग्रेस—डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति बताते हुए लोकमान्य ने कहा था— ‘इस कानून में से यदि पूर्ण स्वराज्य का विधान उत्पन्न करना हो तो इसकी उम्र जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा । जिसे पतंग बनना है वह केवल कीड़े की हालत में कब-तक रहेगा ?’ इससे कांग्रेस लोकशाही दल (डेमोक्रेटिक पार्टी) की नीति अच्छी तरह साफ हो जाती है । पार्टी के घोषणा-पत्र में उन्होंने कहा—‘कांग्रेस के प्रति अचल निष्ठा व लोकशाही (जनतंत्र) पर दृढ़ विश्वास’ यह इस दल के मुख्य आधार हैं । शिक्षा-प्रचार, मतदाताओं की संख्या-वृद्धि, जाति-भेद तथा रूढ़ि-संबंधी अयोग्यताएँ दूर करना, धार्मिक सहिष्णुता, ब्रिटिश साम्राज्य में भारत को समान भागीदारी प्राप्त कराना, इसके लिए ‘जैसे के साथ तैसा’ इस नीति के अनुसार काम कराना आदि बातों का खुलासा करते हुए इस दल की यह माँग बताई गई है—

यहाँ की शासन-प्रणाली कैसी हो व कानून-विधान कैसा बने—यह निर्णय करने का (आत्म-निर्णय का) अधिकार अकेले भारतावसियों का ही होना चाहिए। फिर शासन-सुधार को अपूर्ण, असन्तोषकारक व निराशाजनक बताते हुए उसके संशोधन के रूप में यह माँग की गई है—‘हिन्दुस्तानियों को पूर्ण स्वराज्य दिया जाय, यानी भारतीय सेना पर उनका पूरा अधिकार हो, उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता रहे, नागरिकता के सम्पूर्ण अधिकारों का जनता को विधिवत् आश्वासन दिया जाय।’ संक्षेप में ‘शिक्षण, आन्दोलन व संगठन’ यह इस दल का मंत्र-वाक्य बताया गया था; साथ ही ‘जहाँ सम्भव होगा वहाँ सहयोग व जहाँ आवश्यक होगा वहाँ वैध रीति से विरोध’ करने की दल की नीति जाहिर की गई थी।

इस तरह लोकमान्य ने नरम नीति का अन्त करके पूर्ण स्वराज्य मिलने तक लड़नेवाली एक सेना खड़ी कर दी। राष्ट्रीय आपद्धर्म का समय अब खत्म हो रहा था। थोड़े ही दिनों में हर्टर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसे देखकर गांधी जी को लगा कि अब वैध राजनीति का युग समाप्त हुआ व उन्होंने निश्चय किया कि भारत को निःशस्त्र क्रान्ति की दीक्षा दी जाय। तिलक ने म० गांधी से कहा—“यदि लोग आपके शस्त्र को उठा लें तो मैं आपका ही हूँ।” हर्टर कमेटी की रिपोर्ट से यह साफ जाहिर होता था कि साम्राज्यवादी सहयोग के लिए तैयार नहीं हैं। अब प्रतियोगी सहकारिता को असहकारिता का रूप मिलना लाजिमी था; क्योंकि अब निःशस्त्र या सशस्त्र क्रान्ति के सिवा दूसरा रास्ता ही कांग्रेस के पास नहीं रह गया था और लोकमान्य तो अबतक यही कहते आ रहे थे कि निःशस्त्र क्रान्ति-मार्ग ही हमारी परिस्थिति के अनुकूल है। फिर अब तो म० गांधी—जैसा लोकोत्तर नेता मिल गया। ऐसी दशा में यदि लोकमान्य उन्हें पूर्वोक्त आश्वासन दें तो कौन आश्चर्य की बात है! परन्तु दुर्भाग्य से इस असहयोग-संग्राम का महोत्सव देखने के लिए लोकमान्य जीवित न रहे। १ अगस्त १९२० को चम्बई में उनका शरीरान्त हो गया और क्रान्ति की वह ज्योति, जो उन्होंने स्वार्थ का हवन कर-करके जमा रखी थी उनके शरीर-बन्धन से

मुक्त होकर सारे भारत खण्ड में फैल गई । लोकमान्य के देहावसान का दिन भारतीय राष्ट्र के स्वातन्त्र्य-यज्ञ की असहयोग-दीक्षा का दिन साबित हुआ । लोकमान्य की देह पञ्चत्व में विलीन हुई व उनकी क्रान्तिकारी आत्मा सारे भारतवर्ष में व्याप्त हो गई ।

: १० :

भारतीय सत्याग्रह-संग्राम

“निःशस्त्र प्रतिकार भारत की कई वीमारियों—चुराइयों का एक रामवाण उपाय है । हमारी संस्कृति के अनुकूल यही एक शस्त्र हमारे पास है । हमारे देश व जाति को आधुनिक सभ्यता से बहुत कम सीखना है, क्योंकि उसका आधार घोर-से-घोर हिंसा पर है जो कि मानव में दैवी गुणों के अभाव को सूचित करती है और जो खुद ही अपने विनाश की ओर दौड़ी जा रही है ।”

महात्मा गांधी (१९०६ में कांग्रेस को संदेश)

“जब कानून की मर्यादा धर्म-मूलक या न्याय-मूलक नहीं होती व रहती व केवल सत्ता के बल पर उसका पालन कराया जाता हो तब विचारशील मनुष्य के सामने यह प्रश्न आता है कि वह न्याय के प्रति अपनी सत्य-निष्ठा पर दृढ़ रहकर उस कानून की सजा को भुगते वा उस दण्ड के भय से ईश्वरनिर्मित न्याय-तत्वों की उपेक्षा करे । ऐसे समय न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ मनुष्य कहते हैं कि कानून के कृत्रिम बंधनों को मानना ही उचित है । परन्तु इसके लिए सत्य व न्याय के प्रति बहुत तीव्र निष्ठा आवश्यक होती है । इतनी कि अपने सुख, स्वार्थ, बाल-बच्चों तक का खयाल तक मन में न आना चाहिए । इसी को मानसिक धैर्य, सच्ची सत्यनिष्ठा अथवा सात्विक शील और दिव्यानत कहते हैं । यह गुण विद्वत्ता से नहीं आता, न बुद्धिमत्ता से ही । इसके लिए उपनिषद् का यह वचन याद रखना चाहिए—

‘नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन’ ।

“जो देशभक्त वैध रीति से सुधार कराना चाहते हैं उनके रास्तों में कई कठिनाइयों आती हैं । मन संतप्त रहता है, सुधार की उत्कट इच्छा होती है, कानून भंग करना अटपटा लगता है; लेकिन कोई उपाय नहीं दीख पड़ता ! ऐसी ही कठिनाइयों में गांधी को निःशस्त्र प्रतिकार का, या उनकी भाषा में सत्याग्रह का मार्ग सूझा है और इसपर चलते हुये उन्होंने बहुत कष्ट सहें हैं इसीलिए अब वह शास्त्र-पूत हो गया है ।”

—तिलक (महात्मा गांधी के जीवन चरित की प्रस्तावना में)

पिछले प्रकरण के अन्त में यह कहा ही जा चुका है कि १ अगस्त १९२० ई० को हिन्दुस्तान ने म० गाँधी के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया । यह लड़ाई आज भी चल रही है और जबतक हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि उसका मकसद पूरा हो गया । इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटिश शासन से छुटकारा पा जाने के बाद हिन्दुस्तान को सत्याग्रह की जरूरत नहीं रहेगी । इससे हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि सन् १९२० में असहयोग के रूप में जो लड़ाई शुरू हुई थी पूर्ण स्वराज्य मिलने पर वह माना जायगा कि उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया है । हिन्दुस्तान को राज्यसत्ता मिल जाने के बाद भी सत्ता का उपयोग किस भाँति करना, किस कार्य के लिए उसका उपयोग करना और किस तरह की समाज-धारणा को वह राज्यसत्ता अपनावे आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हिन्दुस्तान को इस सत्याग्रह का उपयोग करना पड़ेगा । आधुनिक भारत के इतिहास का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकमान्य के स्वर्गवास के बाद तुरन्त ही भारतीय राजनीति और कांग्रेस के सूत्र महात्मा गांधी के हाथ में कैसे आये ? भारतीय जनता का विश्वास और सहयोग तत्कालीन दूसरे नेताओं की अपेक्षा महात्मा गांधी को ही इतना अधिक कैसे मिला ? इस प्रश्न का समाधानकारक उत्तर जबतक नहीं मिलता तबतक आधुनिक भारत का स्वरूप समझ सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है । इसके लिए इन प्रश्नों का थोड़ा विचार कर लेना जरूरी हो जाता है कि सन् १९२० के पहले म० गांधी भारत में क्या करते थे, हिन्दुस्तान की जनता और नेता एवं ब्रिटिश शासक उन्हें किस दृष्टि से देखते थे ।

जनवरी सन् १९१५ में महात्मा गांधी भारत आये । उस समय भारतीय राजनीति में मा० गोखले और लो० तिलक के अपने-अपने दल थे । इन दो पक्षों के सिवा एक सशस्त्र क्रान्तिवादी दल भी था । गोखले की विधि-विहित राजनीति, लोकमान्य का विरोधक बहिष्कार-योग और

सशस्त्र क्रान्तिवादियों का गुप्तमार्ग ये सभी एक तरह से उस समय असफल हो चुके थे। ऐसे समय महात्मा गांधी अपने सत्याग्रह-शस्त्र के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त करके एक यशस्वी नेता के रूप में आये थे। इस अध्याय के शुरू में दिये गये लो० तिलक के उद्धरण के अनुसार उस समय महात्मा गांधी का सत्याग्रह एक तरह से शांसकों की दृष्टि में भी शास्त्रभूत हो गया था और अब महात्मा गांधी भारत आने पर कौनसा मार्ग ग्रहण करेंगे, यह गरम दल, नरम दल और सरकार सभी पक्ष के लिए समान रूप से कुतूहल का विषय था। उस समय सन् '१४ का महा युद्ध शुरू हुआ ही था और भारत आने के पहले ही इंग्लैण्ड में महात्मा गांधी ने अपना मत प्रकट किया था कि इस युद्ध में वे सरकार को मदद देंगे, इसलिए सरकार उनकी ओर युद्ध में सहायता पाने की दृष्टि से देख रही थी। उनके भारत आते ही बम्बई के उस समय के गवर्नर—लॉर्ड विलिंग्डन—ने बम्बई में उनसे पहली बार मुलाकात की। उस समय उन्होंने कहा कि मैं मा० गोखले का शिष्य हूँ। इससे सरकार का विश्वास उनपर और भी दृढ़ हो गया। मा० गोखले ने सर फीरोजशाह मेहता और महात्मा गांधी की मुलाकात करवाई। उस समय सर फीरोजशाह ने मजाक में लेकिन बहुत संजीदगी के साथ सलाह दी या इशारा किया कि हिन्दुस्तान दक्षिण अफ्रीका नहीं है। यह समझकर आगे का अपना कार्यक्रम बनाना।

महात्मा गांधी ने १९०६ में एक सन्देश काँग्रेस को भेजा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हिन्दुस्तान की सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय सत्याग्रह ही है और यह साधन आधुनिक भौतिक सभ्यता के उद्धार के लिए भी, जो कि खुद विनाश की ओर दौड़ती हुई चली जा रही हैं उपयोगी सिद्ध होगी। उस समय के काँग्रेस के प्रागतिक नेताओं को, जो यह समझ रहे थे कि निःशस्त्र प्रतिकार के हामी गरम दल को काँग्रेस से अलग कर देने से अब हमेशा के लिए सब भगड़ा मिट गया, यह सन्देश कैसा लगा होगा, यह कह सकना मुश्किल है। उन्होंने सिर्फ यही बताने के लिए नाममात्र को उनका सन्देश काँग्रेस में पढ़ा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में सरकार से आत्म-बल के द्वारा लड़ने के कारण

जिस कर्मवीर की सर्वत्र कीर्ति फैल रही है उसका भी समर्थन हमारी वैध-मार्गी व नरम-दलीय कांग्रेस को प्राप्त है। फिर भी मा० गोखले को यह आशंका हो सकती थी कि म० गांधी हिन्दुस्तान आने पर भारतीय राजनीति में किसी-न-किसी तरह की सत्याग्रही मनोवृत्ति पैदा करेंगे। आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के प्रति उनका तुच्छ भाव और प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति विलक्षण आदर और आत्म-श्रद्धा को देखकर मा० गोखले को यह डर भी था कि इस आत्मश्रद्धा के बल पर, हिन्दुस्तान की वस्तुस्थिति पर ध्यान दिये बिना ही कहीं वे जल्दबाजी में कोई हलचल न कर बैठें और इसीलिए उन्होंने उन्हें सुझाया कि क्रम-से-क्रम एक वर्ष तक हिन्दुस्तान की परिस्थिति का निरीक्षण किये बिना आप अपनी कार्य-नीति निश्चित न करें। गांधीजी ने उन्हें तुरन्त ही ऐसा आश्वासन दे दिया। साल भर तक गांधीजी ने सारे हिन्दुस्तान का दौरा किया और राज-नैतिक नेताओं से चर्चा और विचार-विनिमय किया। इन्हीं दिनों कुछ दिन म० गांधी और लो० तिलक एकसाथ सिंहगढ़ पर रहे थे; और उन्होंने अपने-अपने तत्वज्ञान और राजनीति की चर्चा करके एक-दूसरे का अन्तःकरण समझ लिया था। उस समय से गांधीजी और लोकमान्य का परस्पर आकर्षण और प्रेम बढ़ता गया।

लोकमान्य ने गांधीजी के सत्याग्रह के बारे में अपनी गय इस अध्याय के शुरू में दिये गये द्वितीय उद्धरण में प्रकट की है। चिरोल केस में प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने जो उत्तर दिये थे, उन्हें पढ़ने से यह पता चलता है कि लो० तिलक पहले जिस निःशस्त्र प्रतिकार का उपदेश देते थे उसका समर्थन भी अन्ततोगत्वा धार्मिक भावना के आधार से ही करना पड़ता है। वे प्रश्नोत्तर ये थे—

प्रश्न—सभाओं व आवेदन-निवेदनों को आपने बच्चों का खेल बताया है न ?

उत्तर—“हाँ, जब उनका कोई उपयोग नहीं, तब वे बच्चों के खेल ही हैं।”

प्र०—“इसके सिवा और क्या करना चाहिए था ?”

उ०—“निःशस्त्र प्रतिकार ।”

प्र०—“यानी क्या ?”

प्र०—“खुद कष्ट सहन करके प्रतिकार करना ।”

उ०—“खुद कष्ट सहन करने से प्रतिकार कैसे होता है ?”

उ०—“धर्म-ग्रंथों में लिखा है कि धार्मिक भावना से यदि कष्ट सहन किया जाय तो दूसरों पर उसका असर पड़ता है ।”

लो० तिलक ने ये उत्तर अदालत में दिये थे फिर भी उनमें निःशस्त्र प्रतिकार का तत्त्वज्ञान समाया हुआ है। महात्मा गांधी के जीवन चरित की प्रस्तावना में वे लिखते हैं कि प्राचीन उपनिषदों के आत्मबल के आधार पर इस विश्वविज्ञान की इमारत खड़ी की गई है और महात्मा गांधी ने उसे अपने आचरण से शास्त्रपूत भी साबित कर दिया है। उसी जगह उस मार्ग के संबंध में वे कहते हैं : “यह मार्ग हर एक प्रसंग पर, हर समय, अपना योग्य होने पर भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि हर अवसर पर उसका उपयोग किया जाय या नहीं, अथवा वह हर बार उतना ही फलदाई होगा या नहीं ? फिर भी यह तो सभी को मानना होगा कि इसमें बहुत सामर्थ्य है ।”* लो० तिलक के ये उद्गार मार्च १९१२ के हैं। इससे यह व्यक्त होता है कि वे सत्याग्रह-मार्ग को कितना श्रेष्ठ समझते हैं। इस तरह गांधीजी और उनके सत्याग्रह को बड़े-बड़े नेता आदर की दृष्टि से देखते थे और गांधीजी ने १९१५ से १९२० तक जो भाषण दिये और जो हलचलें कीं, उनके कारण सामान्य जनता के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इसी बीच में उन्होंने क्या-क्या हलचलें कीं, इसका हम संक्षेप में सिंहावलोकन करेंगे।

म० गांधी के जिस एक भाषण ने भारतीय जनता का ध्यान-अद्भुत रीति से अपनी ओर आकर्षित कर लिया, वह था फरवरी १९१६ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन-समारंभ के समय का उनका भाषण। इस समारंभ में पं० मालवीयजी ने हिन्दुस्तान के सभी नेताओं और राजे-महाराजाओं को निमंत्रण दिया था और इस समारंभ की शोभा के योग्य ही वहाँ उपस्थित बड़े-बड़े लोगों के भाषणों का एक ज्ञान-पत्र

शुरू किया। लार्ड हार्डिंग आदि बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ आये थे और हिन्दुस्तान के सैकड़ों उत्साही विद्यार्थी इस ज्ञानघन में श्रवण-भक्ति के रूप में अपने-अपने कर्तव्य का पाठ पढ़ रहे थे। ४ फरवरी को इस समारंभ में सैकड़ों विद्यार्थियों, अनेक राजा-महाराजों और डॉ० वेसेंट आदि राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष म० गांधी का सुप्रसिद्ध भाषण हुआ। डॉ० वेसेंट ने यह समझकर कि इस व्याख्यान का कुछ हिस्सा अत्यन्त अज्ञेय है और ऐसे स्पष्ट विचार कहना राजनैतिक दृष्टि से आपत्तिजनक भी है भाषण के बीच में बाधा डाली; लेकिन फिर भी भाषण वैसा ही जारी रहा। डॉ० वेसेंट सभा-मण्डप से उठकर चली गईं। उन्हीं के साथ उपस्थित राजा-महाराजा भी उठ खड़े हुए और उस दिन का वह ज्ञान-सत्र अधूरा ही रहा। उस भाषण का महत्वपूर्ण भाग यह है :

“कांग्रेस ने स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस-कमेटी और मुस्लिम लीग जनता के सामने शीघ्र ही कोई कार्यक्रम रखेंगी। किन्तु अपने चारे में तो मैं साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि मेरा ध्यान इन नेताओं के कार्यों की ओर उतना नहीं जितना इस ओर है कि विद्यार्थी और भारत की सामान्य जनता क्या करेगी। कल जो महाराज अर्घ्यत्त थे, उन्होंने भागत की गरीबी के बारे में कहा था। अन्य वक्ताओं ने भी इसी बात पर काफी जोर दिया था; लेकिन जिस भव्य मंडप में वॉइसरॉय ने उद्घाटन किया था उसमें आपको कौनसा दृश्य दिखाई दिया? उसमें कितनी शान, कितनी तड़क-भड़क थी! पैरिस के किसी जौहरी की आँखों को लुभानेवाला जड़ जवाहरात का वह प्रदर्शन था। कीमती रत्नाभूषणों से सजे इन सरदारों और देश के करोड़ों गरीबों की स्थिति की मैंने तुलना की। मुझे यह अनुभव होने लगा है कि इन सरदारों से कहना पड़ेगा कि जब तक आप इन जवाहरात को त्याग करके अपनी धन-दौलत को राष्ट्र की आती समझकर न रखेंगे तब तक हिन्दुस्तान को मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे देश में ७० फीसदी किसान हैं और जैसा कि मि० हिगिन्स बोथम ने कल कहा था कि खेत में अन्न की एक बाल की जगह दो बोरी बालें पैदा करने की शक्ति इन्हीं किसानों में है; लेकिन उनके

परिश्रम का सारा फल यदि हम उनसे छीन लें या दूसरे को छीन लेने दें तो फिर यह नहीं कहा जा सकेगा कि हममें काफ़ी स्वराज्य-भावना जागृत है। हमारी मुक्ति इन किसानों के ही द्वारा होगी, डॉक्टरों व वकीलों या अमीर-उमरावों के द्वारा नहीं।

“इन दो-तीन दिनों में जिस कारण हृदय में उथल-पुथल मच गई है उसका अन्त में उल्लेख करना मेरा कर्तव्य हो जाता है। अन्त में उल्लेख किया, इससे यह न समझिएगा कि इसका महत्त्व कम है। जब वाइसराय बनारस की सड़कों पर गुजर रहे थे तब हम सबके दिलों में चिन्ता की लहरें दौड़ती रहती थीं। जगह-जगह खुफिया पुलिस तैनात थी। यह देखकर मुझे चोट पहुँची। मन में कहा, यह अविश्वास क्यों? इस तरह जीवित मृत्यु के सन्निकट जिन्दा रहने की अपेक्षा लार्ड हार्डिंग यदि मर गये तो क्या अधिक सुखों न रहेंगे? लेकिन शक्तिशाली सम्राट के प्रतिनिधि को शायद महसूस न हो। उन्हें जीवित मृत्यु के सन्निकट जीना भी शायद आवश्यक मालूम हो। लेकिन यह खुफिया पुलिस हमपर लादने की जरूरत क्यों पड़ी? इनके कारण हमें गुस्सा आयेगा, मन में झुँझलाहट होगी। इनके प्रति तिरस्कार भी मन में उत्पन्न होगा; लेकिन हमें यह न भूल जाना चाहिए कि आज हिन्दुस्तान अधीर व आतुर हो गया है। अतः भारत में अराजकों की एक सेना तैयार हो गई है। मैं भी एक अराजक हूँ; लेकिन दूसरी तरह का। अगर मैं इन अराजकों से मिल सका तो उनसे जरूर कहूँगा कि तुम्हारे अराजकतावाद के लिए भारत में गुंजायश नहीं है। हिन्दुस्तान को अपने विजेता पर अगर विजय पानी है तो उनका तरीका भय का एक चिह्न है। हमारा यदि परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है तो हम किसी से नहीं डरेंगे। राजा-महाराजाओं से नहीं, वाइसराय से नहीं, खुफिया पुलिस से नहीं और खुद पंचम जार्ज से भी नहीं। अराजकतावादियों के देश-प्रेम के कारण मैं उनका सम्मान करता हूँ। अपने देश के लिए प्राण देने को तैयार होने के शौर्य के कारण उनका सम्मान करता हूँ; लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि हत्या करने में कौन-सी बहादुरी है? हत्यारे की खंजर क्या सम्मान-योग्य मृत्यु का सुयोग्य चिह्न है? मैं इससे इनकार करता हूँ। ऐसे मार्ग के लिए किसी भी धर्म का आधार नहीं है।

भारतीय सत्याग्रह-संग्राम

हिन्दुस्तान की मुक्ति के लिए यदि मुझे यह जरूरी लगा कि अंग्रेजों का यहाँ से चला जाना चाहिए तो मैं वैसा साफ-साफ कहूँगा और मुझे आशा है कि अपने इस विश्वास के लिए मैं अपने प्राण भी देने को तैयार हो जाऊँगा। मेरी राय से ऐसी मृत्यु सम्मान-योग्य मृत्यु है। वम फेंकने-वाले गुप्त षड्यन्त्र रचते हैं, प्रकट होने में डरते हैं, और पकड़े जाने पर अपने गलत रास्ते जानेवाले उत्साह की सजा भुगतते हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमने ऐसा न किया होता, कुछ लोगों पर वम न फेंके होते तो बंगभंग की हलचल के कारण हमें जो मिला वह न मिला होता। (डॉ० वेसेंट—कृपा करके यह विषय समाप्त-कीजिए।) बंगाल में मि० लिऑन की अध्यक्षता में जो सभा हुई थी उसमें भी मैंने यही कहा था। मैं जो कह रहा हूँ वह मुझे जरूरी मालूम होता है। फिर भी मुझे रुकने को कहा जायगा तो मैं रुक जाऊँगा। (अध्यक्ष की ओर घूमकर) मैं आपनी आज्ञा की राह देख रहा हूँ। यदि आपको यह प्रतीत होता हो कि अपने भाषण के द्वारा मैं राष्ट्र और साम्राज्य की सेवा नहीं कर रहा हूँ तो मैं जरूर चुप हो जाऊँगा। ('कहे-जाइये', 'कहे जाइये', ऐसी आवाजें) (अध्यक्ष—अपना मतलब साफ करके कहिए।) मैं अपना आशय ही स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ (फिर रुकावट) मित्रों, कृपया इस रुकावट के प्रति निन्दा न व्यक्त कीजिए। डॉ० वेसेंट को ऐसा लग रहा है कि मुझे रुक जाना चाहिए। वे भारत से बहुत प्रेम रखती हैं और मैं जो विचार प्रकट कर रहा हूँ वे तुम जैसे युवकों के सामने स्पष्टतया कहकर मैं गलती कर रहा हूँ यही उनका ख्याल है और इसीलिए वे रोकना चाहती हैं। लेकिन ऐसा हो तब भी मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भारत में दोनों पक्षों में जो परस्पर सन्देह का वातावरण है उसे हिन्दुस्तान से निकाल डालने की मेरी इच्छा है। परस्पर प्रेम के आधार पर स्थित साम्राज्य हमें चाहिए... राज्याधिकारियों से हमें जो भी कहना हो साफ-साफ और निडर होकर कहें और यदि हमारा कहना उन्हें बुरा लगे उसका फल भोगने को भी हम तैयार रहें। लेकिन हम अपशब्दों का व्यवहार न करें... हाँ, कई अधिकारी बड़ी मगरूरी से पेश आते हैं, मनमानी करते हैं। वे जुल्म

करते हैं और कई चार अविवेकी भी बन जाते हैं। ऐसे कई विशेषणों का उपयोग उनके लिए किया जा सकता है। और मैं यह भी मानता हूँ कि कई साल भारत में रहने पर उनका कुछ अधःपतन भी होता है। लेकिन इससे क्या पता चलता है? वे भारत आने के पहले सभ्य थे, उनका यह गुण यहाँ आने पर नष्ट हो गया तो जिम्मेदारी हमारी है। कल तक जो मनुष्य अच्छा था वही यदि मेरे सहवास से आज बिगड़ जाय तो उसके लिए वह जिम्मेदार है या मैं? भारत में आने पर उन्हें जो खुशामद का, और कृत्रिम वातावरण मिलता है उससे उनका नैतिक अधःपात होता है। ऐसी स्थिति में तो हममें से भी कईयों का पतन हो जायगा। अपने को दोषी मानने का भी कई चार सदुपयोग होता है। हमें यदि कभी स्वराज्य मिलेगा तो तभी कि जब हम उसे लेंगे। हमें दान के रूप में स्वराज्य कभी भी नहीं मिलेगा। ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश राष्ट्र का इतिहास देखिए। वे खुद भले ही स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हों, लेकिन जो खुद स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करते उन्हें वे कभी स्वतंत्रता न देंगे। बोअर-युद्ध से आप चाहें पाठ सीख सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व जो इस राष्ट्र के दुश्मन थे वे ही आज उनके मित्र हैं। (इस समय डॉ० वेसेंट और मंच पर बैठे हुए राजा-महाराजा उठकर चले गये और सभा समाप्त-हो गई।)*

इस किस्से से अखबारों में वाद-विवाद शुरू हो गया। जिसके कारण पाठकों का ध्यान म० गांधी की तरफ आकर्षित हुआ। उस समय सामान्य शिक्षित लोगों में यह चर्चा शुरू हुई कि हिन्दुस्तान में यह कोई नया राजनैतिक तत्त्वज्ञान आरहा है। डा० वेसेंट ने कहा कि एक संत के नाते म० गांधी भले ही बहुत बड़े हों; लेकिन राजनीति की दृष्टि से वे एक दुधमुँहे बच्चे हैं। गरम दल के लोग कोसने लगे कि इनका निःशस्त्र प्रतिकार पहले वाला बहिष्कार-योग ही है। नरम दल के कहने लगे कि इनकी अहिंसा व राज्यनिष्ठा संशयातीत है इसलिए ये हमों में से हैं। सुधारक कहने लगे कि गांधीजी भी यही कहते हैं कि हमारी गुलामी के

कारण हमीं हैं और जबतक हमारा सुधार न होगा हमें स्वराज्य न मिलेगा, इसलिए गांधीजी सुधारक हैं। धर्मसुधारक कहने लगे कि महात्मा गांधी भागवत-धर्मी सन्त हैं और हमारे धर्म-सुधार का तत्त्व उन्हें मान्य है। सनातनी कहने लगे कि वे चातुर्वर्ण्य पालनेवाले सनातनी हिन्दू हैं और कभी हुई तो इन्हीं के द्वारा भारत में धर्मराज्य की या रामराज्य की स्थापना हो सकेगी। नास्तिक कहने लगे : महात्मा गांधी मानते हैं कि सत्य के सिवा कोई धर्म नहीं है और सत्य ही परब्रह्म है। इसलिए एक तरह से वे नास्तिक ही हैं, क्योंकि सत्य के सिवा और किसी ईश्वर को वे नहीं मानते। राजनैतिक सुधार पहले चाहनेवाले लोग गांधीजी के जीवन की ओर संकेत करके कहने लगे कि इन्होंने 'राजनैतिक सुधार पहले' यही पाठ पढ़ाया है। क्रांतिकारी कहने लगे कि वे हैं तो एक क्रांतिकारी ही; लेकिन उस्तादी से, पालिसी से शान्ति और अहिंसा का उपदेश कर रहे हैं। इसके विपरीत कुछ उग्र कहे जानेवाले व नेता समझे जानेवाले लोग यों भी कहते कि गांधी सरकार का ही एक खुफिया है। सरकार महायुद्ध के इस आपत्काल में साम्राज्य की रक्षा के लिए उग्र राजनीति व क्रांतिकारी दल को नष्ट करने में इनको इस्तेमाल कर रही है। यह हमारी मंडली का नहीं हो सकता। इस तरह जितने मुँह उतनी बातें लोग १९१६—१७ में गांधीजी के बारे में करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी इस समय पड़े-लिखे लोगों में चर्चा का एक विषय थे और पूर्वोक्त घटना से इस चर्चा को विशेष गति जरूर मिल गई थी।

१९१६ के अन्त में महात्मा गांधी का ध्यान फिजी के गिरमिटियों की हालत की तरफ गया। गिरमिटिया प्रथा को अंग्रेजों के लिए हिन्दुस्तानियों को बाकायदा गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा ही कहना चाहिए। १९१५ में लार्ड हार्डिंग ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया था कि यह प्रथा उठा दी जाय। परन्तु यह अफवाह सब जगह फैल गई कि और ५ साल तक इस प्रथा को जारी रखने का आश्वासन लार्ड हार्डिंग ने फिजी के गोरों को दे दिया है। इसका रहस्य प्रकट होते ही महात्माजी ने इस प्रश्न को अपने हाथ में लिया और यह घोषणा कर दी कि यदि ३१ मई, १९१७ के पहले यह प्रथा बन्द न हुई तो मैं सत्याग्रह शुरू करूँगा। तत्र तत्कालीन

वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने एलान किया कि १२ अप्रैल से यह प्रथा भारत-रक्षा-कानून की रू से युद्ध चलने तक बन्द की गई है। बाद को महायुद्ध खत्म होते ही यह प्रथा बन्द कर दी गई। इस छोटी-सी विजय से महात्माजी की ओर लोगों का ध्यान और भी खिंच गया।

इसी समय महात्माजी ने चम्पारन के निलहे गोरों के जुल्म से वहाँ के किसानों को छुड़ाने का आन्दोलन किया। लखनऊ-कांग्रेस के समय इस प्रश्न की ओर महात्माजी का ध्यान दिलाया गया। उसके बाद अप्रैल १९१७ में महात्माजी मोतीहारी (चम्पारन) में जाँच के लिए जा पहुँचे। वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने १४४ दफा के अनुसार उन्हें चम्पारन जिला छोड़कर चले जाने का हुक्म दिया। महात्माजी ने उसे नहीं माना व अपना 'कैसर-ए-हिंद' नामक सोने का तमगा सरकार को लौटा दिया। अदालत में उन्होंने अपना अपराध मंजूर किया और कहा कि मैं इसकी सजा भोगने को खुशी से तैयार हूँ। परन्तु अन्त में सरकार के आदेश से उनपर से मुकदमा हटा लिया गया व महात्माजी तथा उनके अनुयायियों को उस जिले में किसानों की स्थिति की जाँच व उनकी सेवा करने की छुट्टी मिली। बाद में सरकार ने भी एक जाँच-कमीशन बिठाया जिसमें महात्माजी भी एक सदस्य बनाये गये। अन्त को सरकार ने एक कानून बनाया जिसके द्वारा किसानों की वे सब शिकायतें, जो १०० साल से किसी भी तरह मिट नहीं रही थीं, महात्माजी की सत्याग्रह-नीति के कारण दूर हो गई। तबसे बिहार-निवासी व किसान महात्माजी के बड़े भक्त हो गये।

फिर जनवरी १९१८ में उन्होंने खेड़ा जिले के अकाल के प्रश्न में हाथा डाला। अकाल रहते हुए भी वहाँ छूट न देकर किसानों से लगान वसूल किया जा रहा था, यह देखकर उन्होंने करबन्दी का आन्दोलन शुरू किया व उसमें सफलता मिली। इससे हिन्दुस्तान के किसानों को यह विश्वास जमने लगा कि ब्रिटिश सरकार को भी, जो कि हमपर हुक्मत चलाती है, झुका देने की शक्ति गांधीजी के पास है। चम्पारन व खेड़ा में सत्याग्रह के सफल प्रयोगों को देखकर पढ़े-लिखे लोगों की भी यह धारणा होने लगी कि यह हमारे उद्धार का एक ऐसा साधन जरूर

है जो भारत-भूमि में उग व फल-फूल सकता है । महात्माजी का भी आत्मविश्वास इससे बढ़ गया ।

इसके बाद ही महायुद्ध के सिलसिले में धन-जन की सहायता के लिए दिल्ली में सरकार ने एक दरबार किया । इसमें डॉ० वेसेंट व लो० तिलक को निर्मंत्रण न मिलने से म० गांधी ने जाने से इनकार कर दिया था । मगर बाद में वाइसराय के आग्रह से वे गये थे । उन्होंने अपना मत वहाँ साफ तौर पर जाहिर किया जिसपर लोकमान्य तिलक ने 'केसरी' में सन्तोष प्रकट किया था । इस दरबार से लौटकर महात्माजी ने वाइसराय को एक खत लिखा था, "साम्राज्य की हिस्सेदारी में अभी हमारा चंचुपात भी नहीं हुआ है । भावी आशा के भरोसे हम अपना काम चला रहे हैं । इस आशा की सफल करने का सौदा मैं करना नहीं चाहता । परन्तु यह जता देना उचित होगा कि इस आशा का टूटना मानो हमारा भ्रम दूर होना ही है । हमने यदि साम्राज्य-रक्षा के लिए अपनी सेवाएँ दीं तो उसके फलस्वरूप हमें यह दिखाई पड़ना चाहिए कि स्वराज्य मिल गया । आपने कहा कि धरेलू भूगड़े निपटा लो : पर इसका अर्थ अगर यह हो कि हम हुकूमत के जोरो-जुल्म चुपचाप सहन करते रहें तो यह मानने में मैं असमर्थ हूँ । यही नहीं, बल्कि इस संगठित जुल्म का प्रतिकार मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर करता रहूँगा । आप अधिकारियों को यह बता दें कि वे किसी शख्स पर जुल्म न करें और लोकमत का अधिक-से-अधिक आदर करते हुए शासन-कार्य चलावें । चंपारन में बरसों के जुल्मों का प्रतिकार करके मैंने ब्रिटिश न्याय की श्रेष्ठता प्रकट की है । खेड़ा ज़िले में जो जनता सरकार को शाप दे रही थी उसे अब यह जँचने लगा है कि यदि हम अपने हक-सत्य-के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं तो वास्तविक सत्ताधारी सरकार नहीं बल्कि खुद हमीं हैं । इससे उनकी कटुता आज दूर हो रही है और वे कहते हैं, यह सरकार लोक-हितकारी ही होगी ; क्योंकि जहाँ कहीं अन्याय का प्रतिकार सविनय अवज्ञा के द्वारा किया जाता है वहाँ वह उसे मानती है । इस तरह चंपारन व खेड़ा में मैंने अपने हंग से साम्राज्य की निश्चित व खास सेवा की है । इस तरह के मेरे काम को बन्द करने के लिए

मुझसे कहना मानो मुझे अपना जीवन ही स्थगित करने के लिए कहना है।

इससे यह जाना जाता है कि वे महायुद्ध की विकट परिस्थिति में भी जनता को अपने हकों के लिए सत्याग्रह का अवलम्बन करने की शिक्षा दे रहे थे। इससे यह बात भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है कि वे उन दिनों स्वराज्य के आन्दोलन में ज्यादा हिस्सा क्यों नहीं ले रहे थे। वे मानते थे कि स्वराज्य का जन्म, जिस तरह का आन्दोलन उस समय हो रहा था उससे नहीं, बल्कि सत्याग्रह के बल से होगा। इसलिए वे उसमें या विलायत शिष्ट-मंडल ले जाने के फेर में नहीं पड़े। जब कांग्रेस का शिष्ट-मंडल विलायत गया तो वे उसके साथ न जाकर हिन्दुस्तान में सत्याग्रह का पाठ लोगों को पढ़ाते रहे। १९१६ में महात्माजी ने एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का प्रयोग शुरू किया। उस साल जनवरी में रोलट कानून, जोकि काले कानून के नाम से पुकारा गया, भारत सरकार ने बनाया। इसका विरोध धारा-सभाओं में लोक-प्रतिनिधियों ने बड़े जोरों से और असंदिग्ध भाषा में किया। बल्कि भाषणों में ऐसी धमकी भी दी कि लोकमत को टुकराकर यदि ऐसा कानून जनता के सिर पर थोपा गया तो उसका फल सरकार को भोगना पड़ेगा। मगर सरकार ने समझा कि यह 'गीदड़ भवकी' है और कानून पास कर लिया। तब २ फरवरी को महात्मा गांधी ने हिन्दुस्तान भर में सत्याग्रह का पहला शंख फूँका।

इसका श्रीगणेश ३० मार्च को हड़ताल और उपवास से होनेवाला था; परन्तु बाद को यह दिन बदलकर छः अप्रैल कर दिया गया। लेकिन कुछ भूल से देहली में यह दिन ३० मार्च को ही मनाया गया। इसी दिन वहाँ जुलूस में पहली बार गोली चली और स्वामी श्रद्धानन्द गुरखों की संगीन के सामने छाती खोलकर खड़े हो गये। स्वामीजी का यह सत्याग्रह सफल हुआ और गुरखों के हृदय में सत्यरूपी परमेश्वर जागा। घट-घट में सत्यरूपी जरमेश्वर मौजूद है और अनासक्ति की भावना से आत्माहुति की जाय तो वह उससे प्रकट हो जाता है। सत्याग्रह का यह अनुष्ठान आधुनिक भारत के इतिहास में पहले पहल ही लोगों को जँचा। सरकारी फौज के गुरखे सैनिक भी 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' धर्म

शास्त्र या अध्यात्मशास्त्र में इस सिद्धान्त के अपवाद नहीं हैं, यह देखकर विचारशील लोगों का विश्वास इस सिद्धान्त पर अधिक दृढ़ हुआ। दिल्ली में गोली चलने की खबर सुनकर महात्माजी उस तरफ को चल पड़े। उन्हें कोसी स्टेशन पर रोक लिया गया और पंजाब व दिल्ली प्रान्त में जाने की मनाही कर दी गई। जब गांधीजी ने उसे नहीं माना तो उन्हें गिरफ्तार करके ११ अप्रैल को बम्बई लाकर छोड़ दिया गया। ६ अप्रैल को सारे हिन्दुस्तान के कस्बे-कस्बे में, हड़ताल, उपवास, प्रार्थना, जुलूस, सभा आदि हुईं। जगह-जगह सत्याग्रह-मंडल कायम हुए, गैरकानूनी साहित्य प्रकाशित किया गया और विना डिक्लेरेशन दिये अखबार निकालने का निश्चय महात्माजी ने किया। 'सत्याग्रही' नामक अखबार निकाला गया और गांधीजी के वे पुराने लेख जो राजद्रोहात्मक करार दिये गये थे फिर से छापकर बाँटे गये। इधर लोगों में ऐसा जोश बढ़ रहा था और उधर एकाएक उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर लोग आपे से बाहर हो गये और जगह-जगह दंगे, अंग्रेजों के खून, लूटमार, आग, रेल की पटरी और तार उखाड़ना आदि अनेक प्रकार के उपद्रवों की भीषण लहर फैल गई। महात्माजी जब बंबई लाये गये तो वहाँ दंगा चालू था। उन्होंने उसे शान्त किया। अन्त को उपद्रव रोकने के लिए उन्होंने ३ दिन का उपवास किया। फिर १८ अप्रैल को आवश्यक 'शान्तिमय वातावरण के अभाव में यह आन्दोलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। इन्हीं दिनों पंजाब में भी जगह-जगह दंगे हुए। फौजी कानून जारी कर दिया गया। १५ अप्रैल को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में २० हजार लोगों की भीड़ पर मशीन गन से गोलियाँ चलाई गईं और लोगों पर अजहद जुलूम और वेइजती की गई। सरकारी गिनती के अनुसार ४०० लोग मरे और १००२ घायल हुए। इनमें हिन्दू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष-बालक-वृद्ध सभी थे। जख्मियों को वैसे ही मुर्दों के साथ विना किसी उपचार के रात भर रहना पड़ा। यह आसुरी काण्ड जब प्रकट हुआ और हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ असहयोग-युद्ध टान दिया। लो० तिलक इन दिनों विलायत थे। वे हिन्दुस्तान लौटे और बम्बई की सभा में

उन्होंने कहा, 'मुझे अफसोस इतना ही है कि रोलट बिल के खिलाफ जब गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू किया तब उसमें सम्मिलित होने के लिए मैं हिन्दुस्तान में मौजूद नहीं था। शिष्ट-मंडल का परिणाम आशाजनक नहीं है इसलिए स्वराज्य का आन्दोलन जोरों से करते रहना चाहिए।' उनके इस भाषण का हमारे ख्याल में यही अर्थ निकलता है कि उनकी राय में स्वराज्य शिष्टमंडलों के द्वारा नहीं बल्कि सत्याग्रह के ही द्वारा मिल सकता था।

इसके बाद अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें महात्माजी के आग्रह से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें लोगों की तरफ से हुए उपद्रव की निन्दा की गई थी। इसे पेश करते हुए महात्माजी ने कहा— 'हमारी भावी सफलता की कुंजी इसी में है कि हम इस प्रस्ताव के मूलभूत सत्य को हृदय से स्वीकार करें व उसपर अमल करें। यदि हम उस शाश्वत सत्य को न समझेंगे तो हम असफल हुए बिना न रहेंगे। सरकार यदि पागल हो गई तो लोग भी उसके साथ पागल हो गये। पागलपन का जवाब पागलपन से नहीं बल्कि समझदारी से दीजिए, जिससे सारी स्थिति आपके काबू में आ जाय।' महात्माजी के इस प्रस्ताव को मंजूर करना मानो उनके सत्याग्रह के धरातल और सिद्धान्त को मान लेना था। यह स्वीकार कर लेना था कि हमारी राजनीति का अब आगे सत्याग्रह के सिवा दूसरा अधिष्ठान मानना सम्भवीय नहीं है और इस अधिष्ठान को कायम करना है तो 'जैसे के साथ-तैसा' की नीति नहीं बल्कि 'पागलपन का जवाब समझदारी से देने' की नीति और सिद्धान्त के अनुसार चलना होगा।

अमृतसर-कांग्रेस के पहले, नवम्बर १९१६ में, देहली में अ० भा० खिलाफत कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें खिलाफत के मामले में न्याय न हुआ तो महात्माजी की सलाह से असहयोग करने का प्रस्ताव पास हो चुका था। अर्थात् महात्माजी पहले से ही असहयोग-संग्राम की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जबतक प्रजाब व खिलाफत के विषय में सरकार अपनी नीति की घोषणा साफ तौर पर न कर दे तबतक लड़ाई का त्रिगुल बजाना उन्हें ठीक न जँचता था। अन्त को जब सरकार की

और से पूरी निराशा मिली तब उन्होंने स्पष्ट रूप से असहयोग की घोषणा कर दी ।

जब पिछले महायुद्ध में तुर्किस्तान के खिलाफ हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लड़ने का सवाल पैदा हुआ तब उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मुसलमानों के धर्म-क्षेत्रों पर से खलीफा की सत्ता नष्ट नहीं की जायगी ; लेकिन वे वायदे तोड़ दिये गये । अतः खिलाफत के मसले में म० गांधी, लो० तिलक व लाला लाजपतराय तीनों एकमत के थे । तीनों को यही लगता था कि जब ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को दिये सब वचन तोड़ दिये, उनके साथ विश्वासघात किया तो प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य है कि इस समय मुसलमानों का साथ दे । प्रश्न यह था कि मुसलमानों का साथ देकर ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ा जाय और इस तरह हिन्दुस्तान की आजादी फिर हासिल की जाय, या इस भय से कि हमें आजादी मिलने पर सम्भवतः मुसलमान सिरजोर हो जायेंगे और अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम ही बने रहें ? ऐसे समय लोकमान्य व गांधीजी ने यही उत्तर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ना ही प्रत्येक राजनीतिज्ञ व देशभक्त हिन्दू का पवित्र कर्तव्य है । कांग्रेस डेमोक्रेटिक पक्ष के घोषणा-पत्र में तिलक ने कहा— मुसलमानों की इस मांग का कि हमारी धार्मिक भावना व कुरान की शरीयत के मुताबिक खिलाफत का मसला हल होना चाहिए, यह दल समर्थन करता है । लालाजी ने कलकत्ते में कांग्रेस के अध्यक्ष-पद से दिये अपने भाषण में बहुत खूबी से यह बताया है कि महज राजनैतिक व राष्ट्रीय दृष्टि से भी इस समय मुसलमानों का साथ देना हमारा कर्तव्य है । पश्चिमी एशिया के साथ मुस्लिम राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने की कैसी चाल अंग्रेज व फ्रांसीसी राजनेता चल रहे हैं, और यदि यह सफल हुई तो ईरान, अरब, मेसोपोटेमिया, बल्कि अफगानिस्तान में से भी मुसलमान फौज लाकर अंग्रेज किस तरह हमारी गुलामी को अमिट बना सकेंगे, यह उन्होंने बहुत अच्छी तरह दिखाया । यदि ये तीनों इस नीति को अंगीकार न करते तो राष्ट्रद्रोही व व्यवहार-शून्य राजनैतिक नेता साबित हुए होते । महात्मा गांधी ने साफ-साफ

कह दिया कि मैं मुसलमानों की तरह अंग्रेजों का भी दोस्त हूँ; लेकिन अगर यह सवाल आया कि मुझे अंग्रेज व मुसलमान दो में से किसी एक की दोस्ती छोड़नी पड़े तो मैं अंग्रेजों की दोस्ती छोड़ दूंगा और अपने राष्ट्र-बन्धुओं के नाते मुसलमानों का साथ दूंगा तथा उनकी तरफ से अंग्रेजों से लड़ूंगा। इस लड़ाई में धर्म के तौर पर नहीं किंतु नीति के तौर पर अहिंसा को मानना मुसलमानों ने मंजूर किया था। १० मार्च १९२० को असहयोग की जो पहली घोषणा प्रकाशित हुई उसमें गांधीजी कहते हैं:

“अगर हमारी मांगें मंजूर न की गईं तो हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में दो शब्द लिखता हूँ। गुप्त या प्रकट रूप से सशस्त्र युद्ध करना एक जंगली तरीका है। आज वह अव्यावहारिक है, इसलिए उसे छोड़ देना उचित है। यदि मैं सबको यह समझा सकूँ कि यह तरीका हमेशा के लिए अनिष्ट है तो हमारी सब मांगें बहुत जल्दी पूरी हो जायँ। जो व्यक्ति या राष्ट्र हिंसा को छोड़ देता है उसमें इतना बल आ जाता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। परन्तु अब तो मैं अव्यवहार्यता व निष्फलता के आधार पर हिंसा का विरोध कर रहा हूँ। हमारे सामने एक रास्ता है, असहयोग। वह सीधा व साफ मार्ग है। हिंसात्मक होने से वह कारगर भी उतना ही होगा। सहयोग से जब अधःपात व अपमान होने लगता है या हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचती है, तब असहयोग कर्तव्य हो जाता है। जिन हकों को मुसलमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा समझते हैं उनके अपहरण को हम चुपचाप सह लेंगे, ऐसा ख्याल इंग्लैंड न बना सकेगा और इसलिए, हम पूरा असहयोग अमल में ला सकेंगे। जिन्हें पद-पदवियाँ, तगमे मिले हों वे उन्हें छोड़ दें। छोटी-छोटी सरकारी नौकरियाँ भी छोड़ दी जायँ। हाँ, खानगी नौकरियों का समावेश असहयोग में नहीं होता। जो असहयोग न करें उनका सामाजिक बहिष्कार करना ठीक नहीं। स्वयंप्रेरित असहयोग ही जनता की भावना व असन्तोष की कसौटी है। सैनिकों को फौजी नौकरी छोड़ने के लिए कहना असामयिक है। वह पहली नहीं आखिरी सीढ़ी है। जब वाइसराय, भारत मंत्री, प्रधान मंत्री कोई भी हमें दाद न देंगे

तभी हमें उस सीढ़ी पर पाँव रखने का अधिकार होगा । असहयोग का एक-एक कदम हमें बहुत सोच-विचार कर उठाना होगा । अत्यन्त प्रखर वातावरण में भी हमें आत्मसंयम रखना होगा इसलिए हमें आहिंसे कदम ही चलना होगा ।”

इस घोषणापत्र में असहयोग-संग्राम का सारा कार्यक्रम बीज-रूप में आ जाता है । कोई भी सरकार मुल्की व फौजी व्यवस्था में प्रजा के सहयोग के बिना एक कदम नहीं चल सकती और प्रजा द्वारा घोषित असहयोग में यदि मुल्की व फौजी अफसर एवं नौकर शामिल हो गये तो फिर जनता जिस राज्य को नहीं चाहती वह नहीं टिक सकता और उसकी जगह नवीन राज्य की स्थापना हो जाती है । निःशस्त्र राज्यक्रान्ति की यह तात्त्विक उपपत्ति है । वह इस उद्धरण में दी गई है । जबतक देश का जनता में यह आत्मविश्वास नहीं पैदा होता कि हम अपने संगठन के बल पर अपना राज्य चला लेंगे और देश में अंधाधुन्धी न होने देते हुए शान्ति स्थापित कर सकेंगे तबतक प्रस्थापित राजसत्ता की पुलिस व फौजी महकमे के लोगों को असहयोग के लिए न पुकारना चाहिए ; क्योंकि उसके अभाव में यादवी-गृहकलह व अराजकता फैलने की व जनतंत्र की शान्ति के वजाय सैनिकवाद व तानशाही की मनमानी चल निकलती है, जिससे विदेशी सत्ता को लाभ मिलेगा व शान्तिमय क्रान्ति सफल न होगी । इसीलिए गांधीजी ने इस घोषणापत्र में कहा है कि सैनिक असहयोग त्रिलकुल आखिरी सीढ़ी है ।

इसके बाद, खिलाफत, पंजाब व स्वराज्य के बारे में सरकार की तरफ से पूर्ण निराश हो जाने पर महात्माजी ने १ अगस्त १९२० को असहयोग-युद्ध की दुंदुभी वजा दी और कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उसपर अपनी मुहर-छाप लगा दी । असहयोग का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया :

- (१) उपाधियों व तमगों - त्रिल्ले लौटा देना,
- (२) सरकारी दरवार, उत्सव आदि समारंभों से असहयोग,
- (३) सरकारी व अर्द्ध सरकारी पाठशालाओं का बहिष्कार व उनकी जगह राष्ट्रीय शालाओं की स्थापना,

(४) अदालतों का बहिष्कार व पंचायतों की स्थापना,

(५) मेसोपोटेमिया के लिए सैन्य भरती व मुल्की नौकरियों का बहिष्कार,

(६) धारा-सभाओं का व मतदान का बहिष्कार,

(७) विदेशी माल का बहिष्कार ।

इसमें देशबन्धुदास आदि कुछ नेताओं ने धारासभा के बहिष्कार का तत्त्वतः विरोध किया था; लेकिन अन्त में महात्मा गाँधी का प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से पास हुआ । तभी से कांग्रेस ने महात्माजी के सत्याग्रह की दीक्षा ली व अन्त तक वह उनके नेतृत्व में स्वराज्य की लड़ाई लड़ती रही ।

सन् १९२० के अन्त में नवीन धारासभाओं का पहला चुनाव हुआ जिसके बहिष्कार में सब नेताओं ने पूरा सहयोग दिया । यह असहयोग-संग्राम की पहली चढ़ाई थी । देशबन्धु व नेहरूजी ने वकालत छोड़ दी व अदालतों का बहिष्कार किया । नागपुर-कांग्रेस ने भी इस कार्यक्रम को मंजूर किया । तबसे १९२२ में महात्माजी को राजद्रोह में छः साल की सजा देने के समय तक, महाराष्ट्र के केलकर-पक्ष को छोड़कर, किसी भी राष्ट्रीय नेता ने इस कार्य में वेसुख राग नहीं अलापा और न कोई विघ्न पैदा किया ।

१९२० में कांग्रेस ने अपने पुराने ध्येय—औपनिवेशिक स्वराज्यवैध मार्गों से—को बदलकर 'उचित व शान्तिमय साधन से स्वराज्य-प्राप्ति' कर दिया । बहिष्कार-योग की पहलेवाली टूटी हुई शृंखला फिर असहयोग-योग के रूप में जुड़ गई । इसी तरह लोकमान्य प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं का यह आग्रह कि स्वतन्त्रतावादी दल को कांग्रेस में सम्मानपूर्वक आने की सुविधा रहे, महात्माजी ने पूरा किया व कांग्रेस में स्वातन्त्र्यवादी शान्तिमय वीरों की शक्ति का संचय किया । सूत्र में लोकमान्य ने जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नरम दल वालों से झगड़ा किया था वह १९२० में महात्माजी ने पूरा कर दिया ।

नवंबर १९२० में सरकार ने इस आन्दोलन के विषय में अपनी नीति घोषित की । कहा कि आन्दोलन के मूल प्रणेतार्यों ने जो उसको सीमाएँ बाँध दी हैं उन्हें लांघकर जो हिंसा को उत्तेजना देंगे या पुलिस

अथवा फौज की राजभक्ति कम करने की कोशिश करेंगे उन्हीं पर कानूनी कारवाई की जाय, ऐसी हिदायतें प्रांतीय सरकारों को दी गई हैं । उस समय सरकार ने शायद यह सोचा होगा कि लोगों की सहानुभूति के अभाव में असहयोग की यह हलचल अपनी मौत आप ही मर जायगी । लेकिन इसका बल जैसे-जैसे बढ़ने लगा वैसे-वैसे यह दीख पड़ने लगा कि सरकार अपनी इस नीति पर कायम न रह सकेगी व दमन पर उतारू हो जायगी । इस समय लार्ड चेम्सफर्ड चले गये थे और लार्ड रीडिंग का दौर शुरू ही हुआ था ।

३१ मार्च व १ अप्रैल को वेजवाड़ा में कांग्रेस की कार्यसमिति व महासमिति की बैठकें हुईं जिनमें यह तय हुआ कि तिलक स्वराज्य फंड के लिए १ करोड़ रुपया जमा किया जाय, २० लाख चरखे चलाये जायँ, शराबखोरी मिटाई जाय व पंचायतें स्थापित की जायँ । इन्हीं दिनों सरकार ने ज़ाबता फौजदारी की १४४ व १०८ धाराओं के अनुसार भाषणबन्दी, सभाबन्दी; जलूस-बन्दी, जमानतें तलब करना आदि नागरिक स्वतंत्रताओं पर कुठाराघात करनेवाली दमन-नीति शुरू कर दी थी । लेकिन कार्य-समिति ने इन हुकमों को तबतक तोड़ने की मनाही कर दी थी जबतक कानून-भंग की नौबत न आ जाय ।

मई १९२१ में मालवीयजी की मध्यस्थता से लार्ड रीडिंग व गांधीजी की मुलाकात हुई । उसमें, ऐसा मालूम होता है कि लार्ड रीडिंग ने महात्माजी को यह आश्वासन दिया था कि जबतक आन्दोलन अहिंसा की मर्यादा के अन्दर रहेगा तबतक नागरिकता के मूलभूत अधिकारों पर प्रहार करके दमननीति अंगीकार नहीं की जायगी । इधर महात्माजी ने भी उन्हें यह जताया होगा कि मैं अहिंसात्मक नीति के बारे में बहुत सावधान हूँ और यह साबित करने के लिए उन्होंने कहा होगा कि अली भाइयों के भाषणों में ऐसे उद्गार होंगे जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता होगा । तो उसके लिए उनसे खेद प्रदर्शित करावेंगे, क्योंकि उस मुलाकात के बाद ही अली-बन्धुओं की तरफ से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी जिसमें उन्होंने अपने भाषणों के कुछ अंशों पर खेद प्रदर्शित किया था और अहिंसा-नीति पर फिर अपना विश्वास प्रकट किया था । कहना

न होगा कि यह सब महात्माजी की सलाह से ही हुआ होगा। इसके बाद सितम्बर तक सरकार ने दमन-नीति का खास तौर पर अवलम्बन नहीं किया; मगर बाद में अली-भाइयों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यह दमन-नीति का श्रीगणेश था। इस समय तक तिलक स्वराज्य-फ़रड पूरा हो चुका था। २० लाख चरखे चलाने का संकल्प पूरा होकर खादी का काम जोरों से शुरू हो गया था। जुलाई सन् १९२१ के अन्त में महासमिति की जो बैठक बंबई में हुई उसमें यह प्रस्ताव हुआ कि जिस सरकार ने बहु-संख्यक भारतीय प्रजा का पृष्ठपोषण व विश्वास खो दिया है उसकी मुल्की व फौजी नौकरी छोड़ देने का अर्थात् असहयोग की सलाह देने का प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। 'अंकार' की तुर्की सरकार से ब्रिटिश सरकार की लड़ाई छिड़ जाने की आशंका थी, इसलिए एक यह भी प्रस्ताव किया गया कि इसमें हिन्दुस्तानी सैनिक ब्रिटिश सरकार से सहयोग न करें। इसके फौरन बाद ही चारों ओर दमन-नीति का दौर-दौरा हो गया जिसके पहले शिकार अली-भाई हुए।

कराची की खिलाफत-परिषद् में ८ जुलाई को मौ० मुहम्मद अली ने पूर्वोक्त प्रस्ताव की नीति के अनुसार भाषण दिया व उसमें बताया कि हिन्दुस्तान में कानून-भंग का आन्दोलन शुरू करके अहमदाबाद-कांग्रेस के समय हम स्वतंत्रता का झण्डा खड़ा करेंगे। शौकत अली ने भी इसी आशय का भाषण दिया था। इन्हीं के लिए मुकदमा चलाया गया था। इस तरह सितम्बर से सरकार व कांग्रेस की खुल्लमखुल्ला लड़ाई शुरू हो गई। १७ नवम्बर को इंग्लैंड के युवराज बंबई उतरे। वे जहाँ-जहाँ गये वहाँ हड़ताल, विरोध-प्रदर्शक सभाएँ व जलूस तथा विलायती कपड़ों की होलियाँ—ये प्रदर्शन होने लगे। जिस दिन वे बंबई उतरे, उस दिन सारे हिन्दुस्तान में हड़ताल रक्खी गई थी। किन्तु बंबई में उस समय दंगे व खून-खराबी हो गई। तब महात्माजी ने ५ दिन का उपवास करके १-२ दिन में ही शान्ति स्थापित की थी।

युवराज-स्वागत के इस बहिष्कार में कांग्रेस व खिलाफत कमेटी मिलकर काम कर रही थी। इन्होंने जगह-जगह स्वयंसेवक दल बनाये थे। २५ दिसम्बर को युवराज कलकत्ता पहुँचने वाले थे। वाइसराय भी

वहीं रहते थे ; इससे उस दिन की हड़ताल को बड़ा महत्त्व मिला था । लार्ड रीडिंग की यह प्रबल उत्कण्ठा थी कि हर तरह ऐसा प्रयत्न किया जाय जिससे हड़ताल न होने पावे व स्वागत-सत्कार टाट-वाट से हो जाय । इसके लिए उन्होंने कटोर दमन-नीति का सहारा लिया व स्वयं-सेवक दलों को गैर-कानूनी करार दे दिया । इसके जवाब में कांग्रेस ने इन हुकमों को न मानकर स्वयंसेवक दलों में भर्ती होने की हलचल तेजी से शुरू की । इस सत्याग्रह में देशबन्धुदास, ५० मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय आदि ब्रह्मतेरे राष्ट्रीय नेता जेलों में चले गये व सत्याग्रही कैदियों की संख्या २०-२५ हजार तक पहुँच गई । तब भी इस लहर को रोक सकने का कोई लक्षण लार्ड रीडिंग को नहीं दिखाई दिया । तब उन्होंने कहा था—“मेरी समझ में नहीं आता कि हिन्दुस्तान में कैसे व क्यों हजारों लोग एक-एक करके जेल चले जा रहे हैं । इस आन्दोलन को कैसे रोका जाय ? मैं बड़ी उलझन व असमंजस में पड़ गया हूँ ।” यह दृश्य देखकर ब्रिटेन के तत्कालीन गवर्नर जार्ज लायड ने खानगी तौर पर कहा था कि यदि गांधीजी ने खुद-ब-खुद इस आन्दोलन को १९२१ में बन्द न कर दिया होता तो वह सफलता के त्रिलकुल नजदीक ही पहुँच गया था । इससे इस बात का अन्दाज हो सकता है कि उस समय आन्दोलन कितना प्रखर व दुर्धर्ष हो गया था । जब लार्ड रीडिंग ने यह देखा कि हमारे दमन-चक्र से आन्दोलन बन्द नहीं हुआ तो उन्होंने २५ दिसंबर के युवराज के आगमन-दिवस के पहले महात्मा गांधी से हो सके तो समझौता करने की कोशिश शुरू की ।

१९२१ के अन्त में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । उन्हीं दिनों यहाँ समझौते की बातचीत होने लगी । उसकी शर्तें इस प्रकार थीं : सत्याग्रह बन्द किया जाय, सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये जायँ और सर्वपक्षीय नेताओं की एक परिषद् बुलाकर स्वराज्य के प्रश्न पर विचार किया जाय । परन्तु लार्ड रीडिंग इस बात पर अड़ गये कि करार्ची परिषद् के बाद खिलाफत-आन्दोलन में जिन नेताओं को जेल भेजा गया है, उन्हें न छोड़ा जाय । अन्त को इसके विषय में भी उन्होंने कुछ समझौता कर लिया था ; लेकिन कहते हैं कि इस त्तारे में महात्माजी का

तार द्वारा उत्तर उन्हें देर से मिला जिससे यह प्रकरण वहीं समाप्त हो गया। मगर ऐसा मालूम होता है कि इस समझौते की गरज़ सिर्फ़ इतनी ही थी कि किसी तरह युवराज के स्वागत के बहिष्कार को टलवा दिया जाय। इसीलिए वह मौका निकल जाने पर लार्ड रोडिंग ने उन्हीं शर्तों पर समझौता करने से साफ़ इनकार कर दिया। तब महात्माजी ने १ फरवरी १९२२ को वाइसराय को आखिरी चेतावनी का एक पत्र भेजकर लिखा कि दमन-नीति को बन्द करके अब भी नागरिक स्वतंत्रता का सदैव के लिए आश्वासन दे दीजिए; नहीं तो मैं बारडोली ताल्लुके से करबन्दी का आन्दोलन शुरू करूँगा। वाइसराय का तुरन्त इनकार आ गया। इसके पहले ही अहमदाबाद-कांग्रेस ने महात्माजी को डिक्टेटर-सर्वाधिकारी-बना दिया था और सारे हिन्दुस्तान की आँखें बारडोली के अपूर्व शान्ति-संग्राम की ओर लग रही थीं। इतने ही में महात्माजी को तार द्वारा खबर मिली कि ५ फरवरी को चौरी-चौरा (युक्तप्रान्त) में कांग्रेसी जलूस के लोगों ने पुलिस के २१ सिपाहियों व १ थानेदार का पीछा करके उन्हें थाना चौकी में शरण लेने पर मजबूर किया व आखिर में उस चौकी में आग लगा दी जिससे वे जलकर खाक हो गये। इसके पहले भी बम्बई, मालेगाँव आदि में छोटे-बड़े दंगे हो चुके थे व मलाबार में तो मोपलों का खासा उत्पात ही हो गया था। इसपर महात्मा गांधी इन दंगों की निन्दा करके ही रह गये थे और उपवास के द्वारा उनका प्रायश्चित्त करके आन्दोलन को चलने दिया था। परन्तु चौरीचौरा के हत्याकाण्ड की खबर सुनकर उनकी धारणा हुई कि अभी अहिंसा का मर्म कांग्रेसवाले समझे नहीं हैं। ऐसी दशा में यदि करबन्दी का आन्दोलन जारी रखा जायगा तो जगह-जगह हिंसा-काण्ड व सैनिक शासन शुरू हो जायगा और यह प्रयोग असफल ही रहेगा। यह सोचकर उन्होंने बारडोली की लड़ाई अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दी। १२ फरवरी को कार्यसमिति की बैठक बारडोली में हुई जिसमें कानून-भंग व आज्ञा-भंग स्थगित किया गया व कांग्रेस के सदस्य बढ़ाना, चरखों का प्रचार करना, राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाएँ व पंचायतें स्थापित करना, शराबखोरी मिटाना, अस्पृश्यता-निवारण व हिन्दु-मुसलमान एकता के लिए प्रयत्न करने का

विधायक कार्यक्रम मंजूर हुआ। इसके बाद २४-२६ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की बैठक हुई व महात्माजी की इस नीति को उसका समर्थन प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें स्थान-विशेष व प्रश्न-विशेष के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की इजाजत प्रान्तिक समितियों को दे दी गई थी। इस तरह निःशस्त्र क्रान्ति का पहला सत्याग्रही धावा १ वर्ष ५ महीने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ। परन्तु इससे कांग्रेस की असहयोग-नीति पर असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके द्वारा शान्ति-मय असहयोग व सत्याग्रह अर्थात् निःशस्त्र क्रान्ति ही हमारी नीति का वास्तविक बल है, यह विश्वास अधिक दृढ़ हुआ।

असहयोग का आक्रामक कार्यक्रम बन्द करके सिर्फ विधायक व संगठनात्मक जन-सेवा का कार्यक्रम कांग्रेस के सामने रखने से देश में अनेक मतभेद होने लगे व महात्माजी पर कांग्रेस के अनेक नेता तहर-तरह से हमले करने लगे। ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो सरकार के प्रति बगावत करने की भावना कुछ समय के लिए ठण्डी पड़ गई व आपस के रगड़ों-भगड़ों के रूप में प्रकट होने लगी। इतने ही में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ने लगीं। तब ६ मार्च के 'यंग इण्डिया' में महात्माजी ने एक लेख लिखा—'अगर मैं पकड़ा गया'। उसमें उन्होंने कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को यही उपदेश दिया कि वे खादी, राष्ट्रीय शिक्षा, हिन्दू-मुसलमान-एकता, अस्पृश्यता-निवारण आदि विधायक कार्य करते रहें और अहिंसा-व्रत का पूरा-पूरा पालन करें। १३ मार्च को महात्माजी राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार हुए और अहमदाबाद के दौरा जज मि० ब्रू मफील्ड के इजलास में उनका मुकदमा चला। १८ मार्च को महात्माजी ने अदालत में अपना लिखित बयान पेश किया। इसमें उन्होंने विस्तार के साथ यह बताया है कि दक्षिण अफ्रीका में उनका सार्वजनिक जीवन कैसे शुरू हुआ, सत्याग्रह करते हुए भी वहाँ कैसे साम्राज्य-निष्ठ रहे, फिर रोलट कानून, जलियांवाला बाग, खिलफत आदि काण्डों से उनकी साम्राज्य-भक्ति को कैसे ठेस लगी, हिन्दुस्तान में कानून-स्थापित सरकार किस तरह जनता को चूसने की नीति पर चल रही है, यहाँ देशभक्ति ही किस प्रकार अपराध बना दिया गया है, लोग

कैसे भयभीत व पौरुषहीन हो गये हैं और १२४ (अ) किस तरह दमनकारी धाराओं की तुराँ बन गई है ! फिर कहते हैं, 'मुझे खुशी है कि नागरिक स्वातन्त्र्य का गला घोटनेवाले कानूनों के सिरताज १२४ (अ) धारा के अनुसार मुझपर अभियोग लगाया गया। प्रेम कानून के द्वारा न तो पैदा किया जा सकता है, न कानून से उसका नियमन ही हो सकता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था के प्रति असन्तोष प्रकट करने की छुट्टी तबतक होनी चाहिए जबतक हिंसा को प्रोत्साहन न दिया जाय या ऐसा इरादा न हो। परन्तु भाई शंकरलाल पर व मुझपर जो दफा लगाई गई है उसके अनुसार तो असन्तोष का प्रचार करना भी अपराध है। इस दफा की रू से जो मुकदमे चलाये गये हैं उनमें से कइयों पर मैंने गौर किया है और मैं जानता हूँ कि इनके अनुसार भारत के कई अत्यन्त लोकप्रिय देश-भक्तों को सजाएँ हुई हैं। इसलिए इस धारा के मुताबिक मुकदमा चलाया जाना मैं अपने लिए गौरव की ही बात समझता हूँ। मैंने बहुत थोड़े में बतला दिया है कि मेरे असन्तोष का कारण क्या है ? किसी भी अधिकारी या खुद राजा के प्रति मेरे मन में किसी तरह की व्यक्तिगत घृणा या द्वेष नहीं है ; लेकिन जिस शासन-पद्धति द्वारा अबतक लोगों का अभूतपूर्व अहित हुआ है उसके प्रति असन्तोष रखना मैं एक सद्गुण मानता हूँ। इसलिए इस प्रणाली के प्रति प्रीति रखना मैं पाप समझता हूँ।... मेरी नाकिस राय है कि 'सत्' से सहयोग करना जितना कर्तव्य है उतना ही 'असत्' से असहयोग करना भी है। मगर अबतक न्याय-कर्त्ताओं का जो प्रतिकार किया जाता था वह हिंसायुक्त होता था। लेकिन मैं अपने देशबन्धुओं को यह बतला रहा हूँ कि हिंसात्मक प्रतिकार से अनिष्ट ही अधिक होता है और पूर्ण अहिंसा के द्वारा ही 'असत्' से सफल असहयोग किया जा सकता है। इसलिए भले ही कानून की दृष्टि से मेरा यह कार्य जान-बूझकर किया हुआ अपराध दिखाई देता हो, लेकिन मुझे वह नागरिक का श्रेष्ठ कर्तव्य भासित होता है और इसके लिए मैं बड़ी खुशी से भारी-से-भारी सजा भोगने को तैयार हूँ। आपको यदि ऐसा प्रतीत होता हो कि जिस कानून के अनुसार कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपपर है वह अन्याय-युक्त है तो आपके सामने अपने पद

से इस्तीफा दे देने व 'असत्' से असहयोग करने का, अथवा आपका यह खयाल हो कि जिस शासन-पद्धति को चलाने में आप सहायता कर रहे हैं वह या यह कानून न्यायोचित व जनहितकारी हैं और इसलिए मेरा यह कार्य जनहित के प्रतिकूल है तो मुझे अधिक-से-अधिक सजा देने का-दो में से कोई एक मार्ग—न्यायाधीश व असेसर साहवान, खुला है।' कहना नहीं होगा कि न्यायाधीश ने दूसरे ही मार्ग का अवलम्बन करके महात्माजी को छः साल की सजा ठोकी व लोकमान्य की परंपरा चालू रखने का प्रमाण-पत्र उन्हें दिया। अपने फैसले में उन्होंने गांधीजी की प्रशंसा की और कहा कि आपको सजा सुनाते हुए मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। उन्होंने लोकमान्य के मुकदमे का भी उल्लेख किया। भारतवासियों के हृदय ने इस बात को फौरन ही ग्रहण कर लिया व लोकमान्य के दिवंगत हो जाने से खाली हुए अपने हृदय-सिंहासन पर जिस विभूति की उन्होंने स्थापना की थी, उसकी महत्ता के प्रति उनकी श्रद्धा अधिक दृढ़ हुई।

सितम्बर १९२० में जब महात्माजी ने कांग्रेस के सामने असहयोग-संग्राम की योजना रखी तब उन्होंने कहा था कि यदि कार्यक्रम पूरा हो जाय तो एक साल में हमें स्वराज्य मिल जायगा। उसके बाद कोई डेढ़ साल तक उस कार्यक्रम को पूरा करने में अपना व जितना और उत्पन्न हो सका वह सारा बौद्धिक व आत्मिक बल खर्च करके उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी। परन्तु वह बल स्वराज्य-प्राप्ति के लिए काफी नहीं साबित हुआ। यह सच हो, तो भी, कांग्रेस का इस मार्ग में दृढ़ विश्वास होना, व पहले जो वह महज प्रस्ताव पास करनेवाली दुर्बल संस्था थी उसकी जगह तट्ठील होकर उसको साल भर तक अखण्ड कार्य करनेवाली व प्रस्थापित राजसत्ता से संगठित लड़ाई लड़नेवाली क्रान्तिकारी संस्था बनाना यह चमत्कार कोई मामूली बात नहीं है। देशबन्धुदास, पं० मोती लालजी नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद जैसे प्रख्यात वकील-वैरिस्टों का अपनी सारी बुद्धि व शक्ति देश-सेवा में भोंककर फकीर बन जाना व सैकड़ों मामूली वकीलों व उत्साही युवक विद्यार्थियों का आजन्म देश-सेवा का व्रत ले लेना कोई ऐसी-वैसी बात नहीं थी। हजारों लोगों द्वारा खुले

आम कानून-भंग करने से देश में जो प्रतिकार की एक जबरदस्त लहर उठी, दमन-चक्र के द्वारा उसे रोक सकने में राजप्रतिनिधि को असमर्थता का एहसास होना, कांग्रेस के साथ सुलह करने की आवश्यकता प्रतीत होना, अन्त में उस महान् व प्रबल आन्दोलन का कांग्रेस व उसके सर्वाधिकारी के हुक्म से रुक जाना और उसी हुक्म से देश के हजारों नवयुवकों व सैकड़ों नेताओं का जन-संगठन व जनसेवा के रचनात्मक कार्यों में लग जाना उस दीक्षा को अमिट बनाने के लिए काफी थीं जो महात्माजी ने राष्ट्र को अव्रतक दी थी। १९०६ में बरीसाल में 'बन्देमातरम्' का उच्चारण करने-संबंधी हुक्म के निःशस्त्र प्रतिकार करने का जो आन्दोलन भारतीय राजनीति में पहले पहल आया व जो बहिष्कार-योग अपनी बुद्धि से तैयार करके चलाने का प्रयोग किया गया, उसे बहुत बड़े पैमाने पर व अधिक वैज्ञानिक आधार पर महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष कर दिखाया था। इस प्रयोग में एक नवीनता थी और वही इसकी सफलता का वास्तविक कारण थी। महात्माजी ने उस बहिष्कार-योग को अहिंसा-निष्ठा का आध्यात्मिक अधिष्ठान दे दिया था। लोकमान्य तिलक ने पहले ही लिखा था कि निःशस्त्र क्रान्ति या सत्याग्रह की बुनियाद उपनिषद् के आत्मबल पर डाली गई है। निःशस्त्र क्रान्ति का शास्त्र यदि तैयार करना है तो उसका अधिष्ठान अहिंसा ही हो सकती थी। अहिंसा-शास्त्र की भूमिका न स्वीकार करने के कारण ही आयरलैंड के निःशस्त्र क्रान्तिवाद को आगे चलकर सशस्त्र क्रान्ति का रूप प्राप्त हो गया। हिन्दुस्तान में पहले पहल तिलक या अरविन्द बाबू ने जो प्रयोग किया उसे सरकार ने दबा दिया व फिर उसका पुनरुज्जीवन उनसे न हो सका। लेकिन जिन दिनों भारत में बंगभंग का आन्दोलन चल रहा था उन्हीं दिनों दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा के अधिष्ठान पर निःशस्त्र क्रान्ति का एक प्रयोग महात्माजी ने सफल कर लिया था। हिन्दुस्तान आने पर एक-दो छोटे मामलों में उन्होंने वही प्रयोग सफल करके दिखा भी दिया था। फिर १९२० के सितंबर से १९२२ की फरवरी तक बहुत बड़े पैमाने पर यह प्रयोग किया जिसमें पूरी नहीं तो इतनी सफलता जरूर मिली जिससे लोगों में यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि उसकी फिर आजमायश करके

देखा जाय । इसे क्या अन्धश्रद्धा कहेंगे ? आँख वाले तो ऐसा नहीं कह सकते ।

जो हो; लेकिन महज इसीलिए कि इस प्रयोग को स्थगित करना पड़ा, यदि कई लोगों का विश्वास उसपर से उठ जाय तो ताज्जुब नहीं ! ऐसे समय में जिन नवयुवकों के हृदय में क्रान्ति की ज्वाला तो धधक रही थी; परन्तु अहिंसावाद मान्य नहीं था, वे रूस के कम्युनिस्ट क्रान्ति-शास्त्र की ओर झुकने लगने ; क्योंकि ऐसे समय युवक-हृदय को निःशस्त्र या सशस्त्र कोई भी एक क्रान्तिवाद ही पसन्द आ सकता था । नरम दलवालों का वैध मार्ग व देशबन्धुदास प्रभृति की धारासभा में अडंगा-नीति में उनका विश्वास बिलकुल नहीं रह गया था । ऐसे ही कुछ युवकों ने भाई डांगे के नेतृत्व में, अक्टूबर १९२२ में, 'सोशलिस्ट' नामक एक अँग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू किया । इन्हीं दिनों भाई मानवेन्द्रराय आदि यूरोपस्थित भारतीय कम्युनिस्टों ने बर्लिन में 'वैनगार्ड' नामक पत्र निकाला । १९१६ में रूस में कम्युनिस्टों की विश्वक्रान्तिकारक संस्था थर्ड इन्टरनेशनल स्थापित हुई । उसने १९२० में यूरोप की साम्राज्यशाही से मुक्ति पाने के उत्सुक एशिया के देशों हिन्दुस्तान, चीन, ईरान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान इत्यादि को उनके क्रान्तिकार्य में सहायता पहुँचाने की नीति स्वीकार की, जिसके धागे-डोरे हिन्दुस्तान तक पहुँचने लगे । १९२०-२२ में उत्तरी भारत के कम्युनिस्ट विचार रखने वाले कुछ लोगों ने किसान-आन्दोलन में भाग लेना शुरू किया । १९२३ में पेशावर में कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला । १९२४ में कानपुर में एक पडवंत्र का मुकदमा चला जिसमें भाई राय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुप्ता, शर्मा, शृंगारवेलु, गुलाम हुसेन आदि आठ अभियुक्त बनाये गए । इनमें से राय जर्मनी में थे, शर्मा फरार हो गये, शृंगारवेलु बीमार हो गये और हुसेन ने माफी मांग ली । शेष ४ मुलजिमां को मई १९२४ में ४-४ साल की सजा हुई । इसके बाद पहले के गुप्त पडवंत्र वाले सशस्त्र क्रान्तिकारियों का ध्यान मार्क्स के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद की तरफ अधिकाधिक जाने लगा । १९२५ में कानपुर में खुल्लमखुल्ला कम्युनिस्ट कान्फरेन्स हुई और भारत में कम्युनिज्म के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद के विधिपूर्वक

स्थापित होने की घोषणा की गई। इसी समय कम्यूनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं से वैसा ही एक ठहराव करने का प्रयत्न किया जैसा कि चीन के राष्ट्रीय नेता डॉ० सनयातसेन से किया था। लेकिन भाई डॉंगे का कहना है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसे मंजूर नहीं किया। १९२२ से कांग्रेस में दो दल हो गये—धारासभा-प्रवेशवादी और धारासभा-बहिष्कारवादी। बहिष्कार-वादी पक्ष वह था जो असहयोग के कार्यक्रम पर डटा हुआ था और जिसे प्रवेशवादी अपरिवर्तनवादी कहने लगे। अपने लिए उन्होंने परिवर्तन-वादी नाम पसन्द किया। असल में तो इस वाद का बीज १९२० की कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में बोया गया था। बीच में डेढ़ साल तक सत्याग्रह-रूपी उग्र कार्यक्रम के कारण उसमें अंकुर नहीं फूटा था। देशबन्धुदास ने महात्माजी के धारासभा-बहिष्कार का जोरों से विरोध किया था तथापि उनका यह मत नहीं था कि माण्टेगू-सुधारों को कार्यान्वित करने में सहयोग दिया जाय। वे धारासभा में अडंगा-नीति के पक्षपाती थे और अन्त तक उसपर डटे रहे। १९२३ में जो स्वराज्य-पार्टी कायम की गई उसकी नीति-घोषणा में कहा गया था कि जबतक माण्टेगू-सुधार रह करके पूर्ण स्वराज्य देने का वचन सरकार नहीं देगी और प्रान्तिक स्वराज्य की स्थापना नहीं करेगी तबतक अधिकार-स्वांकार करके सरकार से सहयोग न किया जाय और सतत विरोध किया जाय। पं० मोतीलाल नेहरू और देशबन्धुदास दोनों मानते थे कि यह नीति अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धान्त के विपरीत नहीं थी और इस-लिए वे अपने को असहयोगवादी ही कहते थे। १९२३ के दिल्ली वाले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज्य-पार्टी को धारासभा में जाने की इजाजत मिल गई और १९२३ के अन्त में जो चुनाव हुए उसमें सब जगह इसकी जीत हुई और धारा-सभाओं में बहुमत रहा।

जनवरी १९२४ में महात्मा गांधी यरवदा जेल में अपेंडिसाइटिस से एकाएक बीमार हुए। कर्नल मेडॉक उन्हें तुरन्त पूना के ससून अस्पताल में ले गये और ऑपरेशन किया। इसके बाद सरकार ने उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया। कुछ दिन वे जुहू (बंबई) में रहे। वहाँ पं० मोतीलाल नेहरू व देशबन्धुदास से धारासभा-प्रवेश के संबंध में उनकी बहुतेरी चर्चा

हुई। मतभेद तो नहीं मिटा; लेकिन महात्माजी ने यह आश्वासन दिया कि जब कांग्रेस ने धारा-सभा में जाने की मंजूरी दे दी है तो अब किसी को उसमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि भरसक सहायता करनी चाहिए। इधर दास-नेहरू ने यह मंजूर किया कि हम सब महात्माजी के विधायक कार्यक्रम में सहायक होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक लिखित अभिवचन दिया कि जब हमें यह प्रतीत होगा कि धारा-सभाओं से कुछ काम नहीं बनता तो हम उन्हें छोड़कर चले आवेंगे और महात्माजी के नेतृत्व में कांग्रेस के नियमानुसार सविनय-भंग अथवा सत्याग्रह-आन्दोलन में अग्रसर हो जावेंगे। १९२४ में वेलगाँव के अधिवेशन में कांग्रेस ने इस समझौते को मंजूर कर लिया। इससे महात्माजी की गैरहाजिरी में कांग्रेस में जो दो दल बन गये थे उनका फिर गठबंधन हो गया। वेलगाँव में महात्माजी ही कांग्रेस के सभापति थे। उसके बाद थोड़े ही दिनों में उन्होंने बंगाल में जाकर देशबन्धु की सहायता से सत्याग्रह के दूसरे मोर्चे की तैयारी की थी। मगर दुर्भाग्य से १९२५ में देशबन्धु का देहावसान हो गया और लोगों को लगा कि बंगाल में दूसरे सत्याग्रह का जो तैयारी की जा रही थी वह विफल हुई।

देशबन्धु की मृत्यु के बाद पं० मोतीलाल नेहरू स्वराज्य-पार्टी के नेता हुए। स्वराज्य-पार्टी की नीति माण्डेगू-सुधारों के सम्बन्ध में यह थी कि जबतक सरकार कांग्रेस से इसके विषय में समझौता नहीं कर लेगी तबतक मंत्रि-मंडल न बनाया जाय। १९२६ की गौहाटी कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर ने अपने भाषण में कहा था कि मंत्रिपद अस्वीकार करने की नीति सार्वकालिक या विला-शर्त नहीं है। देशबन्धुदास ने फरीदपुर में जो शर्तें रखी थीं वे जबतक मंजूर नहीं हो जायँ तबतक इस नीति में परिवर्तन करना न शक्य है और न इष्ट ही। धारा-सभा में अड़ंगा-नीति, बाहर रचनात्मक संगठन और अंत में सत्याग्रह ऐसा तिहरा बल इस मांग के पीछे था। प्रत्येक मांग के पीछे कुछ शक्ति होनी चाहिए। उसकी परिणति प्रत्यक्ष प्रतिकार तक होनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस का अनुशासन मानना और सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी का नेतृत्व मंजूर करना आवश्यक था। इन मुद्दों को स्वराज्य-पार्टी ने कभी

नहीं छोड़ा। यही कारण है कि महात्मा गांधी और स्वराज्य-पार्टी का वह सहयोग दिन-दिन बढ़ता गया और अंत को, १९२६ में, जब यह साबित हो गया कि ब्रिटिश सरकार धारासभा के विरोध के फल-स्वरूप स्वराज्य की मांग पूरी करने को तैयार नहीं होती तब लाहौर-कांग्रेस में पं० मोतीलाल नेहरू ने देशबन्धु सहित महात्माजी के आश्वासन को पूरा किया और धारा-सभा के बहिष्कार का तथा महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में सत्याग्रह करने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पेश किया।

महात्मा गांधी और स्वराज्य-पार्टी में जो यह सद्भाव बढ़ रहा था वह महाराष्ट्र के केलकर-पन्त को १९२५ से ही अप्रिय होने लगा। १९२६-२७ की धारा-सभाओं के चुनाव के पहले ही उन्होंने स्वराज्य-पार्टी से अलग होकर मांटिगू-सुधारों का विरोध करने की नीति छोड़ दी थी और उन्हें कार्यान्वित करके लोक-हित साधन की नई नीति अख्तियार कर ली थी। यह नीति कांग्रेस और स्वराज्य-पार्टी की नीति के खिलाफ चली, मगर १९२० में लोकमान्य तिलक द्वारा निर्धारित कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की नीति से भी यह गई-बीती थी। तिलक ने 'वैधानिक विरोध' पर जोर दिया था जो कि केलकरपन्त ने अपनी नीति से हटा दिया। इसी तरह 'लोकमतानुसार विरोध या सहयोग की नीति ठहराने' की बात भी निकाल डाली। प्रति-सहयोग की व्याख्या ही ऐसी कर डाली कि सुधार कैसे ही हों, उन्हें कार्यान्वित किया जाय और इसी तरह लोगों का बल बढ़ाया जाय।

लोकमान्य के समय में ही उनके दल में दो भाग हो गये थे। एक था क्रान्तिकारियों की तरफ और दूसरा था वैधमार्गियों की तरफ झुका हुआ। पहले उपपन्त में थे—खाडिलकर, परांजपे व देशपांडे (गंगाधर राव) दूसरे में केलकर, करंदीकर का समावेश होता था। लोकमान्य की राय में केलकर राजनीति में 'सावधानता' की व खाडिलकर 'उत्साह' की प्रतिमूर्ति थे। उनके स्वर्गवास के बाद उनकी राजनीति का 'उत्साह' महात्मा गांधी के साथ मिल गया व 'सावधानता' सिर्फ केलकर-पन्त के पास रह गई! लोकमान्य के समय में जिनके हृदय क्रान्तिवाद की ओर आकर्षित हो गये थे वे गांधीजी के निःशस्त्र क्रान्तिवाद में शामिल हो गये और जो

‘सावधानता’ का मंत्र जपते रहे वे उनसे अलग रहकर कहने लगे—गांधी का अहिंसावाद हमें नहीं जँचता। इनमें से कुछ लोग जनता को ऐसा भी भासित करने की चेष्टा करते हैं मानो वे हिंसात्मक क्रान्तिकारी हैं। हम ऊपर बता ही चुके हैं कि पहले का सशस्त्र क्रान्तिकारी दल धीरे-धीरे मार्क्स के क्रान्तिवाद में शरीक होने लगा। इस वैज्ञानिक क्रान्तिवाद से केलकर-पक्ष का कितना विरोध है, यह बताने की आवश्यकता नहीं।

१९२२ से लेकर १९२८ तक स्वराज्य-पार्टी व असहयोग-दल अपने-अपने ढंग से स्वराज्य की लड़ाई लड़ते रहे, मगर प्रत्यक्ष आक्रमण की नौबत अब तक न लाई जा सकी। १९२७ में लार्ड बर्कनहेड ने सायमन कमीशन की नियुक्ति करके यह चर्चा शुरू की कि मांटैगू-सुभाषों में कुछ परिवर्तन किया जाय या नहीं। इसमें एक भी भारतीय नहीं लिया गया था। भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर यह जबरदस्त कुठाराघात था। यह देखकर नरम दल-सहित सब दलों ने उसके अधिकार की आवाज उठाई व मद्रास-कांग्रेस में पं० जवाहरलाल नेहरू का स्वतंत्रता को ध्वेय मानने का प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ दो और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए : (१) सायमन-कमीशन के अधिकार का आन्दोलन करना व (२) ऐसी स्वराज्य-योजना बनाना जो सब दल के लोगों को पसंद हो। एक और भी प्रस्ताव पास हुआ—आगामा महायुद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहयोग न किया जाय। इससे पहले जवाहरलालजी यूरोप-यात्रा कर चुके थे और उनके विचार समाजवादी हो गये थे। इसी समय से उन्होंने समाजवादी नीति के अनुसार कांग्रेस की राजनीति को सार्वत्रिक क्रान्तिकारी बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। १९२८-२९ में जगह-जगह घूमकर उन्होंने ‘युवक-संघ’ व ‘स्वाधीनता-संघ’ स्थापित किये व नवयुवकों में समाजवादी सर्वांगीण क्रान्ति की भावना पैदा की। फिर १९३० में महात्मामार्जी के नेतृत्व में जो पूर्ण स्वराज्य का सत्याग्रह शुरू हुआ और उसमें जो युवक सम्मिलित हुए उन्हीं में से आगे चलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। इसके अलावा, १९२४ में कानपुर प्रिड्युन्स-केस में सजा पाये हुए लोग जब छूट आये तो कम्युनिस्ट पार्टी को फिर जोर मिलने लग। १९२७ से २९ तक मजदूरों

की हड़तालों व कम्यूनिस्ट पार्टी के संगठन का बड़ा जोर रहा। परन्तु १९३० के प्रचंड संग्राम से यह पार्टी प्रायः अलग रही। इसके पहले ही इस पक्ष के नेताओं को १९२६ में मेरठ प्रड्युंत्र केस में सरकार ने जेल में ठोक दिया था।

पं० जवाहरलालजी जहाँ एक ओर भारतीय नवयुवकों में समाजवादी क्रान्ति के विचार फैला रहे थे वहाँ दूसरी ओर पं० मोतीलाल नेहरू एक सर्वपक्षीय परिषद् बुलाकर उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य के विधान का मसविदा तैयार कर रहे थे। तीसरी ओर सरदार वल्लभभाई पटेल वारडोली में किसानों का संगठन करके उन्हें सत्याग्रह के लिए तैयार कर रहे थे—मानो वे दिखाना चाहते थे कि महात्माजी के रचनात्मक कार्यक्रम के द्वारा सत्याग्रह की प्रचण्ड शक्ति किसानों में कैसे आ सकती है। पं० मोतीलालजी ने महात्माजी को तार दिया कि स्वराज्य-योजना बनाने के लिए आप इलाहाबाद आ जाइए। महात्माजी ने उन्हें जवाब दिया—आप योजना तैयार कीजिए, उसे अमल में लाने के लिए जिस शान्ति की जरूरत पड़ेगी उसे पदा करने का काम मैं कर रहा हूँ। इससे यह जाना जाता है कि महात्माजी राजनीति की ओर किस दृष्टि से देखते हैं। १९२८ में सरदार वल्लभभाई ने वारडोली में कर-बन्दी सत्याग्रह का जो आन्दोलन उठाया था वह सोलहों आने सफल हुआ। इससे देश के लोगों का ध्यान फिर से सत्याग्रह व प्रत्यक्ष प्रतिकार का ओर गया। १९१८ के अन्त में कलकत्ता में पं० मोतीलालजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें 'नेहरू-रिपोर्ट', जो सर्वपक्षीय परिषद् के द्वारा बनाई गई थी, मंजूर हुई और महात्मा गांधी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि यदि नेहरू-रिपोर्ट वाली औपनिवेशिक स्वराज्य की योजना सरकार ने एक साल में मंजूर नहीं की तो फिर कर-बन्दी व कानून-भंग-सहित असहयोग-युद्ध शुरू कर दिया जायगा। साथ ही कांग्रेस ने यह भी घोषित किया कि असहयोग औपनिवेशिक स्वराज्य के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज्य या स्वतंत्रता के लिए किया जायगा।

पं० मोतीलालजी ने केन्द्रीय धारासभा में इसी आशय का प्रस्ताव पेश किया व सरकार को चेताया कि अगले साल हम सत्याग्रह की जबर-

दस्त लड़ाई छेड़ेंगे। लार्ड अर्बिन विलायत गये व इसके उत्तर के बारे में ब्रिटिश मन्त्रिमंडल से सलाह-मशविरा कर आए। इधर देश में क्रान्तिकारी आन्दोलन की लहर बढ़ रही थी व कहीं-कहीं हिंसा-काण्ड भी होने लगे थे। सायमन-कर्मेशन के बहिष्कार के जलूस में लाला लाजपत राय पर भी लाठी-प्रहार हुए थे और उससे उनका ऐसी तबीयत खराब हुई कि उनका देहांत हो गया। सन् १९२८ में उनका यह वीरोचित मृत्यु उनकी आजन्म देश-सेवा के अनुरूप ही हुई। बाबू को लाहौर में साण्डर्स की जो हत्या हुई उसका कारण लालाजी की मृत्यु का बदला लेना ही था। इस तरह इन दिनों हिन्दुस्तान में चारों ओर ही खलबली मच रही थी। कांतिकारी भावना जिन राष्ट्रों की राजनीति का नित्य अधिष्ठान होता है और जिसकी लहरें उठती-गिरती रहती हैं, इससे जिनमें क्रान्तिकारी भावना नहीं रहती है उन्हें बहिष्कार, अग्रहयोग, सत्याग्रह, निःशस्त्र या सशस्त्र क्रान्ति ये क्षणिक लहरें मालूम होती हैं व उन्हें यह अपनी राजनीति का नैमित्तिक स्वरूप प्रतीत होता है; परन्तु जिन लोगों का अन्तःकरण गण-धीनता में जकड़ी हुई जनता की आकांक्षाओं से समरस हो गया है उन्हें ये रह-रहकर उठनेवाली लहरें मानो परार्थीन जनता के हृदय में उठनेवाली स्वतंत्रता की पवित्र आत्मप्रेरणा ही जान पड़ती हैं। मानव मन में परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाने की जो नित्य आत्मप्रेरणा होती है उसी में से क्रान्तिकारी भावनाओं की लहरें उठती हैं। अनप्यव वे सच्चे लोकनायक अथवा राजनीतिज्ञ, जो चाहते हैं कि लोगों पर उनकी सत्ता चले, उनकी तरफ से आँखें नहीं मूँद सकते; परन्तु जिनके हृदय में स्वतंत्रता की प्रेरणा कम होती है उनके लिए यह एक रहस्य ही बना रहता है कि लोगों की इस आत्मप्रेरणा को जाग्रत करनेवाले नेता आम लोगों में क्रान्तिकारी आन्दोलन की जबरदस्त लहर कैसे पैदा कर देते हैं। उनकी बुद्धि इसमें असमर्थ सिद्ध होती है, इसलिए वे यह मान बैठते हैं कि यह एक जोश की, पागलपन की लहर उठी है, थोड़े दिनों में ठण्डी हो जायगी। तब लोग हमारी समझदारी की व बुद्धि की बातों को सुनने लगेंगे।

हिन्दुस्तान लौट आने पर १ नवंबर १९२६ को लार्ड अर्बिन ने

एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। उसमें कहा गया कि १९१६ वाले सुधार-कानून का अन्तिम पर्यवसान औपनिवेशिक स्वराज्य ही है, सायमन कमीशन की रिपोर्ट आने पर व दूसरी सुधार-योजनाओं पर विचार करने के लिए, ब्रिटिश मंत्रिमण्डल का इरादा है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों, ब्रिटिश भारत के भारतीय नेताओं व देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की मिलकर एक 'गोलमेज परिषद्' की जाय। नरम दल वालों को इससे सन्तोष हो गया और वे फिर सहयोगवादी हो गये। किन्तु महात्मा गांधी व कांग्रेस उस समय सहयोग के लिए तैयार न हुए। गांधीजी, सर सप्रू, पं० मोतीलाल नेहरू, जिना साहब इत्यादि नेताओं की इस समय लार्ड अर्विन से मुलाकात हुई। महात्मा गांधी वहाँ जाकर यह आजमा लेना चाहते थे कि ब्रिटिश राजनेता औपनिवेशिक स्वराज्य एक ही किस्त में दे देने को तैयार हैं या उसे अन्तिम ध्येय कहकर मांटिगू-सुधार जैसी कोई और बेकार योजना हमारे गले बाँध देना चाहते हैं; लेकिन जब यह मालूम हुआ कि ब्रिटिश राजनेता ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है तब गोलमेज-परिषद् से असहयोग करने की व कलकत्ता-कांग्रेस के निश्चयानुसार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास करके सत्याग्रह-युद्ध ठानने की नीति मन में धारण करके महात्माजी लाहौर-कांग्रेस में उपस्थित हुए थे।

दिसंबर १९२६ का लाहौर-कांग्रेस का अधिवेशन भारतीय राजनीति के इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्ण है। उसके सभापति पं० जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने अपने भाषण में यह बताया था कि 'समाजसत्ताक जनतंत्र' (Socialist Republic) मेरा अन्तिम ध्येय है। कांग्रेस के प्रथम समाजवादी अध्यक्ष की दृष्टि से उनका यह भाषण आधुनिक भारत के इतिहास में कायम रहेगा। उन्होंने साफ तौर पर इसमें कहा है कि "यदि हिन्दुस्तान को अपने देश से दरिद्रता व विषमता मिटानी है तो समाजवाद के ही रास्ते उसे जाना पड़ेगा। अलबत्ता उसका टांचा हमारे देश की मूल प्रकृति के अनुरूप बनाना पड़ेगा व उसके साधन भी अपनी परिस्थिति व परम्परा के अनुसार स्वतंत्र रूप से खोजने होंगे।" साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस की वर्तमान मनोवृत्ति, भारतीय-स्वतंत्रता-संग्राम की आज की अवस्था व इस युद्ध के वर्तमान नेता-

इन सबका विचार करते हुए कांग्रेस का समाजवादी बनना और समाजवाद के पूरे कार्यक्रम को अपनाना संभव नहीं है। उन्होंने यह विचार भी वेधड़क पेश किया कि मेरे आदर्श भारत में मध्य-युगीन राजे-रजवाड़ों के लिए, पूँजी-युग के आधुनिक औद्योगिक राजाओं के लिए कोई स्थान नहीं है।”

हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र के ध्येय का प्रचार करके राष्ट्रीय मनोवृत्ति को बढ़ाने का काम लोकमान्य तिलक व महात्मा गांधी ने भारत की मूल प्रकृति का, खास राजनैतिक परिस्थिति को ध्यान में रखकर तदनुकूल मार्ग से किया है। इन प्रयत्नों का फल ही यहाँ का वर्तमान राष्ट्रवाद है।

इस राष्ट्रवाद को यूरोपीय राष्ट्रवाद की तरह पूँजीवादी व सेनावादी राष्ट्रवाद से उत्पन्न साम्राज्यवाद की अवस्था में नै न गुजरना होगा, बल्कि उसका स्वाभाविक विकास समाजवाद में हो देना चाहिए। सो भी कांग्रेस के द्वारा ही। इस बात को समझते व उसके अनुसार अपनी नीति निश्चित करनेवाले पहले समाजवादी नेता जवाहरलाल ही हैं। यों तो हिन्दुस्तान में १९२२ से ही कम्यूनिज्म के रूप में समाजवाद आ गया था; परन्तु वह राष्ट्रीय संग्राम के वास्तविक महत्त्व व गाम्भिर्य को ठीक-ठीक नहीं समझ पाया था और उसमें रूसी क्रान्ति के अनुकरण की प्रवृत्ति थी। किन्तु पं० जवाहरलाल का समाजवाद पहले से प्रचलित राष्ट्रीय संग्राम-रूपी परिणत वृद्ध का परिष्कृत फल है। अतएव हमारा यह खयाल है कि इसी नीति का अवलम्बन करने में हिन्दुस्तान में समाजवाद को प्रस्थापित करने का मार्ग जनता के हाथ लग सकेगा। समाजवादी युवक कार्यकर्त्ता भी इस बात को धीरे-धीरे समझने लग गये हैं। जो लोग उन्हें कुछ समय तक क्रान्तिवादी समझते थे वे भी यह मानने लगे हैं कि वे क्रान्तिवादी हैं। उनका क्रान्तिवाद लोकमान्य तिलक के पहले के क्रान्तिवाद की तरह ही वर्षिष्णु है, राष्ट्रशक्ति के साथ-साथ बढ़ता जानेवाला है।

लाहौर-अधिवेशन में कांग्रेस का ध्येय स्वतंत्रता—पूर्ण स्वराज्य—घोषित किया गया व धारा-सभाओं का बहिष्कार करके फिर से सत्याग्रह व असहयोग-संग्राम छेड़ने में सारा देश सम्मिलित हो, इस आशय का प्रस्ताव

पास हुआ । इस प्रस्ताव के इक्के-दुक्के विरोधियों में श्री केलकर व पं० मालवीयजी प्रमुख थे । किन्तु लाहौर-कांग्रेस के बाद जो प्रचण्ड सत्याग्रह शुरू हुआ व बीच में थोड़ा-सा विश्राम लेकर फिर जो १९३४ तक चला, उसमें वृद्ध मालवीयजी तो अन्त तक टिके रहे, मगर केलकर साहब ने शुरू में तो उसकी जबरदस्त लहर को देखकर सहयोग करने का थोड़ा-सा दिखावा किया ; लेकिन बाद में शीघ्र ही उससे अपने को बचा लिया व लोगों से कहने लगे कि अब यह आन्दोलन बन्द होना चाहिए । वे कांग्रेस पर तथा उसके नेताओं पर टीका-टिप्पणी करने का अपना नित्य धर्म पालने लगे । परन्तु उनके इस नित्य या नैमित्तिक धर्म-कर्म का खुद महाराष्ट्र पर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ । इस महान् युद्ध में पुराना ब्राह्मण-अब्राह्मणवाद खत्म हो गया व सारा महाराष्ट्र एक मुख से कांग्रेस के झण्डे के नीचे आकर ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला करने लगा । लोकमान्य के निधन के बाद महाराष्ट्र में जो अंधकार-युग शुरू हुआ था वह नष्ट हो गया और महाराष्ट्र की बुद्धि पर जो राख चढ़ गई थी वह उड़ गई व उससे उसके अन्तःकरण में जो ज्योति देदीप्यमान हुई, उसके प्रकाश में उसे अपना राष्ट्रीय कर्तव्य साफ तौर पर दिखाई देने लगा । सारे देश में, तमाम प्रान्तों में, कम-वेश यही हालत हुई । महात्माजी ने 'डांडी-कूच' से आरम्भ करके नमक-कानून-भंग का जो सत्याग्रह-युद्ध पुकारा, लार्ड अर्विन साम्राज्य की सारी शक्ति व दमन-नीति को आजमा कर भी, उससे कांग्रेस को पीछे न हटा सके । बारिश के दिन नलदीक आजाने से नमक-सत्याग्रह के बन्द होने की नौबत आनेवाली थी कि जङ्गल-सत्याग्रह शुरू होने लगा । सत्याग्रह की इस आग को बुझाने के लिए गांधीजी आदि नेताओं को दमन-कानून के मातहत राजबन्दी बनाया गया ; किन्तु इससे आग उलटी और भड़क उठी । दमन का प्रत्येक नया हुकम सत्याग्रह के लिए एक नवीन अवसर देता था और इसी उमंग में देश के हजारों युवक शान्ति के साथ जेलों में जाने लगे । किसान करबन्दी की हलचल मचाने लगे, व्यापारी ब्रिटिश माल के बहिष्कार का संगठन करने लगे, स्वयंसेविकाएँ विदेशी माल की दुकानों पर धरना देकर लाठी-प्रहर सहन करने लगीं, राष्ट्रीय झंडे के जलूस व

सलामी के लिए हजारों लाल देहात से एकत्र होने लगे मानो अपने आचरण से वह दिखाने लगे हों कि हम ब्रिटिश सत्ता का नहीं, बल्कि कांग्रेस का हुकम मानेंगे। हिन्दुस्तान का साग नकशा चार-पांच मास में बदल गया और इस युद्ध से निर्मित आत्म-तेज का प्रकाश सारी दुनिया में फैल गया। संसार के सब विचारशील लोग हिन्दुस्तान की इस अपूर्व राष्ट्रीय क्रान्ति की ओर आश्चर्य से देखने लगे। सरकार की सिवाहियों के लाठी-प्रहार या गोलीबार को भी लोग नगण्य मानने लगे और जैसा कि महात्माजी ने गोलमेज-परिपद् में कहा था, लड़के साम्राज्यशाही की गोलियों के सामने सीना तानकर खड़े रहने लगे। ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा मानो कांग्रेस ब्रिटिश-राज्य की प्रतिस्पर्धी राज्यसंस्था हो और भारतीय जनता पर ब्रिटिश हुकूमत नहीं, बल्कि कांग्रेस का अबाध सत्ता चली हो। पेशावर में गढ़वाली पलटन को हुकम हुआ कि निहत्था भीड़ पर गोली चलाओ; लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि निःशस्त्र क्रान्ति की यह जबरदस्त लहर ब्रिटिश हुकूमत को हड़प किये डालती है। इन्हीं दिनों अर्थात् प्रथम स्वाधीनता दिवस (२६ जनवरी, १९३१) के एक साल बाद महात्मा गांधी प्रभृति कांग्रेस-मन्त्रिमंडल—काँग्रेस समझौते के सदस्यों—को जेल से रिहा करके लार्ड अर्विन ने उनमें समझौते का वातर्चात शुरू की और कांग्रेस से 'गांधी-अर्विन समझौता' के अन्तर्गत अस्थाई संधि की।

१९३० के जाड़ों में इंग्लैंड में पहली गोलमेज-परिपद् हुई थी। उसने महात्मा गांधी व कांग्रेस ने असहयोग किया था। फलतः इंग्लैंड के जहाज में बैठने के बजाय कांग्रेसी नेता जेलों में जाकर बैठे थे। इस बार सर सप्रू व वैरिस्टर जयकर ने लार्ड अर्विन व महात्मा गांधी में इस उद्देश्य से समझौता कराने का प्रयत्न किया कि वे सत्याग्रह बन्द करके गोलमेज-परिपद् में जा सकें। इसके लिए पं० जवाहरलाल व मोतीलाल नेहरू को महात्मा गांधी से मिलने इलाहाबाद से यरवदा भेजा गया था। फिर भी कांग्रेस के नेता जैसा आश्वासन चाहते थे उसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। इससे समझौता न हो सका और सर सप्रू तथा जयकर साहब दूसरे नरम दली तथा साम्प्रदायिक नेताओं सहित विलायत गये। इस समय महाराष्ट्र

के प्रतिसहयोगी सहयोग के चार नेता चार दिशाओं में अपना अपना रास्ता खोजने लगे। जयकर साहब 'हिन्दू लिबरल' के रूप में और डा० मुंजे 'हिन्दू' की हैसियत से विलायत गये; किन्तु केलकर साहब परिषद् का निमंत्रण अस्वीकार करके हिन्दुस्तान में ही रहे। उन्होंने 'केसरी' में कांग्रेस पर यह टीका की कि महात्माजी ने जवाहरलाल के चक्कर में आकर समझौता नहीं किया। लोकनायक अण्णे महात्माजी के भण्डे के नीचे सत्याग्रह में शरीक होकर जेल चले गये। इस तरह प्रतिसहयोगी सहयोग-दल नाममात्र का रह गता। बाद को 'लोकशाही स्वराज्य-पक्ष' के नाम से श्री केलकर व वै० जमनादास मेहता के नेतृत्व में फिर उसे जन्म मिला; किन्तु आज इस दल में जयकर साहब व लोकनायक अण्णे नहीं हैं।

गोलमेज-परिषद् की चर्चा के फलस्वरूप तत्कालीन प्रधान मंत्री रेम्से मैकडॉनल्ड ने भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का अभिवचन दिया। मन्त्रिमण्डल की ओर से जो घोषणा उन्होंने की, उसमें ब्रिटिश सरकार का राय जाहिर की गई कि भारत के शासन की जिम्मेदारी केन्द्रीय व प्रान्तीय धारासभा को सौंपी जाय व बीच के संक्रमण-काल में आवश्यकता पड़ने पर अल्पसंख्यकों के हकों की रक्षा के लिए कुछ संरक्षण रखे जाय। जो संरक्षण रखे जायँ, वे भी ऐसे होंगे और इस तरह उनपर अमल किया जायगा जिससे पूर्ण उत्तरदायी शासन-व्यवस्था प्राप्त होने में किसी प्रकार बाधा न पड़े। केन्द्रीय सरकार संयुक्त हो, उसमें ब्रिटिश हिन्दुस्तान व देशी राज्य दोनों का समावेश किया जाय, इसे क्या-क्या अधिकार दिये जायँ इसपर आगे और विचार कर लिया जाय, क्योंकि देशी राजाओं पर इस सरकार का उतना ही अंकुश रहेगा जितना वे स्वेच्छा से मंजूर कर लेंगे। इस प्रकार केन्द्रीय धारासभा-मंडल बन जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमंडल को अधिक उत्तरदायी बनाने का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार स्वीकार करेगी। हाँ, वर्तमान परिस्थिति में संरक्षण व परराष्ट्रीय राजनीति के विषय गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। इसके अलावा शान्ति-रक्षा के लिए भी विशेषाधिकार रखे जायँगे। हिन्दुस्तान की साख और आर्थिक स्थिरता-संबंधी कुछ संरक्षण रखकर केन्द्रीय सरकार का अर्थ-विभाग मन्त्रिमंडल के अधिकार में दे दिया जायगा।

इस योजना में तीन तत्व मुख्य हैं : १—संयुक्त घटना, २—केन्द्रीय सरकार में उत्तरदाई शासनपद्धति और ३—संक्रमणकाल के लिए कुछ संरक्षक बंधन । वाद में महात्मा गाँधी व लार्ड अविन में जो स्थायी संधि हुई, उसमें महात्माजी ने मंजूर कर लिया था कि ये संग्रहण हिन्दुस्तान के हित की दृष्टि से ही तब किये जायेंगे । गाँधी-अविन-समझौते पर एक यह एतराज किया जाता था कि लाहौर में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पाम करने के बाद महात्मा गाँधी गोलमेज-परिषद् में जायेंगे कैसे ? इसका जवाब महात्माजी यह देते थे कि अर्थ-व्यवस्था, संरक्षण और परराष्ट्रीय राजनीति यह स्वतंत्रता का सार-भाग है । यदि इनकी सत्ता हमें मिल जाय और जब चाहें तब ब्रिटिशों का सभेदारी से हट जाने का हमें हक हासिल हो जाय तो फिर राष्ट्र के माथ बगवरी के ढङ्गे की सभेदारी करने में स्वतंत्रता के प्रस्ताव या ध्वज के विपरीत कुछ नहीं है । उन्होंने खुद लार्ड अविन को जताकर कहा और लोगों पर भी प्रकट कर दिया कि मैं अपनी स्वतंत्रता का माँग गोलमेज-परिषद् में ब्रिटिश राजनेताओं के सामने रखूँगा और उसकी बुनियाद पर ही अंग्रेजों से समझौता करूँगा । मार्च १९२१ को गाँधी-अविन-संधि के होने के बाद विदेशी पत्र-प्रतिनिधियों से गाँधी-जी की महत्त्वपूर्ण बातचीत हुई । उसका कुछ अंश इस प्रकार है :

प्रश्न—समझौते की दूसरी धारा * को देखते हुए मद्रास, कलकत्ता और लाहौर-कांग्रेस में स्वाकृत स्वतंत्रता का प्रस्ताव फिर से कांग्रेस में पास होना सुसंगत होगा ?

* "As regards constitutional question, the scope of future discussion is stated, with the assent of His Majesty's Government, to be with the object of considering further the scheme for the constitutional Government of India discussed at the Round Table Conference. Of the scheme there outlined, Federation is an essential part. So also are Indian Responsibility and reservation or safeguards in the interest of India, for such matters as, for instance, Defence, External affairs, the position of Minorities, the financial credit of India; and the discharge of obligation."

उत्तर—जरूर होगा। क्योंकि यह धारा कराची-कांग्रेस में ऐसा प्रस्ताव करने में बाधक नहीं हो सकती। यह नहीं, बल्कि मैंने इस बात को तय कर लिया है कि आगामी गोलमेज-परिषद् में स्वतंत्रता की माँग पेश करने में कोई बाधा न होगी। समझौता मंजूर करने से पहले इस विषय में मैंने इस स्थिति को अच्छी तरह खोल दिया था और अपनी स्थिति भी साफ कर दी थी।

प्र०—क्या आप प्रस्तुत संरक्षणों व प्रतिबंधों को मान लेंगे ?

उ०—इस सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति सारे संसार पर प्रकट है और समझता हूँ कि जो लोग आज कांग्रेस को परिषद् में निमंत्रण दे रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट करने का मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया है और अब भी ब्रिटिश सरकार के लिए मार्ग खुला हुआ है कि वह कांग्रेस को निमन्त्रण न दे। इस समझौते में यह शर्त नहीं है कि कांग्रेस को गोलमेज-परिषद् में जाना ही चाहिए।

प्र०—नये विधान में कुछ बंधन लगाना आप मंजूर करेंगे ?

उ०—हां, जो बंधन वाजिब व वांछनीय होंगे, उन्हें मैं जरूर मंजूर करूँगा। अल्पसंख्यकों का ही सवाल लीजिए : यदि हम इस बात को नहीं मानेंगे कि अल्पसंख्यकों का हित हमारे हाथ में एक पवित्र धरोहर है तो हम इस महान् राष्ट्र के ध्येय को सार्थक न कर सकेंगे। मैं इसे एक न्यायपूर्ण संरक्षण मानूँगा।

प्र०—फौज और आर्थिक प्रतिबंधों के संबंध में आपकी क्या राय है ?

उ—आर्थिक व्यवस्था के बारे में कहना हो तो कर्ज को लीजिए। सरकार पर अगर कर्ज हो तो उसकी कुछ जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। इस अंश तक देश की साख पर व उसकी वृद्धि पर कुछ बंधन स्वीकार करना मेरा कर्तव्य है। फौज के संबंध में मुझे यही बंधन सूझता है कि हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए जो ब्रिटिश सैनिक हमें दरकार होंगे उनके वेतन की जिम्मेदारी लेना और ऐसी ही किसी तरह की दूसरी बात का जिम्मा लेना मेरी समझ में आ सकता है।

प्र—पूर्ण स्वराज्य की आपकी क्या तस्वीर है ?

उ० — मैं तो आकाश में उड़ने वाला आदमी हूँ । इसलिए मैं तो ऐसे कई 'मनोराज्य' किया करता हूँ । 'पूर्ण-स्वराज्य' पूर्ण समानता का विरोधी नहीं बल्कि आधार है । सर्व-साधारण का दिमाग इस समानता को सहसा नहीं समझ सकता । समानता से मेरा तात्पर्य है कि सरकारी कार्य का केन्द्र डाउनिंग-स्ट्रीट होने के बजाय दिल्ली हो । मित्रों का कहना है कि संभव है, इंग्लैंड इस स्थिति के लिए राजी न हो ।

ब्रिटिश लोग व्यावहारिक आदमी हैं । जिस प्रकार वे अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं उसी प्रकार दूसरों को स्वतंत्रता देना उसी स्वातंत्र्य-प्रेम का अगला कदम है । मैं जानता हूँ कि भारत के लिए मैं जो समानता चाहता हूँ उसके दे देने का जब समय आवेगा तो वे यही कहेंगे कि यह तो हम हमेशा से चाहते थे । ब्रिटिश लोगों में अपने आपको अम में रखने की जैसी खूबी है वैसी और किसी राष्ट्र में नहीं । मेरे विचार से निश्चय ही समानता का तात्पर्य है संबंध-विच्छेद के अधिकार काफ़ी होना ।

इस तरह अर्थ-व्यवस्था, संरक्षण और परराष्ट्रीय राजनीति या वैदेशिक मामले और जब चाहें तब साभेदारी छोड़ देने का अधिकार यह स्वतंत्रता का या पूर्ण स्वराज्य का सार है, ऐसा महात्मा गांधी का और कांग्रेस का मत था । स्वतंत्रता का यह सार प्राप्त करने के लिए ही कांग्रेस की लड़ाई जारी रही और इसका अन्त भी इनके प्राप्त हो जाने पर ही हो गया । इस मुलाकात के थोड़े ही दिन बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ; इस अधिवेशन में उपर्युक्त अर्थवाला प्रस्ताव हुआ और यह तय हुआ कि महात्मा गांधी राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज-परिषद् में जाँय, जिसके अनुसार वे १९३१ के अंत में इंग्लैंड गये । जाने के पहले गांधी-अर्विन-समझौते के मुताबिक लड़ाई स्थगित हो गई थी और सारे राजनैतिक कैदी छोड़ दिये गए थे । सत्याग्रह की लड़ाई का मुकाबला करने के लिए निकाले गए आर्डिनेन्स रद्द किये गये, मुकदमे उठा लिये गये और जो जुर्माना भरा नहीं गया था वह माफ हो गया, जन्त हुआ माल-असबाब, जो सरकार के पास था, वापस कर दिया गया और जन्त जमीनें वापस कर दी गई । जिस जगह नमक बनता हो वहाँ के आसपास के लोगों को घरू खर्च के लिए बिना कर दिये नमक

ले सकने का अधिकार दिया गया। यह तब किया गया कि स्वदेशी को उत्तेजन देने के लिए धरना देना तो जारी रखा जाय, सिर्फ इंग्लैण्ड में बनी चीजों का बहिष्कार करना बन्द कर दिया जाय। इसके व शराब-बन्दी के लिए धरना दिया जाय; लेकिन वह पूर्ण शान्तिमय हो। गाँधी अहिंस-समझौते की इन सारी शर्तों पर अमल किये जाने के बाद ही गाँधीजी द्वितीय गोलमेज-परिषद् के लिए विलायत गये।

गाँधी-अहिंस-समझौते का कांग्रेस और उसके द्वारा की गई निःशस्त्र क्रान्ति के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक भारत के इतिहास में यह एक अपूर्व बात थी कि कांग्रेस का आन्दोलन बन्द करने के लिए साम्राज्यशाही को कांग्रेस के नेताओं से बराबरी का व्यवहार करना पड़ा। इसी एक बात पर ब्रिटिश राजनेताओं ने इस ठहराव के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से यह भी मान लिया कि कांग्रेस ही हिन्दुस्तान की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और अन्त में स्वराज्य के प्रश्न का भी उसी से समझौता करना पड़ेगा। दूसरी गोलमेज-परिषद् में महात्मा गाँधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गये थे और महात्माजी ने परिषद् के अपने पहले भाषण में ही यह कह दिया था कि मैं उस महान् संस्था का एकमात्र प्रतिनिधि हूँ जिसने अपने पराक्रम से यह साबित कर दिया है कि उसे सारे भारत की जनता की तरफ से विदेशी शासकों के साथ सुलह-समझौते का अधिकार प्राप्त है। अतः यदि भारतवर्ष से सन्धि करना हो तो वह मेरे मार्फत ही करनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपनी सारी शक्ति संरक्षण व वैदेशिक विषयों पर ही केन्द्रित की। इसलिए उन्होंने बताया कि जबतक आप स्वतंत्रता का सार देना मंजूर न करेंगे तबतक मैं किसी तरह समझौता मंजूर नहीं कर सकता।

पहले मांटेगू-सुधारों के अवसर पर समझौते की जो नीति लोकमान्य ने अंगीकार की थी उसका परिणत रूप महात्माजी की यह वर्तमान नीति है, ऐसा कहना अनुचित न होगा। सन्धि में महात्माजी का यह कहना था कि पहले तुम यह मान लो कि आज से हम अपने घर के मालिक हो चुके, फिर यह सुझाओ कि अब इस घर में तुमको कितने दिनों तक किस तरह रहना है तो इसके बारे में समझौता किया जाय। इसकी तजवीजें व

सुभाव रक्खो । तब हम यह देख लेंगे कि हमारे हित की दृष्टि से वे हमें मंजूर हो सकते हैं या नहीं । लेकिन तब दूसरे देशों के बराबर स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर हिन्दुस्तान को मानने व ब्रिटेन के साथ साभेदारी के उसके दर्जे को स्वीकार करने की भूमिका पर समझौता करने के लिए ब्रिटिश राजनेता तैयार नहीं थे और इधर महात्माजी इस धरातल को छोड़कर अपने देश की स्वतंत्रता का सस्ता सौटा करने के लिए तैयार न थे । इसीसे दूसरी गोलमेज-परिषद् विफल हुई और उन्हें वहीं पता लग गया था कि हिन्दुस्तान जाने पर फिर कोई सत्याग्रह किये बिना गति नहीं है । हाँ, उनके यहाँ लौटते ही अगर उन्हें यह न दिखाई दिया होता कि नौकरशाही ने बाद में गांधी-अर्विन-समझौता तोड़ दिया है और 'उस को फिर से साधने की बातचीत भी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं' ऐसा रूखा जवाब यदि लार्ड विलिंग्डन ने महात्माजी को न दिया होता तो महात्माजी विलायत से आते ही सत्याग्रह शुरू न करते, बल्कि संगठनात्मक व विधायक कामों में कुछ समय लगाते ! लेकिन जनवरी १९३२ में दूसरी गो० मे० परिषद् से लौटकर महात्माजी यहाँ आकर क्या देखते हैं कि बंगाल, युक्तप्रान्त और सीमाप्रान्त में दमन-चक्र चल गया है और सुभाष बाबू, जवाहरलालजी व खान अब्दुल गफ्फार खान आदि कांग्रेस-नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है । ऐसी स्थिति में भी महात्माजी ने लार्ड विलिंग्डन से समझौते के लिए तार द्वारा मिलने की इच्छा प्रकट की; परन्तु वह ठुकरा दी गई । इसका कारण यह था कि यहाँ की नौकरशाही चाहती थी कि गांधी-अर्विन-समझौते के कारण कांग्रेस की जो एक तरह की प्रतिस्पर्धी राज्य-संस्था की-सी स्थिति बन गई थी उसे बदलकर कांग्रेस व उसके नेताओं पर हाथ साफ किया जाय । इसके लिए इंग्लैंड का नवीन ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल व भारत मंत्री सर सेम्युअल होर उनकी पीठ ठोकने के लिए तैयार थे । यहाँ के अधिकारी उन्हें सब्ज बाग दिखा रहे थे कि कांग्रेस को एक-दो महीने में ही खतम कर देंगे व महात्माजी के आत्म-बल की कलाई थोड़े ही दिनों में खोलकर दिखा देंगे । तदनुसार जनवरी १९३४ में ही लार्ड विलिंग्डन की सरकार ने कांग्रेस पर धावा बोल दिया । लेकिन आशा के अनुसार दो महीने

में कांग्रेस खत्म नहीं हुई। आर्डिनेंस की छः महीने की मीयाद भी खत्म हो गई तब भी कांग्रेस नहीं हारी। उसकी सब संस्थाएँ गैर कानूनी करार दी गईं तो भी उसका काम बन्द नहीं हुआ और खुद दिल्ली में उसका वेकायदा अधिवेशन सफलता के साथ हुआ। तब जो काम ब्रिटिश सरकार की अतुल दमन-शक्ति से न हो सका, उसे भेदनीति से सफल करने की शुरुआत धीरे-धीरे हुई।

गांधी-अर्विन-समझौते के बाद से करीब-करीब ऐसी स्थिति बन गई थी कि भारतीय जनता की तरफ से किसी भी शासन-विधान को मंजूर करना हो तो वह कांग्रेस ही करे। मगर जिस तरह ब्रिटिश राजनेता इस स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं थे उसी तरह हमारे देश के कांग्रेस-बाह्य दूसरे दल भी तैयार नहीं थे। वे कहने लगे— कांग्रेस की तरह हमारा भी एक दल है। तब हम क्यों न सरकार से सुलह-समझौता करें यदि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है ? गांधीजी की तरह हम भी विलायत जा सकते हैं, हम भी विधान-शास्त्र के पण्डित हैं और शायद उनसे तो अधिक ही हैं। उनकी तरह हम भी व्याख्यान दे सकते हैं। तब हम अपनी इच्छानुसार विधान इंग्लैंड से लाकर हिन्दुस्तान के माथे क्यों नहीं मार दें ? लेकिन इस विचार-सरणि में दो दोष थे— एक तो यह कि जो शासन-विधान हिन्दुस्तान में लागू होता उसके लिए इतने ही से काम नहीं चलता कि यह थोड़े लोगों के मनोनुकूल है। वह तो समूचे राष्ट्र के मनोनुकूल होना चाहिए था और राष्ट्र को समझाने की जितनी शक्ति महात्मा गांधी के पास थी उतनी तीसरी गो० मे० परिषद् में गये किसी भी नेता के पास नहीं थी, बल्कि सारे नेता-मंडल के पास भी नहीं थी। एक वक्ता ने तो उस समय ग्राम सभा में कह दिया था कि कांग्रेस व महात्मा गांधी को जेल में टूँसकर जो नेता विलायत गये हैं उनकी कीमत राष्ट्रीय प्रतिनिधि के तौर पर शून्य से अधिक नहीं है। अगर महात्मा गांधी-रूपी अंक पर ये त्रिन्दियाँ लगाई होतीं तो इनकी कीमत हुई होती। परन्तु उस अंक के अभाव में इन सब की मिलकर कीमत एक सिफर के बराबर ही थी। फिर महात्मा गांधी की कीमत भी उन अकेले के व्यक्ति-माहात्म्य पर नहीं, बल्कि उनके पीछे

सारे राष्ट्र का जो संगठित आत्मबल अर्थात् सत्याग्रही राष्ट्रसभा कांग्रेस थी, उसपर अबलम्बित था। जबतक हम राष्ट्रीय राजनीति का यह पाठ न पढ़ लेते तबतक ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वराज्य के अधिकार माँग या छीन न सकते। फिर भी कांग्रेस को वैसे ही जेल में पड़ी रहने देकर हिन्दुस्तान के वे कुछ राजनीतिज्ञ, जो अपने को व्यवहार-दत्त कहलाते थे, १९३२ के अन्त में तीसरी गोलमेज-परिषद् में गये थे। उनमें से हरएक ने यह जाहिर किया था कि हम किसी के प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं, बल्कि निजी तौर पर जा रहे हैं, मानो बाल्डविन या मैकडॉनल्ड के घर से उन्हें किसी शादी में आने का निमंत्रण मिला हो! और जिस तरह निमंत्रित भिक्षुओं को यजमान भोजन कराके विदा कर देता है उसी तरह सर सेम्युअल वगैरा ब्रिटिश राजनेताओं ने स्वराज्य की दक्षिणा मिलने की आशा से निजी तौर पर गये हुए इन भिक्षुओं को हाथ हिलाते हुए सूखे ही घर लौटा दिया। हाँ, इससे सर सेम्युअल प्रभृति ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह भ्रम अवश्य पैदा हो गया कि जब कांग्रेस को छोड़कर हमारे बुलाने से इतने राजनीतिज्ञ इंग्लैंड आ सकते हैं तो किसी भी शासन-विधान को चलाने के लिए चाहे जितने दल व नेता हमें मिल जायेंगे या बनाये जा सकेंगे। इससे यह भी साफ मालूम हो गया कि जबतक उनका यह भ्रम दूर न होगा तबतक कांग्रेस व हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य भी न मिल सकेगा। ब्रिटिश लोग विदेशी हैं और उनसे संधि-विग्रह करने का अधिकार जबतक एक ही संस्था को न मिलेगा तबतक हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता, यह पाठ हमारे नरम दल के नेता और लोकमान्य के नाम पर चलने वाला लोकशाही पक्ष नहीं सीख पाया।

तीसरी गोलमेज-परिषद् के बाद पार्लामेंट की सिलेक्ट कमेटी बनी और उसका बनाया विधान १९३५ में 'गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट' के नाम से कानून बन गया। इस बीच महात्माजी ने पहले तो सामुदायिक सत्याग्रह बन्द किया और कुछ महीने बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह भी बन्द कर दिया। सत्याग्रह बन्द कर देने के बाद १९३४ में धारा-सभा पर से बहिष्कार उठा लिया गया और कांग्रेस ने अपने नियंत्रण में

धारासभा के काम के लिए एक विभाग खोला। १९२४ में जबसे मात्माजी और देशबन्धु दास में समझौता होकर कांग्रेस को यह अनुभव हुआ कि धारा-सभा के अन्दर का कार्य व बाहर का विधायक कार्य करने वाले दोनों दल भावी लड़ाई की पेशबन्दी में बहुत सहायक होते हैं तभी से महात्मा गांधी ने दोनों दल वालों को ऐसे ढर्रे पर चला दिया था कि आपस में विरोध न करते हुए परस्पर सहयोग से रहें और भावी लड़ाई की तैयारी करें। फिर भी १९३० का सत्याग्रह शुरू होने तक दोनों दलों का दिल मिला नहीं था। मगर १९३० व ३२ के सत्याग्रह-संग्रामों में दोनों का दिल एक हो गया और वे महसूस करने लगे कि हम दोनों कांग्रेस के दो हाथ हैं। अतएव दोनों मिलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनुशासन के साथ कार्य करें। इधर पं० जवाहरलालजी ने १९३० में जिस समाजवादी मनोवृत्ति का बीज कांग्रेस में बोया था वह अंकुरित हुआ और 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' के नाम से एक तीसरा दल भी बन गया; परन्तु उसे भी सब दलों के साथ मेल से व कांग्रेस के अनुशासन में रहकर काम करने की नीति मंजूर थी। फिर वह यह समझता था कि कांग्रेस के सामने निकटवर्ती प्रश्न समाजवाद की स्थापना का नहीं, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति का था। इससे कांग्रेस के अन्दर रहकर वह अपनी वृद्धि करता रहा और हम समझते हैं कि इस दल की बढ़ती से कांग्रेस के भावी विकास में सहायता मिली।

१९३४-३५ में केन्द्रीय एसेम्बली के नये चुनाव होनेवाले थे। उस समय कांग्रेस के सामने मुख्य कार्यक्रम यही था कि उन चुनावों में भाग लेकर यह दिखा दिया जाय कि होर साहब के कल्पित सुधार राष्ट्र को मंजूर नहीं हैं। वे प्रागतिकों को भी पसन्द नहीं थे; परन्तु उन्हें नामंजूर करने की नीति को खुल्लमखुल्ला स्वीकार करने के लिए वे तैयार न थे। लोकशाही दल भी इसके अनुकूल नहीं था। इन दल वालों का यह खयाल था कि १९३२ के सत्याग्रह में कांग्रेस की शिकस्त हो गई, इससे अब देश एसेम्बली के चुनाव में उसका साथ नहीं देगा। इधर कांग्रेस ने यह घोषणा की कि सुधारों को ठुकरा कर जबतक पूर्ण स्वराज्य न मिले तबतक लड़ाई जारी रखी जायगी व बम्बई के अधिवेशन में यह राष्ट्रीय

मांग तय की गई कि पूर्ण स्वराज्य की योजना ऐसी विधान-परिषद् के द्वारा बनाई जाय, जो बालिग मताधिकार द्वारा चुनी गई हो। अर्थात् एसेम्बली का चुनाव कांग्रेस ने इन मुद्दों पर लड़ा : (१) नया विधान ठुकरा दिया जाय और (२) आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार विधान-सभा के द्वारा पूर्ण स्वराज्य प्राप्त किया जाय। खुद सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में ही यह साफ-साफ कहा गया है कि होर-सुधार प्रागतिकों की मांग से भी बहुत कम हैं। फिर भी उसके लेखकों ने यह आशा प्रकट की कि हिन्दुस्तान के लोग इन सुधारों को मान लेंगे और इसकी नींव पर स्थायी शासन-व्यवस्था कायम की जा सकेगी। उनकी दलील यह थी कि हिन्दुस्तान में एक ऐसा मध्यस्थ लोकमत निर्माण हो गया है कि उसके तल पर यह विधान स्थापित किया जा सकेगा, भले ही कुछ दुराराध्य लोग न मानें। कहना नहीं होगा कि ये मध्यस्थ लोग और कोई नहीं, राजा-महाराजा, बड़े पूँजीपति व जमींदार तथा हिन्दू-मुसलमानों के साम्प्रदायिक या जातिनिष्ठ नेता थे। गोलमेज-परिषद् में एकत्र इन लोगों के आश्वासनों के भरोसे ब्रिटिश राजनेताओं ने १९३५ में शासन-विधान का कानून हिन्दुस्तान पर लादने का निश्चय कर लिया। अब कांग्रेस के सामने मुख्य प्रश्न ही यह था कि इस विधान को ठुकराकर स्वयं निर्णित स्वराज्य-विधान प्राप्त किया जाय। इस कानून के पास होने के पहले एसेम्बली के नये कांग्रेसी सदस्यों ने व जिना साहब के मुसलमान-दल ने मिलकर इन सुधारों को ठुकरा देने का प्रस्ताव पास कर दिया। तब सर सेम्युअल होर ने पार्लामेंट में कहा कि एसेम्बली में ऐसा प्रस्ताव पास हो गया तो क्या हुआ, प्रान्तों के नेता उसे चलाने के लिए तैयार हैं और इन सुधारों का असली दारोमदार तो प्रान्तीय कौन्सिलों पर ही है। इस समय प्रान्तीय कौन्सिलों में कांग्रेस-विरोधी अ-राष्ट्रीय लोग भरे हुए थे और सर होर जैसों को यह उम्मीद थी कि नवीन कौन्सिलों में कांग्रेस-दल के लोगों का बहुमत न होगा, या नौकरशाही अपनी तरकीबें लड़ाकर कांग्रेस का बहुमत न होने देगी। पर बात यह है कि ये कांग्रेस-विरोधी दल दो तरह से ब्रिटिश राजनेताओं को भुलावे में डालते रहे। पहले तो वे उन्हें बताते रहे कि कांग्रेस की लड़ाकू नीति लोगों

को जँचती नहीं व लोग उसका साथ नहीं देते । कई बार उनका यह अंदाज गलत साबित हुआ ; फिर भी वे बार-बार-यह कहते नहीं चूके । फिर दूसरा भुलावा यह देते है कि कांग्रेस जो लड़ाई की भाषा बोलती रहती है उसमें कुछ दम नहीं है, कोरी धमकियाँ हैं । कांग्रेस के नेता लोगों को भांसा देने के लिए झूठमूठ ऐसी भाषा बोलते रहते हैं । मगर इन कांग्रेस-विरोधियों को यह बात याद रखनी चाहिए थी कि स्वराजपार्टी के आह्वान को भी वे 'कोरी धमकियाँ' कहा करते थे ; पर आखिर को कांग्रेस ने इतने जोर का आन्दोलन चलाया कि १९३० के अन्त में सरकार को उससे समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा ।

नवीन विधान के प्रान्तीय स्वराज्य का भाग स्थापित हो चुका था व ११ में से ७ प्रान्तों में कांग्रेस-मंत्रिमण्डल जनता के बहुमत के बल पर प्रत्यक्ष शासन कर रहे थे । कांग्रेस विधान को नामंजूर करने व आत्मनिर्णय के सिद्धान्तानुसार विधान-सभा के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का नवीन विधान बनाने की भाषा उतने ही बल व निश्चय के साथ बोल रही थी । यदि इसमें वह सफल न होती तो उसने अबतक जो निःशस्त्र क्रांति-वादी तंत्र, शास्त्र व तत्वज्ञान देश के सामने रक्खा था, वह सफल हुआ नहीं माना जाता और फिर, सम्भव है, राष्ट्र को अपनी आजादी के लिए किसी दूसरे ही तंत्र, शास्त्र व तत्वज्ञान का अवलम्बन करना पड़ता । उस समय देश के सामने एक दूसरा तंत्र, शास्त्र व तत्वज्ञान (कन्यूनिज्म) वैज्ञानिक क्रान्ति के शास्त्र के रूप में आने लगा था और जिन लोगों का विश्वास अहिंसात्मक क्रान्ति-शास्त्र पर नहीं था, वे धीरे-धीरे बहुत-कुछ उसीका अवलम्बन करने लगे थे । देश जिस लड़ाई में लगा हुआ था उसका स्वरूप राष्ट्रीय था । १९१६ के सुधार-कानून के बाद यह लड़ाई शुरू हुई और एक खास तत्वज्ञान व क्रान्तिशास्त्र के अनुसार एक अलौकिक, असामान्य विभूति के नेतृत्व में चलती आ आई । अबतक जिन नेताओं ने इस लड़ाई का सञ्चालन किया, जिस कांग्रेस के द्वारा और जिस जनता के बल पर वह लड़ी गई उसका निःशस्त्र क्रांति-वादी तत्वज्ञान पर विश्वास कायम था । यही नहीं बल्कि बढ़ता जा रहा था और उसे यह आत्मविश्वास हो रहा था कि इसी के द्वारा हम पूर्ण स्वराज्य

के शिखर तक पहुँच जायेंगे व १८ साल के इस स्वराज्य-संग्राम में विजयां होकर संसार की संस्कृति और भारत की कीर्ति में अपूर्व वृद्धि करेंगे ।

: ११ :

प्रान्तीय स्वायत्तता और द्विराष्ट्रवाद

अबतक पिछुला करीब एक सदी का इतिहास हमने देखा । इस असें में यह राष्ट्र किस बड़े आंदोलन में संलग्न था और उसके सामने कौनसी बड़ी समस्याएँ थीं, इसका विवेचन अबतक किया गया । जो राष्ट्रीय आंदोलन देश में चला, उसका आरंभ १९१९ के सुधारों के बाद तुरन्त हो जाता है । यह आंदोलन एक खास तत्त्वप्रणाली और क्रांतिशास्त्र को लेकर तथा एक असामान्य विभूति के नेतृत्व में चल रहा था । १९२० से जिस निःशस्त्र क्रांतिवादी तत्त्व को कांग्रेस के नेताओं के मार्गदर्शन में जनता ने स्वीकार किया, उसपर चलकर देश को पूरी आजादी मिल जायगी, अठारह सालों से चलता हुआ शांतिपूर्ण आंदोलन कामयाब होगा और संसार की संस्कृति तथा देश की कीर्ति में इससे काफी वृद्धि होगी, इसका लोगों को पूरा विश्वास हो गया था ।

निःशस्त्र क्रांति के मार्ग से यश पाने का इतना विश्वास भारतीय जनता में किस तरह निर्माण हुआ, इसकी जब हम छानबीन करने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि इसके बाज आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होने के पहले ही जनता के हृदय में बोये जा चुके थे । मराठों की हार के बाद हिंदुस्तान पूरी तरह अंग्रेजों के पंजे में फँसा । इसी वक्त सर्वांगीण समाजक्रांति के अग्रदूत राजा राममोहन राय ने जो आंदोलन शुरू किया, उससे आधुनिक भारत के इतिहास का श्रीगणेश होता है । अन्य देशों की अपेक्षा अपने पिछुड़े जाने का भान अगर भारत को हो जायगा तो उसे अंग्रेज गुलाम नहीं रख सकेंगे, यह बात राजा राममोहन राय जानते थे । संसार के अन्य देशों की तरह नये विचारों को अपनाकर करीब एक सदी में भारत उनके स्तर पर आ सकेगा और तब उसकी माँगों

को ठुकराना अंग्रेजों के लिए असंभव होगा, यह उनको मालूम था । जिन अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था वे भी इस तथ्य से वाकिफ थे । वे कहते थे : “हमने भारत को नहीं जीता है, मोहवश वह हमारे अधीन हो गया है । जब अपनी असली ताकत का पता उसे चल जायगा, तब एक पलभर के लिए भी उसे अपने काबू में रखना हमारे लिए असंभव है । लाख-डेढ़ लाख लोग तीस-चाईस करोड़ की संख्यावाले किसी राष्ट्र को सदा के लिए अपने अधीन नहीं रख सकते ।”

अठारहवीं सदी में मराठा, निजाम तथा हैदर-टीपू का मैसूर—ये ही तीन प्रमुख राज्य भारत में थे । इन तीनों का मुकाबला करने की क्षमता अंग्रेजों में नहीं थी, इतना ही नहीं बल्कि दूसरे की सहायता के सिवा किसी एक का भी मुकाबला वे नहीं कर सकते थे । इस बात को न पहचानकर इन तीनों में त्रिटिशों के कृपाभाजन बनने के लिए होड़-सी लगी थी । देश में एकता की भावना ही नहीं रही थी । अंदरूनी झगड़ों से ये राज्य विलकुल कमजोर बन गये थे । अगर उस वक्त लोगों में लोकशाही तथा राष्ट्रीयता की भावना होती तो हिंदुस्तान अपनी आज़ादी बनाये रख सकता था ।

एक शताब्दी तक भारत को गुलामी में रहना पड़ा । गुलामी के कारण देशभर में हृद् दर्जे की गरीबी फैली । स्व० दादाभाई नौरोजी, लो० तिलक तथा म० गांधी देश को राष्ट्रीयता की तालीम देकर संगठित करने की कोशिश कर रहे थे । इनके नेतृत्व में निःशस्त्र होने पर भी परायी हुकूमत से छुटकारा पाने की बात जनता ने ठान ली । उधर अंतर-राष्ट्रीय राजनीति में भी अंग्रेजों का प्रभाव घट ही रहा था । अंग्रेजों की संस्कृति से जागतिक संस्कृति के विकास में मदद मिलेगी, ऐसी जो भावना लोगों में फैली थी वह मिट रही थी । भारत को लोकतंत्र तथा राष्ट्रीयता के पाठ पढ़ाने के लिए अंग्रेजों का अवतार हुआ है, ऐसी शेखी अंग्रेज वधारते थे और यहाँ के लोगों का उत्तपर विश्वास हो गया था ; लेकिन दुनिया की हालत बदली और आज परिस्थिति ऐसी है कि पूँजीवादी प्रणाली से निर्मित वर्गयुद्ध को टालकर अपनी राष्ट्रीयता तथा अपना लोक

तंत्र कायम रखने के लिए अंग्रेजों को भारत से सत्रक लेना जरूरी महसूस होने लगा है ।

बढ़ते हुए राष्ट्रीय भावों में दरार पैदा करके प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर भारत को अनेक टुकड़ों में बाँट देने की अंग्रेज शासकों की खाहिश थी । संयुक्त राज्य की स्थापना के नाम पर यहाँ के लोकतंत्र को पूँजीवादियों तथा सरमायादारों की सहायता से परास्त करने की साजिशें गोलमेज-परिषद के नाम पर अंग्रेजों ने कीं । लेकिन करीब सभी प्रांतों में अंग्रेजों की इस चाल को प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर कांग्रेस ने वेकार बना दिया और सच्चे लोकतंत्र के लिए आवश्यक अहिंसक वायुमंडल देश में पैदा किया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता के काल में भी निःशस्त्र क्रांति की ताकत बढ़ती ही गई । इस तरह लोकशाही, राष्ट्रीयता और दोनों की पुष्टि तथा परिणति के लिए आवश्यक अनत्याचारी अहिंसात्मक क्रांतिवाद पूरे देश में फैलने लगा । क्रांतिवाद की ये लहरें ब्रिटिश हुकूमत की सीमाओं को लाँघकर देशी रियासतों में भी फैल रही थीं । लोकतंत्रात्मक भारतीय गणराज्य का निर्माण, गोलमेज-परिषद के वक्त अंग्रेजों ने जो कुटिल कार-वाइयाँ कीं, उनसे नहीं, बल्कि उनको परास्त करने के लिए जो सत्याग्रही क्रांति-शक्ति उदित हुई, उसके कारण हुआ है ।

१९३७ से १९४७ तक की घटनाएँ बड़ी महत्त्व की हैं । ब्रिटिश पार्लामेंट ने १९३५ में हिंदुस्तान में संयुक्त राज्य स्थापन करने का एक कानून बनाया था । उस कानून के अनुसार १९३७ में प्रांतीय स्वायत्तता की प्रस्थापना हुई । इसके बाद दो-ढाई सालों में संयुक्त राज्य-पद्धति की केंद्रीय सरकार बनाने का भी ब्रिटेन का विचार था । १९३५ का संयुक्त राज्य का कानून राष्ट्रीय नेताओं को मंजूर नहीं था । उस कानून को टुकराकर ब्रिटिश साम्राज्य के पंजों से पूरी तरह मुक्त होकर, लोकतंत्र तथा स्वयं-निर्णय के तत्त्वों के अनुसार अपना विधान खुद बनाने का कार्य निःशस्त्र क्रांति के मार्ग से संपन्न करने का कांग्रेस ने निश्चय कर लिया था । कांग्रेस की इस नीति के पीछे पूरा देश खड़ा होने का सवृत, प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस की जो शानदार जीत हुई, उससे ब्रिटिशों को तथा सारे संसार को

मिल चुका था। प्रांतीय चुनावों के बाद भारत के ग्यारह में से आठ प्रांतों के शासन की बागडोर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। पंजाब, बंगाल तथा सिंध ये ही ऐसे तीन प्रांत थे, जहाँ कांग्रेस के मंत्रिमंडल नहीं बन सके; लेकिन कांग्रेस को विश्वास था कि निकट भविष्य में ये तीन प्रांत भी उसके प्रतिनिधियों के शासनाधिकार के नीचे आ जायेंगे।

भारत के सभी प्रांतों के शासनाधिकार प्राप्त करके पूर्ण स्वाधीनता, स्वयंनिर्णय तथा अपना शासन-विधान बनानेवाली परिषद प्राप्त करने के लिए एकाध सत्याग्रही आंदोलन के बाद कांग्रेस सफल होगी, ऐसी आशा लोगों के दिलों में जगाने में कांग्रेस के नेता सफल हो गये थे। कांग्रेसी नेताओं की सलाह से देशी रियासतों में भी स्थानीय प्रजापरिषदों के मातहत ऐसे आंदोलन शुरू हो गये थे कि जिनसे रियासती प्रजा में भी लोकतंत्र की आशाएँ बनपने लगी थीं। स्वातंत्र्य की इस लगन से तथा निःशस्त्र प्रतिकार की भावना से कांग्रेस को आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, इसके बारे में दूरदर्शी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को भी निश्चय हो गया था।

स्वातंत्र्य और स्वयंनिर्णय के लिए अगर भारत में खुला विद्रोह हुआ तो उसको कुचलने के लिए देशी रियासतें तथा फिरकापरस्त अल्पसंख्यक जमातों की सहायता प्राप्त करने की पूरी कोशिश इंग्लैंड के प्रतिगामी राजनेता कर रहे थे। ऐसे आंदोलन के दौर में भारत का कुछ हिस्सा साम्राज्य के प्रति वफादार बना रहेगा और उसकी सहायता से ऐसे आंदोलन को दबाया जा सकेगा, ऐसा ये राजनेता मानते थे। भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करनेवाली कांग्रेस के हाथ में पूरा हिंदुस्तान न आ जाय, इसलिए अलग-अलग तरीकों को १९३० से ये लोग आजमा रहे थे। देशी रियासतें स्वतंत्र राज्य हैं, उनपर वहाँ के नरेशों का पूरा अधिकार है, चाहे तो वे अपनी शर्तों पर भारतीय संघराज्य में शामिल होंगी और अगर ये शर्तें नरेशों को पसंद न हों तो वे अपनी रियासतों को स्वतंत्र रख सकेंगे या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने की उन्हें स्वतंत्रता होगी, ऐसे आश्वासन देकर उनको भड़काने का रवैया १९३० के पहले से प्रतिगामी ब्रिटिश राजनेता अख्तियार कर रहे थे।

इस तरह का फूट का दूसरा एक विचार पाकिस्तान के नाम से भारतीय राजनीति में १९३० से आगे बढ़ रहा था। जिन प्रांतों में मुसलमान बहुसंख्यक हों, उनका शाही हुक्मत से हमेशा वफादार बनने की इच्छा रखनेवाला, एक स्वतंत्र राज्य बनाने की बात सोची जा रही थी। हिंदुस्तान एक राष्ट्र न होकर उसमें हिंदु और मुसलमान ऐसे दो राष्ट्र हैं, यह भावना जो कि द्विराष्ट्रवाद के नाम से पहचानी जाती है, कुछ लोगों में जगाने के प्रयास किये जा रहे थे। देशी नरेशों को स्वतंत्र रहने के अधिकार बरखश-कर और मुसलमानों में पृथक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करके, उनको अपने प्रति वफादार बनाकर, अंतिम लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीयता को परास्त करने के ख्वाब ये प्रतिगामी ब्रिटिश राजनेता देखा करते थे। प्रांतीय चुनावों को जीतकर आठ प्रांतों के शासन-सूत्र जब कांग्रेस ने हथिया लिये तो ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों की चालों की रफ्तार तेज होती गई। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतिम लड़ाई छेड़ने के लिए कांग्रेस के भंडे के नीचे संगठित पुरोगामी शक्ति उतावली हो रही थी तो दूसरी तरफ देशी नरेशों के अधिकार और मुसलमानों की पृथक राष्ट्रीयता की भावना की दुहाई देकर अपने साम्राज्य की नींव मजबूत बनाने की जी तोड़ कोशिश ये राजनीतिज्ञ कर रहे थे।

अंत में १५ अगस्त १९४७ के दिन ब्रिटिशों के पंजों से पूरा हिंदुस्तान मुक्त हो गया। भारत के सभी प्रांतों और देशी रियासतों से अंग्रेजों ने अपना शासन उठा लिया; लेकिन विदाई के वक्त अपने हाथों में संचित सत्ता को अंग्रेजों ने दो हिस्सों में बाँटकर एक हिस्सा कांग्रेस के हवाले कर दिया और दूसरा हिस्सा अपने वफादार दोस्त मुस्लिम लीग को बरखश दिया। अपना शासन यहाँ से उठाते हुए अंग्रेजों ने एलान कर दिया कि पंजाब तथा बंगाल के मुस्लिम-प्रधान हिस्से, सरहद प्रांत, सिंध तथा आसम का कुछ हिस्सा मिलाकर पाकिस्तान के नाम से एक स्वतंत्र राज्य बनेगा और बचे हुए हिंदुस्तान में भारत नाम का दूसरा राज्य प्रस्थापित होगा। ये दोनों राज्य संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न होंगे और अपनी इच्छा के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध रख सकेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार

देशी रियासतें इन दोनों में से किसी एक राज्य में शामिल हो सकेंगी । ब्रिटेन का न उनपर कोई अधिकार रहेगा और न ब्रिटेन कोई उत्तरदायित्व ही सम्हालेगा ।

इसका अर्थ यह हर्गिज नहीं है कि यहाँ के नरेशों को आज़ादी बख्शकर और हिंदुस्तान व पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बनाकर अंग्रेज खुशी-खुशी यहाँ से विदा होने की बात पहले से सोच रहे थे । वे यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अंग्रेज यहाँ से अपना शासन उठा लेंगे तो देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य पैदा होंगे, जो हमेशा आपस में लड़ते-झगड़ते रहेंगे । अगर यह भावना लोगों में जड़ें जमा सकी तो अपना शासन और मजबूत बनता जायगा, ऐसा उनको लगता था । अपने शासन के पक्ष में समर्थन प्राप्त करने की उनकी यह चाल थी । इन कूटनीतियों को लगता था कि अगर कांग्रेस की पैदा की हुई एकराष्ट्रीयता की भावना में दरारें पैदा करने में सफलता मिल सकी तो यहाँ से अपना शासन उठाने की नौबत ही न आयगी । कम-से-कम भारत को अपने अधीन रखने की अवधि बढ़ाने के लिए इससे एक कारगर बहाना मिल जायगा, ऐसी कल्पना थी जो बहुत समय तक न टिक सकी ।

पहले प्रांतीय चुनावों के बाद केवल दस वर्षों में भारत के कोने-कोने से अंग्रेजों को अपना शासन हटाना पड़ा । आज यद्यपि देश में भारत और पाकिस्तान के नाम से दो राज्य निर्माण हुए हैं, फिर भी सभी रियासतें किसी-न-किसी राज्य में शामिल हो चुकी हैं और बहुतेरी भारत में शामिल हो गई हैं । पाकिस्तान का पहला मसविदा बनाने-वालों ने सोचा था कि कश्मीर पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा बनेगा । लेकिन फिलहाल वह एक मर्यादा में भारत के साथ जुड़ गया है और पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोई उम्मीद नहीं है । अपने भविष्य का निर्णय आखिर में कश्मीर को खुद ही करना है, इस सिद्धान्त को भारत तथा पाकिस्तान ने कबूल किया है । निजाम की रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य का आखरी सहारा माना जाता था, वह भी आज भारत में शामिल हो चुकी है । देशी रियासतों व फिरकापरस्त जमातों को स्वयं-

निर्णय और स्वातंत्र्य के नाम पर खास रियायतें देकर अपने साथ रखने की अंग्रेजों की चाल आज बड़े पैमाने पर वेकार साबित हो चुकी है। जागतिक राजनीति की दृष्टि से भी भारत की आजादी एक महान् क्रांतिकारी घटना है। भारत आज संसार के अन्य अग्रगामी राष्ट्रों की बराबरी का स्थान पा चुका है। इस क्रांतिकारी घटना का श्रेय भारतीय कांग्रेस व उसके नेताओं के साथ-ही-साथ पुरोगामी विचार के अंग्रेज राजनीतिज्ञों को भी दिया जाना चाहिए।

यह जाहिर है कि पूरे हिन्दुस्तान का एक लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने का मकसद पूरा नहीं हो पाया है। हिन्दुस्तान के हिन्दु-मुसलमानों की पिछड़ी सभ्यता, धर्म, राष्ट्र तथा राज्य के बारे में उनके मध्ययुगीन परंपरागत विचार, लोकतंत्र तथा राष्ट्रीयता से बेमेल आचार-विचार और किरका-परस्ती आदि दुर्गुणों-को परास्त करने में हमारे नेताओं को पूरी सफलता नहीं मिली, यह कबूल करना चाहिए। उन्हें दो मोर्चों पर एक ही साथ लड़ना था। एक तरफ निःशस्त्र जनता को साथ में लेकर प्रबल अंग्रेजी शासन से मुकाबला करना था, तो दूसरी तरफ परंपरागत प्रतिगामी विचारों का सामना करना था। ये दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे की सहायता करने-वाली थीं। शासन की बागडोर हाथ में लेकर देश में एकता पैदा करना एक तरह से आसान है; लेकिन हाथ में किसी प्रकार की सत्ता न होने पर और शासक जब एकता की भावना को मिटाने की ताक में हर पल तैयार थे तब, अज्ञानी व दरिद्री जनता में एकराष्ट्रीयत्व की भावना जगाकर, जातीयता तथा धर्म-भेद के भाव मिटाकर अपने अधिकारों के खातिर विदेशी सल्तनत से लड़ने के लिए लोगों को तैयार करना बड़ा मुश्किल था। भारतीय नेताओं की दीर्घ तपस्या का फल है कि कम-से-कम हम सब अंग्रेजों के पंजों से तो छूट सके हैं।

१९३७ में जब प्रांतीय स्वायत्तता मिली तब पाकिस्तान का सवाल इतने विकराल रूप में सामने नहीं था। लेकिन उसके बाद दो ही चार सालों में इस कल्पना ने इतना जोर पकड़ा कि आखिर हारकर हमारे नेताओं को अपनी स्वतंत्रता के साथ-ही-साथ पाकिस्तान को भी कबूल

करना पड़ा। इसके कारणों की छानबीन करना लाभदायक होगा। पाकिस्तान की कल्पना पहले-पहल १९३० में लोगों के सामने आई। उस साल डॉ० मुहम्मद इकबाल की सदारत में मुस्लिम लीग का सालाना जलसा इलाहाबाद में हो रहा था। अपनी तकरीर में, पंजाब, सूत्रा, सरहद, सिंध तथा त्रिलोचिस्तान को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बनाने की माँग उन्होंने की। हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों का एक राज्य, हिंदी संघ-राज्य से मिलाजुला, बनाने की वह माँग है, ऐसा तब माना गया। आज के पूर्व पाकिस्तान के प्रदेश का इस भाषण में त्रिलकुल जिक्र नहीं है। १९३३ में तीसरी गोलमेज-परिषद् के अवसर पर केंब्रिज विद्यापीठ के कुछ विद्यार्थियों ने पाकिस्तान की कल्पना लोगों के सामने फिर रखी। पंजाब, सरहदी सूत्रा, कश्मीर, सिंध तथा त्रिलोचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान नाम का स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कल्पना उसमें थी। लेकिन उस वक्त दिमागी ऐयाशी मानकर उसको किसीने ज्यादा महत्त्व नहीं दिया। १९३३ के अगस्त में मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि-मंडल, पार्लामेंट की ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के सामने बयान देने के लिए इंग्लैंड गया हुआ था। इस मंडल को उकसाने के लिए शायद, उसके नेता से पूछा गया : “कुछ प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान के नाम से उनका एक स्वतंत्र राज्य बनाने की क्या कोई योजना बनाई गई है?” इसपर लीगी नुमाइन्दों ने कहा : “जहाँ तक हम जानते हैं वह केवल कुछ ही विद्यार्थियों की सूझ है। वह ख्याली पुलाव पकाना है, ऐसा हम मानते हैं।” इससे पता चलता है कि तीन करोड़ मुसलमानों के प्रतिनिधि भी उस वक्त पाकिस्तान के बारे में कैसे विचार रखते थे। लेकिन इसके पाँच ही साल बाद देखा गया कि मुस्लिम लीग की सियासत बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान की कल्पना से प्रभावित हो गई। जिन्नासाहब-जैसे लोग, जो पहले कांग्रेस के नेता माने जाते थे, पाकिस्तान के नारे बुलन्द करने लगे।

जातिधर्म-भेदातीत राष्ट्रीय भावना तथा लोकतंत्र—ये दो ध्येय भारतीय जनता के सामने अंग्रेजों की सल्तनत यहाँ कायम होने के पहले थे ही नहीं। ये विचार यहाँ की जनता में फैलाने का काम, उन्नीसवीं शताब्दी

के आरम्भ में, राजा राममोहन राय-जैसे धर्मव समाज के सुधारकों ने शुरू किया। अंग्रेजी लिखे-पढ़े लोगों में इस आंदोलन ने जड़ें पकड़ लीं और इसीके फलस्वरूप १८८५ में कांग्रेस की स्थापना हुई। इस संस्था में हिंदुस्तान के विभिन्न धर्म तथा जातियों के लोग शामिल हो जायें और आधुनिक राष्ट्रीयता के ध्येय के अनुरूप जाति-धर्म-भेदातीत लोकतंत्रात्मक राजनीति को अपने देश में चलायें, यही कांग्रेस के संस्थापकों का ध्येय था। देश में उस वक्त जो उदारमतवादी अंग्रेज थे और इने-गिने अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग थे, उन्होंने इस नये आंदोलन को बढ़ावा दिया। अंग्रेजी पढ़ाई से पहले मुसलमान कुछ हिचकिचाते थे, जिससे अंग्रेजी शिक्षा में वे पिछड़ गये और नये विचारों के संपर्क से अछूते रह गये। फिर भी धीरे-धीरे शिक्षित मुसलमान कांग्रेस के आंदोलन की ओर आकर्षित हो रहे थे और उनकी संख्या भी बढ़ रही थी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन एक मुसलमान नेता न्या० बद्रुद्दीन तय्यबजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। आगे चलकर कांग्रेस आम जनता की संस्था बनने लगी। इसके फलस्वरूप १८९२ में पार्लामेंट ने एक कानून बनाकर धारासभाओं में अप्रत्यक्ष चुनावों से कुछ लोक-प्रतिनिधि चुने जाने का प्रबंध किया।

हिंदुस्तान में बढ़ती राष्ट्रीय भावना तथा लोकतंत्रात्मक राजनीति अंग्रेज-शासकों को बहुत ही अखरती थी। उसको रोकने के लिए सर सय्यद अहमद-जैसे मुसलमान नेताओं को फुसलाना उन्होंने शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन केवल हिंदुओं का है और अगर वह सफल हुआ तो देश में हिंदुओं का राज होगा और मुसलमानों की तहजीब मटियामेट हो जायगी, ऐसी दलीलें मुसलमानों के सामने रखी जाने लगीं। उनका असर मुसलमान नेताओं पर होने लगा। इसके थोड़े समय बाद बंबई, पूना-जैसे स्थानों में हिंदु-मुसलमानों में दंगे हुए। आगे तो यह एक सिलसिला ही बन गया कि जब कभी देश में अंग्रेजों के खिलाफ जोरों का आंदोलन फूट निकलता तब फौरन ही ऐसे दंगे जगह-जगह छिड़ जाते। १९०५ में जब बंग-भंग के खिलाफ स्वदेशी तथा बहिष्कार का आंदोलन शुरू हुआ तब बंगाल में ऐसी वारदातें हुईं। मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने के

लिए यहाँ के प्रतिगामी अंग्रेज अफसर इस तरह की तरकीबें खोज निकालते थे ।

लेकिन इतने से मुसलमानों की पृथक् राष्ट्रीयत्व की भावना ठोस न बन सकी । १९०६ में मोर्ले-मिटो सुधारों का एलान किया गया । उसके अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन-अधिकार दिये गये । इससे पृथक् राष्ट्रीयता की भावना को कानून का सहारा मिल गया और वह जोर पकड़ने लगी । १९१६ में लखनऊ में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ और पहले महायुद्ध के बाद स्वराज्य के जिन अधिकारों की मांग कांग्रेस कर रही थी, उनको मुसलमानों की अनुमति भी प्राप्त हुई । ऐसा समझौता कराने में लो० तिलक तथा जिन्ना साहब ये दो कांग्रेसी नेता प्रमुख थे । इस समझौते में मुसलमानों का पृथक् निर्वाचन का अधिकार मंजूर कर लिया गया । पहले युद्ध के बाद माटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों का एलान किया गया, जिसमें साफ तौर से बताया गया था कि पृथक् निर्वाचन का तत्त्व एकराष्ट्रीयत्व तथा लोकतंत्र के विकास में बाधा पहुँचानेवाला है ! फिर भी मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के समझौते का हवाला देकर उसको नये सुधारों में जोड़ दिया गया; लेकिन समझौते में जिस राजनीतिक सत्ता की माँग दोनों ने मिलकर की थी, उसको मंजूर नहीं किया गया । मुसलमानों को दिये गए पृथक् निर्वाचन-अधिकार से होनेवाले परिणामों का अंदाजा १९३७ में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना होने तक कोई न लगा सका । पृथक् निर्वाचन का अधिकार अगर मुसलमानों को न दिया जाता तो फिरकापरस्त राजनीति की आग इतनी भभक न उठती ।

१९३७ में जिन आठ प्रांतों में कांग्रेस ने शासनाधिकार हाथ में लिये, उनमें से सात प्रांतों के मंत्रिमंडलों में मुसलमान मंत्री लिये गये थे; लेकिन वे सब कांग्रेसी थे । मंत्रिमंडल के सदस्य सामुदायिक रूप में धारासभा से उत्तरदायी होते हैं, अतः उनकी सफलता की दृष्टि से एकपक्षीय मंत्रिमंडल सुविधाजनक साबित होता है । जब धारासभा में किसी भी एक दल को निर्विवाद बहुमत प्राप्त नहीं होता, तभी दो या अधिक दलों को मिलकर मंत्रिमंडल बनाना पड़ता है । लेकिन ऐसे संयुक्त मंत्रिमंडल अपना कारो-

चार एक ही ध्येय से चलाने में सफल नहीं हो पाते । कांग्रेस ने शासन की बागडोर सम्हाली तब उसको बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त था, अतः दूसरे पक्षों से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं थी । उसने अपने ही बल-पर मंत्रिमंडल बनाये थे । उस वक्त राज्य में गवर्नर तथा उसके मातहत काम करनेवाले अधिकारी कांग्रेस-मंत्रिमंडलों के कारोबार में रोड़े अटकाने की फिक्र में सदा रहते थे । उससे एक तरफ मंत्रिमंडलों को लड़ना था तो दूसरी तरफ केन्द्रीय शासनाधिकार पाने के लिए आंदोलन की तैयारी करनी थी । ऐसी अवस्था में, जिन दलों की आनेवाले आंदोलनों में साथ देने की संभावना नहीं थी, ऐसे दलों के लोगों को अपने मंत्रिमण्डलों में लेकर उनकी दलगत राजनीति को अवसर देने के लिए कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता कभी तैयार नहीं हो सकते थे । लेकिन अल्पसंख्यक मुसलमान जमात पर वे अन्याय भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए मंत्रिमंडलों में एक-एक मुसलमान मंत्री भी ले लिया गया था । मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से ही मुसलमान मंत्री ले लिया जाय, ऐसा मुस्लिम लीग का आग्रह था, जिससे कांग्रेस सहमत न थी । मुसलमानों के लिए सुरक्षित बहुसंख्य सीटों पर मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों ने अनेक प्रांतों में कब्जा कर लिया था, फिर भी उनको मंत्रिमंडलों में स्थान न मिला, जिससे लीगी नेता कांग्रेस से चिढ़ गये और उसके खिलाफ वेबुनियाद इल्जाम लगाने लगे । कांग्रेस मुसलमानों को व इस्लाम धर्म तथा संस्कृति को दबाकर हिंदु-राज्य की प्रस्थापना करना चाहती है, ऐसा प्रचार उन्होंने शुरू किया । अंग्रेज गवर्नर चाहते थे कि सत्ता हथियाकर जिस क्रांतिकारी आंदोलन की कांग्रेस तैयारी करना चाहती है उसमें मुसलमान न मिलें और उस वक्त अंग्रेजों का साथ दें । कांग्रेस मुस्लिम लीग के मंत्रियों को लेकर अपने हाथ कम-जोर बनाती तो वे खुश हो जाते । कांग्रेस का मुस्लिम लीगियों को मंत्रिमंडल में न लेना उनको अखरा तो जरूर; लेकिन वैधानिक दृष्टि से वेचारे लाचार थे, कुछ नहीं कर सकते थे । अल्पसंख्यकों के हितरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नरों पर थी और उसके लिए अपने खास अधिकारों का वे उपयोग भी कर सकते थे; लेकिन लीगी प्रतिनिधियों को मंत्रिमण्डल में लेने के लिए

वे कांग्रेस को मजबूर नहीं कर सकते थे ।

मुस्लिम लीगियों को मंत्रिमंडल में न लेना अल्पसंख्यकों पर जुल्म दाना है, ऐसी बकवास कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेसी मुसलमान मंत्रिमंडलों में थे ही । कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अल्पसंख्यक जमातों पर कोई जुल्म किया होता तो गवर्नर अपने खास अधिकारों का जरूर प्रयोग करते, चुप न बैठे रहते । कांग्रेसी नेताओं ने यह मंजूर किया था कि अल्पसंख्यकों पर किसी तरह का जुल्म होने पर अगर मंत्रिमंडलों के काम में गवर्नर दखल देगा तो कांग्रेस उसका प्रतिवाद नहीं करेगी । इसलिए जबतक वास्तव में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय न होता तबतक, लीगियों के नारों के बावजूद भी गवर्नर मंत्रिमंडलों के काम में दखल नहीं दे सकते थे । कांग्रेस ने धर्मभेदातीत राष्ट्रीय वृत्ति से व लोकतंत्रात्मक ढंग से शासन-यंत्र चलाया । इसका यह सवृत था कि लीगियों के नारों के बावजूद हिन्दुस्तान में कहीं भी गवर्नर ने कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के कारोबार में जरा भी दखल न दिया । महायुद्ध शुरू होने पर अपने तत्त्व की रक्षा के लिए जब कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिये, तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति-दिन मनाया और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया । उस वक्त कांग्रेस ने चुनौती दी कि अगर कांग्रेस के शासन के खिलाफ किसी को शिकायत हो तो ब्रिटिश गवर्नरों को चाहिये कि वे सवृत देकर उसकी ताईद करें । कांग्रेस की इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया । हिंदू-राज्य की स्थापना करके इस्लामी तहजीब को दबाने की कोशिश करने के जो इल्जाम कांग्रेस पर लगाये गये थे वे कभी भी सिद्ध नहीं हुए ।

पृथक् निर्वाचन-अधिकार मुसलमानों को मिल जाने के कारण उनको चुनाव जीतने के लिए अन्य जाति के मतदाताओं के मतों की सहानुभूति की कोई आवश्यकता ही न रही । इससे हिन्दु-मुसलमान आदि भेदों को न माननेवाले राष्ट्रीय मुसलमानों के लिए मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव जीतना दुश्वार हो गया । साथ-ही-साथ ब्रिटिश हाकिम और सरकारी बर्ताव हमेशा राष्ट्रीय मुसलमानों के खिलाफ ही रहा । आधुनिक

शिक्षा के संपर्क से मुसलमान अछूते रहे और धर्मनिष्ठा तथा राजनीति को एकरूप समझने की मध्ययुगीन प्रवृत्ति उनमें वैसी ही कायम रही । हिंदू समाज में अलग-अलग जमातें होने से उसकी धर्मनिष्ठा राष्ट्रीयता के विकास में काम देने की क्षमता नहीं रखती थी । साथ-ही-साथ हिन्दू राष्ट्रीय नेताओं ने जातिधर्म-भेदातीत आधुनिक राष्ट्रीय वृत्ति अपने समाज में फैलाने की जानवृत्तकर काफी कोशिशें की, वैसी कोशिश मुसलमान नेताओं ने नहीं की । हिन्दू समाज में जिस तरह के सुधार-आंदोलन हुए वैसे मुसलमानों में नहीं हुए । मुसलमानों में जागृति लाने का काम आमतौर पर ऐसे नेताओं ने किया, जो अपने को अल्पसंख्यक जमात मानते थे और डरते थे कि हिन्दुओं के आक्रमण से शायद इस्लाम को हानि पहुँचे ! कुछ लोग ऐसे थे जो पुरानी मुसलमानी बादशाहत की डींग हाँकते थे । इसके फलस्वरूप मुसलमानों में धर्मभेदातीत राष्ट्रीय वृत्ति न फैल सकी । पृथक्-निर्वाचन-अधिकार मिलने से यह फूट का पौधा दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ने लगा । जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे वहाँ की धारासभाओं में यद्यपि मुस्लिमों के लिए सुरक्षित करीब सभी जगहों पर लीग के प्रतिनिधि चुन आते थे, फिर भी मुस्लिम लीगियों की संख्या धारासभाओं में हमेशा अल्प ही रही । सिर्फ सिंध और सरहद प्रांत ये ही ऐसे दो सूबे थे कि जहाँ मुसलमानों की संख्या अन्य जमातों से ज्यादा थी और जहाँ की धारासभाओं में मुसलमान प्रतिनिधि बहुमत में थे । लेकिन सरहद प्रांत के चुनावों में कांग्रेसी मुसलमान बहुसंख्या में चुनाव जीत सके थे और वहाँ कांग्रेस का मंत्रिमंडल बन गया था । सिंध प्रांत में अल्लावद्दुल्ला के नेतृत्व में अपने अनुकूल मंत्रिमंडल बनाने में कांग्रेस सफल हो गई थी । पंजाब तथा बंगाल में हिंदु-मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या करीब-करीब समान थी और वहाँ मुसलमान पक्षों के हाथों में सत्ता होने पर भी मुस्लिम लीग को सत्ता नहीं मिल सकी थी । इस तरह सारे देश के एक प्रांत में भी मुस्लिम लीग-मंत्रिमंडल नहीं बन सका था । पृथक्-निर्वाचन-अधिकार और मुसलमानों की पृथक् राष्ट्र-भावना पर ही मुस्लिम लीग का आधार था और ऐसे फिरकापरस्त राजनैतिक दल को लोकतंत्रात्मक तरीकों

से किसी सूत्र में अपने दल का मंत्रिमंडल बनाना असंभव था ।

प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर बने मंत्रिमंडल कायम होते ही, मुसलमान नेताओं को चाहिये था कि वे अपने फिरकापरस्त दल को तोड़कर तत्त्वनिष्ठ राजनैतिक दल को कायम करते । इसके बगैर किसी भी प्रांत में अपनी खुद की ताकत पर मंत्रिमंडल कायम करना उनके लिए असंभव था । लेकिन यह सबक सीखने के बजाय अपनी फिरकापरस्त राजनीति को जारी रखने के लिए अंग्रेजों की सहायता से हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बाँटकर एक टुकड़ा मुसलमानों के लिए अलग से प्राप्त करने का मकसद उन्होंने अपने सामने रखा ।

भारत में हिंदु तथा मुसलमान धर्मों को माननेवालों की तादाद यद्यपि ज्यादा है, फिर भी अल्पधर्मावलंबी काफी लोग यहाँ बसे हुए हैं । हिंदुस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ केवल हिंदुओं या केवल मुसलमानों की बस्ती हो । इसलिए इस देश के दो विभाग किसी भी तरह से क्यों न किये जायँ, दोनों विभागों में कमोवेश मात्रा में दोनों धर्म के लोग रहेंगे ही । ऐसी हालत में दोनों राज्यों के सामने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा वह (राज्य) उनको अपना मालूम हो, ऐसी परिस्थिति पैदा करने का सवाल खड़ा होने ही वाला था । इस दृष्टि से देखने पर यह बात साफ हो जाती है कि हिंदु और मुसलमानों के अलग-अलग राष्ट्र मानने से देश की कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती थी ।

विवेकपूर्वक स्वीकृत की हुई अपनी धर्मभेदातीत राष्ट्रीयता की भावना को आखिर तक कांग्रेस ने प्रज्वलित रखा और अंग्रेजी प्रभुत्व के स्थान पर भारतीय जनता के प्रभुत्व को स्थापित किया । अपने इस अखिल भारतीय धर्म-भेदातीत संगठन के आधार पर भारत की विधान-परिषद् को सफल बनाकर इस दल ने देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की । मुस्लिम लीग से समझौता करने के मोह से कांग्रेस ने अपने को बचाया और भविष्य की इन गौरवशाली घटनाओं को जन्म देने की क्षमता उसने पाली । मुस्लिम लीग के अविवेकी प्रचार से अभिभूत होकर हिंदू-राष्ट्रवाद को स्वीकार करने के मोह से भी वह अपने को बचा सकी;

क्योंकि हिंदु और मुसलमानों का अलग-अलग राष्ट्र माननेवाला सिद्धांत उसको भूठा लगता था । हिंदु-मुसलमानादि सत्र धर्मों का एक राष्ट्र स्थापित करने से ही भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा और आधुनिक सुसंस्कृत राष्ट्र के नाते वह प्रतिष्ठित हो सकेगा, यह निष्ठा आधुनिक भारत के भावी की ठोस नींव है । आज भले ही भारत और पाकिस्तान ये दो राष्ट्र इस देश में बन गये हों ; लेकिन अपनी राष्ट्रीयता का यह अधिष्ठान भारत ने कायम रखा है । अपनी धर्मविशिष्ट राष्ट्रीयता को आज या कल पाकिस्तान को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि उसके वगैरे आधुनिक संसार में सुसंस्कृत तथा पुरोगामी राष्ट्रों में उसकी गणना नहीं हो सकेगी, न वहाँ की मुसलमान जनता का भला होगा ।

हिंदुस्तान में अलग-अलग धर्मानुयाई व अलग-अलग भाषाभाषी लोग सदियों से एकसाथ बसे हुए हैं, जिससे धर्मभेदातीत राजनीति भी पुराने काल से यहाँ चली आई है । ध्यान में रखना चाहिये कि ऐसी अनेकानेक भाषाएँ बोलनेवाले तथा विभिन्न धर्म के लोगों का सैकड़ों-हजारों सालों का इतिहास घनघोर लड़ाइयों का इतिहास नहीं है, न अलग-अलग राजाओं ने एक-दूसरे के खिलाफ जो षड्यंत्र किये, उनका इतिहास है । इतिहास का इस तरह संकुचित अर्थ नहीं लेना चाहिए । सदियों से हिंदु-मुसलमान परिवार यहाँ के देहातों में पड़ोसियों की तरह रहे हैं । यहाँ का इतिहास देहातों में फैले इन हजारों-लाखों परिवारों के दैनंदिन आपसी व्यवहारों से बना है । जब हम इस व्यापक दृष्टि से इतिहास का आकलन करेंगे तब पता चलेगा कि इस प्रचंड राष्ट्र में जो धर्म-भावना फैली है, उसको सर्वसंग्राहक तथा सर्वसहिष्णु प्रेमभावना का रूप मिल चुका है । इस देश में जो संत-महात्मा पैदा हुए, उन सबने धर्म की विविधता में एकत्व देखने का संदेश अपने चारित्र्य के उज्ज्वल उदाहरण से जनता के हृदय पर अंकित कर रखा है । यहाँ जो धार्मिक तथा आध्यात्मिक दर्शन-निर्माण हुआ, वह सब तरह के विचार-स्वातंत्र्य को अवकाश देता है । साथ-ही-साथ शुद्ध तत्त्वनिष्ठा से सत्यसंशोधन करने-वालों ने जो भी तत्त्वज्ञान खोज निकाले, उनके हर एक के बारे में समु-

चित आदर रखकर, उसमें जो सत्यांश हो, उसको अपना देने का उपदेश वह देता है। जीवन का सत्य किसी एक वैचारिक सिद्धांत या संप्रदाय में समाया हुआ नहीं होता, यह वृत्ति यहाँ के निवासियों में दीर्घ-कालीन इतिहास से जड़ें जमा चुकी है। यही वजह है कि आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीयत्व पैदा हुआ, वह किसी संकुचित धर्माभिमान, भाषाभिमान या इतिहास की कल्पना पर अपना आधार नहीं रखता। विशिष्ट धर्म या विशिष्ट भाषा सबसे श्रेष्ठ और परमेश्वर को अधिक प्रिय है, या उसका स्वीकार किये बगैरे मानव अपने जीवन को कभी सफल बना नहीं सकेगा या मुक्ति या आत्मिक शांति के लिए किसी विशिष्ट धर्म या भाषा का स्वीकार करना अनिवार्य है, ऐसे संकुचित धर्म-विचारों का विरोध करने-वाले अनेक संत-महात्मा इस देश में हो चुके हैं। उनके हृदय में जो विश्वात्मक प्रेम-भावना का धर्म था, उसीके आधार पर हमारे नेताओं ने आधुनिक भारत का निर्माण किया है।

सहिष्णु तथा सर्वव्यापक मानव-धर्म के या सर्वधर्म समभाव के आधार पर राज चाहनेवाले राज्यकर्ता यहाँ हो चुके हैं। अशोक, अकबर और शिवाजी-जैसों की राजनीति भारत की आनेवाली पीढ़ियों के लिए सदा पथप्रदर्शन का काम करेगी। औरंगजेब-जैसे तंगदिल धर्म-निष्ठ की राजनीति को भारत के इतिहास की अनुकरणीय बात नहीं माना जायगा। इतिहास में भली-बुरी बातें भरी रहती हैं; लेकिन उनमें से भली बातें चुनकर उनका अभिमान रखना और बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। अपनी स्वतंत्र बुद्धि से अपने कर्तव्य के बारे में निर्णय करके अपनी परिस्थिति के अनुकूल और आनेवाली पीढ़ियों को प्रेरणा देनेवाला इतिहास बनाना, यही इतिहास के अध्ययन का सही उपयोग है। प्रत्येक पीढ़ी को नये इतिहास का निर्णय करना पड़ता है और नूतने जमाने के श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्रों में से स्फूर्ति लेनी पड़ती है। जो गलतियाँ उनसे हुईं, उनको टालकर उनके अच्छे कामों का अनुकरण करना होता है। उनके जो ध्येय अधूरे रहे हों और उस वक्त जो ध्येय उनके दृष्टि-पथ में न आये हों, ऐसे ध्येयों को अपनाकर उन्हें साकार करने की कोशिश करनी पड़ती है।

इसी दृष्टि से पुराने इतिहास की घटनाओं से सबक सीखकर आधुनिक भारत के निर्माताओं ने अपनी राष्ट्रीयता का विकास किया है।

कुछ लोग ऐसे हैं, जो एकराष्ट्रीयत्व की दृष्टि रखनेवालों के विचारों से सहमत नहीं हैं। हिंदु व मुसलमान ये दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, ऐसा वे मानते हैं। इनमें से कोई एक ज़बतक पूरी तरह से हार नहीं जाता तब तक यह झगड़ा मिटना उनको असंभव-सा लगता है। उन्हें अगर एक ही देश में रहना है तो एक की प्रभुता को दूसरा या तो स्वयं मान ले या उसके लिए वह मजबूर किया जाय, उसके सिवा इन दो धर्मों के लोग यहाँ एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे, ऐसी द्विराष्ट्रवादियों की दृष्टि है। भेद-दृष्टि से सोचते रहने के कारण हिंदु तथा मुसलमान धर्म की ओर समान दृष्टि से देखने की वृत्ति उनकी समझ में नहीं आती।

मुस्लिम लोग ने जब इस भेद-दृष्टि का पल्ला पकड़ा और द्विराष्ट्रवाद को स्वीकार करके कांग्रेस की नीति पर टीका करने लगे तब उसको कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम के पीछे हिंदुओं का वर्चस्व प्रस्थापित करने का हेतु नजर आने लगा। ऐसी ही भेद-दृष्टि से जब हिंदु-राष्ट्रवादी कांग्रेस के राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की ओर देखते तब कांग्रेस के हर एक कार्यक्रम में उन्हें मुसलमानों का पक्षपात दिखाई देता। राजनैतिक सत्ता के बंटवारे के लिए द्विराष्ट्रवादियों ने जो झगड़ा उठाया वह धर्म, भाषा, इतिहास, संस्कृति-आदि जीवन के सभी अंगों तक फैल गया। ब्रिटिश शासन को मुस्लिम-राष्ट्रवाद के लिए जितना पक्षपात था उतना हिंदु-राष्ट्रवादियों के लिए नहीं था, जिससे हिंदु-राष्ट्रवाद ज्यादा पनपने नहीं पाया। मुस्लिम-राष्ट्रवाद अज्ञानी मुसलमान जनता में वेरोकटोक फैलता रहा। पूरे देश में अगर एक ही राज्य प्रस्थापित होता है तो उसका विधान कैसा क्यों न बने और प्रांतीय राज्यों को तथा अल्पसंख्यक मुसलमानों को कितनी ही सहूलियतें और संरक्षित अधिकार क्यों न दिये जायें, फिर भी केंद्रीय सरकार का बहुसंख्यक हिंदु समाज के प्रति उत्तरदायी होना अनिवार्य था, और वैसा होना मुसलमानों के लिए हानिकर है, ऐसी भावना उनमें पैदा करना और बढ़ाना आसान था। साथ-ही उस समाज

के धार्मिक और ऐतिहासिक अहंकार को जगाकर बढ़ावा देना और पाकिस्तान की प्रस्थापना के बगैर आराम न करने का जोश उनमें भड़काना कठिन नहीं था। इस भदेमूलक वृत्ति को रोकने के प्रयत्न शासकों ने कदापि नहीं किये उलटे उसको प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन ही दिया।

१९३६ के सितंबर मास में दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ। लार्ड लिनलिथगो उस समय वाइसराय का पद सम्हाल रहे थे। उन्होंने किसी भारतीय नेता से या ग्यारह प्रांतों में शासनसूत्र सम्हालनेवाले किसी मंत्रिमंडल से पूछे बगैर ही एलान कर दिया कि अंग्रेजों की तरफ से हिंदुस्तान महायुद्ध में शरीक हो गया है। यह बात हिंदुस्तान के स्वातंत्र्य तथा स्वयंनिर्णय के अधिकारों को क्षति पहुँचानेवाली थी। कांग्रेस ने माँग की कि अंग्रेज अपने युद्ध-उद्देश्य जाहिर कर दें और अगर लोकतंत्र तथा राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की रक्षा करना ही उनका ध्येय हो तो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को फौरन कबूल कर लें। अगर जंग के जारी होने के कारण नया विधान अमल में लाना असंभव मालूम होता हो तो कम-से-कम केंद्र में फौरन भारतीय नेताओं का मंत्रिमंडल स्थापित करके उसकी सलाह मानकर यहाँ का कारोबार चलाया जाय। लेकिन ब्रिटिश राजनीतिज्ञ उस समय इन माँगों को कबूल करके हिंदुस्तान को स्वातंत्र्य और स्वयंनिर्णय का हक देने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए आठ प्रांतों के शासनसूत्र सम्हालनेवाले कांग्रेस-मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिये। जिस युद्ध के हेतु साफ न हों ऐसे युद्ध में कांग्रेस योग नहीं देगी और जनता को चाहिये कि वह भी योग न दे, ऐसा प्रचार कांग्रेस ने शुरू किया।

कांग्रेस के बल को तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग पर अंग्रेज अपना साया डालने लगे। मुसलमान-समाज की अनुमति के बिना कोई भी विधान हिंदुस्तान में नहीं बनने दिया जायेगा, ऐसा उन्होंने एलान कर दिया और देशी नरेशों को अपने साथ रखने के लिए पुचकारने की नीति जाहिरा तौर पर अख्तियार की। इससे मुस्लिम नेताओं को विश्वास हो गया कि अगर हम आपस में मिलकर लीग की तरफ से अंग्रेजों से कोई माँग करेंगे तो वह जरूर मिल जायगी। इसी वजह से पंजाब के सर

सिकंदर हयात खाँ, बंगाल के फजलुल हक तथा आसाम के मुहम्मद सादुल्ला के नेतृत्व में जो दल शासन की बागडोर सम्हाले थे, मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। १९३० के फरवरी मास में जिन्ना साहब ने खुल्लमखुल्ला पाकिस्तान का ध्येय मंजूर कर लिया और अगले महीने में कराची में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ, उसने भी उसपर मुहर लगा दी। पहले पंजाब तथा बंगाल में मुस्लिम लीग पक्ष की कोई हस्ती नहीं थी; लेकिन अब वहाँ के मुसलमान नेता पाकिस्तान के प्रचारक बन गए। फिर भी इन दो प्रांतों में हिंदु तथा मुसलमानों की तादाद करीब-करीब बराबर होने के कारण वहाँ की धारासभाओं के सिर पाकिस्तान का ध्येय मढ़ना असंभव हो गया।

पाकिस्तान में देश के कौन-से हिस्सों का समावेश होगा, उसकी सीमाएँ कैसे तय की जायँगी, उन सीमाओं के बाहर जो हिंदुस्तान बचेगा, वहाँ कितने मुसलमान रहेंगे और उनका भवितव्य क्या होगा, इसके बारे में साफ-साफ बात करने के लिए मुस्लिम लीग के नेता तैयार नहीं थे। अगर इसके बारे में वे तभी खुलासा करते तो उनको यह कबूल करना पड़ता कि पाकिस्तान में बहुत थोड़ा भूभाग चला जायगा और उसमें जितने मुसलमान बसेंगे, करीब उतने ही मुसलमानों को बाकी हिस्से में रहना होगा। मुस्लिम जनता को यह भी मालूम होता कि पूरा पंजाब तथा पूरा बंगाल पाकिस्तान में दर्जित शामिल न हो सकेगा। साथ ही पाकिस्तान एक अखंड मुल्क न बनकर उत्तर पश्चिम कोने में और हजारों मील की दूरी पर पूरब में बँटा रहेगा। अगर इस तरह का एक पूरा चित्र लोगों के सामने रखा जाता और उसके बारे में मुसलमानों की सही राय ली जाती तो मुसलमान जनता और उसके अगुआ इसे जरूर ठुकरा देते। जिन्ना साहब इस बात को जानते थे और इसीलिए पाकिस्तान का पूरा ढाँचा उन्होंने लोगों के सामने कभी नहीं रखा। जून १९४७ में आज के पाकिस्तान की कल्पना को जिन्ना साहब ने मंजूर कर लिया; लेकिन उसके कुछ ही दिन पहले तक वे पूरा पंजाब, पूरा बंगाल तथा आसाम पाकिस्तान में मिलाने एवं पूर्वी पाकिस्तान को जोड़नेवाले मुल्क की भी माँग

करते थे। देशी नरेशों को स्वातंत्र्य तथा स्वयंनिर्णय के जो अधिकार अंग्रेजों ने दिये थे, उससे मुसलमान नेताओं को अंत तक लग रहा था कि दक्खिण का निजाम-राज्य हमेशा मुसलमानों का राज ही बना रहेगा। इस तरह अगर हिंदुस्तान के तीन विभागों में तीन बड़े इस्लामी राज कायम हो सके और उनमें एकता कायम की जा सकी तो हिंदुस्तान को इस्लामी सभ्यता का एक बड़ा राष्ट्र बनाया जा सकेगा, ऐसे ख्यात्र मुसलमान देखा करते थे और पाकिस्तान की हिमायत करने में उन्हें गौरव मालूम होता था। ये सब निरी अवास्तव कल्पनाएँ हैं, इन्हें व्यवहार में उतारना विलकुल असंभव है, ऐसा अंग्रेज चाहते तो अधिकृत रीति से मुसलमानों को बता सकते थे। लेकिन न अंग्रेज और न मुस्लिम लीग के नेता ही ऐसा करना चाहते थे। पाकिस्तान की प्रत्यक्ष प्रस्थापना होने तक उसका पूरा ढाँचा मुसलमान जनता या संसार के सामने कभी अधिकृत रूप में न रखा गया। पूरा-पूरा स्वरूप मालूम न होने के कारण पाकिस्तान के नारों के जाल में मुसलमान जनता धीरे-धीरे फँसती गई। १९४० में लार्ड लिनलिथगो ने एलान कर दिया कि जिससे अल्पसंख्यक सहमत न हों और जिसमें देशी नरेशों के साथ अंग्रेजों के लिए समझौतों को और उनसे प्राप्त अधिकारों को कबूल न किया गया हो, ऐसे किसी विधान को ब्रिटेन अपनी अनुमति कभी नहीं देगा। १९४५ के प्रारंभ में क्रिप्स साहब स्वातंत्र्य तथा स्वयंनिर्णय के तत्त्व हिंदुस्तान में युद्ध के बाद लागू करने का वादा करनेवाली योजना लेकर भारत में आये, तबतक किसीको पता नहीं था कि पाकिस्तान के ध्येय को अंग्रेज किस बूते पर और कितनी हद तक मंजूर करेंगे।

१९४० से १९४१ के अंत तक युद्ध-विरोधी प्रचार करने के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन चलाया, जिसमें सारे भारत से करीब २५ हजार सत्याग्रही जेल में गए। इससे ब्रिटेन के दोस्तों—खासकर चीन तथा अमरीका को—पता चला कि ब्रिटिश हुकूमत को युद्ध-काल में सहयोग देने के लिए भारतीय जनता तैयार नहीं है। इधर जर्मनी की तरफ से जापान भी युद्ध में कूट पड़ा और देखते-देखते ब्रह्म देश की

और लपका । ऐसे अवसर पर हिंदुस्तान की वाजिब माँगों को पूरा करके जनता से सहयोग प्राप्त कर लेने की सलाह चीन तथा अमरीका ने अंग्रेजों को दी । इसी दबाव के कारण अंग्रेजों ने क्रिप्स साहब को भेजा । हिंदुस्तान में स्वातंत्र्य और स्वयंनिर्णय के तत्त्व किस दंग से अंग्रेज लागू करना चाहते हैं, इसका क्रिप्स साहब के साथ भेजा योजना में स्पष्टीकरण किया गया था ।

इस योजना के अनुसार भारत के हर एक प्रांत और रियासत में स्वातंत्र्य और आत्मनिर्णय के तत्त्व लागू करने की चेष्टा की गई थी । इससे हिंदुस्तान में अनेक संयुक्त राज्य स्थापित हो सकते थे । ब्रिटिश साम्राज्य से मिल-जुलकर रहने की आजादी भी प्रांतों को दी गई थी ! स्वयंनिर्णय के अधिकार जिस दंग से दिये थे, इससे संभव था कि भारत अनेक टुकड़ों में बँट जाता । रियासतों की प्रजा को नहीं, बल्कि नरेशों को आत्मनिर्णय के हक दिये गये थे । सच कहा जाय तो यह लोकशाही एवं स्वयंनिर्णय की विडंबना मात्र थी । ये अधिकार भी युद्ध के खतम होने पर मिलनेवाले थे । भविष्य के इस आश्वासन पर भरोसा रखकर भारतीय जनता तथा भारत के सभी पक्ष और देशी नरेश महायुद्ध में अंग्रेजों के हाथ बटाने के लिए वाइसराय के कार्यकारी मंडल में शामिल हों, ऐसी आशा रखी गई थी । वाइसराय के कार्यकारी मंडल के सदस्य बननेवाले नेताओं को मंत्रिमंडल के अधिकार और दर्जा देने के लिए भी ब्रिटिश राजनेता तैयार न थे । कांग्रेस की माँग थी कि भविष्य के आश्वासनों के साथ वाइसराय के कार्यकारी मंडल को मंत्रिमंडल का दर्जा फौगन दे दिया जाय । इस माँग को कबूल कर लिया होता तो शासनसूत्र अपने हाथ में लेकर युद्ध का संचालन करने की जिम्मेदारी उठाने को कांग्रेस तैयार हो जाती । अगर कांग्रेस के हाथों में सत्ता देने के लिए किसी को उज्र होता तो चाहे जिसके हाथ में सरकार सत्ता सौंप देती उसके लिए कांग्रेस तैयार थी । उसका कहना इतना ही था कि जो मंत्रिमंडल बनेगा उसको जनता की प्रतिनिधि-सभा के सामने उत्तरदायी रहना होगा । यह माँग मंजूर न हुई, अतः कांग्रेस ने इस योजना को

टुकराया । अन्य पक्षों ने भी अपनी-अपनी दलीलें देकर इस योजना को अस्वीकृत किया और क्रिप्स साहब का मिशन असफल रहा ।

क्रिप्स-मिशन से यह साफ हो गया कि पूर्ण स्वातन्त्र्य, स्वयं-निर्णय तथा विधान-परिषद् की माँग अव्यवहार्य या अवास्तविक न थी और ब्रिटिश सरकार उसको मंजूर कर सकती थी । तब अन्य पक्षों ने भी अपनी राजनीति में इन तीनों तत्वों को सम्मिलित किया । ब्रिटेन जब अपना शासन यहाँ से हटायेंगा तब यहाँ एक ही राज्य बनाने का उसका आग्रह होगा और देश का विभाजन करनेवाली किसी भी योजना को मंजूर नहीं किया जायगा, ऐसा जिनका विश्वास था उनको क्रिप्स साहब के दौत्य से बड़ी ठेस पहुँची ; क्योंकि देश के दो ही नहीं, अनेकानेक टुकड़े करने के बीज इस योजना में छिपे पड़े थे । ब्रिटिश लोग लोकतंत्र के हामी हैं अतः उन्होंने स्वयंनिर्णय का तत्त्व स्वीकार किया ; लेकिन देशी रियासतों में स्वयंनिर्णय का तत्त्व लागू करते समय यह अधिकार रियासतों की प्रजा को न देकर नरेशों को दिया गया, इससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । प्रांतों को स्वयंनिर्णय के अधिकार देने का बहाना करके मुसलमानों को खुश करने की उनकी नीति थी; लेकिन कम-से-कम उसमें लोकतंत्र का आधार मिल सकता था । देशी नरेशों के बारे में उन्होंने जो रुख रखा उसको किसी भी तरह का नैतिक बल मिलना कठिन था । क्रिप्स-मिशन से यह भी साफ हो गया कि युद्धकाल में किस तरह का परिवर्तन करने के लिए ब्रिटेन तैयार नहीं है । वाइसराय के कार्यकारी मंडल में सब हिंदी सदस्य रखने के लिए वे तैयार थे, लेकिन भारतीय जनता के प्रति उत्तरदाई मंत्रिमंडल बनाने की उनकी तैयारी नहीं थी । इसके लिए उनकी दलील यह थी कि उनकी इच्छा के बावजूद वे ऐसा नहीं कर सकते; क्योंकि मुस्लिम लोग इस बात को मंजूर नहीं करती । ब्रिटिश सरकार के रुख को देखकर अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस को भी यह जाहिर करना पड़ा कि यद्यपि हिंदुस्तान को अखंड रखना उसका ध्येय है, फिर भी अगर देश के किसी हिस्से के लोगों ने उसमें न रहने का बहुमत से अधिकृत रूप में फैसला कर लिया तो उनको देश के साथ जुड़े

रहने पर मजबूर नहीं किया जायगा। लेकिन इसका भी कोई असर न हुआ।

क्रिप्स साहब के साथ की समझौते की वातचीत विफल होते देख कांग्रेस ने लड़ाई छोड़ने की ठान ली। ८ अगस्त १९४२ के दिन गांधीजी के नेतृत्व में पूर्ण स्वातन्त्र्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रह-संग्राम करने का प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। उसी रात को सरकार ने म० गांधी प्रभृति कांग्रेस-नेताओं तथा उनके हजारों अनुयायियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया और आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए सब तरह के साधनों से काम लेना शुरू किया। ब्रिटिशों के इस बर्बरतापूर्ण वर्ताव से सारे देश में आंदोलन की प्रचंड आग भभक उठी। चारों ओर 'अंग्रेजों, सत्तनत छोड़कर चले जाओ' के नारे गूँजने लगे। १९४४ में बीमारी के कारण गांधीजी को रिहा किया गया। तबतक आंदोलन किसी-न-किसी रूप में चलता रहा।

गांधीजी ने कुछ तन्दुरुस्त होने के बाद स्वातन्त्र्य की गुर्था सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार तथा मुस्लिम लीग से वातचीत शुरू की। सितम्बर १९४४ में वे जिन्ना साहब से बंबई में मिले। पन्द्रह रोज तक उनमें वातचीत चली। जिन्ना साहब द्विराष्ट्रवाद के उसूल को गांधीजी से कबूल करवाना चाहते थे। पाकिस्तान मंजूर किये बगैर वातचीत चलाना जिन्ना साहब बेकार समझते थे। गांधीजी कहते थे कि इस सिद्धांत को कबूल करना असंभव है। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में भले ही दो राज्य बन जायँ; लेकिन उनमें से हर एक राज्य में हिंदू तथा मुसलमान दोनों जमातों के लोग रहेंगे और इसलिए धर्मविशिष्ट राष्ट्रियता का अग्रह रखना गलत है। वे यह भी कहते थे कि हिंदुस्तान में दो राज्य कायम होने पर भी विदेशनाति, प्रतिरक्षा तथा यातायात के बारे में दोनों को संयुक्त नीति अख्तियार करनी होगी और दोनों राज्यों को अपने-अपने अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए उचित प्रबंध करना होगा। जिन्ना साहब छः प्रांतों को उनके उसी रूप में पाकिस्तान में शामिल

करना चाहते थे; लेकिन गांधीजी का कहना था कि पंजाब, बंगाल तथा आसाम के सभी हिस्से पाकिस्तान में हर्गिज नहीं जायेंगे। जिन विभागों को अलग करना हो, उनके सब धर्मावलंबी निवासियों की राय लेना वे जरूरी समझते थे। मगर जिन्ना साहब का कहना था कि एक तो इन प्रांतों में मतगणना का कोई कारण ही नहीं है, और अगर मतगणना करनी ही हो तो सिर्फ मुसलमानों की ही राय ली जाय। जिन्ना साहब की ये मांगें इतनी बेजा थीं कि कोई भी उन्हें मंजूर नहीं कर सकता था। गांधीजी तथा जिन्ना की भूमिका में इतना अंतर रहते हुए किसी प्रकार के समझौते की आशा करना बेकार था। इस बातचीत से इतना फायदा जरूर हुआ कि दोनों को अपने विचार लेखबद्ध करने पड़े और पाकिस्तान की कल्पना की रूपरेखा जिन्ना साहब के मुख से पहले-पहल लोगों को जानने को मिली।

मुस्लिम लीग पंजाब, बंगाल तथा आसाम प्रांत को पूर्ण रूप में पाकिस्तान में शामिल करना चाहती थी, उसकी इस वाहि्यात मांग का इस बातचीत से सबको पता चल गया। आगे चलकर जब यहाँ से अपना शासन हटाने का अंग्रेजों ने फैसला किया तब मुस्लिम लीग की इस अयुक्त मांग को उन्होंने नामंजूर किया और लीग को अपनी मांग छोड़नी पड़ी। अतः आधा बंगाल, आधा पंजाब तथा एक जिले को छोड़ पूरे आसाम को भारत में रखने से उसे सहमत होना पड़ा। लेकिन ये हिस्से चले जाने से पाकिस्तान त्रिलकुल दुबला-पतला बन गया, ऐसा उनको मानना पड़ा और पाकिस्तान के नारों से पागल बने मुसलमानों की आँखें, देरी से क्यों न सही, खुल गईं। पाकिस्तान की कल्पना के जन्म के समय अगर अंग्रेज राजनेता सीमाओं की यह नीति जाहिर कर देते तो शायद मुसलमान लोग इस ध्येय को स्वीकार न करते। न पाकिस्तान का जन्म ही हो पाता और न लाखों हिंदु-मुसलमान अपनी धन-दौलत तथा इज्जत-आवरु की लूट अपनी आँखों देखते।

१९४५ में लार्ड वेवल वाइसराय नियुक्त हुए। उन्होंने आते ही कांग्रेस-कार्यकारिणी के सदस्यों को रिहा कर दिया और कांग्रेस तथा लीग के

सहयोग से अस्थाई सरकार बनाने की कोशिश की। अस्थाई सरकार को यद्यपि वाइसराय की कार्यकारिणी का पुराना नाम ही दिया जानेवाला था फिर भी उसका सलाह को नामंजूर करने के लिए वीटो (विशेषाधिकार) का उपयोग न करने का आश्वासन दिया गया था। तात्कालिक योजना के रूप में कांग्रेस ने इस योजना को नामंजूर कर दिया। अस्थाई सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के सदस्य समान संख्या में लिये जानेवाले थे। कांग्रेस देश की सभी जमातों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती थी, इसलिए वह हिंदु तथा मुसलमान दोनों धर्मों के मंत्रियों को अपनी तरफ से नियुक्त करने का अधिकार चाहती थी। मुस्लिम लीग का दावा था कि वह सब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, अतः कांग्रेस की सूचा में एक भी मुसलमान न हो। जिन्ना साहब के इस सुझाव को दुराग्रह कहने की हिम्मत सरकार ने न दिखाई। कांग्रेस अपनी सूचा में मुसलमान प्रतिनिधि का नाम रखने का अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी। इस रस्साकशी में वेवल साहब की यह योजना असफल रही।

इसी समय केन्द्रीय धारासभा के चुनाव १९१६ के पुराने कानून के अनुसार हुए। मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों में से ३० सीटें लांगो उम्मीदवारों ने जीतों तो बाकी ५७ सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कब्जा कर लिया। १९४६ के आरम्भ में प्रांतीय धारासभाओं के चुनाव हुए। सरहदी सूवे में मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों में से बहुसंख्य सीटें कांग्रेस ने जीतीं। और प्रांतों में मुसलमानों के लिए सुरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ही आम तौर पर चुने गये; लेकिन पंजाब में मंत्रिमंडल बनाने के लिए आवश्यक बहुमत लीग को न मिला। बंगाल तथा सिंध में यूरोपीय सदस्यों की मेहरबानी से मुस्लिम लीग अपने मंत्रिमण्डल बना सकी, वहाँ भी लीगियों को निर्विवाद बहुमत नहीं था।

चुनावों में जनता के रुख का अंदाज लग गया। सिंध, पंजाब तथा बंगाल को छोड़कर अन्य प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत था। तब अंग्रेजों ने फिर से समझौते की बात चलाना चाही। १९४६ के मार्च में ब्रिटिश मंत्रिमंडल

के तीन सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लार्ड पेथिक लॉरेन्स तथा अलेक्ज़ांडर भारत आये। युद्ध के बाद इंग्लैंड में आम चुनाव हुए थे, उनमें चर्चिल साहब के दल की करारी हार हुई और एटली साहब के मजदूर दल को बहुमत प्राप्त हो गया। वहाँ के समाजवादी दल को २/३ सीटें मिलने से अपनी इच्छा के अनुसार भारत की समस्या को सुलझाने की कोशिश करना आसान हो गया। तीनों मंत्रियों ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से बातचीत की और दोनों में मेल कराने की कोशिश की; लेकिन जब ऐसा मेल कराना उनको असम्भव लगा तब उन्होंने अपनी ओर से एक योजना दोनों के सामने रखी। इस योजना के मुख्य तीन भाग थे। पहले में उन्होंने पाकिस्तान की माँग को अव्यवहार्य बतलाया और कहा कि भारत का विधान ऐसा होगा कि उसमें भारत के सूत्रों का एक संघ होगा, जिसमें देशी रियासतें भी शरीक हो सकेंगी। इस केन्द्रीय संघ के अधिकार में तीन विषय होंगे—फौज और वचाव, विदेशों के साथ संबंध, रेल-तार-डाक इत्यादि। दूसरे भाग में विधान-परिषद् की योजना थी। तीसरे में तत्काल केन्द्रिय सरकार बनाने की बात थी। विधान-निर्माण के लिए सूत्रों को तीन विभागों में विभक्त किया गया था। पहले विभाग में मद्रास, बंबई, युक्तप्रान्त, बिहार, मध्य-प्रान्त और उड़ीसा का समावेश था। दूसरे में पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, सिंध तथा त्रिलोचिस्तान थे तथा तीसरे विभाग में बंगाल और आसाम थे। केन्द्रीय विधान-परिषद् में कार्य-प्राण्त्वी को निश्चित करने के बाद तीनों विभागों के सदस्य अलग-अलग बैठकर अपने विभागों में सम्मिलित सूत्रों के लिए विधान तैयार करनेवाले थे। कुछ असें तक कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग इस योजना से सहमत हुईं-सी दिखाई दी; लेकिन इस योजना के अनुसार जो विधान-परिषद् बनी, उससे मुस्लिम-लीग ने असहयोग किया।

इसी बीच वेवल साहब ने अस्थाई सरकार के लिए नाम सुझाने को पं० नेहरू तथा जिन्ना साहब से कहा और जताया कि जो नाम एक की ओर से सुझाये जायेंगे उसकी मुखालिफत दूसरा न करे। एक तरह

से जिन्ना साहब को यह करारी चोट थी; क्योंकि इसका साफ अर्थ यह था कि कांग्रेस अपनी ओर से हिंदु तथा मुसलमानों में से चाहे जो नाम अपनी तरफ से पेश कर सकती थी और उसका विरोध करने का लोग को अधिकार न था। जिन्ना साहब अपनी बात पर अड़े रहे और अस्थाई राष्ट्रीय सरकार में शामिल होना उन्होंने नामंजूर किया। लेकिन अब शाही हुकूमत का रुख बदला था। लार्ड वेवल ने लीग की परवाह न की और पं० नेहरू द्वारा सुझाये नामों को स्वीकृति देकर अस्थाई सरकार की स्थापना की। सरकार के इस रुख से मुस्लिम लीग में क्रोध और मत्सर के भाव जागे। फिरकापरस्तों को पुचकारने की पक्षपाती नीति का वाइसराय ने स्वागत किया था। अपनी नाराजगी तथा ताकत बनाने के लिए जिस दिन कांग्रेस ने केंद्र में मन्त्रिमण्डल बनाया उसी दिन सीधी कार्यवाही के नाम पर लीग ने दंगे-फसाद करना शुरू किया। बंगाल में लीग का मन्त्रिमंडल था। उसकी निगरानी में मुसलमान गुण्डे हिंदुओं को कत्ल करने लगे। चारों ओर हाहाला मच गया। गांधीजी खुद बंगाल में चले गये और वहाँ शांति स्थापित करने की कोशिश करने लगे। बंगाल के दंगे की खबरें और स्थानों पर पहुँचीं तो वहाँ भी यह आग भभक उठी। बदले की भावना से लोग पागल-से होते दिखाई देने लगे।

पं० नेहरू के नेतृत्व में केंद्र में जो अस्थाई सरकार काम कर रही थी, वह सेना की सहायता से ये दंगे मिटाने की बात सोच रही थी; लेकिन मन्त्रिमंडल के काम में अड़ंगा लगाने के लिए इसी समय अपना आग्रह छोड़कर लीग ने अपनी ओर से मन्त्रिमंडल के लिए पाँच नाम दे दिये। सेना वेवल साहब के मातहत थी, जिससे अस्थाई सरकार अपनी इच्छा के अनुसार सेना का उपयोग नहीं कर पाती थी। मुस्लिम लीग द्वारा किये गये इस बल्वे में कुछ यूरोपीय अधिकारी तथा कुछ नरेश भी शामिल हो गये थे। बल्वे का बहुत ही भयकर परिणाम हो रहा था। इस तरह बदला लेने की प्रवृत्ति से साग देश द्वेषाग्नि में जलकर भस्म होगा, ऐसी आशंका लोगों को हो रही थी। इसको टालने के उपायों की छानबीन होने लगी। विभाजन को मंजूर करने से पूरी सत्ता हाथ में

आने की संभावना थी और तभी दंगे रोके जा सकते थे । जहाँ मुसलमान बहुसंख्या में हों वे हिस्से भले ही अलग हो जायें लेकिन जहाँ उनका बहुमत न हो उन हिस्सों को बचाने की बात सोची गई । विभाजन होने पर भी पूर्वी पंजाब, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम पाकिस्तान में न चले जायें, इसके लिए सतर्क रहने का फैसला नेताओं ने किया । साथ ही विभाजन से सहमत होने के पहले ब्रिटिश सरकार पूरे देश से अपना शासन उठाने की तिथि बता दे, ऐसी माँग कांग्रेस ने की ;

ब्रिटिश सरकार ने जून १९४२ के पहले देश से अपना शासन उठाने का निर्णय कर दिया । अपने साम्राज्य को समेटने के लिए वेवल के बदले माउंटबेटेन को हिंदुस्तान भेजा गया । देश के विभाजन के साथ अब पंजाब तथा बंगाल के विभाजन पर भी जोर दिया जाने लगा । इसपर जिन्ना साहब ने एक वक्तव्य दिया जिसमें कहा गया था कि किसी भी हालत में मुस्लिम लीग पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि सभ्यता की दृष्टि से पंजाब तथा बंगाल को एक ही रखना चाहिए । लेकिन उनको अपना आग्रह छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी यह माँग त्रिलकुल गैरवाजिब थी और अंग्रेज अब उनकी गैरवाजिब माँगों का पृष्ठपोषण करने के लिए पहले की तरह तैयार न थे ।

माउंटबेटेन ने नेताओं को सूचित कर दिया कि देश की हालत को देखते हुए १९४६ तक यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, ऐसा ब्रिटिश सरकार को लगता है और अगस्त १९४७ में ही नेताओं के हवाले शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार राजी है । तब ३ जून १९४७ के दिन देश में भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो राज्य प्रस्थापित करना नेताओं ने कबूल कर लिया । आधा पंजाब, आधा बंगाल तथा आसाम को भारत में रखने से मुस्लिम लीग को सहमत होना पड़ा । इसके बाद १५ अगस्त १९४७ के दिन हिंदुस्तान में भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राज्य प्रस्थापित हो गये ।

: १२ :

अंतिम स्वातंत्र्य-युद्ध

१९३७ के जुलाई मास में कांग्रेस ने प्रांतों में मन्त्रिमण्डल बनाकर वैधमार्गी राजनीति का फिर से आरम्भ किया। १९३५ के सुधारों को ठुकराकर हिंदुस्तान के लिए पूर्ण स्वाधीनता तथा स्वयंनिर्णय के अधिकार प्राप्त करने की उनकी प्रतिज्ञा थी। प्रांतों में मन्त्रिमंडल बनाकर भविष्य में होनेवाले आंदोलन के लिए तैयार करने का फैसला कांग्रेस ने किया तबसे देशके विविध दलों में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी यह बहस होने लगी थी कि क्या आगे और एकाधा आंदोलन करना लाजिमी होगा, और अगर ऐसा आंदोलन करना ही पड़े तो उसका स्वरूप क्या होगा ? १९२० में लो० तिलक की मृत्यु के बाद गांधीजी कांग्रेस के नेता बने। उस वक्त शांतिमय असहयोग का जो आंदोलन देश में शुरू हुआ था, वह १९२४ में स्थगित किया गया। तबसे १९३० का स्वातंत्र्य-संग्राम शुरू होने तक कांग्रेस की राजनीति की बागडोर गांधीजी ने स्वराज्य-पक्ष के प० मोतीलाल नेहरू प्रभृति नेताओं के हवाले कर दी थी। १९३० के आंदोलन के समय फिर से उन्होंने नेतृत्व सम्हाला। १९३० का आंदोलन, उसके बाद १९३१ में गोलमेज-परिषद के समय कांग्रेस की तरफ से ब्रिटेन से हुई बातचीत और उसके असफल होने पर १९३२-३३ में फिर से छिड़ा सत्याग्रह, ये सब बातें गांधीजी के प्रत्यक्ष नेतृत्व में हुई थीं। १९३२ में सत्याग्रह की जो दूसरी मुहिम निकली, वह सामुदायिक रूप में चली और बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में १९३४ तक ज्यों-त्यों करके चलती रही। उसके बाद गांधीजी ने यह सत्याग्रह भी मुत्तची रखा और कांग्रेस के सूत्र सरदार पटेल, मौ० आजाद, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, च० राजगोपालाचार्य जैसे पुराने तथा प० जवाहरलाल नेहरू, बाबू सुभाषचन्द्र बोस और जय-प्रकाश नारायण-जैसे नये नेताओं के हवाले कर दिये और वे खुद कांग्रेस से अलग हो गये। लेकिन जब आगे स्वाधीनता-संग्राम करने की बारी आयी तब वह उनके नेतृत्व में किया जाय ऐसी गांधीजी की हिदायत थी

और उसको कांग्रेस-नेताओं ने मंजूर कर लिया था। प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमण्डल बनाना जब तय हुआ उनपर निगरानी रखकर उनमें मेल रखने के लिए एक पार्लामेंटरी बोर्ड नियुक्त किया गया, जिसके सरदार पटेल, बाबू राजेन्द्र प्रसाद तथा मौ० आजाद सदस्य थे। कांग्रेस मंत्रिमण्डलों का कारोबार इन तीनों की निगरानी में तथा गांधीजी की सलाह से जुलाई १९३७ से नवंबर १९३९ तक चलता रहा। गांधीजी आजादी के लिए फिर से लड़ाई छेड़ेंगे या नहीं, अगर छेड़ेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में कांग्रेस के नेताओं में भी काफी मतभेद थे।

१९३८ में बाबू सुभाषचन्द्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उस समय कांग्रेस में एक पुराना और एक नया ऐसे दो दल थे। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव तथा अब्युत पटवर्धन-आदि युवक नेता कांग्रेस के अंतर्गत समाजवादी दल की स्थापना कर चुके थे। पं० जवाहरलाल नेहरू तथा बाबू सुभाषचन्द्र बोस दोनों इस दल के सदस्य नहीं थे। उसी समय मानवेन्द्रनाथ राय रिहा हो गये थे और कांग्रेस में दाखिल हो गये थे। ये सब नेता नई पीढ़ी के, समाजवादी नीति को मानने-वाले तथा क्रांतिकारी माने जाते थे। राजेन्द्र प्रसाद, मौ० आजाद, सरदार पटेल तथा राजाजी पुरानी पीढ़ी के नेता माने जाते थे। ये पुराने नेता गांधीजी के नेतृत्व में पूरा भरोसा रखते थे। नई पीढ़ी में से एक जवाहरलाल ही ऐसे थे जो गांधीजी के नेतृत्व में विश्वास जरूर रखते थे। फिर भी उनके विचार गांधीजी के कट्टर अनुयायियों को पसंद न थे और पुरानी पीढ़ी के गांधीवादी कहे जानेवाले नेता उनको समाजवादी नेता के तौर पर ही पहचानते थे। समाजवादी पक्ष की नीति उस वक्त स्थिर नहीं हो पाई थी, फिर भी अगर गांधीजी आगे देश में स्वातंत्र्य के लिए लड़ाई छेड़ दें तो उसमें वे शामिल होना चाहते थे और गांधीजी ऐसी लड़ाई जल्दी ही छेड़ दें इसलिए कांग्रेस पर दबाव डालने की उनकी नीति रही। गांधीजी के नेतृत्व से उन्हें कोई विरोध नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि गांधीजी के सहयोग के बिना दूसरा कोई निकट भविष्य में ऐसा आंदोलन नहीं छेड़

सकेगा ऐसी सामान्यतः उनकी निष्ठा थी। इसलिए गांधीजी के अंतिम नेतृत्व के खिलाफ वे नहीं थे, हालांकि उनके विचारों से वे सहमत नहीं थे। अहिंसा का क्रांतिकारी स्वरूप उस वक्त उनकी समझ में नहीं आता था। फिर भी उस हालत में कांग्रेस के लिए गांधीजी का नेतृत्व वे जरूरी और उपयुक्त मानते थे। उनका रुख ऐसा होने पर भी कांग्रेस में जो पुगने गांधीवादी नेता थे उनकी नीति के वे खिलाफ थे और उनको आशा नहीं थी कि ये पुराने गांधीवादी नेता स्वातंत्र्य के लिए कोई लड़ाई छेड़ेंगे ! धीरे-धीरे कांग्रेस का राजनीति क्रांति-पराङ्मुख होती जा रही है और उसमें मत्तावादी नीति का प्रवेश होने से वह शुद्ध वैध-मार्गी काम करनेवाला एक संस्था बन गई है ऐसा उनका कहना था।

अलग-अलग प्रांतों में जो मंत्रिमंडल थे उनके कारोबार की नुक्ताचीनी करना और जनता के अनुभव संगठित करना ये समाजवादी नेता वाजिव्र समझते थे। कांग्रेस के पुगने नेता, नई पीढ़ी के समाजवादी विचारों को तथा प्रतिकारवादी नीति को गलत समझते थे, जिससे नये पुराने का एक अंदरूनी झगड़ा इस वक्त कांग्रेस में चल रहा था। दोनों गांधीजी के अंतिम नेतृत्व के बारे में एकमत थे और गांधीजी भी दोनों को अपनी राजनीति के लिए उपयुक्त समझते थे। नई पीढ़ी के दबाव के कारण अपनी इच्छा के खिलाफ जल्दी में अधिकारों को त्यागकर प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंदोलन उठाने की उनकी इच्छा नहीं थी। पुगने नेताओं को नई पीढ़ी के नेता अपने मार्ग के रोड़े मालूम होते थे; लेकिन गांधीजी को वैसा नहीं लगता था। समाजवादी युवक नेताओं को, अपने उद्देश्यों के प्रचार करने के लिए उन्होंने कभी रोक नहीं, न अनुशासन के नाम पर उन्हें कांग्रेस से अलग करने की प्रतिगामी नीति अख्तियार की। कांग्रेस का कार्य और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए इन नये नेताओं की आवश्यकता है, ऐसा वे हमेशा महसूस करते थे। यही उनकी क्रांतिकारी प्रवृत्ति की विशेषता और श्रेष्ठता थी। देश की परिस्थिति को देखकर कभी वे वैधमार्गी नरम वृत्ति को स्वीकार करते तो कभी क्रांतिकारी परिस्थिति के पैदा होने पर उग्र क्रांतिवादी नीति को स्वीकार करते। दोनों नीतियों

का तथा दोनों पीढ़ी के नेताओं को वे समान रूप से देश के लिए उपयोगी मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आज प्रांतों में शासन-सूत्र संभालेनवाली कांग्रेस को कल संपूर्ण स्वाधीनता की सत्याग्रही क्रांति के लिए समर्थ बनना पड़ेगा। अपनी इस दूरदर्शी, सावधानी-पूर्ण, लेकिन क्रांतिकारी वृत्ति के कारण अपने जीते-जी उन्होंने नई तथा पुरानी दोनों पीढ़ियों के किसी नेता को कांग्रेस से अलग होने नहीं दिया और दोनों के सहयोग से स्वातंत्र्य प्राप्त कर लिया।

कांग्रेस के अंतर्गत अलग से कोई दल संगठित करने के विरुद्ध आरम्भ में भाई मानवेंद्रनाथ राय के अनुयायी थे; लेकिन कुछ ही दिनों में उनको गांधीजी की नीति में और उनकी अपनी नीति में सैद्धांतिक मतभेद नजर आने लगा। कांग्रेस के नेतृत्व को बदलकर गांधीवादियों के हाथों से वह छीन लेना चाहिए, ऐसा राय साहब के अनुयायी मानते थे। दूसरा महायुद्ध शुरू होने पर उन्होंने देखा कि कांग्रेस की नीति से उनकी नीति मेल नहीं खाती और तब कांग्रेस से अलग होने का फैसला उन्होंने किया। युद्ध के जमाने में अंग्रेजों को पूरा सहयोग देने के वे पक्षपाती थे।

बाबू सुभाषचन्द्र बोस की नीति इससे अलग थी। जब युद्ध छिड़ने की संभावना उन्होंने देखी तब उन्हें लगा कि कांग्रेस की तरफ से अंग्रेजों से माँग की जाय कि छः महीने या एक साल में वे भारत को स्वाधीन करें। अगर इस अर्से के खतम होने के पहले अंग्रेजों ने माँग पूरी न की तो असहयोग तथा प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंदोलन कांग्रेस छोड़ दे और देश में प्रतिस्पर्धी राज्य-तंत्र कायम करके हम आज़ाद बन जायें। इस तरह की-लड़ाई की, यद्यपि गांधीजी आवश्यकता मानते थे फिर भी उनका ख्याल था कि उसके लिए अनुकूल समय अभी नहीं आया है और अगर वेवक्त आंदोलन शुरू हो गया तो उसको शांति से चलाना मुश्किल होगा। कांग्रेस के बहुतेरे नेता गांधीजी के नेतृत्व को मानते थे और प्रत्यक्ष प्रतिकार का आंदोलन उन्हींके नेतृत्व में चले, ऐसा चाहते थे। सुभाष बाबू की नीति से वे सहमत न थे। अपनी अध्यक्ष-पद की मुदत पूरी होने के बाद १९३६ में सुभाष बाबू अन्य नेताओं की सलाह को

ठुकराकर फिर से अर्धराष्ट्रीय चुनाव के लिए खड़े हो गये । उनके खिलाफ पुराने नेताओं की तरफ से डॉ० पट्टाभी खड़े रहे । डॉ० पट्टाभी की उम्मीदवारी का गांधीजी ने समर्थन किया और सुभाष बाबू का विरोध । फिर भी सुभाष बाबू ही चुने गये । कांग्रेस में एक तरह की उलझन पैदा हो गई । सुभाष बाबू यद्यपि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे, फिर भी अ० भा० कांग्रेस-समिति में उनका बहुमत नहीं था, जिससे पुराने पक्ष के सहयोग के सिवा वे कारोबार नहीं चला सकते थे । पुराने नेता चाहते थे कि कार्यकारिणी में उनका बहुमत हो तभी वे उसमें शामिल होंगे । सुभाष बाबू को आज्ञा दी थी कि वे त्रिलकुल नई कार्यकारिणी बनाते । लेकिन उनके लिए इस असहयोग के कारण कार्यकारिणी बनाना असंभव हुआ और उन्होंने अध्यक्ष-पद से इस्तीफा दे दिया । डा० राजेन्द्र-प्रसाद तब कांग्रेस के अध्यक्ष बने । सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अंदर फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की ; लेकिन उस समय समाजवादी दल ने उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया । इस तरह कांग्रेस के अंदर दो गिरोह कायम हुए । महायुद्ध के बाद थोड़े ही दिनों में सुभाष बाबू देश से बाहर निकल गये और जब जापान ने युद्ध में प्रवेश किया तब पूर्वी एशिया में उन्होंने आज़ाद हिंद की एक अस्थाई सरकार बनाई । उसके मातहत लाखों की आज़ाद हिंद फौज खड़ी की और अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया ।

भाई मानवेंद्रनाथ की विलाशर्त सहयोग की नीति से या सुभाष बाबू की सशस्त्र युद्ध-नीति से देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, इसमें जनता तथा राष्ट्रीय नेताओं की शंका थी । पहले युद्ध में विलाशर्त सहयोग देने पर भी अंग्रेजों से कुछ लाभ नहीं हुआ था जिससे ऐसा सहयोग देना लोगों को पसंद न था । फिर भी अगर ऐसे ऐन मौके पर संपूर्ण स्वाधीनता की शर्त पर कांग्रेस सहयोग देना चाहे तो संभव था कि ब्रिटिश सरकार से समझौता हो जाता । कुछ कांग्रेस-नेताओं को लगता था कि महायुद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश हुकूमत से असहयोग करके आठ प्रांतों के शासन-सूत्र छोड़कर जेल का रास्ता पकड़ना एक तरह का साहस ही है और उसकी सफलता के बारे में सत्तावादी गिरोह को बड़ी शंका

थी। युद्धकाल में अपने हाथ से सत्ता छोड़कर असहयोग का आन्दोलन उठाने में धोखा जरूर था; लेकिन साथ ही अगर उस वक्त कांग्रेस अंग्रेजों को विलासर्त सहयोग देती और स्वातंत्र्य का किसी तरह का आश्वासन मिले बगैर उनकी ओर से लड़ने के लिए लोगों को आवाहन करती तो उसमें नाकामयाबी होने की संभावना थी। देश के बाहर तथा अंदर जो क्रांतिकारी शक्तियाँ देश की आजादी के लिए प्रयत्नशील थीं, ऐसे मौके का लाभ उठाकर वे जरूर सशस्त्र विद्रोह करतीं। कांग्रेस के विलासर्त सहयोग करने का अर्थ होता अपनी आजादी का दावा छोड़ देना। लेकिन ऐसे सहयोग से क्रांतिकारियों को कुचलने में उसको अंग्रेजों का हाथ बटाना पड़ता। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए अपनी नीति निश्चित करना बड़ा कठिन था।

३ सितम्बर १९३६ के दिन बगैर किसीसे सलाह-मशविरा किए वाइसराय ने अपने अख्तियार से, हिंदुस्तान अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया है, ऐसा एलान कर दिया। जनता बड़ी उत्कंठा से देख रही थी कि कांग्रेस के नेता अब क्या मार्ग-दर्शन करते हैं? कांग्रेस के सब नेताओं ने मिलकर गांधीजी के साथ विचार-विमर्श किया और महायुद्ध तथा स्वातंत्र्य के बारे में अपना रुख एक प्रोपणापत्र के द्वारा १४ सितम्बर १९३६ के दिन जाहिर कर दिया।

महायुद्ध एक क्रांतिकारी घटना थी। उसकी ओर केवल अपने देश के स्वार्थ की दृष्टि से देखना उचित न होता। ब्रिटिशों ने इस युद्ध के बारे में अपने विचार संसार के सामने रखे थे। उनका कहना था कि जर्मनी के खिलाफ वे इसलिए लड़ रहे थे कि लोकशाही जीवित रह सके और सब देश बच जायें। इस काम में संसार के अन्य देशों से वे सहायता भी चाहते थे। उस समय कांग्रेस चाहती तो कह सकती थी कि हमें पहले स्वातंत्र्य दे दो तब हम जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जायेंगे। लेकिन इस तरह अपनी स्वाधीनता का सौदा करना म० गांधी तथा पं० जवाहरलाल को उचित नहीं मालूम हुआ। देश की स्वाधीनता का ख्याल करके अगर हम किसी भी देश की मदद करने को तैयार होते तो

शायद हमारे राष्ट्र का स्वार्थ सिद्ध हो जाता । लेकिन मानव-संस्कृति की दृष्टि से वह अनुचित होता और हमारी संस्कृति से भी उसका मेल न बैठता । ब्रिटेन या जर्मनी हमें स्वाधीनता देता है, इसलिए उसकी ओर से युद्ध में शामिल होना हमारे देश के लिए शोभा न देता । महायुद्ध में ब्रिटिशों को सहायता देने-न-देने के बारे में फैसला करने के पहले कांग्रेस ने यह उचित माना कि युद्ध में ब्रिटेन किस हेतु भाग ले रहा है यह स्पष्ट कर दिया जाय । इस दृष्टि से घोषणापत्र के आरम्भ में यह माँग की गई थी कि अंग्रेज अधिकृत और निःसंदिग्ध रूप में अपने युद्ध-हेतु जाहिर कर दें । लोकशाही तथा स्वाधीनता की रक्षा करना ही इस युद्ध का प्रधान हेतु हो तो नात्सीवाद व फ़ैसिज़्म इन तत्वों के लिए जितना खतरनाक है उतना ही साम्राज्यवाद भी खतरनाक है और उसको मिटाना भी युद्ध का हेतु बनना चाहिए, क्योंकि आखिर फ़ैसिज़्म का जन्म भी साम्राज्यवाद के पेट से ही होता है । अगर साम्राज्यशाही का नाश करना मंजूर न हो तो इसका अर्थ होता है, युद्ध फ़ैसिज़्म से लोकतंत्र या स्वाधीनता की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि साम्राज्य की रक्षा के लिए खेला जा रहा है, और ऐसे युद्ध से किसी भी गुलाम देश को कोई वास्ता नहीं हो सकता । इस घोषणापत्र में आगे यह भी बताया गया था कि अगर फ़ैसिज़्म और साम्राज्यवाद दोनों का अंत करना इस युद्ध का उद्देश्य हो तो ब्रिटेन को चाहिए कि वह हिंदुस्तान का स्वातंत्र्य तथा स्वयंनिर्णय का हक मंजूर करले और वैसा एलान कर दे । साथ ही लोकशाही तथा साम्राज्यशाही के बारे में ब्रिटेन अपनी नीति जाहिर कर दे और लोकशाही के तत्व हिंदुस्तान में किस तरह लागू करने का उसका इरादा है साफ़ बतादे ।

घोषणापत्र में तीसरी बात यह कही गई थी कि भविष्य में लोकशाही की संस्थापना तथा साम्राज्यशाही का अंत करने की हामी भरने से काम पूरा नहीं होगा । इन तत्वों को असली रूप देने के लिए युद्धकाल में ही यहाँ की हुक्मत में सरकार कौन-से परिवर्तन करनेवाली है वह भी जाहिर करनेकी कांग्रेस की माँग थी । इसका साफ़ अर्थ यही था कि हिंदुस्तान को स्वाधीन देशों का दर्जा फौरन ही दे दिया जाय । जिस-

से जनता को मालूम होगा कि युद्ध में जो वह सहायता दे रही हैं दूसरे को नहीं बल्कि अपने देश की सरकार को ही दे रही हैं ।

कांग्रेस का यह घोषणापत्र भारत के नहीं, सारे संसार के इतिहास में एक खास स्थान रखता है । पहले युद्ध के वक्त रूस में जो बाल्शेविक क्रांति हुई उससे संसार की राजनीति को एक नई दिशा मिल गई थी, उसी तरह दूसरे महायुद्ध के वक्त कांग्रेस ने इस घोषणापत्र के द्वारा साम्राज्यशाही के विरोध का जो नया रूप खड़ा किया, इससे संसार की राजनीति का फिर से एक नया रूपान मिल गया । यद्यपि इस घोषणापत्र से गांधीजी पूरी तरह सहमत नहीं थे फिर भी उसमें जितनी अहिंसक भूमिका स्वीकृत हुई है, उससे आगे बढ़ने की ताकत देश में नहीं है, ऐसा मानकर गांधीजी ने उससे अपनी सहमति प्रकट की । उनकी निजी भूमिका इससे अधिक ऊँचे स्तर की व उनकी अहिंसा-निष्ठा से अधिक मेल खानेवाली थी । गांधीजी मानते थे कि किसी भी युद्ध से संसार का कोई हित नहीं हो सकता । अतः अपने देश की हिफाजत के लिए भी शस्त्र-बल का उपयोग न करके केवल सत्याग्रह के बल पर अपने देश को बचानेवालों का एक संगठन बनाया जाय । वे चाहते थे कि हो सके तो कांग्रेस भी युद्ध-संन्यास की यही नीति अख्तियार करे ; इस नीति को मानने पर भी संसार में जो दो गिरोह एक-दूसरे से लड़ें उनमें से जिस गिरोह की तरफ न्याय हो, उसकी हिमायत में अपना नैतिक बल लगाये ।

कांग्रेस के घोषणापत्र की एक भाँ बात को ब्रिटेन ने कबूल नहीं किया । तब कांग्रेस ने आठ प्रांतों के अपने मंत्रिमण्डलों के इस्तीफे पेश कर दिये । आठों प्रांतों की धारासभाएँ कांग्रेस के घोषणापत्र से सहमत थीं । जबतक इस घोषणापत्र की बातों को सरकार नहीं मान लेती तबतक शासन चलाने में कांग्रेस सहयोग नहीं देगी ऐसा उसने तय कर लिया, क्योंकि कांग्रेस के घोषणापत्र को न मानने का साफ अर्थ यही था कि युद्ध साम्राज्य की रक्षा के लिए किया जा रहा है न कि लोकशाही की रक्षा के लिए । कांग्रेस के शासनसूत्र छोड़ने के बाद यहाँ के अन्य राजनीतिज्ञ मंत्री बनने के लिए लालायित थे ; लेकिन जनता की हिमायत

न होने के कारण कारोबार चलाना इनके लिए मुश्किल होगा, यह देख-कर आठों प्रांतों का कारोबार गवर्नरों ने खुद सम्हाल लिया । कांग्रेस-मंत्रिमण्डलों के त्यागपत्र से महायुद्ध का असली रूप प्रकट हो गया । कांग्रेसी नेताओं ने देश को यह संदेश दिया कि अपनी स्वाधीनता के लिए अनत्याचारी मार्ग से झगड़ते रहना गुलाम देशों का पहला कर्तव्य है । इस कर्तव्य की पूर्ति करने से ही लोकशाही तथा स्वयंनिर्णय के तत्त्वों को पृष्ठपोषण मिल सकेगा और मानव-संस्कृति को परिपुष्ट बनाने का कर्तव्य भी पूरा हो सकेगा ।

इसके बाद कांग्रेस के भंडे के नीचे इकट्ठे होकर स्वातंत्र्य-सैनिक अपने नेताओं से पूछने लगे कि सविनय कानूनभंग-आंदोलन कब शुरू होगा ? गांधीजी ने देश को संयम तथा अनुशासन से वर्तव करने एवं जल्दब्राजी न करने का आदेश दिया । अपने हाथ की सत्ता छोड़कर युद्ध से असहयोग करके ब्रिटिश-सत्ता को चुनौती देनेवाली और खुल्लम-खुल्ला बगावत करनेवाली यह संस्था अगर जल्दब्राजी में अत्याचार का सहारा लेती या उसे गांधीजी-जैसे जगत्प्रसिद्ध विभूति का नेतृत्व न मिलता तो अंग्रेजों को उसे कुचलने में देरी न लगती ।

हिंद की जनता युद्ध में अंग्रेजों से सहयोग करना नहीं चाहती, यह बात आठ प्रांतों के मंत्रिमण्डलों के त्यागपत्र से सारे संसार पर प्रकट हो चुकी थी । लेकिन कानून-भंग का आंदोलन शुरू करने के पहले रचनात्मक लोकसेवा के जरिये देश में शांति कायम करने की गांधीजी की इच्छा थी । वे चाहते थे कि कांग्रेस के सेवक गाँव-गाँव जाकर लोगों को अहिंसक लड़ाई का तरीका सिखा दें और लड़ाई के छिड़ने के पहले-पहले उसे शांति से चलाने की ताकत लोगों में पैदा हो और आवश्यक संगठन भी बन जाय । वे अच्छी तरह से जानते थे कि युद्ध में अंग्रेजों से असहयोग करने की नीति से आज या कल सत्यग्रह-आंदोलन को छेड़ने की नौबत आने ही वाली है ।

उस हालत में जनता की तरफ से होनेवाला सत्याग्रह-संग्राम गांधीजी द्वारा चलाया जाना इष्ट तथा अपरिहार्य था और जयप्रकाश

प्रभृति नेताओं ने अपने दल को यह बात समझा दी थी । १९४० में गांधीजी के नेतृत्व के बारे में अपना रुख जाहिर करनेवाला एक बयान अपने पत्र की ओर से उन्होंने प्रकाशित किया था । इसमें वे लिखते हैं—“आज के अपने नेताओं के खिलाफ भगड़ा उठाना गलत ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है । अगर सारे देश में आंदोलन करना है तो उसको शुरू करने की क्षमता गांधीजी के अलावा और किसी में नहीं है । ऐसी स्थिति में उनके नेतृत्व का विरोध करने का अर्थ होगा अपने पाँचों पर आप कुल्हाड़ी मारना । आंदोलन की पूर्व तैयारी में हमें गांधीजी को पूरा सहयोग तो देना ही चाहिए ; लेकिन साथ-ही उनमें पूरी निष्ठा रखना भी जरूरी है । अगर गांधीजी आंदोलन न छोड़ें तो हम उनसे अलग हटेंगे और हमें अपने में वैसी सामर्थ्य प्रतीत हो तो खुद आंदोलन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे ।”

रामगढ़ में कांग्रेस का अगला अधिवेशन होनेवाला था लेकिन उसके पहले ही युद्ध-विरोधी भाषण करने के अभियोग में जयप्रकाशजी को गिरफ्तार कर लिया गया । अधिवेशन में रखने के लिए उन्होंने जेल से एक प्रस्ताव गांधीजी के पास भेजा । वह प्रस्ताव यद्यपि स्वीकृत नहीं हुआ तो भी गांधीजी ने अपनी टिप्पणी के साथ उसको ‘हरिजन’ में प्रकाशित कर दिया और उसके साथ अपनी सहमति प्रकट कर दी । कांग्रेस के अंतर्गत, जो समाजवादी दल काम करता था, उसको तथा उसके उचित कार्यक्रम को इस तरह हमेशा ही गांधीजी का पृष्ठपोषण मिलता था ।

कांग्रेस की ओर से जो स्वातंत्र्य-संग्राम छिड़नेवाला था, उसके लिए समाजवादी दल की शक्ति का गांधीजी पूरा उपयोग करना चाहते थे । आजाद होने पर समाजवाद की प्रस्थापना का सवाल हिंदुस्तान के सामने अपरिहार्य रूप में आनेवाला था । इसके लिए आगे जो आंदोलन चलेंगे, वे भी अनत्याचारी रहें, इस कारण दूरदर्शिता से गांधीजी देश के समाजवादी दल की निष्ठा अपनी अहिंसा की तरफ खींचने की कोशिश

कर रहे थे । लेकिन गांधीजी की यह सूझ कि अहिंसा के जरिये समाजवाद की प्रस्थापना हो सकेगी, और हम उसे करके दिखायेंगे, ऐसा विश्वास कांग्रेस में गांधीवादी कहलानेवाले लोगों में नहीं था । रामगढ़-कांग्रेस में स्वातंत्र्य-संग्राम शुरू करने का जो प्रस्ताव पास हुआ उसके साथ जयप्रकाशजी के प्रस्ताव का मिलान करने से पता चलता है कि कांग्रेस में जो राष्ट्रवादी दल था, उसके और समाजवादी दल के नेताओं के विचारों में क्या और कितना भेद था । राष्ट्रवादी विचार के पुराने नेता स्वाधीनता के बाद समाजवाद की स्थापना को न तो आवश्यक मानते थे न वैसा आश्वासन जनता को देने के लिए तैयार ही थे । इसके विपरीत समाजवादी युवक नेता चाहते थे कि लोगों को यह साफ बता दिया जाय कि कांग्रेस का स्वाधीनता की कल्पना पूँजीवादी लोकतंत्र की न होकर समाजवादी लोकतंत्र की है । समाजवादी दल के नेताओं की गय थी कि ऐसे आश्वासन से स्वाधीनता-संग्राम के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा । म० गांधी इन दोनों गिरोहों को एकसाथ रखनेवाली कड़ी थे । उनकी राय थी कि पहले राष्ट्रीय स्वातंत्र्य का आंदोलन सफल हो, फिर उसको समाजवादी लोकशाही में परिवर्तित करने की कोशिश की जाय । रामगढ़-कांग्रेस में जयप्रकाशजी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यद्यपि उन्होंने पुराने नेताओं को दोष नहीं दिया तो भी इस प्रस्ताव से अपनी सहमति जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा : “स्वातंत्र्य-प्राप्ति के बाद निकटवर्ती ध्येय के रूप में समाजवादी लोकशाही को ही स्वीकार करना चाहिए । मैं खुद समाजवादी हूँ ; लेकिन मेरा समाजवाद मेरी अहिंसा से पैदा हुआ है ।” गांधीजी की इस वृत्ति से समाजवादी दल ने भी उचित बोध लेकर स्वातंत्र्य के आंदोलन को वर्ग-विग्रह का रूप न देने का फैसला कर लिया और उनके आश्वासन पर भरोसा रखकर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के संग्राम में जनता का भरसक पथप्रदर्शन किया ।

युद्धकार्य से असहयोग करके कानून-भंग के आंदोलन की नीति को यद्यपि रामगढ़-कांग्रेस में मंजूर किया गया, फिर भी गांधीजी उतावली से कोई कदम उठाना नहीं चाहते थे । इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस में जो

सत्तावादी तथा वैधमार्गी राजनीति का समर्थक दल था, उसके नेताओं ने फिर से ब्रिटिशों के साथ समझौता करने की कोशिश करना चाही। पूना में अ० भा० कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जिसमें सरकार को बताया गया कि अगर वह स्वातंत्र्य तथा स्वयंनिर्णय के अधिकारों को तत्काल कबूल करले और अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दे तो युद्ध-कार्य में कांग्रेस सहयोग देगी। इस अधिवेशन में म० गांधी उपस्थित न रहे, क्योंकि इस नीति से वे सहमत नहीं थे। थोड़े-ही दिनों में सरकार ने एलान कर दिया कि कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार करने में वह असमर्थ है। मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उसीके साथ सरकार ने जाहिर कर दिया कि वह ऐसा कोई विधान मंजूर नहीं करेगी, जिससे अल्पसंख्यक असहमत हों। इसके बाद अधिकारवादी नेताओं के सामने दूसरा कोई रास्ता ही न रहा। तब अ० भा० कांग्रेस अधिवेशन करके गांधीजी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया जो नवंबर १९४० में शुरू हुआ।

इस सत्याग्रह-आंदोलन का स्वरूप प्रातिनिधिक रखने का गांधीजी का विचार था। अर्थात् ग्राम जनता को सत्याग्रह के लिए प्रवृत्त न करके ऐसे प्रतिनिधिभूत लोकनायकों को ही जनता की तरफ से सत्याग्रह करने की इजाजत दी जाय जो उससे सहमत हों। लोकमत को प्रकट करके उसकी सिद्धि के लिए जो आपदाएँ भेलनी पड़ें, उन्हें भेलने के लिए लोकनेता तैयार हैं, सरकार को तथा जनता को यह बताने की दृष्टि से प्रातिनिधिक सत्याग्रह का रास्ता गांधीजी ने निकाला। वे इस सत्याग्रह के लिए व्यक्ति तथा स्थान स्वयं चुनते थे। उन्होंने जाहिर कर दिया था कि इस आंदोलन में वे खुद जेल में नहीं जाना चाहते। पहले दो सत्याग्रहियों के रूप में आचार्य विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। विनोबाजी को इस नाते चुना गया था कि वे गांधीजी की निरपेक्ष अहिंसा का जीवन-निष्ठा के रूप में स्वीकार करते थे। जिसको किसी भी हालत में युद्ध करना अमान्य है वे ऐसे सत्याग्रही-वर्ग के प्रतिनिधि थे। पं० जवाहरलाल इस तरह के निरपेक्ष अहिंसावादी सत्याग्रही नहीं थे। किसी भी हालत में युद्ध न करने के पक्ष में वह नहीं थे। उनका

कहना इतना ही था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही के लिए किया जा रहा है अतः उससे सहयोग नहीं किया जा सकता और देश को चाहिए कि वह ऐसे युद्ध में सहयोग न दे । उनका सत्याग्रह अपने देश की स्वाधीनता और स्वयंनिर्णय के अधिकार के लिए था । कांग्रेस में बहुतेरे लोग इसी मत के थे और उनके प्रतिनिधि के रूप में पं० जवाहरलाल को चुना गया था । यह व्यक्तिगत सत्याग्रह-आंदोलन करीब एक साल चला । २५ हजार सत्याग्रही जेल में चले गये और उन्होंने सारे संसार पर प्रकट कर दिया कि हिंदुस्तान इस युद्ध में सहयोग नहीं दे रहा है ।

७ दिसंबर १९४१ के दिन जापान ने पर्लहार्बर पर धावा बोल दिया और इंग्लैंड और अमरीका के खिलाफ युद्ध घोषित करके एशिया में ब्रिटेन, फ्रांस तथा डर्चों के अधिकृत मुल्कों पर चढ़ाई की । हिन्दचीन तथा सयाम को जीतकर वह सिंगापुर की तरफ बढ़ा । यह सब देखकर चीन के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष च्यांग काई शेक को लगा कि हिंदुस्तान का मसला हल करने में त्रिचविचाव करना चाहिए । १९४२ की फरवरी में अचानक वे हिंदुस्तान में आये । हिंदुस्तान की स्वाधीनता का प्रश्न अंग्रेजों का घरेलू सवाल नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्व का और आक्रामक राष्ट्रों को परास्त करने के लिए अत्यन्त आवश्यक प्रश्न बन गया था, यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है । चर्चिल साहब कहा करते थे कि हिंदुस्तान हमारी बपौती है और हम अपनी खुशी से चाहे जैसा उसका उपयोग करेंगे । लेकिन च्यांग काई शेक के देश में आने से यह बात साफ हो गई कि संसार भारत की स्वाधीनता के सवाल को ब्रिटेन का घरेलू मामला नहीं मानता । तभी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने हिंदुस्तान से समझौता करने के लिए स्टेफर्ड क्रिप्स को एक योजना सहित भारत भेजा । क्रिप्स साहब की असफलता के बाद कांग्रेसी नेताओं के सामने सवाल था कि अब क्या किया जाय ? इस वक्त ब्रिटिश-साम्राज्य पर पूरब तथा पश्चिम से हमले होने की संभावना थी । ऐसी हालत में विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने की क्षमता ब्रिटिश हुकूमत में नहीं दिखाई दे रही थी । चीन की इच्छा थी कि ब्रह्मदेश जीतने पर अगर जापान चीन की तरफ मुड़ जाय

तो भारत उसे रोक दे और इसीलिए व्यांग काई शेक ने अंग्रेजों को भारत के स्वतंत्र करने की सलाह दी थी । लेकिन क्रिप्स साहब की असफलता से यह प्रकट हो गया कि हिंदुस्तान की समस्या ठीक ढंग से हल करने के लिए इंग्लैंड तैयार नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि क्रिप्स साहब के लौटने पर ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस के खिलाफ एक प्रचार-आंदोलन करने की कोशिश की । उन्होंने यह कहना शुरू किया कि कांग्रेस देश में अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहती है, अल्पसंख्यकों को सन्तुष्ट करने के लिए राजी नहीं है और इसीसे हिंदुस्तान की समस्या हल नहीं हो पाती ।

ऐसी हालत में गांधीजी ने देश में प्रचंड सत्याग्रह-आंदोलन शुरू करने की बात सोची । कांग्रेस के अन्य नेताओं से सलाह-मशविरा करके १९४२ के जुलाई मास में वर्धा में कांग्रेस-कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जो मंजूर हो गया । ८ अगस्त १९४२ के दिन अ० भा० कांग्रेस-महासमिति के बंबई-अधिवेशन में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करने का यह क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा गया जो प्रचंड बहुमत से मंजूर हो गया । इस प्रस्ताव के पास हो जाने पर, ब्रिटिश सरकार आंदोलन उठाये बगैर स्वाधीनता की माँग पूरी करने के लिए राजी है या नहीं, यह आजमाने के लिए गांधीजी खुद वाइस-राय के पास जानेवाले थे । प्रस्ताव में आंदोलन शुरू करने के लिए लोगों से नहीं कहा गया था, बल्कि यह अधिकार गांधीजीको दिया गया था । गांधीजी ने साफ कहा था कि अगर आंदोलन के बगैर स्वाधीनता की माँग कबूल करने के लिए ब्रिटेन राजी न हो तो आंदोलन के लिए लोगों को आदेश दिया जायगा । पत्रकारों के समक्ष इस आशय का एक वक्तव्य भी उन्होंने दिया था ।

लेकिन प्रस्ताव होते ही उसी रात को सरकार ने म० गांधी तथा अन्य प्रमुख नेता और स्थान-स्थान के करीब २० हजार कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को एकसाथ गिरफ्तार करके त्रिना मुकद्दमे के जेलों में टूस दिया । सरकार मानती थी कि इससे जनता उलझन में पड़ जायगी और पथ-

प्रदर्शन के लिए किसानों के बाहर न रहने से चार-छः दिनों में जनता लुब्ध होगी और दमनचक्र से आंदोलन के दबाव में कामयाबी मिल जायगी। लेकिन यह अंदाज गलत निकला। गांधीजी के नेतृत्व में लोगों को अन्याय के प्रतिकार की तालीम मिल चुकी थी। देश के कोने-कोने में कांग्रेस के संगठन का जाल फैला हुआ था। लोगों में यह भावना घर कर गई थी कि स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए सदियों में एकत्रित बल मिलनेवाला स्वर्ण अवसर आज मिल रहा है। ऐसी अवस्था में सरकार ठीक तरह से न आंक सकी कि जनता में कितना क्षोभ पैदा होगा।

युद्ध के विरोध में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह-आंदोलन छिड़ा था, उसमें केवल चार ही पाँच महीनों में बीस-पच्चीस हजार चुने हुए सत्याग्रहियों को सरकार ने गिरफ्तार कर दिया था। उस समय जनता पूरी तरह शांत रही। न तब बलबे हुए न आतंक फैला। शायद इसीसे अपनी दमन-शक्ति पर शासकों को जरूरत से ज्यादा भरोसा रहा हो; लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय गांधीजी के नेतृत्व के कारण शांति रही। तब वे स्वयं बाहर थे; परन्तु अब दमन का पहला हमला ही गांधीजी पर हुआ और कांग्रेस के सब प्रमुख नेता भी धर लिये गए। ऐसी स्थिति में जनता के प्रक्षोभ को दमनचक्र के बल पर रोकने की कल्पना करना शासकों में सत्ता का उन्माद नहीं तो क्या था? लोगों के सामने आंदोलन का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया था, न ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया ही गया था। अपने रिवाज के अनुसार गांधीजी एक बार वाइसराय से मिलनेवाले थे; किंतु सरकार ने अचानक दमनचक्र चला दिया और लोगों को भड़काया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने स्थान-स्थान पर जो शांति से जुलूम निकाले, उनपर लाठी और गोलीयाँ चलाई गईं। जनता का यह आंदोलन करीब तीन साल तक विभिन्न रूपों में चलता रहा। अन्त में, जब कांग्रेस के नेता रिहा किये गये, देश की स्वाधीनता की दृष्टि से जब उनके साथ ब्रिटिश हुकूमत ने बातचीत शुरू की, और नेताओं ने आंदोलन स्थगित करने की आज्ञा दी, तब यह आंदोलन बन्द हुआ।

६ अगस्त १९४२ के दिन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अ० भा० कांग्रेस के जो सदस्य पकड़े नहीं गये थे, उनमें से कुछ सदस्यों ने एक गुप्त बैठक की और शांतिमय क्रांति का एक कार्यक्रम जनता के सामने रखा और उसे देश में सर्वत्र पहुँचाने का प्रबंध किया। जब यह कार्यक्रम लोगों के पास पहुँचा तब स्थान-स्थान पर बड़े-बड़े जुलूस निकले, पुलिस-थानों, कचहरियाँ और सरकारी कोष पर हमले होने लगे। कुछ स्थानों पर सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई, रेल की पटरियाँ उखाड़ी गईं और यातायात के साधनों को नष्ट करने की कोशिशें होने लगीं। २३ अगस्त के 'हरिजन' में श्री किशोरलाल मश्रूवाला का एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें यातायात के साधनों की तोड़-फोड़ करना अनत्याचारी क्रांति का अंग हो सकने की बात थी। इस तरह यह क्रांति का आंदोलन पूरे जोश के साथ सारे देश में करीब तीन मास तक चलता रहा। इसके बाद वह धीरे-धीरे मंद पड़ने लगा। फिर भी पहली छहमाही में वह काफी तीव्र रहा। किशोरलाल भाई ने आगे चलकर अपना अभिप्राय भ्रमपूर्ण बताया और सरकार को भी वैसे ही सूचित किया।

कांग्रेसी नेताओं को जेल में ठूसकर सरकार ने उनके खिलाफ सब जगह मिथ्या प्रचार करना आरम्भ कर दिया और उसके बारे में अपनी सफाई देने का मौका भी उन्हें नहीं दिया। इसपर अपना केस संसार के सामने रखने के लिए गांधीजी ने अनशन शुरू किया। गांधीजी की दलील थी कि सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को आंदोलन शुरू करने के पहले ही एकाएक गिरफ्तार कर लिया, जिससे पथ-प्रदर्शन करनेवाला कोई बाहर न रहा और जनता लुब्ध हो उठी। इससे जो-जो दुर्घटनाएँ हुईं, उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर ही आ जाती है। इसपर उन्होंने सरकार से माँग की कि या तो वह इस दलील का जवाब दे या कांग्रेस पर लगाये भूठे इल्जाम वापस ले। उन्होंने यह भी लिख दिया कि अगर सरकार इस बात के लिए तैयार न हो तो अपनी शिकायत भगवान् के सामने रखने के लिए २१ दिन का अनशन करना आवश्यक होगा। १० फरवरी

१९४३ से ३ मार्च १९४३ तक यह अनशन चला। गांधीजी पर लगाये गये कुछ बंधन ढीले पड़ गये। नजदीक के रिश्तेदारों और मित्रों को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। सारे देश में गांधीजी की रिहाई की माँग की गई। वाइसराय की कार्यकारी-मण्डल के तीन सदस्यों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये। तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधीजी को रिहा करके उनके साथ समाननीय समझौता करने की माँग की गई।

गांधीजी की गिरफ्तारी से उनके अनशन तक की छः महीने की अवधि को आंदोलन का प्रथम खंड कहना चाहिए। इसके बाद आंदोलन में नये विचार के अलग-अलग प्रवाह प्रवेश करने लगे। अनशन की अवधि में कुछ लोग गांधीजी से मिलकर आये थे। आंदोलन के कार्यक्रम के कुछ हिस्से गांधीजी को पसंद नहीं हैं, ऐसा कहकर वे लोग या तो आंदोलन से अलग होने लगे या पहले-जैसा सहयोग देना उन्होंने बंद किया। कुछ लोगों की यह कोशिश रही कि आंदोलन शुद्ध सत्याग्रह के रूप में चलाया जाय। अन्य लोगों का मत था कि पूरा आंदोलन एकदम रोक लिया जाय और कांग्रेस ८ अगस्त का प्रस्ताव वापस लेले। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग से समझौता करने की कोशिश शुरू की। समझौता चाहनेवाले गिरोह के नेता राजाजी तथा भूलाभाई देसाई थे। इसके विपरीत बहुतेरे लोगों की राय थी कि ऐसे समझौते के प्रयत्न देश के लिए खतरनाक साबित होंगे। जो भी हो, ९ अगस्त को जो क्रान्तिकार्य शुरू हो गया है उसे उसी रूप में गांधीजी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं के छूटने तक जारी रखना चाहिए। लेकिन उभार का पहला दौर खत्म हो गया था और विद्रोह मंद पड़ गया था।

१९४२ के अक्टूबर मास में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गये। १९४३ के आरम्भ में देश की हालत का निरीक्षण करके आंदोलन के चारे में उन्होंने एक गुप्त पत्रक प्रसारित किया। आरम्भ में जनता ने जो प्रचंड आंदोलन किया, उसके लिए जनता को बधाई देते हुए जयप्रकाश नारायण ने लिखा, "हमारे कुचले हुए और

लंबे अर्से तक दमन सहने वाले इस देश में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी कोई बात देश में होगी, इसकी भी किसी को कल्पना नहीं थी। गांधीजी ने खुले विद्रोह की कल्पना की थी, वह कुछ इसी तरह की थी। इसमें संदेह नहीं कि आज विद्रोह की आग बुझती-सी दिखाई दे रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये चिनगारियाँ फिर से धधक उठने वाली हैं; आंदोलन कुछ थोड़े अर्से तक ही रुका रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे आशा है कि मेरी इस राय से आप सहमत होंगे। अगर पहला ही धावा सफल होता और उसके कारण साम्राज्य-सत्ता मिट जाती तो वह सचमुच एक आश्चर्यजनक बात होती। हमारे दुश्मन ने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि इस विद्रोह से उनका शासन करीब-करीब तबाह हो गया था। इससे पता चलेगा कि हमारी राष्ट्रीय क्रांति की पहली लहर कितनी कारगर निकली! क्या यह लहर दुश्मनों के दमनचक्र, सेनाशक्ति, लूटपाट, सख्तियाँ, गुंडापन और खूनखराबी से हमेशा के लिए दब गई? नहीं! दुनिया के और देशों की क्रांतियों का इतिहास देखिये तो पता चलेगा कि क्रांति का एक ही दौर नहीं होता है। वह एक सामाजिक आंदोलन होता है और उसे अनेक अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जब क्रांति आगे बढ़ती है तब उसमें ज्वारभाटा आना स्वाभाविक ही है। हमारी क्रांति में अब जो भाटा आया है, वह साम्राज्यशाही आक्रामकों की वजह से नहीं आया। उसके अन्य कारण हैं: एक यह कि इसके पीछे कोई प्रभावशाली संगठन नहीं था। इस विद्रोह का पहला दौर खत्म होने पर क्या करना है, इसके बारे में कोई कार्यक्रम लोगों के सामने नहीं रखा गया था। अपने-अपने प्रदेश से ब्रिटिश शासन को मिटाकर लोगों ने मान लिया कि काम पूरा हो गया और वे घर जा बैठे। इसमें दोष उनका नहीं, हमारा है। पहले दौर के खत्म होते ही हमें चाहिये था कि हम आगे का कार्यक्रम सामने रख देते। हमने वैसे नहीं किया, जिससे विद्रोह स्थगित-सा हो गया और आंदोलन में भाटा आने लगा। पहले दौर के बाद लोगों को क्या कार्यक्रम देना चाहिये था, इसका जवाब क्रांति के स्वरूप से मिल सकता

है। क्रांति केवल श्वंसात्मक कार्य नहीं है वह एक बहुत बड़ी रचनात्मक घटना है। क्रांतिकार्य को अगर कायम रहना है तो उससे जो राज्ययंत्र तत्राह हो गया उसकी स्थान-पूर्ति करनेवाली दूसरी राज्य-संस्था हमें प्रस्थापित करनी चाहिये थी। प्रचलित राज्य के टूटने पर क्रांति के लिए भी अगला कदम उठाने की आवश्यकता तो थी ही। विदेशी सत्ता के मिटने के बाद हमें चाहिये था कि हम अपनी सेना और पुलिस तैयार करते। अगर ऐसा हुआ होता तो क्रांति की लपटें और जोर से उछलतीं और रही-सही साम्राज्य-सत्ता तत्राह हो जाती। देशभर में लोगों का प्रभुत्व प्रस्थापित हो जाता। इससे यह दिखाई देगा कि संगठन की कमी और राष्ट्रीय क्रांति के नये राज्य की प्रस्थापना के कार्यक्रम का अभाव, ये दो कारण आंदोलन के संद पड़ जाने के मूल में हैं।

समझौते की कोशिश करना क्यों गलत है? इसका भी विवरण उन्होंने दिया था। जो लोग आनेवाले पाँच-छः सालों में क्रांति उमड़ आना असंभव मानते थे, उनकी ओर सुखातिव होकर जयप्रकाशजी ने लिखा था : “आज सारा संसार एक तूफान में फँस गया है। उसमें जिस क्रम से घटनाएँ हो रही हैं, उनको देखते हुए क्रांति होने की संभावना न मानना मुझे सरासर गलत लगता है। लोगों में बड़ा भारी असंतोष है, क्रोध है और बदला लेने की वृत्ति है। उसको संगठित करके अनुशासन-पूर्ण ढंग से क्रांति के लिए काम में लाने की जरूरत है। परिस्थिति भी हमारे लिए अनुकूल हो जाने की पूरी संभावना है। गांधीजी के अनशन करने की संभावना है इसलिए हमें सदा सचेत रहना चाहिए। अपने प्रण पर डटे रहना चाहिए। सुस्ताना नहीं चाहिए और अपने प्रयत्नों में हमें हताशा नहीं आने देना चाहिए।”

इस मिलासिले में अहिंसा के बारे में गांधीजी और कांग्रेस के रुख में जो अंतर था उसको स्पष्ट करते हुए जयप्रकाशजी ने लिखा, “गांधीजी तथा अ० भा० कांग्रेस-समिति और कांग्रेस-कार्यसमिति के अहिंसा के बारे में जो विचार हैं, उनमें बहुत अंतर है। गांधीजी किसी भी हालत में अहिंसा को छोड़नेवाले नहीं हैं। यह उनकी जीवननिष्ठा का और

सिद्धांत का सवाल है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है। अगर यहाँ राष्ट्रीय सरकार स्थापित होती तो कांग्रेस हथियार उठाकर लड़ने के लिए तैयार थी, वैसा उसने कई मर्तबा जाहिर किया है। अगर जर्मनी और जापान से मुकाबला करते वक्त हम हथियारों से लड़ सकते हैं तो क्या बजह है कि अंग्रेजों से हम वैसे न लड़ें? मैं मानता हूँ कि जिसे गांधीजी शूरवीरों की अहिंसा कहते हैं वह बड़े पैमाने पर अमल में लाई जा सकती तो हिंसा की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। लेकिन जहाँ ऐसी अहिंसा न हो वहाँ हिंसा-अहिंसा के बारे में बाल की खाल निकालते हुए अपना डरपोकपन छिपाकर क्रांति को रोकने की या असफल बनाने की किसी साजिश में मैं भागी नहीं बनूँगा। हमें क्रांति की अन्तिम स्थिति का पूरा चित्र अपने सामने रखकर संगठन करना है, अपने लिए सेना जुटानी है, उसको तालीम देकर तैयार करना है। हम गुप्त षड्यंत्र से आंतकवाद फैलाना नहीं चाहते, यह पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए। आज जनता का सार्वत्रिक बल्वा हम चाहते हैं। इसलिए संगठन का तांत्रिक काम करते हुए भी हमें देहातों के किसानों में, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों में, खानों — रेल तथा अन्य स्थानों में काम करनेवाले श्रमिकों में जागृति फैलानी है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी और सेना दोनों में हमें प्रचार करना चाहिए। लोगों की ताकत पर पूरा भरोसा और अपने अफसर पर पूरी निष्ठा रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए।”

१९४२ के अन्त में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने पूर्वी एशिया में आज़ाद हिंद की जो अस्थाई सरकार बनाई, उसकी खबरें हिंदुस्तान के लोगों के पास पहुँचने लगीं। इस अस्थाई सरकार की तरफ से वे रेडियो पर से हिंद की जनता को आजादी की लड़ाई के लिए उभारते रहे। जब नेताजी की अस्थाई सरकार और आजाद हिंद सेना की खबरें देश में पहुँचीं तब देश में क्रांति के विचार फिर से जोर पकड़ने लगे। उधर नेताजी द्वारा प्रस्थापित आजाद हिंद सरकार देश के बाहर सशस्त्र क्रांति के नारों से अक्तूबर १९४३ को गांधीजी की पचहत्तरवीं

वर्षों मना रही थी तो इधर देश में भी निःशस्त्र क्रांतिकारी लोगों ने सत्याग्रह के रूप में इस दिन को मनाया। उस समय नेताजी ने गांधीजी के संबंध में एक भाषण में कहा : “महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान की जो सेवा की है और स्वतंत्रता के आंदोलनों में जो महान् कार्य किया है, वह इतना महत्वपूर्ण तथा अतुलनीय है कि उनका नाम हमें राष्ट्रीय इतिहास में सुनहले अक्षरों में लिखना होगा। पहले महायुद्ध में हिंद की जनता ने त्याग और बलिदान किये, उसके बदले में हमें रोलट कानून और जलियाँ-वाला बाग का कत्ले-आम मिला। १९१६ की इन घटनाओं से देशवासी अवाक्-से रह गये, उनकी हलचल ही रूक गई, स्वातंत्र्य के लिए की गई सब कोशिशें ब्रिटिशों ने अपनी सेना की सहायता से कुचल डालीं। वैधमार्गी राजनीति, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, सशस्त्र क्रांति आदि सब तरह के प्रयत्न उस समय बेकार सिद्ध हुए थे, आशा की एक भी चिनगारी नजर नहीं आ रही थी। जनता किसी नये तरीके को खोज रही थी। ऐसी हालत में गांधीजी आये और उन्होंने असहयोग, सत्याग्रह या सविनय कानून-भंग का नया रास्ता लोगों के सामने रखा, मानों भगवान् ने उन्हें आज्ञा दी का नया रास्ता दिखाने के लिए भेजा था। देखते-देखते पूरा देश उनके झंडे के नीचे जमा हो गया। हरेक भारतीय के चेहरे पर आत्मविश्वास तथा आशा की झलक दिखने लगी। बीस साल या उससे भी अधिक समय तक गांधीजी ने लगातार आजादी के लिए आंदोलन चलाया है। अगर सन् १९२० में अपना नया हथियार लेकर गांधीजी मैदान में न आते तो शायद आज भी हिंदुस्तान गुमसुम पड़ा हुआ मिलता। हिंदी स्वातंत्र्य के लिए उन्होंने जो काम किया, वह विशेषतापूर्ण और अतुलनीय ही माना जायगा। इससे अधिक काम करना किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था।

“आजादी के लिए दो अत्यन्त जरूरी बातें हिंद की जनता ने गांधीजी से पाई हैं। पहली यह कि जनता में अब स्वाभिमान तथा आत्म-विश्वास की भावना जग गई है और उसके हृदय में क्रांति की ज्योति प्रज्वलित हो गई है। दूसरी बात यह कि देश के कोने-कोने में फैला हुआ राष्ट्रव्यापी संगठन उन्होंने खड़ा किया है। गांधीजी ने हमें आजादी

के सीधे रास्ते पर ला खड़ा किया है। आज उन्हें जेल की सीखचों के अन्दर टूँस दिया गया है। गांधीजी ने जिस काम का सूत्रपात किया, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उन भारतीयों के कंधों पर है जो भारत में हैं या बाहर हैं। मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूँ। जब १९२० में नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का कार्यक्रम उन्होंने देश के सामने रखा, तब कहा था : 'अगर आज हिंदुस्तान के पास लतवार होती तो वह जरूर खींची जाती।' और आगे चलकर उन्होंने कहा था : 'आज सशस्त्र क्रांति का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज सत्याग्रह या असहयोग ही उसका दूसरा पर्याय हो सकता है।' लेकिन आज यह हालत बदली है। आज हिंद की जनता के लिए हाथ में तलवार लेना संभव है। हिंदुस्तान की स्वातंत्र्य-सेना आज बन गई है और उसकी तादाद दिन-ब-दिन बढ़ रही है, यह कहते हुए हमें खुशी और अभिमान होता है।"

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा प्रस्थापित अस्थायी सरकार और सेना के बारे में हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों के जो विचार थे, उनको हम, १९४३ के अन्त में श्री जयप्रकाशजी ने हिंदी क्रांतिकारियों के नाम जो त्रयान प्रकाशित किया, उससे जान सकते हैं : "आप जानते ही होंगे कि श्री सुभाषचंद्र बोस ने शोनान में एक अस्थायी सरकार कायम की है। जापान की सरकार ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने एक राष्ट्रीय सेना भी खड़ी की है और उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारी निगाह में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। सुभाष बाबू की सरकार ने भूख से पड़पते लोगों के लिए चावल भेजने की पेशकश की थी; लेकिन उसे नामंजूर करके ब्रिटिश हुकूमत हिंदी जनता को भूखी-प्यासी मरने दे रही है। सुभाष बाबू को 'गद्दार' कहकर पुकारना आसान है, और यह भी वे लोग कह रहे हैं जो अंग्रेजों से मिलकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन भारत के लोग खूब जानते हैं कि सुभाष बाबू एक लगनशाल देशभक्त हैं और आजादी की लड़ाई में वे हरदम सबसे आगे रहते आये हैं। वे अपने देश को किसीके हाथ वेचेंगे, इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। यह सही है कि उनको धन-माल की सहायता

फासिस्ट देशों की ओर से मिल रही है ; लेकिन उनकी सेना और सरकार के सभी लोग हिंदी हैं। वे सब ब्रिटिशों की सत्ता से दुश्मनी रखते हैं और अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए ही उनके दिल तड़प रहे हैं। शोनान में प्रस्थापित अस्थायी सरकार और सेना के महत्त्व को मानते हुए भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी स्वाधीनता हमारी अपनी ताकत पर और साधनों पर ही बड़े अंश में निर्भर रहेगी। खुद विश्वास और निष्क्रिय बनकर बाहर से आनेवाली सहायता के भरोसे रहना आत्मघात करने के बराबर है। बाहरी सहायता से हम आज़ाद नहीं बन सकेंगे। सुभाष बाबू की सेना कितनी ही बड़ी क्यों न हो ; लेकिन हिंदुस्तान में आकर वह हिंदुस्तान में जमा हुई मित्र-राष्ट्रों की सेना को परास्त करेगी, ऐसा मानना चमत्कारों में विश्वास करने के बराबर होगा। मित्र-सेना को जापानी सेना ही शिकस्त दे सकती है। अगर जापान ने इस सेना को हटाया तो सुभाष बाबू के साथ किये समझौते के बावजूद भी जापानी चुनचाप हमारे हाथों में सत्ता सौंप देंगे, इसकी संभावना मैं नहीं देखता। अगर मित्रराष्ट्र और फासिस्ट दुश्मनों के बीच हिंदुस्तान की भूमि पर लड़ाई छिड़ गई तो हमें सत्ता हाथधाने की कोशिश करनी होगी। अगर इसके लिए हम तैयार हों तो सुभाष बाबू की सेना हमारी कुछ सहायता जरूर कर सकेगी और हिंदुस्तान को अपने साम्राज्य में मिलाने की टोजी की कोशिशें बेकार बनाने में हमें सफलता मिल सकेगी। सुभाष बाबू हिंदुस्तान के स्वाधीनता-संग्राम के इन टॉपपेचों को कहाँ तक जानते हैं, पता नहीं। इमीलिए हमें हिंदुस्तान की भूमि में युद्ध छिड़ने पर क्या करना है, इसके बारे में सोच लेना चाहिए। ब्रिटिशों के रुख से हिंदी मनुष्य उनसे इतनी दुश्मनी करता है कि यद्यपि वह जापान का स्वागत नहीं करेगा, फिर भी अंग्रेज-जापान के बीच के युद्ध के बारे में वह उदास रहना चाहता है। यह उदासी बड़ी खतरनाक है, उसको मिटाने की कोशिश हमें करनी चाहिए और उसके लिए रचनात्मक आंदोलन की नीति अखिलरूप करनी चाहिए। जहाँ युद्ध छिड़ेगा या जहाँ जापानी कब्जा करेंगे वहाँ का विदेशी नागरिक शासन टूट जायगा। ऐसे स्थानों

में हमें अपनी आजाद सरकार को कायम करना होगा। हिंदी सेना की जो टुकड़ियाँ भाग खड़ी होंगी, उन्हें राष्ट्रीय सरकार के नाम पर उलाहना देना होगा और लोक-सेना संगठित करनी होगी। पहले हमें पूर्वी हिस्सों में ऐसी सरकार बनानी होगी और बाद में वह सारे देश में फैल जायगी।”

इस वक्त बंगाल में बड़ा भीषण अकाल पड़ा था। बंगाल से अन्य प्रांतों में अनाज ले जाया गया था और उनकी कीमतें बेहद बढ़ गई थीं। कलकत्ता और उसके आसपास के प्रदेशों में लोग भूख से तड़पकर मर रहे थे। अनाज की इस तंगी की जड़ में सरकारी नीति और व्यापारियों की निरीह नफे-खोरी थी। जैसे-जैसे भूख से मरनेवालों की तादाद बढ़ने लगी वैसे-वैसे देश का वायुमंडल फिर से क्रांतिकारक प्रवृत्ति और विचारों से उतेजित होने लगा। सरकारी कमीशन के अनुमान से कम-से-कम पंद्रह लाख लोग अकाल में काल-कवलित हुए होंगे। इसी असें में लॉर्ड लिनलिथगो वापस बुलाये गये और उनके स्थान पर लार्ड वेवल की नियुक्ति की गई। उन्होंने सेना की मदद से राहत पहुँचाना शुरू किया, जिससे धीरे-धीरे अकाल की भीषणता घट गई।

लॉर्ड वेवल ने ६ मई १९४४ के दिन बीमारी के कारण गांधीजी को रिहा कर दिया। उसके बाद धीरे-धीरे देश का वायुमंडल शांत होता गया और फिर से समझौते की पालिसी ने जोर पकड़ा। १९४५ के मध्य में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रिहा हो गये और वेवल साहब के साथ अस्थाई राष्ट्रीय सरकार और स्वाधीनता के बारे में बातचीत शुरू हो गई। जिसके फलस्वरूप २ सितंबर १९४६ को अस्थाई सरकार कायम हो गई। इसमें जवाहरलाल प्रभृति कांग्रेसी नेता मंत्रियों की हैसियत से शामिल हो गये। इस तरह अलग-अलग हालतों से गुजरते हुए ब्रिटिशों से हमारा स्वाधीनता-संग्राम समझौता होकर समाप्त हुआ।

कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से समझौता करने की जो नीति १९४५ से चलाई, वह एक तरह से अटल-सी हो गई थी। १९४२ से १९४३ तक देश की जनता और उसके नेताओं ने तरह-तरह के आंदोलन उठाये और ब्रिटिश हुकूमत को खत्म करने की कोशिशें कीं; लेकिन एक भी

प्रयत्न पूरी तरह सफल न हो पाया। ऐसी हालत में समझौते की नीति को स्वीकार करके राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की प्राप्ति के लिए कोशिश करने के सिवा और कोई दूसरा व्यवहार्य मार्ग उनको नहीं दिखता था। समझौते की राह पकड़ने पर लेन-देन में कुछ कमी-वेशी होना स्वाभाविक था। इसी कारण पाकिस्तान की माँग को कबूल करने की त्रारी आई। इस तरह अंत में अंग्रेजों से स्वातंत्र्य और स्वयंनिर्णय के अधिकार प्राप्त करने में गांधाजी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं को सफलता मिली। लोगों ने, भिन्न-भिन्न दिशाओं में, तरह-तरह के साधनों से भारत की आजादी के लिए कोशिशें कीं, काफी लोगों ने इसमें अपनी जान की बाजी लगाई, सब कुछ निछावर कर दिया। इन सबकी कोशिशों के फलस्वरूप ही हमें आजादी मिली है।

यों तो किसी एक ही को स्वाधीनता-प्राप्ति का पूरा श्रेय नहीं दिया जा सकता, फिर भी प्रत्यक्षतः म० गांधी तथा उनके नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे के नीचे लड़नेवाले उनके अनुयायी तथा अप्रत्यक्ष रूप से नेताजी सुभाष द्वारा प्रस्थापित आजाद हिंद सरकार की सेनाएँ इसके भागीदार बन सकती हैं।

इस क्रांति-कार्य में जब भारतीय जनता अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का झंडा लेकर खड़ी हुई, तब, जिन्होंने अपने क्रांतिशास्त्र के सच्चे ज्ञाता होने का दावा जन्म से ही किया था, वे कम्युनिस्ट, ब्रिटिश सरकार के युद्धकार्य में रोड़े न अटकाने का उपदेश देते हुए आराम से बैठे रहे। यह आश्चर्यजनक भले ही मालूम हो; पर यह होकर रहा। दूसरे महायुद्ध के आरम्भ में बोल्शेविक सरकार अपने देश को बचाने के लिए पहले हिटलर से गठबंधन कर बैठी। उस समय हिंदी कम्युनिस्टों ने कांग्रेस तथा गांधीजी को क्रांति-विरोधी कहकर अपने को सच्चा क्रांतिकारक कहा और तत्काल देश में आंदोलन शुरू करने की माँग की। बाद में जब हिटलर ने रूस पर हमला किया और रूस को ब्रिटेन से मित्रता करनी पड़ी तब ये आजन्म क्रांतिकारी एकाएक ब्रिटेन के मित्र बन गये! उनके इस बर्ताव से भारतीय जनता को यह साफ मालूम हो गया कि उनकी क्रांति-

कारिता वस्तुनिष्ठ या शास्त्रीय न होकर संसार में रूस की बौद्धिक गुलामी फैलानेवाली है ।

रूस ने जब अंग्रेजों से मित्रता कर ली तभी भारतीय कम्युनिस्टों को यह नई रोशनी मिली । लेकिन 'रायवादियों' ने युद्ध के आरम्भ में ही एलान कर दिया था कि यह युद्ध साम्राज्यशाही-युद्ध नहीं हैं । अंग्रेजों के युद्ध-प्रयत्नों से सहयोग करने की उनकी आरम्भ से ही नीति रही । इस तरह मार्क्सवाद के आधार पर देश में क्रांति करने की इच्छा रखनेवाले ये दो दल क्रांति के इस जमाने में जनता से दूर हट गये और स्वातंत्र्य-प्राप्ति के लिए यहाँ की जनता ने जो अंतिम संग्राम किया, उससे अलग रहे ।

हिंदुस्तान में मार्क्सवाद पर आधारित एक तीसरा दल कांग्रेस-समाजवादियों का था । यह पक्ष म० गांधी तथा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व और उसकी महत्ता को पहचानकर हिंदुस्तान के नौजवान क्रांतिकारियों को राष्ट्रीय आंदोलन में खींच लाया । कांग्रेस की सच्ची क्रांतिकारी शक्ति उसी पक्ष से इस दल में संगठित होने लगी । इस पक्ष के नेताओं की मान्यता थी कि गांधीजी के सत्याग्रही क्रांतियंत्र की महत्ता को जानकर ही भारतीय समाजवाद में सुधार करना आवश्यक है । उसी दृष्टि को लेकर आज वह दल हिंदुस्तान में प्रजातंत्रिय समाजवाद लाने की कोशिश कर रहा है । मार्क्सवाद के आधार पर भारत में जो तीन दल पैदा हुए, उनके काम का संक्षेप में यही इतिहास है । हमारी राय में समाजवादी दल नें जिस भूमिका को स्वीकार किया है, वह हिंदुस्तान में समाजिक-अर्थिक क्रांति करने में उपयुक्त सिद्ध होगा ।

श्री पोलक, ब्रेल्सफोर्ड तथा लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स ने मिलकर गांधीजी की एक जीवनी लिखी है । गांधीजी की राजनीति तथा भारतीय स्वातंत्र्य के आंदोलन में उनके योग-दान का जिक्र करते हुए लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स ने बड़े मार्के के विचार प्रकट किये हैं । वे लिखते हैं : "दो महायुद्धों के बीच के काल में हिंदू के स्वातंत्र्य-आंदोलन का नेतृत्व गांधीजी के हाथ में था । उसकी महत्ता समझने के लिए निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना

चाहिए। उस समय उनके सामने दो ही नहीं, तीन मार्ग थे (ऐसी हालतों में हमेशा ऐसे तीन मार्ग उपलब्ध हो सकते हैं)। पहला था—ब्रिटिश जो अधिकार दें उनको कृतज्ञता से कबूल करके उनसे स्वराज्य की शिक्षा मिलने के जो भी अवसर मिलेंगे उनका पूरा-पूरा लाभ उठाना। स्वराज्य के लिए अपनी योग्यता को सिद्ध करने का यह मार्ग था। आम तौर पर अंग्रेज यही चाहते थे कि हिंदू के लोग इसी रास्ते से चलें। भारत के अनेक लोग भी इस रास्ते को पसंद करते थे। गांधीजी ने तीन कारणों से इस रास्ते को ठुकराया : १. ब्रिटिशों के उद्देश्य सच्चे होने के बारे में उनके दिल में दिन-ब-दिन संदेह बढ़ रहा था। अंग्रेज यहाँ से अपना शासन कभी खुद उठावेंगे, इसके बारे में उन्हें शक था। २. इस रास्ते पर चलने से जिस तरह का स्वराज्य स्थापित होने की संभावना थी, वह ठीक नहीं लगता था। इस तरह मिलनेवाला स्वराज्य पश्चिमी ढंग का रहेगा और उसमें भारतीय जनता के विकास के लिए पूरा अवसर नहीं मिला पायेगा। उसमें नरेशों तथा पूँजीपतियों की प्रभुता रहेगी, जो कि यूरोपीय धनिकों के दबैल बने रहेंगे। ३. गांधीजी अपने देशवासियों के चरित्र को ऊपर उठाना चाहते थे। ब्रिटिश लोग उदारता से दान देंगे ऐसा मानकर लाचारी से राह देखते लोग आराम से बैठे रहें, यह अपने देश के लिए शोभा देनेवाली बात नहीं है।

“इसके विपरीत दूसरा मार्ग आतंकवादी क्रांति का था और इस मार्ग से चलनेवाले भी हिंदुस्तान में थे। तोड़-फोड़ और खून-खराबी का विकृत रूप इस मार्ग को मिल गया था। गांधीजी ने आरम्भ में ही इस मार्ग को ठुकरा दिया। नैतिक दृष्टि से वह उनको बुरा मालूम होता था। अगर इस रास्ते से देश को सफलता मिली भी तो (यह भी शंकास्पद ही था) खून-खराबी के इस रास्ते पर चलने से संभव था कि हिन्दुस्तान दुश्मनों से चारों ओर घिरा हुआ रहता। इसलिए इस रास्ते को छोड़कर उन्होंने अहिंसक असहयोग का तीसरा ही रास्ता पकड़ लिया। उसका स्वरूप सरकार से असहयोग करके शासन चलाना असंभव बना देना था। यह मार्ग आयरलैंड के सिनफेन दल के मार्ग से या ब्रिटेन में मताधिकारों

के लिए आंदोलन उठानेवाली स्त्रियों के मार्ग से मिलता-जुलता था। फिर भी उससे वह कुछ अंशों में भिन्न था। नमक-कानून को तोड़ना, सूत्र-कातना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में सत्याग्रह करना, सविनय कानून-भंग आदि बातों का इसमें समावेश होता है। भारतीय जनता ने इसके बारे में अपना फैसला कर लिया है। स्वाधीनता दिलानेवाली आद्यशक्ति गांधीजी की नीति ही है। निजी रूप में मैं जनता के इस फैसले से सहमत हूँ। इस रास्ते पर चलने से भारत की आत्मा जागी है। इसमें हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत चलाने को इंग्लैंड की आत्मक्ति मंदा पड़ गई है और इसी राह से जाने से रक्तंजित क्रांति टल सका है।”

: १३ :

सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र

सत्याग्रह एक राष्ट्रीय क्रांतिशास्त्र है। उसी तरह वह एक सर्वांगीण क्रांतिशास्त्र व समाजसंगठन-शास्त्र अथवा समाज धारणा-शास्त्र भी है। भारतीय संस्कृति का वह एक परिपक्व फल है। हिंदुस्तान आज तक एक राष्ट्रीय क्रांति-कार्य में मग्न था। इस क्रांति का तत्कालीन ध्येय राष्ट्रीय स्वतंत्रता और लोकशाही-प्रजातंत्र की स्थापना था। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई गांधीजी के नेतृत्व से पहले ही शुरू हो चुका था। गांधीजी के नेतृत्व से पहले हिंदू के राष्ट्रीय नेता यह जान गये थे कि हिंदुस्तान एक गुलाम देश है और जब तक वह आजाद नहीं हो जाता तब तक उसके जीवन व संस्कृति का प्रश्न हल नहीं हो सकता, और यह आजादी उसे प्रगतियों के कानूनी साधनों से नहीं मिल सकती। उसके लिए क्रांति के साधनों का अवलंबन करना जरूरी है। १९२० के पहले ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी थी कि जब तक स्वयंनिर्णय के सिद्धांतनुसार पूर्ण स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाती तब तक यह झगड़ा किसान-नर्कमी रूप में निरंतर चलता ही रहेगा। पहले महायुद्ध में हिंदुस्तान ने ब्रिटिश साम्राज्य को सहयोग दिया। वह सहयोग कांग्रेस की तब तक की नीति का ही फल था। उस सहयोग का फल महायुद्ध के बाद पूर्ण स्वराज्य के रूप में हिंदुस्तान को मिलना चाहिए, ऐसी लोकमान्य तिलक प्रभृत राष्ट्रिय नेताओं का राय

थी। १९१७ में भारत-मंत्री मांटेगू साहब ने हिंदुस्तान को किस्तों में स्वराज्य देने की जो घोषणा की उसके साथ ही कांग्रेस ने अपनी यह माँग पेश की कि भले ही हिंदुस्तान को स्वराज्य किस्तों में मिले; लेकिन पार्लामेंट ऐसा एक ही कानून बना दे जिसके द्वारा सेना और अर्थ-सहित सारी सत्ता लोगों के हवाले कर दी जाय और उस कानून के द्वारा एक निश्चित अवधि में हिंदुस्तान को स्वयंनिर्णित पूर्ण स्वराज्य मिल जाय। महायुद्ध के बाद जब मांटेगू साहब ने इस माँग को ठुकरा दिया तबसे कांग्रेस ने सहयोग की नीति छोड़ दी।

इस तरह १९२० में कांग्रेस के इतिहास का सहयोग-खंड समाप्त हुआ और असहयोग-खंड का प्रारम्भ हुआ। १९१७ तक उसकी बागडोर प्रागतिक नेताओं के हाथ में थी। तबतक उसकी नीति शुद्ध अथवा विलासर्त सहयोग की थी। उसी साल उनकी बागडोर लो० तिलक के हाथ में आई। तबसे उसकी नीति प्रतियोगी सहकारिता या सशर्त सहकारिता की हो गई। जब १९२० में यह साबित हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य भारतीय राष्ट्रीयता के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं है व १९१६ के जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड पर लीपापोती करके 'भूल जाओ और क्षमा करो' की मायावी भाषा ब्रिटिश राजनेताओं ने शुरू की तो प्रतियोगी सहकारिता की सहज परिणति असहकारिता में होना लाजिमी हो गई। इसी समय खिलाफत के मामले में ब्रिटिश-राजनीतिजों द्वारा दिये गये धोखे से हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वेईमानी साफ दिखने लगी। इस वक्त हिंदु-मुसलमानों में क्रांतिकारी राष्ट्रीय भावना जाग्रत हुई और हिंदु-मुसलमान मिलकर विदेशी ब्रिटिश साम्राज्यशाही से पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र का अवलंबन लेकर लड़ने लगे। १९२० से १९२२ तक यही स्थिति रही।

इसके बाद इस क्रांति की जो प्रतिक्रिया हुई, उससे हिंदु-मुसलमानों की एकता मिट गई। फिर भी कांग्रेस ने सत्याग्रह की जो लड़ाइयाँ लड़ीं उनमें मुसलमान जनता बहुत बड़ी संख्या में शामिल रही। खासकर उत्तर पश्चिम का मुलिस्म प्रांत और उसके खान बंधु अततक कांग्रेस के

साथ पूरी लगन से काम करते रहे ।

हिंदुस्तान में लगभग तीस साल (१९१७ से १९४७) तक के सत्याग्रह-संग्राम के फलस्वरूप एक अभिनव मानव-संस्कृति का उदय हो रहा है । इतना ही नहीं बल्कि उस संस्कृति की प्रगति का एक अभिनव क्रांतिशास्त्र भी बन रहा है । आज तक एक खास किस्म की लड़ाई द्वारा इस सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र की वृद्ध हुई और उसका एक विशेष पहलू ही लोगों के सामने आ सका है । लेकिन उसीको अंतिम या स्थाई स्वरूप मानना ठीक न होगा । उसी तरह यह मान लेना भी ठीक न होगा कि उस खास आंदोलन में सफल होकर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य तथा लोकतंत्र की स्थापना करने से उसका काम पूरा हो गया । विचारशाल मनुष्य तो कहेगा कि हिंदुस्तान में राष्ट्रीय स्वातंत्र्य तथा लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद ही उसके मुख्य कार्य की—अर्थात् मानव-संस्कृति में एक अभिनव क्रांति लाकर उसको मंगल रूप देने के कार्य की—अब शुरुआत होगी । सत्याग्रह की दीक्षा देने से राष्ट्रीय मानव तथा प्रजातंत्र का जो रूप बनेगा वह वर्तमान यूरोप से बिलकुल भिन्न होगा । इसीसे हमारे लिए संसार के इतिहास में खास स्थान है और विश्वास है कि हमारे इतिहास से संसार कुछ पाठ जरूर पढ़ सकेगा । भारतीय स्वातंत्र्य का सत्याग्रह-संग्राम आधुनिक भारत के गत सौ वर्षों के इतिहास का एक परिपक्व फल है या इस अर्थ में भारतीय संस्कृति का जो तत्त्वमंथन हुआ उससे प्राप्त अमृत है । इस अमृत तत्व-ज्ञान का प्राशन करने से मानव-संस्कृति सचमुच अमर बनेगी और इस अमर भूमि का नाम सार्थक होगा । इतना जरूर है कि इस तत्त्वज्ञान को स्वीकार करने का अधिकार अपने आचरण से सिद्ध करके दिखाने की जिम्मेदारी आज के तर्जुन भारत पर है । राष्ट्रीय क्रांतिकार्य सफल हो जाने से अब भरतखण्ड को इस आधार पर एक सर्वांगीण क्रांति करना लाजिमी हो गया है । इससे मानव-संस्कृति का एक नया आदर्श संसार के सामने आने लगेगा ।

सत्याग्रह-दर्शन को स्वीकार करने से पहले हिंदुस्तान में दो प्रमुख राष्ट्र-निर्माणकारी संप्रदाय मौजूद थे । उनको प्रागतिक और राष्ट्रीय थे

नाम मिल गये थे । इनके अलवा एक सशस्त्र क्रांतिकारक संप्रदाय भी था । यद्यपि म० गांधी का सत्याग्रही सम्प्रदाय इन तीनों संप्रदायों से सैद्धांतिक दृष्टि से भिन्न था, फिर भी इनके श्रेष्ठ तत्त्व उसमें आ गये हैं । हमारी राय में लो० तिलक प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं के बहिष्कार-योग का अथवा निःशस्त्र क्रांति का वह वैज्ञानिक और परिणत स्वरूप है । गांधीजी के पूर्व राष्ट्रीय नेता सशस्त्र क्रांति को समय के अनुकूल न पाकर निःशस्त्र क्रांति का उपदेश देते थे ; लेकिन गांधीजी कहते थे कि भले ही वह मार्ग हमारे लिए संभव हो जाय लेकिन अभीष्ट फल मिलने की दृष्टि से वह मार्ग ठीक नहीं है । इसी तरह पहले के बहिष्कार-योग का असहयोग में रूपान्तर करते हुए उन्होंने उसे अहिंसा-तत्त्व का आध्यात्मिक अधिष्ठान देकर एक अभिनव क्रांतिशास्त्र का परिणामकारी रूप दे दिया है ।

प्रागतिक संप्रदाय का उद्गम बंगाल में राजा राममोहन राय के सर्वांगीण सुधारवाद से हुआ है । वे खुल्लमखुल्ला मानते थे कि भारतीय संस्कृति आधुनिक ब्रिटिश संस्कृति के लिहाज से बहुत ही पिछड़ी हुई है और जबतक वह आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के बराबर प्रगति नहीं कर लेगी तबतक हमारा राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की बराबरी में आजादी भोगने के लायक नहीं बन सकेगा । इसी हेतु ब्रिटिश राज की छत्रच्छाया में अपनी संस्कृति के विकास का काम उन्होंने शुरू किया । वे सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर ज्यादा जोर देते थे, राजनैतिक और औद्योगिक उन्नति पर कम । वे मानते थे कि अंग्रेजों का हकूमत कायम होने के बाद हमारी संस्कृति का आधुनिक युग शुरू हुआ है । उन्होंने आधुनिक यूरोप के व्यक्ति-वादी धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक तत्त्वों का समर्थन करके भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू की । उन्हें महसूस होने लगा कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारी औद्योगिक उन्नति में बाधक हो रहा है । इतना ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के आर्थिक शोषण के लिए ही उसका निर्माण हुआ है, जिससे उसकी छत्रच्छाया में अपनी संस्कृति का विकास करना असंभव है । यद्यपि हमारी संस्कृति आज के जमाने में अन्य देशों की संस्कृति से पिछड़ी हुई है फिर भी जबतक हम अपने देश के शासन की

वागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगे तबतक उसका विकास तो दूर रहा, उसकी रक्षा भी नहीं की जा सकेगी। जब इस सत्य का ज्ञान आधुनिक भारत को हुआ तब सर्वांगीण सुधार के तत्वज्ञान में से ही प्रागतिक राजनीति का जन्म लगभग १८७५ में दादाभाई नौरोजी तथा जस्टिस रानडे-जैसे नेताओं के प्रयत्नों से हुआ। न्याय० रानडे का मत था कि भारतीय अर्थशास्त्र के लिए अंग्रेजों के व्यक्तिवादी अर्थशास्त्र का आधार नहीं बल्कि जर्मन तथा अमरीका-जैसे औद्योगिक प्रगति में पिछड़े देशों के अर्थशास्त्र का आधार लाभदायक होगा। इस तरह आधुनिक भारत के नेताओं की दृष्टि व्यक्तिवाद से हटकर राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगी।

न्या० रानडे ने यद्यपि राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र का पृष्ठपोषण किया, फिर भी राजनैतिक दृष्टि से वे इंग्लैंड के व्यक्तिवादी, नरम, प्रागतिक विचार-धारा के ही अनुयायी थे। ब्रिटिश शासन में बढ़ती हुई वेकारी तथा दरिद्रता का भीषण स्वरूप जैसे-जैसे लोगों को अधिकाधिक दिखने लगा वैसे-वैसे न्या० रानडे के नरम प्रागतिक राजनैतिक विचार लोगों को अपर्याप्त और असमाधानकारक मालूम होने लगे। साथ ही उन्हें लगा कि जर्मनी, अमरीका या जापान-जैसे औद्योगिक प्रगति में पिछड़े हुए परन्तु राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं उनकी राजनीति हमारे काम की नहीं। इससे हमारे राष्ट्र-निर्माताओं की दृष्टि स्वतन्त्र देशों की राजनीति और अर्थनीति से हटकर आयरलैंड या इटली-जैसे गुलामी से आजाद होनेवाले देशों की विचारधाराओं की तरफ खिंचने लगी। इसी दृष्टिकोण के कारण अंत में उग्र राष्ट्रीय राजनीति तथा सशस्त्र क्रांतिकारी राजनीति का आधुनिक भारत में जन्म हुआ।

उग्र राष्ट्रीय राजनीति से १९०५ के करीब बहिष्कार-योगी निःशस्त्र क्रांतिवाद पैदा हुआ और उसके बाद एक-दो वर्षों के भीतर उसको इटालियन देशभक्त मैक्निनी के प्रयत्नों के अनुकरण का और गुप्त पद्धतियों का रूप मिल गया। लो० तिलक प्रभृति राष्ट्रीय नेताओं की निःशस्त्र क्रांति या बहिष्कारयोगी राजनीति आयरलैंड के सिनफेन दल की प्रारंभिक राजनीति से मिलती-जुलती थी। क्रांतिकारी राष्ट्रीय राजनीति के सशस्त्र

और निःशस्त्र ये दो रूप पहले-पहल १८७५ में और बाद में १९०५ में महाराष्ट्र में नजर आये। लो० तिलक-जैसे नेताओं को गुप्त षड्यंत्रों की राजनीति का अनुकरण अपनी परिस्थिति से वेमेल मालूम होता था, जिससे कांग्रेस को निःशस्त्र क्रांति के मार्ग पर ले जाने की वे कोशिश करते थे। उनका यह प्रयत्न आयरिश नेताओं का केवल अनुकरण नहीं था, उन्होंने उसे आजमाया था और वह उन्हें अपनी परिस्थिति के अनुरूप तथा फलप्रद मालूम हुआ था। निःशस्त्र क्रांति के तरीके को अपने देश में आजमाने की कल्पना महज आयरिश नेताओं से नहीं मिली थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के एल्फिन्स्टन, मनरो, मेटकाफ-जैसे संस्थापकों ने ब्रिटिश साम्राज्य की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के बारे में जो विचार प्रकट किये थे उनके गहरे अध्ययन से भी वे इस नतीजे पर पहुँचे थे। सर जॉन सीली-जैसे राजनैतिक और ऐतिहासिक दार्शनिकों के द्वारा की गई भारत की ब्रिटिश साम्राज्य-सत्ता की मीमांसा से भी उन्हें सहारा मिल गया था। ये पुराने तत्वज्ञ तथा जे० डी० एच्० कॉल जैसे आधुनिक तत्वज्ञ इस बात में एकमत थे कि ज्योंही हिंदुस्तान में एकराष्ट्रीयता की भावना फैलेगी और ब्रिटिशों की भारतीय सेना में उसका प्रवेश होगा त्योंही हिंदुस्तान का ब्रिटिश-साम्राज्य टूट जायगा। लो० तिलक, बाबू त्रिपिन-चन्द्र पाल या योगी अरविंद-जैसे भारत के राष्ट्रनिर्माताओं को निःशस्त्र क्रांति की या बहिष्कार-योग की राजनीति ऐसे विचारों से ही सज़ी हो तो कोई आश्चर्य नहीं! मनरो, एल्फिन्स्टन जैसे तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के उद्गारों से पता चलता है कि सौ साल पहले ही उन्होंने अंदाज लगाया था कि भारत में ऐसी राजनीति निर्माण होगी और उससे ब्रिटिश-साम्राज्य का अन्त हो जायगा।

आधुनिक विद्या का जो प्रचार हिंदुस्तान में वे कर रहे थे और आधुनिक सुशिक्षितों में राजनैतिक आकांक्षाओं के जो बीज बो रहे थे, उन्हीं में से राष्ट्रीय एकता तथा स्वराज्य की लगन आज या कल पैदा होगी और उसके देश में फैलने पर हिन्द की सेना के बल पर ही हिंदुस्तान को काबू में रखने के ब्रिटिशों को प्रयोग का सफल अंत होगा, ऐसा अंदाजा

इन लोगों ने लगाया था। इसके बाद १८५७ में हिन्दु-मुसलमान सैनिकों ने मिलकर जो गदर किया, उसको दवाने में अंग्रेजों को जो सफलता मिली, इसका विवेचन करते हुए सीली साहब ने लिखा है : हिन्दुस्तान के इस गदर को दवाने में हम सफल हो सके, क्योंकि एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में हम कामयाब हो गये। जबतक यह संभव होगा और अपने पर शासन करनेवाली किसी भी हुकूमत की नुक़ताचीनी करने की या उसके खिलाफ़ बल्वा करने की आदत हिंदी जनता को नहीं लगी है तभी तक इंग्लैंड में बैठकर हिन्दुस्तान पर हुकूमत करना सम्भव है। अगर यह स्थिति बदली और किसी-न-किसी तरह भारतीय जनता में एकराष्ट्रीयता के भाव जागे तो हमें अपनी हुकूमत की आशा छोड़ देनी चाहिए।” १८५७-५८ के गदर को सिक्ख तथा गोरखा पल्टनों की सहायता से खत्म किया गया।

१८६५ से १९०५ तक के काल में क्रांतिकारी राजनीति देश में चली। उस वक्त के क्रांतिकारियों को लगता था कि देशी नरेशों में से एकाध की सहायता से या अफगानिस्तान या नेपाल—जैसे छोटे राज्य की सहायता से, जिस तरह इटली आस्ट्रिया के साम्राज्य से मुक्त हुई, उसी तरह ब्रिटिशों के साम्राज्य से भारत को मुक्त किया जा सकेगा। लेकिन यह खयाल वेदुनियाद साबित हुआ। लो० तिलक—जैसे लोगों को विश्वास हो गया था कि हिन्दुस्तान में जो क्रांति होगी उसका स्वरूप प्रजातंत्रीय होगा और मध्य श्रेणी के बुद्धिमान व स्वार्थत्यागी नेता तथा गरीब किसानों की संयुक्त ताकत से ही वह क्रांति होगी। इसीलिए वे इस बात पर जोर देते रहे कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पैरों तले कुचले जानेवाले किसान कॉंग्रेस में बड़ी तादाद में शामिल हों और उसका कारोबार लोकतंत्रात्मक ढंग से चलाया जाय। ऊँची श्रेणी के जमींदार तथा नरेश अपनी मिलिक्रयत के मोह से साम्राज्य से वफादार बने बैठे थे, जिससे उनसे कोई आशा करना बेकार था। इसीलिए सुशिक्षित मध्यमवर्ग तथा दरिद्री किसान ही क्रांतिकारी राजनीति का सच्चा आधार बन सकते हैं ऐसा जानकर इन दो वर्गों को सशस्त्र क्रांति से अछूता रखने के लिए ह्यूम, वेडरबर्न या कॉल जैसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञा कॉंग्रेस की हलचल कर रहे थे। इन्हीं वर्गों को कॉंग्रेस

में संगठित करके ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से आजादी पाने के लिए लो० तिलक—जैसे राष्ट्रीय नेता प्रयत्नशील थे। ह्यूम तथा वेडरबर्न अपने देशवासियों को काँग्रेस की माँगें कबूल करने के लिए जितनी भर उपदेश देते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि बहिष्कार-योग की निःशस्त्र क्रांति का प्रयोग सफल होनेवाला है और भारतीय जनता की महायत्ना से चलनेवाले अंग्रेजों का शासन एक-न-एक दिन टूटने वाला है। लेकिन ह्यूम या वेडरबर्न की बातें सत्ताधारी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने अनसुनी करदीं, जिससे काँग्रेस में निःशस्त्र क्रांति की भावना दिन-ब-दिन बढ़ती ही गई। प्रथम महायुद्ध के बाद अंग्रेजों ने जिस तरह भारत को छुकाया उसको देखते हुए गांधीजीने निःशस्त्र क्रांति को प्रभावशाली ढंग से संगठित करना शुरू किया। इस तरह महायुद्ध के बाद प्रागतिक राजनीति राष्ट्रमभा से अलग पड़ गई और काँग्रेस खुल्लमखुल्ला एक निःशस्त्र क्रांतिवादी संस्था बन गई।

आयरलैंड में सिनफेन दल के रूप में आर्थर ग्राफथ ने निःशस्त्र क्रांतिवादी राजनीति का आरम्भ किया था। लेकिन महायुद्ध के बाद वह राजनीति सशस्त्र क्रांति में बदल गई। आयरलैंड की तरह ही हिंदुस्तान अगर एक छोटा देश होता तो शायद वही बात यहाँ भी होती; लेकिन हिन्दुस्तान आयरलैंड या इटली से कई गुना बड़ा देश है। इसमें हिंदु, मुसलमान, सिक्ख जैसे अनेक धर्मभेद तथा जाति-भेद है। एकराष्ट्रीयत्व तथा लोकतंत्र की दृष्टि से वह पिछड़ा हुआ देश था। ब्रिटिश संस्कृति तथा ब्रिटिशों के काल्पनिक सामर्थ्य के डर से वह सहम गया था। इन बातों का खयाल करके निःशस्त्र क्रांतिवाद ही इस देश के लिए व्यवहार्य तथा प्रभावशाली मार्ग है, ऐसा म० गांधी के हिन्दुस्तान में आने से पहले ही यहाँ के विचारशील, बुद्धिमान तथा स्वार्थत्यागी नेताओं का मत हो गया था।

जब १९२० में गांधीजी ने असहयोग के रूप में देश के सामने निःशस्त्र क्रांति का अपना कार्यक्रम रखा तब देश के बुद्धिमान नेताओं तथा क्रांतिकारी युवक हृदयों ने उसको बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया। जिन लोगों ने गांधीजी के नेतृत्व को कबूल किया वे सब अहिंसाधर्मि बन गये ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। वे किस दृष्टि से और किस भाव

से इस पक्ष के हो गये, इसकी मीमांसा आचार्य कृपलानी के नीचे दिये उद्धरण से भली-भाँति हो सकती है। वे लिखते हैं: “विज्ञान और हवाई जहाजों के इस युग में संहारक साधनों से सुसज्जित सरकार के खिलाफ सशस्त्र युद्ध करना शस्त्रधारी लोगों को भी असंभव-सा लगता है। तब हिन्दुस्तान—जैसे निःशस्त्र देश का पूछना ही क्या? साथ-ही खुले तौर पर सैनिक ढंग का क्रांतिकारी संगठन करना भी संभव नहीं होता। हमें अपना संगठन अहिंसात्मक साधनों से ही करना चाहिए। स्वार्थत्याग, वीरता, ऐक्य, अनुशासन तथा संगठन जैसे नैतिक गुण सशस्त्र क्रांति के लिए भी आवश्यक हैं, उनकी सत्याग्रह से अच्छी तरह वृद्धि हो सकती है। आखिरी वार करने का काम हिंसात्मक हो चाहे अहिंसात्मक, दोनों के लिए गांधीजी के नेतृत्व में सद्गुण-संपत्ति बढ़ाने का जो काम हो रहा है वह अत्यंत आवश्यक है। इन सद्गुणों की वृद्धि शांतिमय साधनों से ही बढ़े पैमाने पर हो सकती है। इन गुणों से युक्त, कोई छोटी जमात खड़ी करना जरूर आसान हो सकता है; लेकिन समस्त देश में या उसके बहुत बड़े हिस्से में गुप्त रूप से यह करना असंभव है। इसलिए आखिरी सशस्त्र लड़ाई की दृष्टि से भी हिन्दुस्तान में सत्याग्रह से जो गुणसंपत्ति बढ़ रही है, वह बढ़े काम की है। क्योंकि आंदोलन कैसा क्यों न हो, गुण-संपत्ति ही उसकी नींव होती है। ऐसी हालत में चाहे स्थाई तौर पर न भी हो; लेकिन आनेवाले बहुत वर्षों तक सत्याग्रह या हड़ताल का एक ही साधन हमारे लिए उपलब्ध है।” इस तरह हम देखते हैं कि धर्म के तौर पर भले ही न हो; लेकिन व्यवहार-नीति के तौर पर गांधीजी के नेतृत्व में चलनेवाले सत्याग्रह-संग्राम में वे सब उमंग भरे दिल शामिल हो गये जो गांधीजी के नेतृत्व से पहले क्रांतिकारी साधनों के उपयोग में लगे थे या लो० तिलक के दल में भर्ती होकर मानते थे कि उन्हीं की नीति से अंत में भारतीय क्रांति होगी। पहले व्यवहार-नीति के रूप में जिन लोगों ने सत्याग्रह को स्वीकार किया उन्हीं में से कुछ लोग सत्याग्रह का सही और प्रभावशाली रूप वृद्धि के द्वारा जानकर धर्म-दृष्टि से भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। गांधीजी ने कांग्रेस या खिलाफत कमेटी से सत्याग्रह-

संग्राम के लिए मान्यता प्राप्त करते हुए यह आशा कभी नहीं रखी थी कि वे धर्म-बुद्धि से अहिंसा को कबूल करें ।

ग्राम तौर पर धर्म-दृष्टि से अहिंसा का सिद्धांत मानव का नित्यधर्म है, ऐसा मानने में कम-से-कम हिंदुस्तान में कोई विचारशील व्यक्ति हिचकिचाता नहीं है। फिर भी सत्य और अहिंसा के नित्यधर्म को व्यवहार में उतारते वक्त, मानव-समाज की अपूर्ण अवस्था में कुछ अपवाद करना जरूरी होता है, ऐसा लोग प्रतिपादन करते हैं। लेकिन जब यह सब मानने लगते हैं कि व्यवहार-नीति के तौर पर भी अहिंसा के सिद्धांत पर चलना राष्ट्र-निर्माण के कार्य में आवश्यक है तब, क्रांति पर विश्वास रखने-वालों का मानना है कि धर्म-शास्त्र के सूक्ष्म मतभेदों का सहारा लेना खाल निकालकर लोगों में बद्धि-भेद पैदा करने और देश में चलते हुए निःशस्त्र क्रांति के काम में रोड़े खड़े करने में बुद्धिमानी नहीं है। अंतिम सिद्धांत के मतभेदों को भूलकर, खास कार्यक्रम पर एकमत होनेवाले राज-नैतिक दल एक-दूसरे के कंधे-से-कंधा मिलाकर एक ही विरोधी से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह की व्यवहार-बुद्धि गांधीजी के पास थी। इसी दृष्टि से फिलहाल शस्त्र उठाकर सशस्त्र क्रांति के लिए उठ खड़े होना जो अशास्त्रीय मानते थे, वे सब क्रांतिकारी गांधीजी के नेतृत्व में काम के लिए तैयार हो गये। व्यवहार-बुद्धि से गांधीजी के नेतृत्व को मंजूर करने-वाले ऐसे लोगों को ढोंगी या बुद्धिहीन कहना सरासर गलत है।

पुराने नेताओं के बहिष्कार-योग को यद्यपि गांधीजी ने असहयोगी युद्ध के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया, फिर भी अहिंसा के सिद्धांत का अधिष्ठान उसके साथ जोड़ने से उनमें धर्मनिष्ठा का अलौकिक तेज चमकने लगा। इससे उनका प्रभाव बढ़ने लगा और ब्रिटिश शासकों ने जो सहूलियतें लो० तिलक या बाबू अरविंद को कभी नहीं दीं, वह गांधीजी को देने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। १९०६ में अपनी एक तक्ररी में बाबू अरविंद घोष ने कहा था कि यदि सरकार नागरिक अधिकारों को न छीनने का अभिवचन देगी तो राष्ट्रीय नेता यह आश्वासन दे सकेंगे कि भारतीय राज्यक्रांति निःशस्त्र मार्ग को कभी नहीं छोड़ेगी।

बाबू अरविंद घोष तथा लो० तिलक व्यवहार-नीति के अनुसार निःशस्त्र क्रांतिवादी थे; परन्तु ब्रिटिश शासकों को लगता था कि वे अंतिम दृष्टि से अहिंसा को नहीं मानते। इसीलिए चेम्सफोर्ड, रीडिंग, अर्विन या लिनलिथगो के जमाने में आंदोलन के प्रारम्भिक दौर में गांधीजी को जो रियायतें मिलीं, वे लो० तिलक या अरविंद घोष को नहीं मिल सकीं। फिर भी, अंग्रेज शासक यह नहीं मानते थे कि गांधीजी के आंदोलन से सशस्त्र क्रांति का उद्गम होगा ही नहीं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से गांधीजी की अहिंसानिष्ठा के बारे में शायद ही किसीको शंका थी, इससे उनपर अभियोग लगाने की हिम्मत अंग्रेज शासकों को नहीं होती थी। इतना जरूर वे कहते थे कि गांधीजी अपने निःशस्त्र क्रांतिवादी आंदोलन को काबू करने में असफल होंगे, जिससे वह सशस्त्र क्रांति में बदल जायगा। वे इसी ब्रह्मने अपने दमनचक्र का संसार के सामने समर्थन करते थे। लोकन उनको अनुभव हो चुका था कि दमनचक्र से गांधीजी द्वारा चलाया सत्याग्रह-आंदोलन दब नहीं सकता। साथ ही आंदोलन को अत्याचारी धारा में बहाकर अपनी अमर्याद सेना-शक्ति से उसे कुचलने के उनके विचार भी गलत साबित हुए।

ब्रिटिश-राजनीतिज्ञ इस बात से वाकिफ़ थे कि उनकी सैनिक शक्ति हिंदी राष्ट्र के सहयोग पर निर्भर है, अतः असहयोग के आंदोलन में उसके भरोसे पर रहना दूरदर्शिता नहीं होगी। १९३४ में जॉ० डी० एच० कॉल ने अपने ग्रंथ “आधुनिक राजनीति की चर्चा” (Guide to Modern Politics) में गांधीजी तथा कांग्रेस की राष्ट्रीय क्रांति के बारे में लिखा कि “हिंदु तथा मुसलमान धर्म की प्रचंड मूक जनता की राय की परवाह न करते हुए ग्रेटे ब्रिटेन ने भारत को अपने आधीन रखा है। देशी नरेश, जमींदार तथा अन्य धनपति इस डर से कि कहीं राष्ट्रीय आंदोलन समाजवादी रूप धारण करे तो मिलिक्रयत जन्त हो जाय, अंग्रेजी हुकूमत के वफादार रहे। किसानों में से बहुत ही थोड़े लोग किसी प्रकार के राजनैतिक आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। फिर भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस को सक्रिय सहायता देनेवाले लाखों की तादाद में हैं। राजनैतिक दृष्टि से जाग्रत

हिंदी जनता में से बहुसंख्यक लोग मानो कांग्रेस के पीछे या राष्ट्रीय मुसलमानों की संस्थाओं के पीछे खड़े हैं। प्रागतिक या उनसे नरम राजनीतिवाले जो पक्ष हैं, उनमें कुछ गण्यमान्य व्यक्ति जरूर हैं; लेकिन आम जनता का उन्हें समर्थन नहीं है। ... कांग्रेस में सामाजिक तथा आर्थिक नीति के बारे में अनेक रूख रखनेवाले लोग हैं। एक सिरे पर किसी भी किस्म के समाजवाद की मुखालिफत करनेवाले हिंदी मिल-मालिक और पूँजीपति हैं तो दूसरे सिरे पर मजदूर नेता और शिक्षित नौजवान हैं जो आधे समाजवादी या आधे कम्युनिस्ट हैं। पं० जवाहरलाल नेहरू इस मनोवृत्ति के एक उदाहरण है। गांधीजी इन दो सिरों के बीच में हैं। राजनीति, धर्म तथा संन्यस्त वृत्ति का ऐसा मिश्रण उनके मतां में है कि आधुनिक पाश्चात्य मानस के लिए उसका समझना मुश्किल है। फिर भी हिंदुस्तान में उनके ही सबसे अधिक अनुयायी हैं। राजनीति में वे फिर से कहाँ तक नेतृत्व करेंगे, यह कोई नहीं जानता। शायद वे भी नहीं बता सकेंगे। क्योंकि वे हमेशा अंतःप्रेरणा के अनुसार चलते हैं।

“आज तक गांधीजी की राजनीति का अंतरंग अहिंसा ही रही है। न सिर्फ राज्य क्रांति में बल्कि हरेक किस्म की हिंसा का उन्होंने विरोध किया है। अहिंसात्मक असहयोग और सविनय कानून-भंग उनके अंतिम शस्त्र हैं और यही उनकी नीति की बुनियाद हैं। लेकिन कबतक वे इस मर्यादा में राष्ट्रवाद को रख सकेंगे? उन्होंने कई बार कानून-भंग के आंदोलनों का इसलिए रोक दिया है कि कहीं पर हिंसा फूट निकली थी। लेकिन क्या वे इस तरह आंदोलन को हमेशा ही रोक सकेंगे?”

“यह न भूलना चाहिए कि सरहद्दी सूत्रों की टोलियों के अलावा करीब-करीब पूरा हिंदुस्तान शस्त्र-रहित है। हाँ, ब्रिटिशों की अधीनता में काम करनेवाली सेना का अपवाद है। हिंदू के लोग शस्त्र चाहते हैं; लेकिन सरकार को इससे राष्ट्रीय आंदोलन सशस्त्र बन जाने का खतरा महसूस होता है। हिंदी-सेना की स्वामिभक्ति पर ग्रेट ब्रिटेन का भावितव्य बहुत कुछ निर्भर है। पता नहीं कि सेना में कहाँ तक राष्ट्रीय विचार फैले हैं? ... अगर साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य के अधिकार हिंदुस्तान को मिल

जायँ तो हिंदी राष्ट्रीय नेता समझते के लिए तैयार हो जायँगे। उनकी यह माँग मंजूर न हुई तो भी कुछ असें तक हिंदुस्तान पर दमनचक्र से काबू रखा जा सकेगा; लेकिन जब यूरोप की किसी जटिल समस्या में इंग्लैंड फँसा हुआ होगा तब उनका हिंद साम्राज्य, संभव है, नष्ट हो जायगा।”

ऊपर के उदहारण से पता चलता है कि ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों के अपने साम्राज्य तथा कांग्रेस के निःशस्त्र आंदोलन के बारे में क्या विचार थे। दूसरे महायुद्ध के समय १९४२-४३ में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार तथा सेना की प्रस्थापना करके ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ी, इससे दीख पड़ेगा कि कॉल साहब का डर सही निकला और राष्ट्रीयता का प्रचार सेना व नौसेना के सैनिकों तक बहुत बड़ी मात्रा में पहुँच गया। आगे चलकर नौसेना के सैनिकों का एक विद्रोह भी हुआ। इससे ब्रिटिश स्थिति को समझ गये और उन्होंने भारत की आज़ादी को मंजूर करना तय किया।

म० गांधी जिस तरह एक व्यवहार-दक्ष राजनीतिज्ञ और राजनेता थे, उसी तरह वे एक अलौकिक धर्म-सुधारक व तत्त्वनिष्ठ समाज-सुधारक भी थे। धार्मिक व सामाजिक सुधारक की आध्यात्मिक वृत्ति और प्रखर सत्यनिष्ठा को राजनीति में दाखिल करना और समाज के सर्वांगीण व्यवहार को आध्यात्मिक रूप देना, वे अपना जीवन-कार्य मानते थे। गौतम बुद्ध की अहिंसा तथा श्रीकृष्ण का अन्याय-प्रतिकार का निष्काम कर्मयोग या अनासक्ति-योग इस सबका एक अनुपम मिश्रण उनके सत्याग्रह-दर्शन में हुआ है। अन्याय-रूपी अधर्म का उच्छेद करके न्यायरूपी धर्म की प्रस्थापना करना ही उनकी मूल प्रेरणा थी! धार्मिक-सामाजिक सुधारकों की तरह उनका वृत्ति अंतर्मुख थी और अपनी गुलामी का कारण दूसरे की बनिस्वत वे खुद को मानते थे। आत्मोन्नति और आत्मशुद्धि को ही वे स्वातंत्र्य-प्राप्ति का मार्ग बताते थे। उनका कहना था कि आधुनिक यूरोपीय सभ्यता को स्वीकार करने से हमारी उन्नति नहीं, अवनति होगी। वे मानते थे कि समाज के राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवहारों पर से धर्म का नियंत्रण हट जाने से यूरोपीय सभ्यता का नाश हो रहा है। धर्म व मोक्ष के

पुरुषार्थों को छोड़कर अर्थ और काम-पुरुषार्थ की प्राप्ति की तरफ सारा समाज दौड़ता है, ऐसा मानकर उसीके आधार पर समाज की रचना करने की कोशिश आधुनिक यूरोप ने की, जिसके फलस्वरूप वहाँ पूँजी-शाही, साम्राज्यशाही, तानाशाही की आसुरी संपत्ति पैदा हो गई और भौतिक विद्या ने मानवसंहार-शास्त्र का रूप ग्रहण कर लिया। उनका आत्मविश्वास था कि आधुनिक यूरोप की आसुरी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय महा-युद्ध तथा राष्ट्रान्तर्गत वर्गयुद्ध की यादवी में निकट भविष्य में नष्ट हो जायगी और संसार को शांति, न्याय तथा सत्य का मार्ग बतानेवाली एक नई मानवी सभ्यता सत्याग्रह-दर्शन से पैदा होगी। मतलब यह कि गांधीजी का सत्याग्रह-दर्शन जिस तरह एक राष्ट्रीय तथा राजकीय क्रांति का दर्शन है, उसी तरह वह एक सर्वांगीण क्रांति का दर्शन भी है। म० गांधी जिस तरह राजनेता व राजनीतिज्ञ थे, उसी तरह वे धार्मिक व सामाजिक सुधारक भी थे।

वे एक भागवत् धर्मो संत थे और मध्ययुगीन क्रान्तिमार्गी साधु-संतों की तरह वैदिक धर्म की परंपरा तथा वर्णाश्रम-धर्म की चौखट का उन्होंने स्वरूपतः त्याग नहीं किया था। फिर भी उनकी वृत्ति थी कि ब्राह्मणों से लेकर अतिशूद्रों तक सबको सामाजिक समता का लाभ मिलना चाहिए, चातुर्वर्ण्य की सामाजिक विपमता पूरी तरह मिट जानी चाहिए, सामाजिक श्रेष्ठता के अहंकार से जनित कुत्रिम बंधन हटने चाहिए और शूद्र व अतिशूद्र वर्णों को भी मानव-संस्कृति में बराबरी का स्थान मिलने के लिए हमें गुलाम रहते हुए भी जी-जान से कोशिश करना चाहिए। इस दिशा में अस्पृश्यता-निवारण, हरिजनोद्धार और जातियों के बीच की असमानता को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया एवं हिंदू समाज की ओर से उसके लिए स्वीकृति प्राप्त की। उनका यह काम पिछली सदी के किसी भी धार्मिक या सामाजिक सुधार के काम से जरा भी कम नहीं है। राष्ट्रीय राज्यक्रांति से इस काम का विरोध उन्हें नहीं मालूम होता था, उलटे वे इस कार्य को उसके लिए पूरक मानते थे। गांधीजी का भक्ति-मार्ग पुराने संतों की तरह प्रतिकारशून्य नहीं था। वह अहिंसक प्रतिकार का तेजस्वी मार्ग था। भक्तिमार्ग तथा प्रवृत्तिमय कर्म-

योग इन दोनों का समन्वय करके रामराज्य की स्थापना करने का अभिनव सत्याग्रही मार्ग सारे संसार को उन्होंने बताया है ।

और अनेक दृष्टियों से म० गांधी का कार्य मध्ययुग के साधुसंतों के कार्य से आगे बढ़ा है । उनकी रामराज्य की कल्पना अधिक परिणत तथा आधुनिक काल से मेल रखनेवाली थी । राजसत्ताक शासन के लिए वे रामराज्य शब्द काम में नहीं लाते थे । राज्य चाहे राजसत्ताक हो, लोकसत्ताक हो या समाजसत्ताक, एक तरह से ये केवल ब्राह्म रूप ही हैं ; लेकिन राज्यों का अंतःस्वरूप हमेशा न्यायपरक होना चाहिए । रामराज्य के माने हैं धर्म का, न्याय का राज्य । राम नाम का वह विशिष्ट व्यक्ति अब इस भूमि पर नहीं आ सकेगा ; लेकिन हरेक मनुष्य के हृदय में राम तथा रावण वृत्तियाँ होती हैं । पहली से धर्म या न्याय की बुद्धि उदित होती है तो दूसरी स्वार्थ-बुद्धि का रूप ले लेती है । मनुष्य के हृदय से स्वार्थ-बुद्धि हटाकर वहाँ न्याय-बुद्धि का राज्य स्थापन करना ही अंतःकरण का रामराज्य है । स्वार्थ-बुद्धि के कारण समाज में जो कई प्रकार के कलह उठते हैं वे नष्ट हों और न्याय की प्रस्थापना हो तो रामराज्य स्थापित होता है । जिस राज्य को समाज की न्यायबुद्धि का आधार है, जहाँ के कानून समाज की न्यायबुद्धि के अनुसार बने हैं, न्यायबुद्धि से व्यवहार करनेवाले मनुष्य को जिस समाज में किसी भी कानून से प्रतिबंध नहीं होता, जिस समाज के सब व्यवहार मनुष्य के अंतःकरण की न्यायबुद्धि को आसानी से मान्य हो जाते हैं, अन्याय से धन कमाना या सत्ता का दुरुपयोग करना जिस समाज में असंभव है और जहाँ की राजसत्ता प्रजा के संगठित आत्मबल के सामने झुक सकती है, वह राज्य रामराज्य है ।

आज के समाज-शास्त्र या राज्य-शास्त्र की दृष्टि से तथा समाज-संघटन के लिहाज से आधुनिक भारतवर्षीय रामराज्य राजसत्ताक न होकर प्रजासत्ताक ही बनेगा और वैसा ही बनाने की गांधीजी की कल्पना थी । आजका राष्ट्र-निर्माण जनतंत्रीय सिद्धांतों पर ही होगा और आज के स्वराज्य में समता तथा नागरिक अधिकार सबके लिए सुलभ हों, गांधीजी ने यह अपनी उक्ति तथा वृत्ति से लोगों को ठीक तरह समझा दिया है । यह मत उनका

अवश्य था कि यह प्रजातंत्र यूरोप के प्रजातंत्र की तरह पूँजीवादियों का गुलाम न बने और लोकतंत्र के नाम पर यहाँ धनिक-सत्ता प्रस्थापित न हो। आधुनिक यूरोप में जो सभ्यता पैदा हुई है उसने धर्म के अधिष्ठान का त्याग कर दिया है जिससे वह भ्रष्ट हो गई और उससे पूँजीवाद तथा साम्राज्यवाद की पैदाइश हुई। आज वह विनाश के गड्ढे में जा पहुँची है। इसलिए गांधीजी बड़े आग्रह के साथ भारतीय जनता से अनुरोध करते थे कि आधुनिक यूरोप के अंधानुयायी न बनो और धर्म का अधिष्ठान न छोड़ो। ध्यान में रखना चाहिए कि गांधीजी जिस अर्थ में धर्म तथा रामराज्य का प्रयोग करते थे, वह आजकल के पढ़े-लिखे लोगों की कल्पना से बिलकुल अलग है।

अपनी राष्ट्रीयता के लिए जिस धर्म की स्थापना वे चाहते थे वह केवल हिंदू धर्म न होकर व्यापक सर्वश्रेष्ठ मानव-धर्म था। मनुष्य के हृदय में असत्य से सत्य की तरफ, अज्ञान से ज्ञान की तरफ तथा अपूर्णता से पूर्णता की तरफ जाने की एक सनातन वृत्ति है, जिसके मातहत सब धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारक या क्रांतिकारक लोकनायक, राष्ट्रनिर्माता, साधुसंत, धर्मसंस्थापक सब व्यवहार करते हैं। इस भावना से मनुष्य की स्वार्थी अहंकार-भावना का लोप होता ही है और वह परार्थी लोकसेवक बनता है। गांधीजी इसी वृत्ति को धर्म-वृत्ति या धर्म कहते हैं। गांधीजी की सीख है कि संसार के सब धर्मों का उद्देश्य एक है और मानव को चाहिए कि उन्नति तथा शुद्धि करनेवाली यह वृत्ति जागृत करके वह अपना पारमार्थिक श्रेष्ठ व सत्य स्वरूप प्रकट करे। यही सब धर्मों का सार है। सर्वधर्म-सहिष्णुता तथा सर्वधर्म समभाव उनके सत्याग्रह का एक आवश्यक व्रत है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, सत्य ही परब्रह्म है, यह उक्ति उनके अध्यात्म-ज्ञान का रहस्य ठीक तरह प्रकट करती है। अध्यात्म के और सर्वव्यापक मानव-धर्म के इसी आधार पर वे आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते थे और इसीलिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई जैसे नुद्र भेदाभेद उनके हृदय को छू तक नहीं सकते थे। हिंदुस्तान के इतिहास की राजनैतिक परंपरा को देखकर उन्होंने

समझा था कि आधुनिक भारत के निर्माण में हिंदू-मुस्लिम-भेद एक प्रमुख रुकावट है। हिंदू समाज की सामाजिक विषमता को नष्ट करने के प्रतीक के रूप में उन्होंने अस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजनोद्धार को अपने रचनात्मक कार्यक्रम में मुख्य स्थान दिया था और जब हिंदुओं से हरिजनों को फोड़ने की कोशिश अंग्रेजों ने की, तब अपनी जान की बाजी लगाकर ब्रिटिशों की इस भेदनीति को उन्होंने शिकस्त दे दी। आधुनिक भारत के इतिहास में, राजनीति, समाजनीति एवं धर्मनीति आदि की दृष्टि-कोण से म० गांधी ने जो काम किया वह बड़े महत्व का है और उसके मधुर फलों को आनेवाली पीढ़ियां चख सकेंगी। रचनात्मक काम की दूसरी महत्व की बात है हिंदू-मुस्लिम-एकता। उसपर गांधीजी ने जितना ध्यान दिया किसी अन्य राष्ट्रीय नेता ने शायद ही दिया हो। अनेक भारतीय नेताओं ने जान लिया था कि, राष्ट्र-निर्माण के लिए हिंदू-मुस्लिम-एकता का होना आवश्यक है। इनमें दादाभाई नौरोजी, न्यायमूर्ति रानडे, माननीय गोखले, लॉ० तिलक आदि नेताओं ने राजनैतिक दृष्टि से हिंदू-मुस्लिम-एकता का पृष्ठपोषण किया था; लेकिन इस सवाल की ओर गांधीजी की दृष्टि राजनीति के अतिरिक्त धर्म की भावना पर आधारित थी। हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई इन तीन धर्मों का समन्वय करने की दृष्टि से राजा राममोहन राय ने ब्रह्मसमाज की स्थापना की तथा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य स्वामी विवेकानंदजी के मुख से सारे संसार को कहलवाया कि आधुनिक संसार को सर्वधर्म-समन्वय या सर्वधर्म-समभाव ही वेदांत का प्रचीन संदेश है। गांधीजी की दृष्टि इसी तरह के सर्वधर्म-समभाव पर है। उनकी इस वृत्ति के लिए मध्ययुगीन साधुसंतों के भागवत्-धर्म का भी ठोस आधार है और इसी आधार पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रमंदिर की रचना की है।

आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के आधार पर पहले के सर्वोपयोगी सुधारकों ने जिस एक तत्त्व का प्रतिपादन किया था, वह कुछ अलग किन्तु शुद्ध स्वरूप में गांधीजी के सत्याग्रह-दर्शन में अंतर्भूत हो गया है। यह तत्त्व व्यक्ति-स्वातंत्र्य का है। एक अर्थ में गांधीजी आत्यंतिक व्यक्तिवादी थे।

लेकिन अपने व्यक्तिवाद को उन्होंने भौतिक सुखाभिलाषा का हीन रूप न देकर लोकसेवा में होनेवाली आध्यात्मिक सुखाभिलाषा का श्रेष्ठ रूप दिया था। उनके सत्याग्रह-विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत था कि ग्रन्थ तथा गुरु की अनुभूतियों से आत्मानुभूति बढ़कर है और हरेक व्यक्ति को चाहिये कि वह अंतरात्मा की आज्ञानुसार चले। वे मानते थे कि 'निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतां को विधिः को निपेधः' का सिद्धान्त अपने सामने रखकर धर्मबंधन, राजबंधन या समाजबंधन से परे केवल परमेश्वर का बंधन मानकर अपने को तथा समाज को युक्त करने का अधिकार हरेक शख्स प्राप्त कर सकता है। सत्याग्रह सर्वांगीण क्रांति का एक शस्त्र है और उसको उठाने का अधिकार किसी खास कुल में उत्पन्न लोगों या साधु-संतों तक ही सीमित नहीं। वह तो सबके लिए है। साधुत्व की प्राप्ति हरेक का अधिकार ही नहीं बल्कि धर्म है। वे मानते थे कि इस साधुत्व को पाकर समाज के सब विधि-निपेधों से परे जाकर नये विधि-निपेध निर्माण करना और नये काल, नयी परिस्थिति से तथा समाज में उठनेवाली नयी शुभ आकांक्षाओं के अनुरूप नये धर्म की संस्थापना करना समाज के सर्वश्रेष्ठ साधु-संतों का कर्त्तव्य है। हिन्दुस्तान को हर प्रकार से ब्रह्माद करनेवाली ब्रिटिश साम्राज्यशाही के खिलाफ उन्होंने जो राष्ट्रीय क्रांति का झंडा खड़ा कर दिया उसीके फलस्वरूप हिन्दुस्तान में लोकतंत्र निर्माण हुआ है। इस लोकराज्य में हरेक के जीवन तथा धन-संपत्ति की हिफाजत होगी। हरेक को सुख से जीविका उपार्जन करने की सुविधा उपलब्ध होगी और प्रत्येक की आत्मोन्नति में समाज सहायक बनेगा।

लेकिन लोकराज्य ही गांधीजी के स्वराज्य का अंतिम रूप नहीं है। उनका स्वराज्य तो आत्मराज्य है, जिसमें किसी को भी बाह्य कृत्रिम बंधन पालने नहीं होंगे, और जहाँ दंडधारी राज्य-संस्था की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। यह आत्मराज्य लोकसत्ता और समाजसत्ता से भी परे है और उसकी प्राप्ति सत्याग्रही व्यक्ति-स्वातंत्र्य के जरिये ही हो सकेगी। हाँ, वे आधुनिक यूरोप के संस्कृति-विनाशक व्यक्तिस्वातंत्र्य के हीन रूप को नहीं चाहते

थे। अमर्याद धन-संचय का व्यक्तिस्वातंत्र्य, सत्ता या संपत्ति के रूप में उन्मत्त हो जाने का व्यक्तिस्वातंत्र्य वे हार्गिज नहीं चाहते थे। मार्टिन ल्यूथर ने जब प्रोटेस्टेंट धर्मपंथ की स्थापना की अथवा उसके बाद के कॉल्विन ने प्युरीटन पंथ को चलाया तब उनके सामने न तो अमर्याद धनोपभोग का या सत्ताभिलाषा का हीन व्यक्तिस्वातंत्र्य था और न धनिक वर्ग के वंशधरों में फँसने की उनकी अभिलाषा थी। लेकिन व्यापारी वर्ग ने उनके व्यक्तिवादी तत्वों का अवलंबन लिया और शीघ्र ही उसे सुखाभिलाषी व्यक्तिवाद का जड़रूप दे दिया।

समाज की प्राथमिक अवस्था में किसी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए आवश्यक धन जुटाने में कोई दिक्कत नहीं थी। उस जमाने में जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह करना किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव था। ऐसे समय में समाज के हरेक व्यक्ति के कष्टार्जित धन और जीवन की रक्षा करना एक-सा था। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के धनसंपदा की रक्षा का भार राज्य-संस्था की ओर से कर्तव्य के रूप में उठाया जाना अधिक दोषास्पद नहीं माना जा सकता; लेकिन जिस समाज में कुछ इनेगिने व्यक्ति अमर्याद धन-संग्रह करके अन्य लोगों के जीविका के साधनों पर कब्जा कर लेते हैं और निर्बलों की वेवसी का फायदा उठाकर श्रम की कमाई का कानून से बेजा फायदा उठा सकते हैं, ऐसे समाज में व्यक्ति के धनसंचय की रक्षा करना राज्यसंस्था का कर्तव्य मानना सही व्यक्तिवाद नहीं है। इस तरह की आर्थिक विषमता पर आधारित समाज का व्यक्तिस्वातंत्र्य ठीक नहीं। ऐसा समाज तो स्तेयवृत्ति पर बनता है। उसमें धर्म या न्याय का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। गांधीजी ऐसे व्यक्तिवादी समाज को नहीं चाहते थे। जिस सभ्यता में ऐसी आर्थिक विषमता पैदा होती हो वह सभ्यता भी वे नहीं चाहते थे। भौतिक सुखाभिलाषा सत्याग्रह-ध्येय हार्गिज नहीं बन सकता। अमर्याद धनसंग्रह करनेवाला सत्याग्रही नहीं बन सकता। सत्याग्रह की दृष्टि में धनसंचय चोरा के बराबर है। ईसा मसीह के कहने के मुताबिक धन और भगवान की उपासना एकसाथ नहीं की जा सकती। सुई की नोक में से ऊंट चला जाय; लेकिन भगवान

के साम्राज्य याने आत्मराज्य में मालदार आदमी नहीं जा सकता । गांधीजी ने भी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के अपने एक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा था कि धनसंचय का त्याग किये बगैर कोई व्यक्ति सत्याग्रही नहीं बन सकेगा और यही वजह है कि सत्याग्रही क्रांति में निर्धन, दरिद्री लोग जितने काम में आये हैं; उतने धनिक नहीं आ सकते अर्थात् सुखाभिलाषी धनिकों का गुलाम बना लोकतंत्र और अपनी स्वैर वासनाओं से पैदा होनेवाला व्यक्तिस्वातंत्र्य सत्याग्रह का ध्येय नहीं बन सकता । धनिकों के स्वैराचार से निर्मित आर्थिक अराजकता उनके समाज की पूर्णावस्था का स्वरूप नहीं था, बल्कि वासनाओं के संयम से प्राप्त होनेवाला आत्मराज्य ही उनके कल्पित समाज की पूर्णावस्था थी । इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यूरोप की जनता की तरह धनिकवर्ग का नेतृत्व कबूल न करके अपरिग्रही सत्याग्रही वर्ग के नेतृत्व कबूल करने की उनकी मान्यता थी ।

ग्रामोद्योगों का संगठन गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है । पहले-पहल गांधीजी ने खाड़ी का आंदोलन ही हाथ में लिया था ; लेकिन आज उसका विकास ग्रामोद्योगों के संगठन में हुआ है । पुराने जमाने में हरेक देहात उद्योगों में आत्मनिर्भर होता था और उद्योगों की इसी नींव पर वहाँ की परंपरागत सभ्यता टिकी हुई थी । ब्रिटिशों की हुकूमत में ग्रामोद्योग तहस-नहस हो गये । कच्चा माल विदेश में जाने लगा और विदेशों की बनी-बनाई चीजें देहातों में घुसने लगीं । इससे व्यापारी लोग देहातों में माल खरीदते तथा बेचते समय किसान को लूटने लगे । धीरे-धीरे देहाती उद्योग नष्ट होने लगे और खेती के अलावा वहाँ कोई दूसरा व्यवसाय न रहा । कृषि पर निर्भर लोगों की तादाद बढ़ने लगी, जिससे खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े हुए और साल भर पर्साना बहाकर भी किसान को पेट भरना दूभर हो गया । नकदी में लगान वसूल करने का कारगर रास्ता अंग्रेजों ने निकाला जिससे किसान सस्ते में अनाज बेचने के लिए मजबूर होने लगे, और दूकानदारों को उन्हें लूटने का और ज्यादा अवसर मिलने लगा । इस तरह कानून से किसानों की लूट हो रही थी । केवल पचास वर्षों में हमारे

देहातों का तेज चला गया। देहाती दूकानदार विदेशी पूँजीपति का दलाल बन गया और काश्त पर जीनेवाले किसान का दुगना शोषण होने लगा। वह कर्ज के बोझ से दबने लगा। दूकानदारी और साहुकारी ये दो नये धंधे पनपने लगे और इनके संकीर्ण व्यवहार में कानून के जो पेचीदे सवाल पैदा होते थे उनको सुलभानेवाला वकीलों का नया वर्ग हरेक इलाके में बढ़ने लगा। दूकानदारी, साहुकारी एवं वकीली के फँदों में फँसकर किसान अपनी जमीनें गिरवी रखने लगा। रहननामे कानूनी मार्ग से सस्ती दर के बिक्री-नामे बनने लगे। देहातों की इस प्रकार की बर्बादी को देखकर म० गांधी को लगा कि अंग्रेजों संस्कृति शैतानों की संस्कृति है और उनके द्वारा प्रस्थापित रेल, तार, डाक आदि भी गरीब प्रजा को लूटने के शैतानी साधन हैं।

स्वादेशी आंदोलन के फलस्वरूप जिस कारखानेदारी का जन्म हुआ, उससे भी देहात की दरिद्रता एवं बेकारी दूर न हुई, उलटे बढ़ती गई। कारखानेदारी से मुट्ठीभर लोगों को ही रोजगार मिल सकता था। उससे वे आर्थिक दास्ता में फँस जाते थे और नैतिक स्तर से गिर जाते थे। यह सब देखकर ही गांधीजी ने अपने स्वदेशी आंदोलन को ग्रामयोगों के संगठन का रूप दे दिया। ब्रिटिश-राज्य के कारण देहात में जिनके काश्त से जुड़े हुए धंधे नष्ट हो गये थे या पंजीवाद के कारण जो अपने स्वतंत्र धंधे खो बैठे थे, उन किसानों तथा स्वतंत्र व्यावसायिकों की उन्नति करना ग्रामयोग का ध्येय है। समाजवादी पक्ष के जन्म के पहले ही गांधीजी ने यह सत्य जनता के हृदय पर अंकित कर दिया था कि देश के मिलमालिकों व पूँजीपतियों की रक्षा करने से भारतीय जनता का उद्धार नहीं हो सकता। उनके सत्याग्र-दर्शन में इस तरह की पूँजीवादी समाज-रचना को कोई स्थान नहीं है। उन्हें संसार को यह जताना था कि भारत की आजाद हिंदुस्तान की ग्राम जनता की आर्थिक उन्नति का तरीका है और जनता की इस तरह की आर्थिक उन्नति करना ही भारतीय संस्कृति की नींव है। हरेक समाज की संस्कृति की नींव उसकी आर्थिक तथा औद्योगिक रचना पर निर्भर होती है, इस तत्व को गांधीजी खूब अच्छी तरह जानते थे

और इंसालिए भारतीय संस्कृति की नींव के तौर पर ग्रामोद्योगों का उल्लेख करते थे । गांधीजी ने स्वदेशी आंदोलन को जो स्वरूप दिया उससे यह सिद्ध होता है कि भारत की राजनीति तथा अर्थनीति को वे पूँजीवादियों के चंगुल से बचाना चाहते थे ।

यूरोप में और खास करके इंग्लैंड तथा फ्रांस में पूँजीवाद पहले बहुत कुछ बढ़ा और उसीके कारण वहाँ लोकतंत्र की प्रस्थापना हुई । यह काम वहाँ के मध्यमवर्ग से निकले व्यापारियों व साहूकारों ने किया । आगे चलकर यही व्यापारी-साहूकार-वर्ग मिलमालिकों के पूँजीपति-वर्ग में बदल गया । यह सही है कि अपने देश में लोकतंत्र स्थापित होने के बाद किसानों व आम जनता के साथ इन लोगों ने गद्दारी की और लोकतंत्र को पूँजीवादी रूप दे दिया । लेकिन साथ ही संसार के पिछड़े देशों को जीतकर उनको लूटना शुरू कर दिया । इस लूट का कुछ हिस्सा जनता को बरख कर अन्य देशों की हालत के मुकाबले में अपनी जनता की हालत कुछ अच्छी रखी । जिससे इंग्लैंड तथा फ्रांस की जनता वहाँ के धनिक वर्ग की दबैल बनी । विजित राष्ट्रों से आनेवाली इस लूट को जारी रखने में उन्हें अपना भला मालूम होने लगा जिससे धनिकशाही के खिलाफ विद्रोह करने के लिए वह तैयार नहीं थे । वे सोचते थे कि कुछ भी हो, अन्य देशों से अपना जीवन-स्तर ऊँचा है और उसे वैसा रखने में देश की पूँजीशाही मदद कर रही है । लेकिन भारत की पूँजीशाही ने न ऐसा कोई विक्रय किया है, न ऐसा कुछ करने की उसमें क्षमता या संभावना ही है । हिंदुस्तान-जैसे तीस-पैंतीस करोड़ के देश को लूटकर इंग्लैंड के चार-पाँच करोड़ लोगों के जीवन-स्तर को कुछ ऊँचा उठाने में उसे सफलता मिली है । लेकिन इसी मार्ग का अनुसरण करके वहाँ की आम जनता के जीवनस्तर को उठाना पूँजीवाद के लिए असंभव है । हिंदुस्तान की आम जनता की दरिद्रता तथा भूख के सवाल को ताक पर रखकर कोई भी वर्ग हिंदी राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकेगा । इस बात में गांधीवाद व समाजवाद दोनों एकमत हैं । भारतीय कांग्रेस ने गांधीजी की सलाह मानकर अपने राष्ट्रीय झंडे पर चरखे को अंकित किया और इस

वात को कबूल कर लिया कि यूरोपीय पूँजीवाद या साम्राज्यवाद का वह अनुकरण नहीं करेगी। क्योंकि उससे देश के करोड़ों लोगों की भूख का सवाल हल नहीं हो पाता।

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म परतंत्र अवस्था में हुआ। अपने राष्ट्र का वैभव बढ़ाने के निमित्त साम्राज्य-विस्तार उसका ध्येय नहीं था बल्कि विदेशी हुकूमत से आजाद होना उसका शुरू से आज तक का ध्येय रहा है। इस अर्थ में भारत में वेदान्त का पुनरुज्जीवन हुआ वह भी प्रस्थापित राज्यसत्ता का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि प्रस्थापित राज्यसत्ता को उखाड़ फेंकने व स्वराज्य-स्थापना करने के प्रयत्नों में बढ़ावा देने के लिए हुआ। 'राजाज्ञा ही अपने अंतरात्मा की आज्ञा है और राज्यसत्ता से दी गई सजा के माने हैं अपनी आंतरिक प्रेरणा या न्याय-बुद्धि का उल्लंघन करने से प्राप्त दुःख'—हेगल की यह राजनैतिक उपपत्ति आधुनिक भारत के वेदान्त में पैदा नहीं हुई। इसके विपरीत आधुनिक भारत के वेदान्त में से यह एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक राजनैतिक उपपत्ति जन्मी कि अपनी अंतरात्मा के आदेश का पालन करने के लिए प्रस्थापित राजसत्ता के अन्यायी बंधनों को तोड़ना हमारा आध्यात्मिक कर्तव्य है। इसी में से सत्याग्रह का निःशस्त्र क्रांतिशास्त्र खड़ा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत में जो सशस्त्र क्रांतिशास्त्र था, वह भी वेदान्त के आधार पर परिपुष्ट हो सका था, ऐसा सवृत इतिहास दे रहा है। आधुनिक भारत के इस इतिहास को नजर-अंदाज करके, जर्मनी के हेगल के अध्यात्मवाद से क्रांति को रोकनेवाला क्रांति-विरोधी तत्वज्ञान जन्मा, इसलिए हिंदु-स्तान में भी वैसा ही होगा ऐसा कहना ऐतिहासिक दृष्टि से सुसंगत या तर्कसम्मत नहीं मालूम होता। भारतीय वेदान्त का आजका स्वरूप क्रांति-वादी है और हेगल के क्रांति-विरोधी अध्यात्मवाद से वह पूर्णतः भिन्न है। इटली में मैफिनी ने जिस राष्ट्रवाद की नींव डाली वह भी अध्यात्मिक और लोकतंत्रात्मक ढंग का था; लेकिन थोड़े अर्थ में इटली के राष्ट्रवाद ने सरंजामशाही राष्ट्रवाद का रूप ले लिया और हालाँकि इसके बाद इटली स्वतंत्र हुआ फिर भी मैफिनी जिस तरह का अध्यात्मवाद लाना

चाहते थे वह वहाँ नहीं आ सका। मैक्लिनी को जो लोकतंत्रात्मक क्रांति अभिप्रेत थी वह इटली में न हुई। मैक्लिनी की तरह यद्यपि गांधीजी अध्यात्मवादी थे फिर भी वे सशस्त्र क्रांतिवादी नहीं थे। आम जनता के हाथों में शस्त्र देकर लोकतंत्रात्मक क्रांति होने का गेरिवाल्डो का विश्वास गांधीजी को मान्य नहीं था। गांधीजी का विचार था कि अगर नरेशों या सरमायेदारों के राजदरबारी प्रड्यंत्रों से या उनके मातहत राजनीतिज्ञों द्वारा आधुनिक भारत का निर्माण हुआ तो यहाँ लोकतंत्र स्थापित होने के बदले सामन्तशाही का आसन जम जायगा। उनके मतानुसार भारतीय लोकशाही का जन्म आम जनता को हथियार देकर नहीं बल्कि उसका आत्मबल संगठित करने से और उससे निर्माण होने वाले सर्वव्यापी असहयोगी युद्ध से या शांतिमय कानून-भंग से होगा। भारतीय स्वराज्य की रक्षा के लिए वे ब्रिटिशों की मदद जरूरी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि हिंदी जनता में आत्मबल के संगठन से जो लोकतंत्र बनेगा वह बाहरी हमलों के अलावा भीतरी तानाशाही व साम्रज्यवादी प्रवृत्ति से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा कर सकेगा। इसीलिए करीब ३० साल तक सत्याग्रह की दीक्षा लिये हुए क्रांतिकारियों के नेतृत्व में आम जनता का आत्मबल याने शांतिमय प्रतिकार की शक्ति जुटाने की कोशिश गांधीजी ने की। इस कार्य के आधार पर भारतीय जनता ने अंग्रेजों से अपनी आखिरी लड़ाई को भी चलाया। इससे समस्त संसार की राजनीति में आज इस अहिंसात्मक क्रांति को महत्त्व मिल रहा है।

मानव-संस्कृति तानाशाही व पूँजीवाद से ऊत्र गई है। यूरोप के इतिहास से यह सिद्ध हो चुका है कि क्षात्रवृत्ति तथा वैश्यवृत्ति के अनियंत्रित संगठन से सही लोकतंत्र का निर्माण नहीं हो सकता। जनता के ब्रह्मतेज या आत्मबल को छोड़कर सिर्फ शस्त्र और द्रव्यबल पर खड़ी यूरोपीय संस्कृति आज नष्टप्राय हो रही है। यूरोप में सुख-शांति पैदा करने के लिए वहाँ की जनता का आत्मबल संगठित करना और शांतिमय प्रत्यक्ष प्रतिकार से सही लोकसत्ता व समाजसत्ता की स्थापना करना ही

एक मार्ग है। लेकिन उसके लिए आवश्यक आत्मबल, इस मार्ग से नेतृत्व करने के लिए जरूरी तपोनिष्ठ नेता और उसकी आज्ञा में आम जनता को संगठित करके आत्मबल के सहारे आर्थिक व अन्यायों का प्रतिकार करने की तालीम जनता को देनेवाला सत्याग्रही वर्ग आज यूरोप में नजर नहीं आ रहा है, जिससे अपनी संस्कृति की गिरावट को रोकने में उनके सफल होने की कोई आशा नहीं है। यूरोपीय नेतृत्व का जमाना पहले जंग के बाद ही मिट चुका है। अब भारतीय नेतृत्व का समय आनेवाला है, ऐसा भारत के सत्याग्रही क्रांतिकारियों को लग रहा है।

भारतीय राष्ट्रवाद शुरू से छात्रवृत्ति या वैश्यवृत्ति पर आधारित नहीं रहा। गांधीजी का यह आध्यात्मिक, राजकीय व सामाजिक सिद्धान्त है कि कोई भी राज्य-संस्था संपूर्ण न्याय की प्रस्थापना नहीं कर सकती और इसीलिए दंडहीन समाज-रचना या राज्यसंस्था का अत्यंत अभाव ही मानव-समाज की पूर्णावस्था है। आजतक भारत एक तरह की राष्ट्रीय क्रांति में संलग्न रहा और इसी अवस्था में सत्याग्रह-तत्त्वज्ञान का विकास हो रहा था, जिससे आजतक सामन्तशाही व पूँजीवाद के खिलाफ खुला मुकाबला करने के लिए सत्याग्रही शक्ति कभी खड़ी न रही। इसीलिए कुछ लोग यह आक्षेप कर सके कि सत्याग्रह-तत्त्वज्ञान सरमायेदारों व पूँजीवादियों की दृत्रैल है। लेकिन यह सरासर गलत है। यूरोप की तरह अगर भारत आज्ञाद होता और पूँजीवाद व लोकशाही के दमनचक्र से आम जनता को रौंदा जाता तो सारे संसार को दिखाई देता कि सत्याग्रही तत्त्वज्ञान इस दमनचक्र के खिलाफ खुला विद्रोह कर रहा है। जिससे सारे संसार को विश्वास हो जाता कि सत्याग्रह-दर्शन सच्ची लोकसत्ता व समाज-सत्ता का हामी है।

यह बात कई त्रार स्पष्ट कर दी गई थी कि हिंदुस्तान में जिस स्वराज्य की स्थापना होगी, वह प्रजासत्तात्मक होगा व उसमें नरेश व पूँजीपति रहेंगे भी तो वे महज जनता के सेवकों के तौर पर रहेंगे। शुद्ध त्रीदिकवाद की दृष्टि से, समाज में सरमायेदार, जमींदार व कारखानेदार वर्ग होना ही नहीं चाहिए, ऐसा कहनेवाले समाजवादी तत्त्वज्ञान को गांधीजी स्वीकार

नहीं करते थे । उनके मतानुसार धनिकवर्ग का स्वामित्व तो रहता ही नहीं। विश्वस्तरूप में भी वे कबतक रहें अथवा समाज ने जो चाती उन्हें सौंपी है, वह उनसे कब पूरी तरह वापस ले ली जाय, इसका निर्णय समय-समय पर तत्कालीन लोकमत के अनुसार किया जाय, यह प्रजासत्ता का सिद्धांत भी सत्याग्रह-दर्शन में सन्निहित है । गांधीजी यह नहीं मानते थे कि देश की सब जमीन, खदानों और कलकारखानों-आदि का राष्ट्रीयकरण किया जाय । उसके अनेक कारण हैं और इस प्रश्न की ओर देखने का उनका दृष्टिकोण शुद्ध बुद्धिवादी समाजवादियों से मूलतः ही भिन्न है । फिर भी यह मतभेद अथवा दृष्टि-भेद हमें समाजवाद के बिलकुल प्रतिकूल नहीं मालूम होता जैसा कि आम तौर पर लोग समझते हैं । जिस तरह उनके राजनैतिक तत्त्वज्ञान में राजा अथवा दंडधारी राजसंस्था के लिए अंतिम दृष्टि से स्थान नहीं है, उसी तरह उसमें निजी संपत्ति को भी अंतिम दृष्टि से स्थान नहीं है । सत्याग्रही नीतिशास्त्र के अनुसार निजी संपत्ति चोरी के सिवा कुछ नहीं है । फिर धनिक, राजे-रजवाड़े या जमींदार, सरदार वर्ग को समाज का ट्रस्टी या सेवक बनाया जाय, इस विचार में भी यह समाज-वादी तत्व समाया हुआ है कि महज स्वामित्व के अधिकार के बल पर सामाजिक संपत्ति का उपभोग भी समाज की सेवा के बिना नहीं किया जा सकता । आज सत्याग्रही व समाजवादी पक्ष में जो मतभेद दिखाई देता है वह व्यावहारिक व ऊपरी है, कोई मूलभूत तात्त्विक स्वरूप का भेद नहीं है ।

किसी भी सामाजिक व राजकीय सुधार करने की इच्छा रखनेवाले के मन में दो प्रवृत्तियाँ पैदा हो सकती हैं । एक यह कि पुरानी सामाजिक व राजनैतिक संस्थाओं के ब्राह्म रूप को कायम रखकर उन्हींके अंदर नवीन तत्वों का प्रवेश किया जाय व उनके अन्तरंग में क्रांति कर दी जाय । लेकिन शुद्ध बुद्धिवाद की दृष्टि से यह गौण और बहुधा खतरनाक मालूम होती है । फिर भी इस ढंग से सामाजिक, धार्मिक या राजनैतिक संस्थाओं के अन्तरंग में क्रांति कराने या हो जाने के अनेक उदाहरण संसार के इतिहास में पाये जाते हैं । अंग्रेजों ने अपने राजसत्ताक राज्यसंगठन का

अन्तरंग आमूल बदलकर इसे प्रजासत्तात्मक बना डाला। हमारे वेदांत ने अपट्ट जातियों में रूढ़ मूर्तिपूजा को, अनेक देवताओं के विविध संप्रदायों को, बाह्यतः क्षति न पहुँचाते हुए सामान्य जनता में 'अहं ब्रह्मोऽस्मि' के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत के प्रचार का प्रयत्न किया। भागवत्-धर्मी साधुसन्तों ने वर्णाश्रम-धर्म की पुरानी चौखट को बाहर से कायम रखकर गौतम बुद्ध की भूतदया, सामाजिक समता और अहिंसा का समर्थन किया और इसी क्रम को जारी रखकर म० गांधी वर्णाश्रम-धर्म व रामराज्य—इन पुराने शब्दों के आधार पर बीसवीं सदी के अनुरूप सामाजिक समता व प्रजासत्ता का प्रचार भारतीय जनता में कर रहे थे। मतलब यह कि सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक संस्थाओं का मूल बाह्य-रूप कायम रखकर उनके अंतरंग में क्रांति करने की एक सुधार-वृत्ति व पद्धति संसार के इतिहास में दिखाई देती है। यह वृत्ति अंग्रेजों व हिंदू लोगों में अनेक वर्षों की परंपरा से चली आई है। श्रीकृष्ण, शंकराचार्य व भावत्-धर्मी साधुसन्तों ने इसी वृत्ति का अवलंबन लेकर हिंदू समाज का विस्तार किया। लो० तिलक व म० गांधी ने सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक विषयों में इसी वृत्ति का अवलंबन लेकर विदेशी सत्ता के खिलाफ चलनेवाला राष्ट्रीय क्रांति का कार्य भारत के इतिहास में हृदय तक पहुँचा दिया। हमारी संस्कृति में यद्यपि सर्वांगीण क्रांति करना आवश्यक था, फिर भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्राप्त होने तक वह असम्भव था, इसीलिए सिर्फ राजनैतिक विषयों को छोड़कर अन्य सुधार-कार्यों में यह वृत्ति व पद्धति ग्रहण करना उन्हें आवश्यक व इष्ट मालूम हुआ। लो० तिलक व म० गांधी के क्रांतिवाद का और सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक क्षेत्रों में नरम वृत्ति का यही एक खुलासा हो सकता है और यही उसका समर्थन है।

इस सुधार-वृत्ति से भिन्न एक शुद्ध बुद्धिवादी क्रांतिकारी वृत्ति है। प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध ने इसीको अंगीकार किया था। हमें ऐसा लगता है कि आधुनिक भारत की सब समस्याएँ इस बुद्धिवादी क्रांतिकारी वृत्ति का अवलंबन लिए बिना नहीं हल हो सकेंगी। फिर भी यह बुद्धिवादी क्रांतिकारी वृत्ति सशस्त्र न बनकर सत्याग्रही रह सकेगी और उसके वैसा

रहने में भारत का सही हित और माहात्म्य है । आज ऐसी कोशिश समाजवादी नेता कर रहे हैं । पहला प्रयत्न व्यक्तिवादी था तो आज का समाजवादी है, इतना भेद यद्यपि दिखता है फिर भी दोनों प्रयत्नों का अंतरंग एक ही है । बौद्धिक क्रांतिवादी वृत्ति फैलने से भारतीय संस्कृति की मूल प्रकृति नष्ट होगी, गांधीजी के सत्याग्रही पक्ष को समाजवादी पक्ष के बारे में ऐसा डर मालूम होता है । इसके विपरीत गांधीवादियों के प्रयत्नों से भारत के इतिहास का अंधानुकरण होने का व अपने तथा अपनी संस्कृति के पिछड़ जाने का डर समाजवादी पक्ष को लगता है । लेकिन ऐसे डर का अब कोई कारण नहीं है । हमारा मत है कि प्राचीन भारत की आत्मप्रेरणा का उद्धार करनेवाला पक्ष व बुद्धिवाद के सहारे हमारी व संसार के अन्य राष्ट्रों की संस्कृति की निर्विकार भाव से तुलना व अध्ययन करके घ्राणे बढ़नेवाला पक्ष इनमें द्वैतभाव फैलने का या व्यवहारिक विरोध उत्पन्न होने का समय अब नहीं रहा है ।

लो० तिलक, योगी अरविंद व म० गांधी के प्रयत्नों से भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल पक्ष संसार के सामने आ गया है । पश्चिमी संस्कृति के अनिष्ट पक्ष को भी संसार पहचान चुका है । भारतीयों के हृदय में स्वतंत्र इतिहास निर्माण करने की आत्मप्रेरणा पूरी तरह जागृत हो गई है व उसके राष्ट्रवाद का अनुकरणात्मक स्वरूप म० गांधी का नेतृत्व ग्रहण करने के बाद नष्ट हो गया है । यह डर अब बाकी नहीं रहा कि आधुनिक भारत आज या कल हमारे प्राचीन इतिहास का या संसार के किसी भी राष्ट्र के आधुनिक इतिहास का अंधानुकरण करेगा । स्वतंत्र इतिहास निर्माण करके संसार को नवसंदेश देने की आत्मप्रेरणा उसमें जागृत हुई है । उसने आजादी के आंदोलन में सत्याग्रह का जो अपूर्व क्रांतिशास्त्र निर्माण किया उसकी ओर सारे संसार का ध्यान खिंच गया है तथा स्वतंत्र रूप से निर्माण करने की आत्मप्रेरणा उसे है । समय आया है कि उसकी आत्मप्रेरणा शुद्ध बुद्धिवाद की दीक्षा ले और अकेले श्रीकृष्ण की ही नहीं गौतम बुद्ध की परंपरा को भी वह अपना ले ।

भारत के आजाद बन जाने पर देश के विचारशील लोगों का व

राजनैतिक नेताओं का ध्यान इस प्रश्न पर केन्द्रित हुआ कि देश की सभ्यता को समाजवादी बनाने का काम अब कौन और किस तरह करेगा। भारतीय स्वातंत्र्य को प्राप्त करने का श्रेय म० गांधी तथा उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान को मिला गया। अब समाजवाद के बारे में गांधीजी का क्या रुख है, इसको समझने की आवश्यकता हरेक महसूस करने लगा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों तथा राजनैतिक नेताओं को ऐसी आशाएँ बंधी थीं कि जिस तत्वज्ञान के सहारे व जिस नेता के नेतृत्व में भारत को राजनैतिक आजादी मिली, उसीके सहारे व मार्ग-दर्शन में शेष सामाजिक-आर्थिक क्रांति का कार्य पूरा हो सकेगा। जबसे भारत में समाजवादी पक्ष स्थापित हुआ और भारतीय जनता के सामने वह समाजवादी क्रांति के विचार रखने लगा तबसे गांधीजी कहते थे : “मैं भी एक समाजवादी ही हूँ। सत्याग्रही क्रांति-शास्त्र का उपयोग स्वतन्त्र भारत का राज्य समाजवादी बनाने के काम में हो सकता है।” यही विश्वास नौजवान समाजवादी कार्यकर्त्ताओं में वे पैदा कर रहे थे। १९४२ के आंदोलन के पहले, कांग्रेस के रामगढ़-अधिवेशन में रखने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण ने गांधीजी के पास एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें स्वतन्त्र भारत में जिस समाजवादी राज्य की प्रस्थापना करनी है उसका पूरा ढाँचा दिया था। गांधीजी ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की थी। उसके बाद ८ अगस्त १९४२ के दिन जब सत्याग्रह-संग्राम का प्रस्ताव उन्होंने अ० भा० कांग्रेस-समिति में रखा तब उन्होंने एलान कर दिया कि वे फ्रेंच तथा रूसी क्रांति से अधिक मूलगामी क्रांति की प्रेरण लोगों को दे रहे हैं। ८ अगस्त के अपने भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा : “मेरा विश्वास है कि विश्व के इतिहास में हमारे स्वातंत्र्य-संग्राम से अधिक न्यायसंगत लोकतांत्रिक संघर्ष कहीं नहीं हुआ है। जब मैं जेल में था तो श्री कार्लोइल-रचित फ्रांस की क्रांति का इतिहास मैंने पढ़ा और प० जवाहरलालजी से मुझे रूस की क्रांति का कुछ हाल मालूम हुआ। मेरा यह विश्वास पक्का हुआ कि ये संघर्ष हिंसात्मक साधनों से किये जाने के कारण जनतंत्र के आदर्श को प्राप्त करने में असफल रहे। जनतंत्र की जो मेरी कल्पना है और जिसका

आधार अहिंसा है, उसमें सबके लिए समता व स्वतन्त्रता होगी। प्रत्येक अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होगा। इसी स्वातन्त्र्य-संग्राम के लिए मैं आज आपको आह्वान कर रहा हूँ।”

१९४७ में जब भारत को आजादी मिलने की तिथि निश्चित हो गई तब उन्होंने देखा कि स्वतन्त्र भारत में समाजवादी राज्य प्रस्थापित होना अटल है। इस समाजवाद की स्थापना अगर अहिंसा के आधार पर हुई तो समाजवादी संस्कृति यहाँ हमेशा के लिए टिक सकेगी ऐसे विचार उन्होंने खुल्लमखुल्ला प्रकट किये थे।

एक फ्रेंच दोस्त को जवाब देते हुए गांधीजी ने कहा—“मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में समाजवादी राज कायम होकर रहेगा। मुझे आशा है कि हिंदुस्तानी समाजवाद आराम-कुर्सियों पर बैठकर उसूलों की डींग हांक-नेवालों की चीज़ न रहेगा, बल्कि असली रूप अखितयार करेगा। इस समाजवाद का मकसद साफ और पूर्ण होना चाहिए, वना हिंदुस्तान की समाजवादी सरकार किसी अनिश्चित रास्ते चलने से नाकामयाब हो सकती है। मुझे खुद तो यही उम्मीद है कि हिंदुस्तान का भावी समाज अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा होगा। तभी समाजवाद हिंदुस्तान में हमेशा कायम रह सकेगा।” *

अगर भारत में स्थापित होनेवाला समाजवाद सत्य और अहिंसा के साधनों से लाने का प्रयत्न कांग्रेसियों या भारतीय समाजवादियों ने न किया तो देश की क्या दशा होगी, इसपर कांग्रेसजनों को सचेत करते हुए गांधीजी ने ७ मई १९४७ को लिखा : “तुम्हारा ध्येय सदा साफ और पूर्ण होना चाहिए और उसे प्राप्त करने में अगर तुम लोगों ने सत्य और अहिंसा को पूर्णरूपेण न अपनाया तो जिस समाजवाद को तुम स्थापित करना चाहते हो, वह छिन्न-भिन्न होगा और जिस प्रकार ऊँचे पहाड़ से घाटी के बीच गिरनेवाले पदार्थ का नामोनिशान मिट जाता है, वैसे ही तुम्हारी दशा हो जायगी। अगर कांग्रेसजन या समाजवादी अपने उन ऊँचे आदर्शों पर कायम न रहें जिनकी ओर उनकी उत्तम परंपराएँ इंगित करती हैं तो

* हरिजन, १८ मई, १९४७

देशभर में एक ऐसी क्रांति होगी जो साम्यवाद का मार्ग सुगम कर देगी। मैं उस दुखद घटना को देखूँगा नहीं; लेकिन मैं सावधान करता हूँ कि अपनी गति-विधि को ध्यान से बँहाओ। ऐसा न हो कि आनेवाली संतति तुम्हें कोसे।”

ऊपर दिये गये उद्धरणों से पता चलता है कि स्वतन्त्र भारत की राजनीति कौन-सा रूप लेनेवाली है और उसमें अहिंसक समाज का निर्माण करनेवालों ने कौन-सा रूख अखिलतार करना है। राजनैतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद अहिंसक समाज का निर्माण करके राज्य को अधिक-से-अधिक अहिंसक वृत्ति से चलाना वही भारत की मुख्य समस्या है। इस देश में प्रगति करने की इच्छा रखनेवाले राज्य का निर्माण आर्थिक समता के आधार पर ही होना चाहिए। इसके बारे में गांधीजी को ज़रा भी संदेह नहीं था। रचनात्मक लोकसेवा के जरिये नवसमाज का निर्माण करने की कोशिश करनेवाले अपने सत्याग्रही अनुयायियों को उन्होंने यह साफ कह दिया था कि जबतक आर्थिक समता के आधार पर समाज नहीं बनता है तबतक अहिंसक समाज तथा अहिंसक राज्य—जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। वे कहा करते कि आज की नई दिल्ली में दिखनेवाले महल और उन्हीं के बाजू में बनी गरीबों की भोपड़ियों में जो विषमता है वह स्वतन्त्र भारत में पलभर भी न टिक सकेगी, न टिकनी चाहिए। उनको यह साफ दिखाई देता था कि अगर देश के धनिकों ने अपनी संपत्ति को त्यागकर यह विषमता नष्ट न की तो आज या कल इस देश में अत्याचारी व रक्तरंजित क्रांति होगी। स्वतंत्र भारत की राजनीति का सही रूख ऐसा होना चाहिए कि जिससे रक्तरंजित क्रांति टल जाय, देश की आर्थिक विषमता नष्ट हो और समता के आधार पर अहिंसक समाज और अहिंसा की दिशा में आगे बढ़नेवाले राज्य का निर्माण हो जाय। इसीलिए स्वतन्त्र भारत में जो कांग्रेस-मंत्रिमंडल बना उसके सूत्र उन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सौंप दिये। इतना ही नहीं बल्कि वे चाहते यह थे कि जब पं० नेहरू स्वतन्त्र भारत के प्रधान मंत्री बनेंगे और कांग्रेस के पुरानी पीढ़ी के सब नेता देश के कारोबार को

सम्भालेंगे तत्र कांग्रेस का अध्यक्षपद आचार्य नरेंद्रदेव या जयप्रकाश नारायण-जैसे समाजवादी दल के नेता को दे दिया जाय । लेकिन १९४७ के अन्त में गांधीजी ने जो दूरदर्शितापूर्ण सलाह दी थी, उसको पुरानी पीढ़ी के कांग्रेस-नेताओं ने नामंजूर किया जिससे गांधीजी की मृत्यु के बाद समाजवादी दल कांग्रेस से अलग हो गया । इस तरह कांग्रेस का समाजवाद की दिशा में अग्रसर होना रूक गया और कांग्रेस केवल राजनैतिक लोकतन्त्र व राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की रक्षा करनेवाला राष्ट्रीय राजनैतिक दल बन गया । सामान्य जनता का हित करने के लिए स्थापित शासन से भगड़नेवाली तथा जनता की क्रांति-प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रीय संस्था एक सत्ताधारी राजनैतिक दल में बदल गई । अब लोगों को सामाजिक क्रांति के लिए प्रोत्साहित करके उसके बल पर क्रांतिकारक राजनीति का चलाना उसके द्वारा हो सकने की कोई संभावना ही नहीं रही है ।

स्वतन्त्रता मिलने पर यहाँ की राजनीति समाजवाद की ओर अग्रसर होगी, इसमें किसीको संदेह नहीं था ; दो महायुद्धों के बीच मानव-समाज की लोकशाही-निष्ठा पर एक विकराल संकट आ पड़ा था । १९वीं सदी के मध्य में यूरोप में कॉर्ल माक्स ने समाजवादी ध्येय को क्रांतिकारक रूप दिया था । फिर भी १९१७ में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई । उस समय तक इस क्रांतिकारक समाजवाद को जागतिक राजनीति में कोई खास स्थान न था । लेकिन बोल्शेविक क्रांति के बाद सभी देशों में क्रांतिकारी समाजवादी शक्तियाँ दिखाई देने लगीं । यह क्रांतिकारी समाजवाद मार्क्स-प्रणीत वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में सारे संसार में फैलने लगा । हरेक देश के शिक्षित नौजवान इस तत्वज्ञान की ओर खिंचने लगे । लेकिन शीघ्र ही लोगों को अनुभव हुआ कि मार्क्स का क्रांतिशास्त्र लोकतंत्र के लिए विघातक तथा तानाशाही के लिए उपकारक है । मार्क्सवाद जिस समाजवादी क्रांति को चाहता था, उसको दबाने के लिए यूरोप में फ़ैसिज़्म तथा नात्सीवाद के नाम पर एकदलीय तानाशाही के नये नमूने तैयार होने लगे । यह तानाशाही राष्ट्रीय वृत्ति, धर्मभावना व आध्यात्मिक संस्कृति का बहाना बनाकर समाज में अपनी जड़ें जमा रही थी । वास्तव में यह

फासिस्ट तानाशाही समाजवाद तथा लोकतंत्र-जैसे प्रगतिशील तत्वों को मिटाने की इच्छा रखनेवाली एक प्रतिगामी शक्ति थी। १९३० के बाद पूरे यूरोप में उसका नारा बुलंद था। यूरोपीय साम्राज्यशाही के पंजे से अपने को मुक्त करने की कोशिश करनेवाले एशियाई देश में भी यह प्रतिगामी राष्ट्रीय तानाशाही प्रिय होने लगी थी। १९३० से १९३६ के बीच एक सिरे पर कम्युनिस्ट तानाशाही थी तो दूसरे पर फासिस्ट तानाशाही, और इन दोनों के बीच में लोकशाही संस्कृति से लोगों की निष्ठा डांवाडोल हो रही थी।

१९२० से १९४० तक की अवधि में भारत में कम्युनिस्ट-तत्वज्ञान की चर्चा जोरों पर थी। १९३३-१९३४ के बाद मुस्लिम लीगियों की फिरका-परस्ती और उसके विरोध में संगठन करनेवाली हिंदूराष्ट्रवादी निष्ठा फैलने लगी थी। ये दो फिरकापरस्त गिरोह धर्म-भावना व राष्ट्र-भावना को विकृत बनाने में संलग्न थे। यूरोप में कम्युनिज़्म व फ़ैसिज़्म के बीच जो रसाकशी हो रही थी उसकी एक तरह से यह नकल ही थी। लेकिन ये प्रवृत्तियाँ हिंदी राजनीति में प्रभावशाली न बन सकीं, क्योंकि १९२० से १९४० तक हिंदू की राजनीति का प्रवाह कांग्रेस तथा गांधीजी के निःशस्त्र क्रांति के बहाव के पीछे दौड़ रहा था।

जब अन्यत्र में लोकशाही-निष्ठा दुर्दिनों के फेर में चक्कर खा रही थी तब इधर हिंदुस्तान में गांधीजी लोगों के आत्मबल को तथा सत्यनिष्ठ अहिंसावृत्ति को जगाकर संसार की लोकशाही एवं समाजवाद को क्रांतिकारी अहिंसा का अधिष्ठान दिला रहे थे। गांधीजी की क्रांतिकारी अहिंसा से मानव-संस्कृति में जो लोकशाही व समाजवाद के पुरोगामी ध्येय निर्मित हुए हैं, उनको सुप्रतिष्ठित तथा चिरंजीव बनाने का रास्ता मिलनेवाला है, इस बात को पहले-पहल भारतीय युवकों के नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने महसूस किया। इसके दरमियान भारत में जो क्रांतिकारक राजनैतिक शक्ति पैदा हुई थी, उसको १९२० से १९४० के बीच म० गांधी तथा पं० जवाहरलाल ने लोकशाही समाजवाद के मार्ग पर लाया, ऐसा कहने में जरा भी अत्युक्ति नहीं होगी।

१९३४-३५ के बाद कांग्रेस में एक समाजवादी दल कायम हुआ । यह कहना पड़ेगा कि इस पक्ष की स्थापना से हिंदी राजनीति में समाजवाद का ध्येय बद्धमूल हो गया और रूस से स्फूर्ति पानेवाले कम्युनिस्ट पक्ष के अलावा दूसरा समाजवादी क्रांतिकारी दल भारत में संगठित होने लगा । यद्यपि यह दल भी मार्क्सवाद को मानता था फिर भी हिंदुस्तान में कांग्रेस के द्वारा चलनेवाले आंदोलन और गांधीजी का राष्ट्रीय नेतृत्व इन दो बातों के बारे में इस पक्ष का रुख कम्युनिस्टों से हमेशा ही भिन्न रहा । १९३० में जो सत्याग्रह-आंदोलन गांधीजी ने चलाया था उसमें सम्मिलित नौजवानों ने ही इस पक्ष की नींव डाली थी । इस दल की मान्यता थी कि कांग्रेस व गांधीजी का नेतृत्व ये दो हिंदी राजनीति की पुरोगामी शक्तियाँ हैं, और उनसे एकात्म होकर ही भारतीय समाजवादी दल को काम करना चाहिए । पं० जवाहरलाल नेहरू स्वयं समाजवादी विचार के नेता थे और गांधीजी भी समाजवादी ध्येय के अनुकूल थे । इतना ही नहीं बल्कि तरुणों के इस दल में से कुछ नेताओं को कांग्रेस की कार्यसमिति में लेकर उनके द्वारा देश के नौजवानों के हृदय के भाव समझकर उसमें जो सत्यांश हों उसको स्वीकार करके अपनी राजनीति का विकास करने का तरीका उन्होंने जारी किया था । साथ ही इस बात के लिए वे सदैव सचेत रहते थे कि मार्क्सवाद जिस सशस्त्र क्रांति को मंजूर करता है वह वृत्ति इस नये दल के द्वारा कांग्रेस में दाखिल न होने पाये । भारतीय क्रांति का अहिंसात्मक रूप कायम रखकर समाजवादी ध्येयों का प्रचार करनेवाले दल के संगठन में उन्होंने कभी बाधा न डाली, उल्टे उसकी हरदम सहायता ही की ।

पं० नेहरू तथा म० गांधी की राजनीति के इस तरह समाजवाद के अनुकूल होने से कांग्रेस में नौजवानों का समाजवादी दल प्रतिष्ठा पाने लगा और कुछ लोगों को आशा होने लगी कि आजादी के बाद समाजवाद की स्थापना करने का ध्येय कांग्रेस कबूल कर लेगी ; लेकिन इस बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना असम्भव था । कई विचारशील लोगों को लंगता था कि अहिंसक क्रांति के मार्ग से राष्ट्रीय स्वातंत्र्य मिलने पर ही वह

वृत्ति राष्ट्र में टिक सकेगी और अगर उसमें वह असफल रही तो सैद्धांतिक दृष्टि से अहिंसक क्रांति का ध्येय श्रेष्ठ होने पर भी व्यवहार्य नहीं होगा और भारत को उस दिशा में प्रयत्न करना छोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं में भी इसी तरह की संदिग्ध वृत्ति गांधीजी की अहिंसक क्रांति के संबंध में हो तो कोई आश्चर्य नहीं। समाजवादी दल में शामिल होनेवाले नौजवान भी अहिंसक क्रांति के बारे में मौन या शंकाशील थे। उनका वैसा होना स्वाभाविक ही था।

गांधीजी की अहिंसक क्रांति की निष्ठा स्वयंभू व अविचल थी और हर दम विकसित होती गई। गांधीजी से जितनी मात्रा में लोग एकमत होते उनके हृदय में उतनी ही मात्रा में अहिंसक क्रांतिनिष्ठा दृढ़तर बनती गई। भारतीय राजनीति में गांधीजी के बढ़ते हुए प्रभाव और यश पर भारतीय जनता की क्रांतिकारी वृत्ति का अहिंसक होना निर्भर था अर्थात् कांग्रेस के अंतर्गत जो समाजवादी दल प्रस्थापित हुआ था उसकी अहिंसक क्रांति की निष्ठा उसकी राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-आंदोलन में मिलनेवाली कामयाबी पर निर्भर थी। १९४२ के आंदोलन में क्रांतिकारी अहिंसा-वृत्ति की भारतीय जनता के हृदय की निष्ठा डौंवाडोल हो रही थी। फिर भी उसका असर उस आंदोलन पर था जिससे आगे चलकर अंग्रेज-राजनीतिज्ञों ने म० गांधी व काँग्रेस से समझौता करके आजादी की समस्या को हल कर दिया। यह सब देखकर अगर अहिंसक क्रांति के बारे में समाजवादी दल को अधिक विश्वास हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं! गांधीजी ने भारतीय स्वातंत्र्य का आंदोलन अपनी अहिंसा की नीति से कामयाब कर दिखाया और मार्क्सवाद पर भरोसा रखकर जिन्होंने समाजवादी दल की स्थापना की थी, उनके हृदय में भी अहिंसक क्रान्तिवाद की प्रेरणा जमाई। इस तरह प्रसृत अहिंसा-वृत्ति को जागृत करके गांधीजी ने उसे क्रांतिकारक प्रतिष्ठा दिलवा दी। इसी वजह से भारत के आजाद होने पर यद्यपि समाजवादी दल काँग्रेस से अलग हो गया है, फिर भी, काँग्रेस-दल और समाजवादी दोनों इस बात में एकमत हैं कि भारतीय समाजवादी क्रांति अहिंसा के मार्ग से ही की जायेगी।

भारतीय समाजवादियों ने निःसंदिग्ध रूप में इस नीति को कबूल कर लिया जिससे गांधीवाद व समाजवाद के बूते पर दो राजनैतिक पंथ बनने की संभावना नहीं रही और इन दोनों निष्ठाओं के लोगों को अपने में समा लेनेवाला और अहिंसा के जरिये लोकतंत्रात्मक समाजवाद का ध्येय हासिल करने के लिए कोशिश करनेवाला एक ही प्रजासमाजवादी पक्ष आज भारत में बन गया है। यह कहना होगा कि आज राजनैतिक मंच पर कांग्रेस तथा प्रजासमाजवादी पक्ष के दो अखिल भारतीय दल हैं और दोनों को गांधीजी का अहिंसात्मक राजनीति की विरासत मिल गई है। कांग्रेस का नेतृत्व पं० जवाहरलालजी कर रहे हैं और उस पक्ष ने अभी तक समाजवाद का ध्येय प्रकट रूप में मंजूर नहीं किया है। लेकिन उसकी यह निश्चित नीति है कि अपने देश को समाजवाद की दिशा में अग्रसर होना होगा, और यह काम लोकतंत्रात्मक तथा अहिंसक साधनों से ही पूरा होना चाहिए। ऊपरी निगाह से देखने पर लोगों को उल्झन होती है कि अगर लोकशाही, समाजवाद तथा अहिंसक क्रांति या सत्याग्रह के सिद्धान्त को दोनों पक्ष मानते हैं तो दो दल बनने की क्या जरूरत थी? लेकिन जब हम गहराई में जाकर सोचते हैं तब यह स्पष्ट होता है कि भले ही पं० नेहरू कांग्रेस के नेता बनाये गये हों; लेकिन उस पक्ष की स्थापना और परवरिश समाजवादी निष्ठा पर नहीं हुई है। जिससे उस पक्ष का समाजवाद में पूरी निष्ठा अभी तक नहीं है। इसके विपरीत समाजवाद के प्रतिकूल विचार के लोग उसमें काफी तादाद में घुस गये हैं और समाजवाद की दिशा में कदम उठाते वक्त, उसका विरोध करते हैं। वे समाजवाद की स्थापना को जितनी देर तक मुलतवी रखा जा सके, रखने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पक्ष समाजवाद की प्रस्थापना के ध्येय को लेकर ही बना है। उस पक्ष ने सोच-समझकर अनत्याचारी क्रांति के सिद्धान्त को स्वीकर किया है। अपने देश को उस दिशा में आगे बढ़ाने के बारे में उसके नेताओं के विचार तथा योजनाएं निश्चित हैं। उनको कांग्रेस की नीति पर्याप्त मात्रा में उपयोगी नहीं मालूम होती। उन्हें लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे ठीक दिशा

में निष्ठापूर्वक वह आगे बढ़ सके। कांग्रेस के प्रतिनिधियों का जिस विधान-परीषद् में बहुमत था उसीने निजी संपत्ति के बारे में जो नीति निर्धारित की, वह समाजवाद की दिशा में राष्ट्र को बढ़ने से रोकेगी। इसीसे समाजवादी पक्ष के लोग ऐसी दलील करते हैं कि काँग्रेस को समाजवाद की स्थापना के लिए कोई उत्साह नहीं है। इस दलील का प्रतिवाद करना कठिन है। इसलिए, जो यह मानते हैं कि समाजवाद की प्रस्थापना के बगैर हमारे देश में आर्थिक सुधार नहीं होगा उनके सामने दो ही मार्ग रह जाते हैं : काँग्रेस की ओर से अपने सिद्धान्त मंजूर करवाना या काँग्रेस से अलग होकर अपना स्वतंत्र दल संगठित करना। जब भारतीय समाजवादियों ने देखा कि न तो काँग्रेस समाजवादी नीति कबूल करेगी, न समाजवादी दल को काँग्रेस के अंतर्गत संगठित करने का अवसर देगी, तब अपने सिद्धान्तों की रक्षा तथा संवर्द्धन के लिए काँग्रेस से अलग होने का फैसला उन्हें करना पड़ा। लोकशाही तथा अहिंसक क्रांति की जो विरासत गांधीजी की तरफ से उन्हें मिली थी उसीके आधार पर उन्होंने एक नया अखिल भारतीय पक्ष संगठित किया। लोकतंत्रात्मक मार्गों से व अहिंसक रीति से हमारे देश को अग्रसर होना हो तो आज या कल इस पक्ष के नेतृत्व को कबूल करना होगा।

इन दो पक्षों के अलावा अहिंसात्मक क्रांति पर भरोसा न रखकर शास्त्रीय समाजवाद का ठेकेदार कम्युनिस्ट पक्ष भी देश में है। आज तक भारतीय राजनीति में यह पक्ष अपने को प्रभावशाली नहीं बना सका। अगर गांधीजी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र न होता तो शायद यह पक्ष पनपता। आजादी के बाद भी अगर अहिंसक लोकतंत्र की रीति से समाजवाद की प्रस्थापना करनेवाला पक्ष न होता तो संभव था कि यहाँ के क्रांतिकारी अधिक मात्रा में कम्युनिस्टों की ओर आकर्षित हो जाते। हमारा विश्वास है कि इस देश में जो अहिंसक क्रांतिनिष्ठा है वह सत्याग्रही समाजवाद की निष्ठा में परिणत होकर भारत में समाजवाद स्थापित करने में सहायक होगी। सामाजिक तथा आर्थिक रचना में क्रांति लाने के संबंध में जो मतभिन्नता व वृत्तिभिन्नता है उसके कारण काँग्रेस, प्रजा-

समाजवादी तथा कम्युनिस्ट ये तीन पक्ष बने हैं। इनके अलावा कुछ फिरकापरस्त दल भी देश में हैं। पाकिस्तान बन जाने से तथा पृथक् निर्वाचन-अधिकार रद्द होकर एक मतदान-पद्धति चालू हो जाने से अब फिरकापरस्त दलों को चलाना मुश्किल होगा। इससे आज राजनैतिक क्षेत्र में न उनकी कोई हस्ती है, न कार्य। प्रांतों में अपनी-अपनी जमातों के हित के दावेदार बने जो छोटे-छोटे फिरकापरस्त गिरोह हैं, उनको भी राजनैतिक दृष्टि से महत्व मिलने की कोई संभावना नहीं है।

यूरोप के लोकशाही राज्यों के इतिहास से ऐसा महसूस हुआ है कि लोकतंत्रात्मक राज्य के सुचारू रूप से चलने की दृष्टि से देश में दो प्रबल संगठित पक्षों का होना लाभदायी होता है। लोकशाही शासन को चलाने-वाले पक्षों की निष्ठा लोकतंत्र में होना भी जरूरी है। अगर इस लोकशाही को समाजवाद में परिणत करना है तो धन का सामाजिक स्वामित्व तथा वर्गहीन समाज-रचना का ध्येय इन पक्षों के सामने होना चाहिए। ब्रिटेन के समाजवादी धन का सामाजिक स्वामित्व का सिद्धांत केवल बुद्धि-बल पर सारे समाज से स्वीकृत कराके समाजवादी लोकशाही का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। अबतक वहाँ के सब पक्षों ने इस ध्येय को मंजूर नहीं किया है। इस रास्ते से बड़ी धीमी चाल गुजरना पड़ता है और भारत के लिए इस धीमी चाल से जाना संभव नहीं है। केवल बुद्धिबल सामाजिक क्रांति के लिए अपर्याप्त है और शस्त्रबल का सहारा लेने से तानाशाही की वृत्ति बढ़कर लोकशाही को खतरा पहुँचता है। इसलिए भारत ने अपनी राजनीति को आत्मबल के सहारे खड़ी करने की नीति को स्वीकार किया। गांधीजी ने सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र की नसीहत भारत को दी और लोकशाही तथा समाजवाद के लिए आधारभूत सिद्धांतों को उसमें जोड़ दिया। राजा का प्रभुत्व प्रजा के हृदय की न्याय-बुद्धि की तरफ होना चाहिए और समाज में जो सम्पत्ति हो, उसका स्वामित्व किसीका निजी न होकर परमेश्वर का याने समाज का होना चाहिए, ये दो तत्व क्रमशः लोकशाही व समाजवाद के ध्येय के आधारभूत तथा आध्यात्मिक समाज-रचना के लिए आवश्यक हैं। भारत

के जो राजनैतिक दल सत्याग्रह-निष्ठा को मंजूर करते हैं, उनको लोकशाही तथा समाजवाद का समन्वय करके पूँजीवादी लोकतंत्र को समाजवाद में परिणत करने का शांतिमय मार्ग सत्याग्रह के रूप में मिल जाता है। भारतीय लोकतंत्र अबतक समाजवादी नहीं बना है, और वैसा करने में बाधा डालने वाली कुछ धाराएँ भारतीय संविधान में हैं, फिर भी संविधान बनाने का बल भारतीय जनता में सत्याग्रह से ही पैदा हुआ है, इसको कोई भी भूल नहीं सकता। उसीके बल पर आधुनिक भारत में सत्याग्रह का क्रांतिकारी तत्वज्ञान सुप्रतिष्ठित हो गया है और उसमें लोकशाही व समाजवाद का जो समन्वय हुआ है, उससे सत्याग्रह को मान्यता देनेवाला कोई भी राजनैतिक पक्ष इन्कार नहीं कर सकता। आधुनिक यूरोप में लोकशाही व समाजवाद के सामाजिक तत्वज्ञान में जैसा विरोध पैदा हुआ वैसा भारत में न हो पाया। इसके विपरीत दोनों का समन्वय करनेवाला और उन दोनों ध्येयों को संपूर्ण करनेवाली क्रांति करनेवाला एक नया जीवन-दर्शन यहाँ विकसित हो रहा है। इस जीवन-दर्शन के आधार पर भारतीय संस्कृति पुनर्जीवित होकर आधुनिक मानव-संस्कृति का नेतृत्व करने को समर्थ है।

सत्याग्रह-निष्ठा और आधुनिक क्रांतिशास्त्र के आधार पर आधुनिक भारत में समाजवाद के निर्माण होने की बात सत्य होने पर भी वह सत्याग्रह-निष्ठा का अंतिम साध्य नहीं है। वर्गहीन समाज तथा दंडहीन राज्य के नाम से सूचित होनेवाला ईश्वरीय राज्य, रामराज्य अथवा आत्मराज्य सत्याग्रह-निष्ठा का अंतिम ध्येय है। अव्यभिचारी सत्यनिष्ठा तथा निरपवाद अहिंसा-वृत्ति की दीक्षा जिन्होंने ली है, ऐसे शुद्ध सत्याग्रही लोकसेवकों को चाहिए कि वे अनासक्त लोकसेवा के जरिये आत्मोद्धार व समाजोन्नति के लिए अखंड सत्याग्रह की साधना करते रहें। यद्यपि ऐसे लोकसेवक राजकीय, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में उस काल में आवश्यक क्रांति लाने में सहायता देते रहेंगे, फिर भी किसी एक राजनैतिक दल में उन्हें शरीक नहीं होना चाहिए, न किसी शासन में पदाधिकारी ही बनना चाहिए। सत्ता व संपत्ति के त्याग से तथा अनासक्त लोकसेवा से जो

आत्मवल पैदा होगा उसके आधार पर समाज में सर्वांगीण क्रांति लाने का अहिंसक शास्त्र उनको बनाना होगा। गांधीजी ने जिस क्रांतिकारी सत्याग्रह-निष्ठा का आधुनिक भारत में निर्माण किया है, उसके अध्वर्यु आचार्य विनोबा भावे बने हैं।

सशस्त्र क्रांति के साधनों से प्रस्थापित शासन को उखाड़कर नया शासन खड़ा करने के मार्ग से सामाजिक क्रांति को लाने की कोशिश करने पर निम्नकुंश राज्यसत्ताधारी एकपक्षीय तानाशाही की स्थापना होने का खतरा रहता है। इसलिए लोकशाही में ऐसी आशा की जाती है कि एक सत्ताधारी पक्ष और उसका विरोध करनेवाले एक या अनेक सत्ता-कांक्षी राजकीय पक्ष देश में हों तो कोई भी पक्ष दमन या ज्यादतियाँ नहीं कर सकेगा और लोग न्याय के रास्ते चलनेवाले पक्ष को चुनकर न्याय का शासन लाने में समर्थ होंगे। क्रांति-काल में भी यह पक्षविशिष्ट लोक-शाही कायम रखकर बहुमत से चुने हुए प्रतिनिधियों में जिस पक्ष का बहुमत होगा उसके हाथों में शासन सौंपकर उनके बनाये कानून और शासन को चुपचाप मान ले, यही न्याय-संस्थापना की दृष्टि के अनुकूल है, ऐसा विचार फैल गया। लेकिन सामाजिक न्याय-संशोधन व न्याय-संस्थापन की दृष्टि से पक्षविशिष्ट लोकतंत्र का यह तरीका अपर्याप्त है। खासकर जब समाज के मानस में न्याय-अन्याय के विचारों में परिवर्तन लाने का क्रांतिकाल आ जाता है, तब अलग-अलग राजनैतिक पक्षों की सत्ताप्राप्ति की होड़ में लोकतंत्र टूट जाता है या समाज पर अन्याय बढ़ जाते हैं और शासनतंत्र डाँवाडोल हो जाता है। इस अनुभव को उपेक्षित न करके लोकशाही शासन-व्यवस्था में न्याय-संशोधन तथा संस्थापन के द्वारे में जो ढील आ जाती है, उसको मिटाकर कार्य की प्रगति शीघ्रता से हो तथा न्याय-संस्थापन के द्वारे में जो क्रांतिकारी विचार हैं वे जनता में फैलें और अहिंसक रीति से अन्याय का प्रत्यक्ष प्रतिकार करने की ताकत उसमें आ जाय इसीलिए सत्याग्रह का क्रांतिशास्त्र पैदा हुआ है।

अन्याय-निवारण, अहिंसक प्रतिकार तथा अनत्याचारी असहकार की जन-वृत्ति जैसे-जैसे जोर पकड़ेगी, वैसे-वैसे पक्षविशिष्ट लोकशाही के दोष

नष्ट होंगे तथा विभिन्न पक्षों की सत्ता के लिए चलनेवाली होड़ से पैदा होनेवाला संघर्ष शांति की मर्यादा से बाहर नहीं जायगा और न उसमें एकपक्षीय तानाशाही का खतरा रहेगा। इसीलिए किसी भी राजनैतिक दल में न मिलकर जनता के दिलों में न्याय-बुद्धि तथा अहिंसा-वृत्ति जगाकर उसके आधार पर सामाजिक क्रांति लाने की कोशिश करनेवाले सत्याग्रही लोकसेवक जितनी अधिक तादाद में सामाजिक क्रांति के इस कार्य में सम्मिलित होंगे उतनी मात्रा में यह सामाजिक क्रांति अहिंसक रहेगी और लोकतंत्रात्मक रीति से लाई जा सकेगी। इस तरह लोकशाही शासन अधिक दोषरहित तथा कार्यक्षम बनेगा और उसकी मार्फत वर्गहीन समाज तथा दंडहीन शासन की दिशा में समाज अग्रसर होगा। इस तरह सोचने से पता चलेगा कि आधुनिक भारत में जो सत्याग्रही दर्शन व सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र पैदा हुआ है, वह लोकशाही तथा समाजवाद में अंतर्भूत ध्येयों को अपने में मिलाकर समाज को आत्मराज्य की दिशा में अग्रसर करेगा।

: १४ :

भारतीय संस्कृति का अमृत तत्त्व

प्राचीन भारत में गुणी, विद्वान् व साहसी पुरुष थे। उसी तरह राजनीतिज्ञ राजा-महाराजा भी थे। इनमें से किनकी ओर मानव-जीवन का आदर्श पाने के लिए देखते थे ? ऋषि-मुनियों की ओर।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

हिन्दुस्तान के पतन का कारण वीरों और ब्राह्मणों का अलग-अलग होना है। यही कारण है जो हिन्दुस्तान में ३००,०००,००० भिखारी हैं व इसीलिए हिन्दुस्तान पिछले १००० वर्षों से भिन्न-भिन्न विजेताओं का गुलाम रहा है। अतएव हमें चाहिए कि हम ब्राह्मणों के अद्भुत बुद्धि-ज्ञान का बुद्ध के विशाल हृदय, उच्च आत्मा एवं उनके मानवी गुणों का निर्माण करने की अद्भुत शक्ति के साथ संयोग कर दें।

—स्वामी विवेकानन्द।

भारत खंड संसार की रंगभूमि पर एक नये राष्ट्र के रूप में प्रवेश कर रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश के तौर पर ही वह आज तक

परिचित था। अपनी इस हालत से वह उकता गया और संसार में एक स्वतंत्र राष्ट्र के नाते जीने की महत्वाकांक्षा उसमें जागृत हुई। इस आकांक्षा की सफलता के लिए पहले यूरोपीय महासमर से लेकर १९४७ तक उसने अंग्रेजों के खिलाफ अपना सत्याग्रह-संग्राम जारी रखा। जब स्वयं-निर्णीत स्वातंत्र्य-विधान उसने हासिल किया तभी यह संग्राम समाप्त हो सका। अब आगे भारतीय संस्कृति का रूप क्या होगा और सत्याग्रह-साधना से स्वाधीन बना भारत संसार को क्या संदेश देता रहेगा, इन प्रश्नों के जवाब इस आखिरी अध्याय में हम दे रहे हैं।

इन प्रश्नों का विचार करते समय इंग्लैण्ड के एक सामाजिक तत्व-वेत्ता बर्ट्रेण्ड रसेल के विचार कुछ मार्ग-दर्शक हो सकते हैं। १९२४ में विलफ्रेड वैलाक ने 'प्रजा-सत्ता का आध्यात्मिक अधिष्ठान' * नामक एक पुस्तक लिखी। बर्ट्रेण्ड रसेल ने उसकी प्रस्तावना में पूर्वी व पश्चिमी संस्कृति की तुलना करते हुए लिखा है—

“जापान ने इस भय से कि कहीं पश्चिमी शस्त्र-विद्या उसपर हावी न हो जाय, पश्चिमी तत्वज्ञान की विजय स्वीकार कर ली। यदि दूसरे पूर्वी राष्ट्र भी उसी का अनुकरण करेंगे तो यूरोप खंड के दुर्गुण सारी दुनिया में फैल जायेंगे व मानव-संस्कृति के कुछ समय तक जंगली अवस्था में पहुँचे बिना उसके उद्धार की कुछ आशा नहीं रहेगी। परन्तु यदि यह प्रतिकार सैनिक बल के द्वारा न होकर आध्यात्मिक बल के द्वारा होगा तो, यूरोप के आपस की यादवी से निर्माण होते हुए भी, यूरोपीय संस्कृति के स्थायी अंश की विरासत एशिया को मिलेगी और जिन लोगों पर गोरे राष्ट्रों का भवितव्य अवलंबित है उनसे अधिक शांति-प्रिय व कम भौतिक वृत्ति के लोगों को उस विरासत के मिलने का संभावना है। तथापि यह कार्य केवल पुराण-प्रियता के बल पर न हो सकेगा। पुराण-परम्परा कितनी ही पूज्य क्यों न हो उसे चिरंतन करने का प्रयत्न करने से काम न चलेगा। भौतिक विद्या और यंत्र-कला की बढौलत आज संसार का स्वरूप बदल गया है। उन्हें आत्मसात् करके व उनपर प्रभुत्व

प्राप्त करके उन्हें कल्याणकारी बनाना चाहिए। उनकी उपेक्षा करना उचित न होगा। दूर-दृष्टि से विचार करने पर वे अहितकारक नहीं, हितकारक साबित होंगी, क्योंकि मनुष्य को भौतिक चिन्ता से मुक्त करने का सामर्थ्य उनके पास है। जिस प्रजा-सत्ता के आध्यात्मिक अधिष्ठान को ढूँढने का प्रयत्न वैलाक महोदय कर रहे हैं वह पश्चिमी जगत् में पैदा हुई है। नामधारी प्रजासत्ताक राष्ट्रों में और उसके बाहर भी उसका स्वरूप अभी बहुत मर्यादित व अपूर्ण है; परन्तु उसके पहले की राज-पद्धति से वह श्रेष्ठ अवश्य है व उसका अवलंबन लेनेवालों के दुर्गुणों की वजह से उसका नाश करना उचित नहीं। जिस तरह पूर्वी संसार के दृष्टिकोण में भलाई व बुराई दोनों हैं उसी तरह पश्चिमी दृष्टिकोण में भी हैं।

“पश्चिमी दुनिया जरूरत से ज्यादा जल्दबाज है तो पूर्वी दुनिया कदाचित् जरूरत से ज्यादा सहनशील रही है। बहुत बुरा पश्चिमी लोगों की शक्ति से संसार का अधःपात होता होगा (आज ऐसा ही हो रहा है) तो दूसरी ओर विशुद्ध पूर्वी तत्त्वज्ञान बड़े-बड़े सुधार करने में शायद ही समर्थ हो सके। जब पश्चिमी और पूर्वी विशेषताओं का संयोग होगा तभी नवीन आदर्श दुनिया के सामने आयेगा। किसी भी एक संस्कृति की आत्मस्तुति से उसका जन्म नहीं होगा। पश्चिमियों का सामर्थ्य पूर्वियों के आदर्श में काम आना चाहिए। पूर्वियों की आध्यात्मिकता पश्चिमियों के भौतिक साधनों की सहायता से जीवनोपयोगी बननी चाहिए। आज की दुनिया की रक्षा पुराने साधनों से नहीं हो सकती। आज के संकट नये हैं व उनको निवारण करने का तत्त्वज्ञान भी नया ही होना चाहिए।”

अब हम भारतीय व यूरोपीय संस्कृतियों की तुलना करके इस बात का विचार करें कि यूरोपीय संस्कृति में से भारतीयों के लेने लायक क्या है? अथवा यूरोपीय संस्कृति के नष्ट हो जाने पर भी कौन तत्व उसमें से चिरन्तन होने योग्य हैं? जब इन दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो प्रायः यूरोपीय संस्कृति की तुलना मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति से— अर्थात् हिन्दुस्तान के ब्रिटिश साम्राज्य में आने से पहले की संस्कृति से

की जाती है। बर्ट्रेण्ड रसेल ने पूर्वोक्त उद्धरण में भौतिक-विद्या, यंत्र-कला प्रजासत्ता व कर्म-शक्ति ये यूरोपीय संस्कृति के लक्षण बताये हैं व यह ध्वनित किया है कि यूरोपीय संस्कृति भले ही अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग करके संसार को पीड़ा देती हो, और तो और अपने विनाश में भी प्रवृत्त हो रही हो ; परन्तु पूर्वी संस्कृति तो विलकुल सामर्थ्यहीन हो रही है। अपनी गुलामी को मिटाने की शक्ति उसमें बाकी नहीं बची। बल्कि सदियों से वह अन्याय और जुल्म चुपचाप सहन करती आ रही है। पूर्वी संस्कृति की यह सहन-शीलता, अकर्मण्यता किसी को भी वाञ्छनीय नहीं लगेगी। उसी तरह यूरोपीय संस्कृति के हमले से बचने के लिए जापान ने जो सब तरह उसी को अंगीकार किया, पूँजीवाद की स्थापना की, सामन्तशाही को मिटाकर स्थापित प्रजा-सत्ता को धनिक-सत्ता का विकृत रूप दिया व राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद की दीक्षा देकर एशिया को पादाक्रान्त करने की आसुरी महत्त्वाकांक्षा धारण की, इसे भी कोई स्पृहणीय न कहेगा। एशिया के पूर्व के ठेठ जापान से लेकर पश्चिम के तुर्किस्तान तक सब राष्ट्रों के सामने आज यह महत्व का प्रश्न खड़ा है कि साम्राज्यवाद को पूँजीवाद के आक्रमण से कैसे बचाया जाय ? हिंदुस्तान को छोड़ दें तो दूसरे बहुत से देशों में, रूस की राज्यक्रांति होने तक, यही धारणा फैली हुई थी कि इस हमले का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संस्कृति का अवलम्बन लिए बिना कोई चारा नहीं है। उसके बाद एशिया के देशों में रूसी राज्य-क्रांति का अनुकरण करनेवाला एक कम्युनिस्ट दल पैदा हुआ। थोड़े ही समय में तुर्किस्तान से लेकर चीन तक इस दल का जाल फैल गया और एशिया के स्वतन्त्र देशों के राष्ट्रीय नेताओं को यह मालूम होने लगा कि यूरोप के साम्राज्यवाद के पंजे से मुक्त होने का उपाय बोल्शेविकों से सहयोग करना है। इसी समय चीन के राष्ट्रीय नेता डाक्टर सनयातसेन ने बोल्शेविकों से चीनी राष्ट्रवाद का सहकार्य कराके चीन को यूरोपीय साम्राज्यवाद के चंगुल से छुड़ाने की नीति निर्धारित की। एशिया का दुर्बल राष्ट्रवाद और बोल्शेवी क्रांति-शास्त्र का सहयोग कुछ दिन टिका। पर थोड़े ही दिनों

में उनका सम्बन्ध टूट गया व एशिया के भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय पक्षों में यह भावना फैली कि बोल्शेविक क्रांतिशास्त्र का अवलम्बन ज्यों-का-त्यों नहीं लिया जा सकता, या न लेना चाहिए। उधर बोल्शेविकों ने विश्वक्रांति के अपने ध्येय को कुछ समय तक एक किनारे रखकर अपने ही राष्ट्र का संगठन करने की नीति निश्चित की। आज फिर चीन अपने देश में कम्युनिस्ट राज्यक्रांति को सफल बनाकर बोल्शेविक रूस का मित्र बन गया है। रूस अब अपनी बोल्शेविक क्रांति के जाल पूर्ण एशिया में तथा यूरोप में फैलाने की कोशिश कर रहा है।

इस समय हिंदुस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है व इधर म० गांधी के नेतृत्व में एक निःशस्त्र क्रांति-शास्त्र व सत्याग्रही संस्कृति-शास्त्र पैदा हो चुका है। उसने आधुनिक भारत के हृदय में ऐसा आत्म-विश्वास पैदा किया है कि सत्याग्रही तत्वज्ञान के बल पर ही भविष्य में मानव-संस्कृति के इतिहास में हम एक नया अध्याय लिखेंगे। आत्मविश्वास सच्चा है या झूठा, इसका फैसला भविष्य ही करेगा। परन्तु सत्याग्रही तत्वज्ञान से केशी मानव-संस्कृति निर्मित होगी, यूरोपीय संस्कृति से उसे क्या सीखना है, कम्युनिस्ट क्रांति-शास्त्र व समाजवादी संस्कृति से वह कुछ पाठ सीख सकती है या नहीं, और सत्याग्रह-संग्राम के फलस्वरूप जो नवीन भारतीय संस्कृति जन्मी है उसका रूप क्या होगा व स्वतन्त्र भारत के सामने आनेवाले प्रश्नों के उत्तर वह किस प्रकार देगी, इन बातों का विचार कर लेना जरूरी है। आधुनिक भारत में जो यह एक प्रकार का सांस्कृतिक अभिमान पैदा हुआ है कि मानव-संस्कृति को देने के लिए हमारे पास कुछ बहुमूल्य तत्व हैं व उनकी बदौलत हमारे पास कुछ समय के लिए संसार का नेतृत्व आ सकेगा, वह अपूर्व है। जिस एक महात्मा के रूप में वह आज संसार के सामने आया है वह भी एक अलौकिक विभूति है। यह अपूर्व अभिमान व महात्मा गांधी की अलौकिक विभूतिमत्ता दोनों बातें त्रिलकुल भ्रामक हैं, वह एक भ्रांतिरूप माया है, ऐसा भी कई लोग मानते हैं। ताहम यह भी उनको मानना पड़ता है कि यह भ्रांतिरूप माया संसार की एक प्रचंड शक्ति है। इस भावी संस्कृति के स्वरूप की

रूप-रेखा हम यहां भाव-रूप में रखना चाहते हैं ।

आधुनिक यूरोपीय संस्कृति का मूल्यांकन करते हुए पहले यह देखना चाहिए कि श्रेष्ठ मानव-संस्कृति किसे कहते हैं । भारतीय संस्कृति की तरह यूरोपीय संस्कृति की परम्परा भी बड़ी है । आधुनिक यूरोपीय संस्कृति ने तो आज हिन्दुस्तान को गुलाम बना रखा है व उसको सब तरह लूट लिया है । ऐसी परिस्थिति में भी भारत में यह अभिमान उदय हुआ है कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है । इसलिए पहले यह समझने की जरूरत है कि मानव-संस्कृति की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में भारतीयों का मत या आदर्श क्या है । इस प्रकरण के आरम्भ में कवि-श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ ठाकुर का एक अवतरण दिया है जिसमें उन्होंने भारतवासियों के मानवीय आदर्श का वर्णन किया है । उन्होंने भारत के ऋषि-मुनियों को मानवता का आदर्श बताया है । यही ऋषित्व, ब्रह्म-तेज, आत्म-बल अथवा साधुत्व भारतीय संस्कृति का मानवीय आदर्श है । भारतीय संस्कृति अगर संसार को कुछ सिखा सकती है तो यह साधुत्व ही । भारत में प्राचीन काल से ऋषिवर्ग की सृष्टि हुई व आज भी उसे उस वर्ग के नेतृत्व की आवश्यकता मालूम होती है । महात्मा गांधी को आज भारत में जो सम्मान मिल रहा है वह इसलिए कि उन्होंने भारतवर्ष के अंतःकरण में ऋषि-मुनियों के सम्बन्ध में प्राचीन आदर फिर से पैदा किया व भारत के प्राचीन ब्रह्मतेज अथवा आत्म-बल को पुनः संगठित करके ऐसा विश्वास फिर से जाग्रत किया कि यह आत्म-बल ही आम-जनता के सर्वांगीण स्वातन्त्र्य का रामबाण उपाय है । इस साधुत्व को समझने के लिए व उस दृष्टि से मानव-संस्कृति का मूल्यांकन करने के लिए नीचे लिखी सूक्ति आधार का काम दे सकती है :

विद्या विवादाय धनं मदाय । शक्तिः परेषां परिपीडनाय ।

खलस्य साधोर्विपरीतमेतद् । ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय ।

इस उक्ति में खल और साधु, दुर्जन और सजन का भेद बहुत अच्छी तरह बताया गया है । इसीके आधार पर हम मानव-संस्कृति के हीन व श्रेष्ठ स्वरूप का भेद समझ सकेंगे । विद्या, धन और शक्ति

की आवश्यकता मनुष्य को है व उनकी वृद्धि करना प्रत्येक मनुष्य समाज का कर्त्तव्य है। परन्तु इस विद्या, धन और शक्ति का उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता है यह देखकर उसकी संस्कृति की श्रेष्ठता या लघुता का निर्णय करना पड़ता है। केवल विद्या, धन या शक्ति की वृद्धि करने से ही मानव-संस्कृति की प्रगति नहीं हो सकती। बल्कि इस विद्या, धन या शक्ति का उपयोग कैसा व किस काम में हो रहा है यह देखकर ही यह कहना पड़ता है कि किसी समाज की संस्कृति बढ़ रही है या नष्ट हो रही है। मनुष्य विद्वान् हो, सधन हो व सशक्त भी हो; परन्तु अगर अपनी विद्वत्ता का उपयोग सत्य-संशोधन में न करके केवल विवाद के लिए करे या अपने धन का उपयोग दान के लिए न करके उन्मत्त होने के लिए करे, और अपनी शक्ति का उपयोग रक्षण के लिए न करके परिपीड़न के लिए करे तो उसे साधु की कोटि में न रखकर खल की कोटि में रखना पड़ेगा—फिर वह कितना ही विद्वान्, धनवान् अथवा बलवान् क्यों न हो। यही न्याय समाज पर भी लागू होता है। आज की यूरोपीय संस्कृति विद्या, धन व शक्ति तीनों गुणों से युक्त है; परन्तु वह इन गुणों का दुरुपयोग करती है, इससे इन गुणों को दुर्गुणों का रूप प्राप्त हो गया है। अतः यह कहने की अपेक्षा कि वह इन गुणों से मण्डित है यही कहना ज्यादा सही है कि वह पूर्वोक्त दुर्गुणों से कलंकित हो रही है। भारतीय संस्कृति के अभिमानी इसका कारण यह बताते हैं कि उनकी विद्या, धन व शक्ति को अध्यात्म का अधिष्ठान नहीं है। यूरोपीय संस्कृति को यह हीनता क्यों, कैसे और कब प्राप्त हुई इसका भी इतिहास है।

१५वीं सदी के अंत में मुसलमानों के कुस्तुन्तुनिया लेने के बाद वहाँ की प्राचीन विद्या के पंडित पश्चिमी यूरोप में फैले और इस्लामी संस्कृति का संघर्ष व प्राचीन ग्रीक-विद्या का पुनरुज्जीवन इन दोनों से यूरोपीय विद्या व व्यापार को जो गति मिली उससे आधुनिक यूरोप का जन्म हुआ। इससे पहले कुछ समय तक यूरोपीय संस्कृति मध्य-युगीन धर्माधिकारियों के प्रभाव में रही। इन धर्माधिकारियों की विद्या इस

समय त्रिलकुल मृतावस्था को पहुँचने लगी थी । विद्या ज्ञान-प्राप्ति के लिए है व ज्ञान की प्राप्ति अनुभव से होती है इस सिद्धांत को भूलकर ये ईसाई धर्म-शास्त्री व पंडित महज ग्रंथ-प्रमाण के आधार पर शुष्क वादविवाद में विद्या का उपयोग करने लगे थे । धर्म-ज्ञान, आत्म-ज्ञान व भौतिक-ज्ञान सभी के लिए अनुभव की जरूरत होती है । उनके सिद्धान्त यदि नवीन अनुभव की कसौटी पर सही न उतरते हों तो उनमें सुधार होना चाहिए । यह सुधार करने का अधिकार प्रत्येक पीढ़ी के लोगों को है । मानव-प्रगति के आधारभूत उस तत्व को मानने व उसके अनुसार समाज के बदलते हुए व्यवहारों का विचार करके नई परिस्थिति के अनुरूप नवीन समाज-बंधन निर्माण करके अथवा पुराने समाज-बंधनों को सुधार कर, नवीन समाज-धारण करने के लिए वे तैयार न थे । ऐसा न करने के लिए उन्हें ग्रंथ-प्रमाण से बुद्धि-प्रमाण व अनुभव-प्रमाण पर आना चाहिए था, मगर ऐसा करने की शक्ति व योग्यता उनमें न रह गई थी । इधर विचारशील लोगों को यह मालूम होने लगा कि प्राचीन धर्म-बंधन अथवा धर्म-विचार नई परिस्थिति में न तो कायम ही रह सकते हैं न बुद्धि को ग्राह्य ही हो सकते हैं । तब ईसाई धर्माधिकारी व रोमन कैथोलिक धर्म-संस्था के खिलाफ आधुनिक यूरोप ने बगावत मचायी । शुरू में तो यूरोप के राजाओं ने पोप के धर्म-बंधन व सत्ता को अपने पर से हटाने में इस बगावत से फायदा उठाया । बाद में उन्होंने खुद धर्म-संस्था के अधिपति बनने का प्रयत्न किया । आठवें हेनरी ने इसी प्रकार धर्म-क्रांति की । इस क्रांति से राजा लोग मध्य-युग की अपेक्षा ज्यादा अनियमित व स्वेच्छाचारी बन गये । इंग्लैण्ड का सामन्त-वर्ग इससे पहले ही नाम-शेष हो चुका था । अब धर्माधिकारी वर्ग भी राजाओं का दास बन गया । पोप का ब्राह्म-बंधन भी न रहा । इस प्रकार अन्तर्ब्राह्म अनियंत्रित बनकर राजा लोग यह समझने लगे कि हमारी आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा है । “ना विष्णुः पृथिवीपतिः” की उक्ति के अनुसार वे अपने को परमेश्वर के ऐहिक प्रतिनिधि समझने लगे । इन अनिर्बंध, अनियंत्रित राजाओं पर बंधन और नियंत्रण लगाने का काम यूरोप के व्यापारी-

वर्ग ने किया। इसी व्यापारी-वर्ग में कैलहिन का प्यूरिटन-पंथ चला व उसी के नेतृत्व में आधुनिक यूरोप के बुद्धिवाद, व्यक्तिवाद, प्रजा-सत्ता और राष्ट्र-वाद ये सामाजिक ध्येय निर्माण हुए। जिस मध्यम व्यापारी-वर्ग में इन ध्येयों का उदय हुआ उनका वर्गस्वार्थ इन ध्येयों से एकात्म हो गया और जब इन आदर्शों के शुद्ध स्वरूप व धनिक-वर्गस्वार्थ में विरोध उत्पन्न हुआ तब ये ध्येय विकृत हो गये। वर्तमान यूरोपीय संस्कृति बुद्धि-स्वातंत्र्य, व्यक्ति-स्वातंत्र्य, जन-सत्ता व राष्ट्रवाद के आदर्शों को आज कैसा विकृत बना रही है, उसपर गौर किया जाय तो यह बात समझ में आ जाती है कि यह संस्कृति क्यों विनाश की ओर जा रही है !

पहले-पहल बुद्धि-स्वातंत्र्य को लें। प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि-स्वातंत्र्य रहना चाहिए, मगर इसके लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी ग्रन्थ अथवा धर्म-गुरु की दासता को स्वीकार न करे। यह कहना एक बात है, मगर यह कहना कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने व नवीन सत्य की शोध करने में सबकी बुद्धि एकसा सामर्थ्य रखती है, दूसरी बात है। दोनों में बड़ा अन्तर है। यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य की बुद्धि बाह्य-दासता से मुक्त होने पर पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है अथवा उसमें सत्य-शोधन की शक्ति आ जाती है। ऐसा होने के लिए यह जरूरी है कि वह बुद्धि अन्तः-करण की व्यक्त व अव्यक्त वासना व विकारों की दासता से मुक्त हो। मनुष्य की बुद्धि पर जैसे संस्कार पड़े होंगे व उन संस्कारों के कारण उसे जो सामर्थ्य मिला होगा उनके बंधनों से भी उसे मुक्त होने की जरूरत है। मनुष्य बुद्धि की सहायता से बाह्य-जगत् व अपने अंतरंग का ज्ञान प्राप्त कर सकता है व बाह्य तथा अन्तःसृष्टि पर भी प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है। इस प्रभुत्व को भी अंतर्बाह्य सृष्टि पर प्रस्थापित करने के लिए उसे बुद्धि की एकाग्रता, धृति, अनासक्ति, निर्विकारता आदि गुण प्राप्त करने पड़ते हैं। खासकर जबतक उस बुद्धि में नवीन सत्य का आकलन करके नवीन आदर्श-सृष्टि करने का सामर्थ्य नहीं आ जाता या होता तबतक अपनी या अपने समाज की प्रगति का सामर्थ्य नहीं प्राप्त होता। इस तरह वह बुद्धि जो नवीन आदर्श का निर्माण कर सकती है दर असल स्वतंत्र-

बुद्धि हो सकती है और उसी को प्रतिभा कहते हैं। साधारण बुद्धि बाह्य परिस्थिति के अधीन रहती है व उस परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके वह अधिक-से-अधिक इतना ही दिखा सकती है कि उसमें अधिक-से-अधिक सुख से कैसे रहें। यह सामान्य बुद्धि व्यक्तिगत, वर्गीय, राष्ट्रीय वगैरा अनेक संकुचित स्वार्थों व परंपरागत विचारों एवं संस्कारों के अधीन रहती है। इन संस्कारों, दुर्वासनाओं व दुर्विकारों के चशमों से वह बाह्य सृष्टि व सामाजिक व्यवहारों की ओर देखती है; बल्कि यों कहें कि ऐसी संस्कारवश, वासनावश व विकारवश बुद्धि अपनी एक विकृत सृष्टि ही निर्माण कर लेती है। यह विकृत सृष्टि ही मानवी बुद्धि को भ्रष्ट या बद्ध करनेवाली माया है। इस माया से मुक्त हुए बिना न सत्य सृष्टि का ज्ञान हो सकता है न नवीन आदर्श निर्माण करने का सामर्थ्य उसमें आ सकता है। अद्वैत वेदान्त का यह आध्यात्मिक सिद्धान्त है कि ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करने की क्षमता प्रत्येक मनुष्य में है। मनुष्य के मन, बुद्धि व आत्मा के व्यक्त व अव्यक्त दो स्वरूप हैं। दोनों का अशुद्ध अंश जबतक नष्ट न होगा तबतक बुद्धि वास्तविक आत्म-स्वरूप व जगत्-स्वरूप को समझने के लायक नहीं बन सकती। मनुष्य की बुद्धि का बाह्य विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करना मानवी उन्नति के लिए जितना आवश्यक है उतना आवश्यक अन्तःसृष्टि पर अर्थात् हृदय की व्यक्ताव्यक्त वासना व विकारों पर प्रभुत्व स्थापित करना भी है। पहला भौतिक विद्या का और दूसरा आत्मिक विद्या का क्षेत्र है। भौतिक विद्या व उसके सिद्धान्त जैसे अनुभवगम्य व अनुभव-सिद्ध होने चाहिए वैसे ही आत्म-विद्या के सिद्धान्त भी होने चाहिए। भौतिक विद्या की तरह आत्मिक-विद्या भी विकासशील व सजीव होनी चाहिए। इन दोनों विद्याओं के विकास का सामर्थ्य मानवी बुद्धि में है; परन्तु वह उसके शुद्ध व स्वतंत्र स्वरूप में है, अशुद्ध व परतंत्र रूप में नहीं। तत्त्वतः देखें तो प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि को शुद्ध व स्वतंत्र बना सकता है व उसकी सहायता से भीतरी व बाहरी जगत् पर स्वामित्व—विश्व-नियमों से मर्यादित स्वामित्व—प्राप्त कर सकता है। अद्वैत-वेदान्त यही सिद्धान्त बताता है।

अत्र व्यवहार में हमें स्वतंत्र व परतंत्र बुद्धि में इस प्रकार भेद करना पड़ता है। (१)-जनसाधारण की अशुद्ध व परतंत्र बुद्धि तथा (२) उनके असामान्य नेता की शुद्ध व स्वतंत्र बुद्धि। इसी व्यवहार-दृष्टि से साधारण बुद्धि को प्रज्ञा व नये सत्य का आविष्कार व नई आदर्श सृष्टि-निर्माण करनेवाली शुद्ध व स्वतंत्र बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। एंजल्स ने लुडविक फ्यूरेक-संरन्धी अपनी पुस्तक में मार्क्स और अपने जैसे उसके अनुयायियों की बुद्धि में ऐसा ही भेद बताया है—“जिस तरह एक उच्च भूमि पर खड़ा मनुष्य आस-पास बहुत दूर-दूर की चीजों को तुरन्त देख सकता है वैसी ही स्थिति हमसे तुलना करते हुए मार्क्स की थी। मार्क्स ‘प्रतिभाशाली’ था व हम ज्यादा-से-ज्यादा ‘बुद्धिमान्’ कहे जा सकते हैं ! इसलिए मार्क्स जो कर सका वह मुझसे नहीं हो सकता था।” प्रतिभा-संपन्न असामान्य नेता की शुद्ध व स्वतंत्र बुद्धि व सामान्य मनुष्य की अशुद्ध, परतंत्र बुद्धि के तात्त्विक व व्यावहारिक भेद पर ध्यान न देकर समाज-निर्माण करना या उसमें क्रांति करके आमूल परिवर्तन करना असम्भव है। बुद्धि-स्वातंत्र्य के सिद्धान्त में इस भेद का विरोध नहीं और न सामाजिक व्यवहार में नेतृत्व व अनुयायित्व दो भेद करके खास मर्यादा में स्वतंत्र बुद्धि के नेता का अनुशासन मानना भी बुद्धि-स्वातंत्र्य से असंगत ही है। इसी प्रकार यह मानना भी बुद्धि-स्वातंत्र्य के विरुद्ध नहीं है कि जवतक मनुष्य की बुद्धि दुर्वासना व दुर्विकार से मुक्त न होगी तवतक वह शुद्ध व स्वतंत्र नहीं बन सकती। जवतक शुद्ध बुद्धि के प्रतिभावान् नेता न होंगे तवतक मनुष्य-समाज की उन्नति नहीं होगी, न सर्वांगीण क्रान्ति जैसे महत् कार्य की सिद्धि ही हो सकती है। इससे यह नतीजा निकलता है कि समाज की उन्नति के व उसमें आवश्यक परिवर्तन कम-से-कम क्लेश से, करने के लिए आम जनता की बुद्धि को भरसक शुद्ध व स्वतंत्र रखने का प्रयत्न करना लोक-मान्य नेता का कर्तव्य है और लोगों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपनी अन्तःशुद्धि का सतत प्रयत्न करते रहें। बुद्धि-स्वातंत्र्य के सिद्धान्त का यह शुद्ध और श्रेष्ठ रूप आधुनिक यूरोप ने नहीं पहचाना व अपना

नेतृत्व शुद्ध बुद्धि के अथवा प्रतिभावान् निःस्वार्थी लोगों के हाथों में न देकर उस धनिक-वर्ग के हाथ में दे दिया है जिसकी बुद्धि वर्ग-स्वार्थ से मलिन हो चुकी है और जिन्होंने उसका विनियोग नित्य स्वार्थ-साधन में किया है। आधुनिक यूरोप की वर्तमान आपत्ति का यह एक मुख्य कारण है। फिर आधुनिक यूरोप की तमान विद्या व कला इस धनिक-वर्ग की दासी बन गई है व ऐसा वर्ग कहीं यूरोप खंड में नहीं दिखाई देता जो यह मानता हो कि जनसाधारण की साम्प्रतिक व सांस्कृतिक उन्नति करना सब विद्या और कला का उद्देश्य है, अथवा जो ऐसा आचरण करता हो। और जो अपने आत्मबल के द्वारा लोगों के आत्मबल को जाग्रत व संगठित करके समाज के लिए आवश्यक क्रान्ति की उपयोगिता उसे जँचाकर आत्मबल से वैसी क्रान्ति करा दे। आधुनिक यूरोप की श्रद्धा ही आज आत्मबल पर नहीं रही है और न वहाँ के किसी देश ने अवतक शस्त्र-बल से भी अभीष्ट सर्वांगीण समाज-क्रान्ति करने का सामर्थ्य प्रकट किया है।

समाज-रचना-संबन्धी नवीन तत्व अथवा समाज में न्याय-स्थापना करनेवाले नवीन सत्य मानव-बुद्धि में कब और कैसे उदय होते हैं व उन सत्तों की स्थापना के लिए आवश्यक समाज-क्रान्ति कैसे की जाती है इसका और अधिक विवेचन करना आवश्यक है। संसार नित्य परिवर्तनशील है। संसार की कोई भी वस्तु स्थिर व अक्षर नहीं है। इसीलिए उसे जगत् अर्थात् गतिमान् नाम प्राप्त हुआ है। मानव-समाज में, उसकी अवस्थाओं में, हम जान सकें या न जान सकें, मगर एक-सा अन्तर होता रहता है। संसार में चिरन्तन अथवा सनातन जैसा कुछ नहीं है। जगत् का अथवा समाज का स्वरूप जैसे परिवर्तनशील है उसी तरह उसका अवलोकन व निरीक्षण करके उसमें अपने अनुकूल परिवर्तन कैसे होंगे या उसके परिवर्तन हमारे अनुकूल कैसे बनाये जा सकेंगे इसका शोध करनेवाली मानवी बुद्धि का ज्ञान भी सतत बढ़ता रहता है। समाज की एक अवस्था में न्याय-स्थापना के लिए जो तत्व उपयोगी होते हैं वही दूसरी अवस्था में अनुपयोगी और विघातक साबित होते हैं। जिस बुद्धि को यह-

अनुभव होता है कि समाज की जीवन-यात्रा जिस तत्व के अनुसार चलती आ रही है उसके अनुसार अब आगे नहीं चल सकती, उसे प्रस्थापित सामाजिक अवस्था की अपूर्णता व सदोषता जँचने लगती है। मानवी बुद्धि में दृश्य विश्व व दृश्य सामाजिक परिस्थिति का प्रतिबिम्ब पड़ता है। इस प्रतिबिम्ब को देखकर जब मनुष्य को असन्तोष होता है तो वह अपने समाज की प्राचीन अवस्था का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा देखने लगता है अथवा यदि उससे भी उसका समाधान न हुआ तो अपने समकालीन इतर समाजों की सद्यःस्थिति का चित्र उसके बुद्धि-नेत्र के सामने खड़ा होता है। इसकी मिसाल लीजिए : २०वीं या १६वीं सदी का परतन्त्र भारतीय अपनी राजनैतिक परतन्त्रता और आर्थिक दरिद्रता का दृश्य देखकर असंतुष्ट हुआ तो उसकी बुद्धि अपने प्राचीन स्वराज्य की ओर घूमती है। यदि वह पूना में हो तो उसे पूर्वकालीन मराठी साम्राज्य की याद आती है। दिल्ली में हुआ तो मुगल बादशाहत के चित्र दिखाई देते हैं। इन दोनों चित्रों को देखकर उसकी बुद्धि को जँचा कि अब वह पहले की अवस्था नहीं आ सकती अथवा वह भी अपूर्ण, सदोष व त्याज्य है ऐसा उसकी बुद्धि को लगा तो अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रों के स्वराज्य-चित्र उसकी आँखों के सामने खड़े होते हैं। किसी को यूरोप की प्रजासत्ता का स्वराज्य-चित्र प्रिय लगता है तो किसीको रूस की समाज-सत्ता का प्रजा-सत्ता का चित्र अधिक मनोरम मालूम होता है। परन्तु गतकालीन व सद्यःकालीन स्वराज्य-चित्र के प्रतिबिम्बों का निरीक्षण करने के बाद किसी भी एक चित्र से बुद्धि का समाधान नहीं हो सकता व उनके दोष, अपूर्णता अथवा अन्धकार को जो बुद्धि कायल हो सकती है उसमें यदि अपूर्णता से पूर्णता की ओर, सदोषता से निर्दोषता की ओर या अन्धकार से प्रकाश की ओर जाने की मानवीय आत्मा की नित्य प्रेरणा होगी तो वह अपने राष्ट्र व समाज की भावी स्वतन्त्रता का एक नवीन चित्र खड़ा करती है और उसके अनुसार प्रत्यक्ष सृष्टि का निर्माण करके समाधान पाती है। मतलब यह कि मानवी बुद्धि में भिन्न-भिन्न काल व अवस्थाओं को देखकर उनके गुण-दोषों का निर्माण करने का जैसा सामर्थ्य

है जैसे ही नवीन आदर्श-सृष्टि निर्माण करके उसके अवलोकन करने का व उसकी संस्थापना के उपाय खोज निकालने का भी सामर्थ्य है। नवीन आदर्श-सृष्टि निर्माण करने के उसके सामर्थ्य ही को प्रतिभा कहते हैं। यों तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि में यह प्रतिभा-शक्ति अव्यक्त रूप में रहती है; परन्तु प्रकट होती है वह वाज-वाज लोगों की बुद्धि द्वारा ही। मानव-बुद्धि के लिए अज्ञात-क्षेत्र में पहुँचकर नवीन सत्य को पाने व शोधन करने का जो सामर्थ्य है वह उसे कैसे और कहाँ से प्राप्त हुआ इसके सम्बन्ध में संसार में दो-तीन उपपत्तियाँ प्रचलित हैं। हम उनका भी थोड़ा विचार कर लें।

इन उपपत्तियों को हम आधिदैविक, अधिभौतिक व आध्यात्मिक नाम भी दे सकते हैं। सामान्य बुद्धि में न आनेवाले नवीन सत्य प्रतिभावान्, असामान्य विभूति के मन में कैसे स्फुटित होते हैं, इसकी आधिदैविक उपपत्ति इस प्रकार है कि ऐसे असाधारण बुद्धि के लोगों को परमेश्वर की प्रेरणा से ये सत्य दिखाई देते हैं। वैदिक मन्त्रों के ऋषि मन्त्र-दृष्टा थे—ऋषयो मंत्रद्रष्टारः—जत्र साधारण लोग ऐसा कहते हैं तत्र उनके मन में यही आधिदैविक उपपत्ति रहती है। परमेश्वर के स्वरूप-सम्बन्धी द्वैत के तत्वज्ञान पर यह आधिदैविक उपपत्ति अधिष्ठित रहती है। जीवात्मा व परमात्मा ये दो हैं ऐसा मानकर परमात्मा जीवात्मा के प्रज्ञा-चक्षुओं को नवीन सत्य का दर्शन कराता है, इस तरह यह उपपत्ति है। इसके विपरीत एक आधिभौतिक उपपत्ति है। इसके अनुसार जीव दृष्टा है और जगत् उसका दृश्य है। इस दृश्य जगत् का दर्शन करके व उसके स्वरूप को समझकर उसमें व्यवहार करना मानव-बुद्धि का मुख्य कार्य है। दृश्य विश्व के अथवा समाज की दृश्य परिस्थितियों के परिवर्तनों का अवलोकन करना व इस परिवर्तन के नियमों को खोज निकालना मानवीय बुद्धि का धर्म है। बाह्य परिस्थिति के परिवर्तनों में से ही मानवी बुद्धि को नवीन आदर्शों का अथवा नवीन सत्य का ज्ञान होता है। यों भी कहें कि इस बात में बाह्य दृश्य परिस्थिति व उनमें होनेवाले परिवर्तन ही मानव-बुद्धि का गुरु है। यह गुरु जो-कुछ शिक्षण देगा उसके अनु-

सार मानवी बुद्धि का ज्ञान बढ़ता है व उसे जो सत्य दिखाई देगा उसे बुद्धि ग्रहण करती है। मानवी बुद्धि को नवीन सत्यों का जो दर्शन होता है उसकी यह आधिभौतिक मीमांसा है। इस मीमांसा में सारा कर्तृत्व दृश्य परिस्थिति व उसके परिवर्तन को ही दिया गया है। एक तरह से मानव-बुद्धि इस उपपत्ति के अनुसार दृश्य परिस्थिति की अथवा उसमें होनेवाले परिवर्तनों की दासी बनती है। इस उपपत्ति को यान्त्रिक-भौतिकवाद (Mechanical Materialism) कहते हैं। इसमें मानवीय बुद्धि का स्वातंत्र्य व कर्तृत्व विलकुल नहीं माना गया है। इसमें मनुष्य-बुद्धि को स्वतंत्रता नहीं, मानवीय कर्तृत्व को अवसर नहीं और उससे निर्मित नीतिशास्त्र में आदर्शवाद की कोई गुंजायश नहीं। उसके नीति-शास्त्र का आदर्श आधिभौतिक सुखवाद है और त्यागी आदर्शवादी मनुष्य व सुख-परायण स्वार्थी मनुष्य का भेद भी उस तत्वज्ञान पर बने मानस-शास्त्र अथवा नीतिशास्त्र नहीं जानते।

कार्ल मार्क्स प्रभृति कम्युनिस्ट तत्वज्ञों का भौतिकवाद इस यान्त्रिक-भौतिकवाद से भिन्न है। मार्क्स आदि के भौतिकवाद को स्वयंविभासी भौतिकवाद (Dialectical Materialism) कहते हैं। इसका यह मत है कि जड़ निर्जीव सृष्टि के परिवर्तनों के यान्त्रिक नियम सजीव सृष्टि पर लागू नहीं होते हैं और मानवेतर सजीव सृष्टि के प्राणी-शास्त्र के नियम आदर्शवादी मानव-सृष्टि पर ज्यों-के-त्यों लागू नहीं किये जा सकते। मानस-शास्त्र व नीति-शास्त्र के ये सिद्धान्त कि मानव-बुद्धि स्वतंत्र है, आदर्श सृष्टि निर्माण कर सकती है और उस आदर्श की प्राप्ति के लिए स्वार्थ-त्याग-पूर्वक प्रयत्न करना मानवीपन की उन्नत अवस्था है, आदि इस भौतिकवाद को मान्य है। परन्तु उसका यह कहना है कि मानव-बुद्धि को नवीन समाज-रचना के जो आदर्श सूझते हैं वे मनुष्य-समाज की आधिभौतिक बुनियाद में अर्थात् उसमें रूढ़ धनोत्पादन व धनविभाजन-पद्धति में क्रान्ति होने के कारण सूझते हैं और इसलिए, दृश्य सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तन मानवीय आदर्श सृष्टि के परिवर्तन का कारण हैं व इस कारण का विचार किये बिना इस बात

की ठीक-ठीक मीमांसा नहीं हो सकती कि मानवीय इतिहास में जो भिन्न आदर्श बने वे क्यों बने व पुराने आदर्शों को पीछे हटाकर नवीन आदर्श प्रस्थापित करनेवाली क्रान्ति क्यों हुई ? परन्तु यान्त्रिक-भौतिकवाद की तरह मानव-बुद्धि की स्वतंत्रता, उसके द्वारा निर्मित आदर्श-सृष्टि का महत्व व इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य-यत्नों की व आदर्श त्याग की आवश्यकता का महत्व मार्क्स-प्रभृति के भौतिकवाद में अमान्य नहीं। परिस्थिति मानव-बुद्धि की गुरु है यह मानकर भी इस परिस्थिति को मार्ग दिखाने का सामर्थ्य आदर्श निर्माण करनेवाली मानव-बुद्धि को है व इस दृष्टि से परिस्थिति-रूप गुरु को सिखाने का काम मानव-बुद्धि करती रहती है, इस सिद्धान्त पर यान्त्रिक-भौतिकवाद ने ध्यान नहीं दिया ऐसा मार्क्स ने साफ तौर पर कहा है।

इसका अर्थ यह हुआ कि 'परिस्थिति मानवी बुद्धि की गुरु है' इस सिद्धान्त से आगे जाकर परिस्थिति का भी गुरुत्व अथवा प्रभुत्व मानवी-बुद्धि को देना लाज़मी हो जाता है। किन्तु समाज के सभी व्यक्तियों की बुद्धि में यह स्वतंत्रता नहीं रहती। इसलिए परिस्थिति को अपने सामने झुकाकर उसपर प्रभुत्व जमानेवाले मनस्वी पुरुष व प्राप्त परिस्थिति के सामने झुक जानेवाले साधारण लोगों के कर्तृत्व और बुद्धि में अपने आप भेद करना पड़ता है। कार्ल-मार्क्स का कहना है कि पुराने भौतिकवाद में ऐसा भेद किया भी गया है ; परन्तु उसे यह द्वैत मंजूर नहीं। सामाजिक परिस्थिति व समाज की मनोगत आदर्श-सृष्टि का परिवर्तन परस्परावलम्बी व परस्पर सापेक्ष होता है। उनके कार्य-कारण-सम्बन्ध भी दोनों पक्ष में प्रतियोगी रहते हैं। इसलिए सामाजिक परिस्थिति में होनेवाले परिवर्तनों का विचार न करने से आदर्श सृष्टि का विकास समझ में नहीं आ सकता। उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तनों की मीमांसा भी मानव-बुद्धि की आदर्श निर्माण करने की शक्ति और मनुष्य-कर्तृत्व की उपेक्षा करने से नहीं की जा सकती। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक तत्व-मीमांसा में जो नई और महत्व की बात जोड़ी है वह यही है। हेगेल प्रभृति आध्यात्मिक इतिहास-मीमांसकों ने महज सामाजिक आदर्श

के विकास पर सारा जोर देकर समाज की भौतिक परिस्थिति के उन परिवर्तनों की ओर ध्यान नहीं दिया, जिनके कारण उन आदर्शों का विकास हुआ है। इस कमी को पूरा करने के लिए मार्क्स ने अपनी इतिहास की भौतिक मीमांसा निकाली व उसके आधार पर समाज-सत्ता व क्रान्ति का भविष्य बतलाया। परन्तु इसके लिए उसने न तो यान्त्रिक भौतिकवाद को स्वीकार किया और न मानव-बुद्धि की स्वतन्त्रता व मानवी कर्तृत्व की आवश्यकता की अवहेलना की।

मनुष्य स्वतन्त्र है व अपने बुद्धि-बल से दृश्य विश्व व सामाजिक परिस्थिति के परिवर्तनों के नियम निकालकर नवीन आदर्श का निर्माण व स्थापन कर सकता है। यह सही हो तो भी उसका यह स्वातन्त्र्य व समर्थ्य सृष्टि के अन्तर्बाह्य नियमों से मर्यादित है व उन नियमों का उल्लंघन करके नहीं बल्कि उनका पालन व उपयोग करके ही वह अपनी स्वतन्त्रता का आनन्द पा सकता है, यह हरगिज न भूलना चाहिए। इस विषय में अध्यात्मवादी हेगेल और स्वयं-विकासी भौतिकवादी मार्क्स-ऍंजल्स में मत-भेद नहीं। ऍंजल्स ने मानवी स्वतन्त्रता के सिद्धान्त और सृष्टि के परिवर्तन के नियमों की नियति का समन्वय हेगेल के पूर्वोक्त मत के आधार पर ही किया है। सृष्टि की नियति का उल्लंघन मनुष्य नहीं कर सकता, बल्कि उसका ज्ञान प्राप्त करके उसके नियमों का पालन करते हुए ही, उसपर अपना प्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है। इन्द्रियगोचर बाह्य दृश्य सृष्टि व सेन्द्रिय जीव की आन्तरिक, बाह्य इन्द्रियों के लिए अगोचर सृष्टि, इन दोनों पर भी, उनके परिवर्तन-नियम जानकर, मनुष्य अपनी मर्यादित स्वतन्त्रता चला सकता है व ऐसा करना उसका श्रेष्ठ कर्तव्य भी है।

यह विवेचन स्वयं-विकासी भौतिकवाद के आधार पर हुआ। अब यह देखना है कि अद्वैत-वेदांत इसके आगे चलकर क्या कहता है? ऊपर ऍंजल्स का मानवी स्वतन्त्रता-सम्बन्धी जो सिद्धान्त बताया गया; उसमें यह कहा गया कि मनुष्य के लिए जैसे इन्द्रियगोचर बाह्य सृष्टि पर प्रभुत्व प्राप्त करना आवश्यक है वैसे ही मनोगोचर अन्तःसृष्टि पर भी आवश्यक है।

पहला प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक विद्या का व दूसरे के लिए अध्यात्म-विद्या का अध्ययन करना पड़ता है । इन्द्रियगोचर दृश्य विश्व और सेन्द्रिय दृष्टा जीव इन दोनों के व्यवहार व परिवर्तन के नियम अव्यक्त रहते हैं । इन्द्रिय-गोचर सृष्टि-परिवर्तन के ये अव्यक्त नियम जानना मानवी बुद्धि का काम है । उसे भी खोजकर मनुष्य को जानना पड़ता है । दृश्य व दृष्टा दोनों के व्यक्त स्वरूप में परिवर्तन लानेवाले अव्यक्त नियम अथवा उनके अव्यक्त स्वरूप एक ही हैं व इसीलिए अद्वैत-वेदान्त का मत है कि दृष्टा दृश्य-विश्व के परिवर्तनों को अपने अनुकूल बनाने का सामर्थ्य रखता है व अपनी बुद्धि से आदर्श सृष्टि निर्माण करके उनपर प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है । दृष्टा व दृश्य दोनों के अव्यक्त स्वरूप से जव-तक तादात्म्य नहीं हो जाता तवतक मनुष्य, अध्यात्म-विद्या हो या भौतिक विद्या, उनके नवीन सत्त्यों का दर्शन नहीं कर सकता । बल्कि यों कहें कि जो अव्यक्त स्वरूप को नहीं समझ सका वह जीव-सृष्टि व दृश्य-सृष्टि का स्वरूप भी ठीक-ठीक नहीं समझ सकता । हमारा अर्थात् जीवात्मा का, जो शुद्ध अव्यक्त स्वरूप है वही परमात्मा है । परमात्मा किंवा परमेश्वर जीव और जगत् का ही एक अव्यक्त व शुद्ध रूप है और कुछ नहीं । परमेश्वर हमारे प्रज्ञा-चक्षुओं को नवीन सत्य का दर्शन कराता है व मन्त्र-दृष्टा-ऋषि समाधि-अवस्था में उनका दर्शन करते हैं—इसका अर्थ यही है कि हमारे अव्यक्त अन्तरात्मा के जाग्रत होने से हमारी बुद्धि में स्फूर्ति या तेज आता है व वह अपने दृश्य-संशोधन विषय में तल्लीन हो जाती है जिससे वह आदर्श सृष्टि का दर्शन कर सकती है । इस दृष्टि से सामान्य बुद्धि व प्रतिभा, अथवा जीवात्मा व परमात्मा, दृश्य-जगत् और उसके अव्यक्त नियम अथवा परिवर्तन-कारण, इनमें अद्वैत-वेदान्त भेद की कल्पना नहीं करता । दृश्य-जगत् का स्वरूप दृष्टा के ज्ञान पर अवलंबित रहता है । अज्ञानी व ज्ञानी जीव की सृष्टियाँ भिन्न-भिन्न रहती हैं, जिनमें पहली मोहमयी व दूसरी सत्य है । ज्ञानी जीव को सत्य सृष्टि प्रतीत होती है व अज्ञानी जीव को अज्ञानी सृष्टि । यह अज्ञान व ज्ञान भौतिक व आत्मिक दो तरह का है । आत्मिक ज्ञान से दृष्टा का

अव्यक्त स्वरूप प्रतीत होता है व भौतिक ज्ञान से दृश्य-जगत् का । जो मनुष्य अव्यक्त परमात्मा से एक-रूप हो गया है वह किसी भी देवता की शरण नहीं जाता या यों कहें कि आत्म-स्वरूप से भिन्न किसी भी परमेश्वर को नहीं जानता । शंकराचार्य कहते हैं :

“नाहं नमामि देवान् । देवानतीत्य न सेवते देवम् ॥

न तदनु करोति विधानं । तस्मै यतते नमो नमो मह्यम् ॥”

अर्थात्—मैं किसी भी देव को नमस्कार नहीं करता । देवाताओं के परे चले जानेवाला मनुष्य किसी भी देव की सेवा नहीं करता व उसके बाद किसी भी तरह का पूजा-विधान नहीं करता । मैं खुद यत्न-शील, अपने को ही बारबार नमस्कार करता हूँ । यदि ऐसा कहें कि परमेश्वर नहीं है तो जीव और जगत् के अव्यक्त शुद्ध रूप की ओर साधारण लोगों का ध्यान नहीं जाता । अतः लोगों को यह सिखाने के लिए कि जीव व जगत् का अव्यक्त स्वरूप भी है, आस्तिकवाद ग्रहण करना पड़ता है । परन्तु आस्तिकवाद स्वीकार करने से आम लोग यह मानकर कि अपने उद्धार की सारी जिम्मेदारी व बोझा उठानेवाला परमेश्वर नामक जीव व जगत् से भिन्न कोई तीसरा पदार्थ है, निष्क्रिय बन जाते हैं व वही हमारी बुद्धि में प्रकाश डालेगा, ऐसा समझकर अपनी बुद्धि तक नहीं चलाते । महान् पुरुष अपनी बुद्धि से जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे वे परमेश्वर-निर्मित मानते हैं व उसके लिखे ग्रन्थ को पवित्र मानकर शब्द-प्रमाण की ओर झुकते हैं । बुद्धियोग और कर्मयोग का इस प्रकार लोप होने से भौतिक विद्या व आत्मविद्या की प्रगति रुक जाती है, धर्म के नाम पर अधर्माचरण होने लगता है व विद्या ज्ञान के लिए नहीं विवाद के लिए है, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है । मनुष्य को बताना पड़ता है—
“परमेश्वर और कुछ नहीं, जीव व जगत् का अव्यक्त रूप ही है व यह दृश्य-विश्व है—अपूर्णाता से पूर्णाता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अन्धकार से प्रकाश की ओर जानेवाली मनुष्य की यत्न-रूपी व संसार की अनन्त वस्तुओं में अखंड परिवर्तन करनेवाली, अव्यक्त शक्ति का व्यक्त रूप । वही दृष्टा व दृश्य का अव्यक्त स्वरूप अर्थात् परमेश्वर है । तू ही परमेश्वर

है, परमेश्वर ही जगत् है। उसी के कारण संसार में परिवर्तन व तेरा उद्धार होता है। तू ही खुद अपना उद्धार कर सकेगा। यत्न ही परमेश्वर है। 'परमेश्वर है' यह तेरी वाणी बोलती हो तो भी वह भिन्न नहीं है। ऐसा ही तू अनुभव कर व भौतिक विद्या और अध्यात्म-विद्या की सहायता लेकर अपने प्रयत्न से संसार पर प्रभुत्व पाने का अपना अधिकार तू प्राप्त कर।" भारतीय तत्वज्ञान के आज तक के सारे ज्ञान का यह सार तथा अमृत है। आत्म-ज्ञान का यह सिद्धान्त भौतिक ज्ञान की वृद्धि अथवा उपासना के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है। वह जिस प्रकार मानवी प्रयत्न, जीव का स्वातंत्र्य व बुद्धि की आदर्श निर्माण करने की शक्ति का विरोधी नहीं उसी प्रकार आत्मसृष्टि व भौतिक सृष्टि के नियमों का, बल्कि नियति का भी, विरोधी नहीं। सृष्टि के नियम और जीव-स्वातंत्र्य का उसमें समन्वय है व जीवात्मा को परावलंबी न बनाकर स्वावलंबी आत्मोद्धार का ही उपदेश करता रहता है। भौतिक फलों की प्राप्ति का जिस प्रकार प्रयत्न ही एक साधन है उसी प्रकार वह आत्मज्ञान या मोक्ष-प्राप्ति का भी साधन है। मोक्ष की कोई पोटडी ईश्वर के पास नहीं है। चित्त-शुद्धि और इन्द्रिय-जय के द्वारा मन को निर्विषय करना मोक्ष-प्राप्ति का सही उपाय है। अद्वैत सिद्धान्त का यही सन्देश मनुष्य के लिए है।

आधुनिक यूरोप की प्रगति का श्रेय वहाँ के व्यापारी-वर्ग को है। आज उस प्रगति को रोकने का श्रेय भी उसी वर्ग को है। यूरोप का नेतृत्व व्यापारी-वर्ग के हाथ में आने पर वहाँ की संस्कृति का भौतिक बन जाना स्वाभाविक था। भौतिक सम्पत्ति का अर्जन ही समाज में इनका कार्य और वही इनका नित्य व्यवसाय—इससे मानवी सुख ही भौतिक सुख और भौतिक सुख का अर्थ धन से प्राप्त सुख, ऐसी मानवी सुख की व्याख्या यूरोप में शीघ्र ही रूढ़ हो गई। फिर व्यक्ति-स्वातंत्र्य का अर्थ हुआ धनार्जन की स्वतंत्रता, व्यक्ति-सुख का अर्थ हुआ धन से मिलनेवाला सुख। इस व्यक्तिगत सुख व धन की रक्षा करना राज्य-सत्ता का आदि-कर्तव्य हुआ व राज्य-सत्ता हुई व्यक्ति-गत संपत्ति की रक्षा करनेवाली संस्था। इस तरह का आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक तत्वज्ञान वहाँ शीघ्र

ही फैल गया। व्यापारी-वर्ग के सामाजिक तत्वज्ञान से 'व्यक्ति यदि अपने संपत्ति बढ़ाता है, तो राष्ट्र की संपत्ति अपने-आप बढ़ती है। इसलिए राजसत्ता व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में बाधक न बने। उसे बाधक न बनने देने के लिए राजसत्ता को लोग अपने हाथ में लें व प्रत्येक देश के लोग अपने राष्ट्र की सम्पत्ति, सत्ता व वैभव बढ़ाने का प्रयत्न करें, इसी में व्यक्ति, राष्ट्र और समस्त मानव-जाति का कल्याण है।' ऐसा मायावी वेदान्त उत्पन्न हुआ। धनार्जन ही सब विद्याओं और शास्त्रों का ध्येय बन गया। अपने राष्ट्र का भौतिक सुख ही सर्वश्रेष्ठ मानव-धर्म बन बैठा। राज-सत्ता को लोक-सत्ता का रूप प्राप्त हुआ; परन्तु यह लोक-सत्ता शीघ्र ही धलिक-सत्ता बन गई और धनिक वर्ग का ही हित राष्ट्र का हित मान लिया गया।

यह व्यक्तिवादी, सामाजिक विचार-श्रेणी कुछ समय तक यूरोप की प्रगति का कारण बनी। जबतक व्यक्ति बिना कष्ट के धनार्जन नहीं कर सकता था, जबतक साहस ही से श्री नहीं प्राप्त होती थी और जबतक संयम के बिना संचय नहीं हो सकता था, तबतक यह कहा जा सकता था कि मनुष्य ने जो-कुछ कमाया वह उसकी मेहनत का फल है; प्रत्येक व्यापारी को जो नफा मिलता था वह उसके साहस का फल है। प्रत्येक साहूकार को जो व्याज मिलता था वह उसके संयम का फल है। परन्तु जबसे धनोत्पादन के साधन बदल गये, उद्योग-धन्धे बढ़ गये और छोटे गृह-उद्योग टूटकर बड़े-बड़े कारखाने बन गये तबसे यह व्यक्तिवादी अर्थ-शास्त्र व समाज-शास्त्र, जो छोटे धन्धों से उपजीविका करनेवाले समाज पर लागू होता था, इस कारखानेदार व पूँजीवादी समाज पर लागू न होने लगा। पूँजीवादी समाज में धनार्जन और कष्ट का अनुपात लगा रहता है। धन-संचय का और संयम का कुछ संबंध नहीं रहता और यदि नफेवाज पूँजीपति को साहस करना भी पड़ा तो वह अपने कष्टार्जित धन पर नहीं, प्रायः दूसरों के धन पर ही संभव होता है। समाज के धनोत्पादन के सब साधन अल्प-संख्यक वर्ग के पास चले जाने पर, व बहु-संख्यक निर्धन-वर्ग को जीवन के आवश्यक साधन प्राप्त करने के

लिए अपनी श्रम-शक्ति को बेचकर इन अल्प-संख्यक धनिकों का दास बनने की नौबत आने पर, इन दोनों वर्गों में होनेवाले ठहराव व इकरार स्वेच्छापूर्वक या राजी-रजामन्दी के इकरार नहीं हो सकते। इस प्रकार आर्थिक गुलामी में डूबे निर्धन, अज्ञान व असंगठित व्यक्ति को शासन-कार्य में धनिक, विद्वान् व संगठित वर्ग के व्यक्ति के बराबर एक मत का अधिकार देने से सच्ची लोकसत्ता नहीं पैदा हो सकती। ऐसे प्रजा-सत्ताक राज्य की सब प्रातिनिधिक संस्थाएं धनिक-वर्ग के हाथ में चली जाती हैं। उसमें सब कानून-कायदे धनिक-वर्ग की संपत्ति के लिए बनाये जाते हैं। ऐसी प्रातिनिधिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी मन्त्रिमंडल धनिक-वर्ग की संपत्ति की रक्षा करनेवाली एक दंडधारी संस्था बन जाती है। लोक-सत्ता का अर्थ है लोकमतानुसार शासन करना; परन्तु लोकमत बनानेवाले श्रमिकों व पुस्तकों पर, नहीं-नहीं ज्ञान-दान करनेवाले विद्यापीठ व सार्वजनिक शिक्षण-संस्थाओं पर भी देश के धनिक-वर्ग का आक्रमण व प्रत्यक्ष नियंत्रण होने लगता है। ऐसी लोक-सत्ता में व्यक्ति-स्वातंत्र्य का अर्थ धनिकों का सुख और निर्धनों की दासता और राष्ट्रहित का अर्थ धनिक-सत्ता का व राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद का विकृत रूप प्राप्त होता है।

इस विकृति को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है—समाज के धनोत्पादन के साधन धनिक-वर्ग की निजी संपत्ति में से निकालकर सार्व-जनिक मिलकियत बना देना—अर्थात् समाज-सत्ताक प्रजा-सत्ता स्थापित करना। यूरोप के सामाजिक तत्वज्ञ आज इस बात को मानते हैं; परन्तु आधुनिक यूरोप के सामने आज यही एक प्रश्न है कि यह क्रांति की कैसे जाय? इस प्रश्न का जो उत्तर कार्ल मार्क्स ने दिया है उसी में से आज के वैज्ञानिक समाजवाद उर्फ कम्युनिज्म और उसके वर्ग-युद्ध-रूपी क्रांति-शास्त्र का जन्म हुआ है। इसके विपरीत इस क्रांति को रोकने के लिए व प्रजासत्ता का आवरण हटाकर, नागरिकों की मूलभूत स्वतंत्रता को छीनकर, केवल पूँजी-प्रधान समाज-रचना को चिरन्तन करने के लिए फासिज्म का उदय हुआ है। मालिक और मजदूर इस वर्गभेद को मिटाकर

एकवर्गीय समाज-रचना करने के लिए कम्यूनिज्म का क्रांति-शास्त्र बना । इसके विपरीत प्रचलित वर्ग-भेद कायम रखकर समाज-सत्ताक क्रांति को दबाने के लिए फासिज्म का क्रान्ति-प्रतिबन्धक शास्त्र आज यूरोप में निर्माण हुआ है । इन दोनों शास्त्रों का विश्वास शस्त्र-बल पर है । शस्त्र-बल के भूगडों के इस वातावरण में, आधुनिक यूरोप में, आत्म-बल पर अधिष्ठित क्रान्ति-शास्त्र फैलाने की अथवा बड़े पैमाने पर उसके अवलंबन लिये जाने की संभावना आज तो नहीं दिखाई देती । आधुनिक भारत में आत्मबल के जिस निःशस्त्र क्रान्ति-विज्ञान का विकास हुआ है वह कम-से-कम भारतवर्ष में, प्रजा-सत्ता से समाज-सत्ता में जाने के जरूर काम आवेगा और आज जो उसे अकेली राष्ट्रीय प्रजा-सत्तात्मक क्रान्ति का रूप मिला है उसके विकास में से ही स्वतंत्र भारत की सर्वांगीण सामाजिक क्रान्ति पैदा होगी—ऐसा हमारा मत है ।

कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक क्रान्तिवाद का भी थोड़ा विचार यहाँ कर लें । मार्क्स ने यूरोप की पिछली दो-तीन सदियों के इतिहास का अवलोकन करके अपने शास्त्रीय या वैज्ञानिक समाज-सत्ता के क्रांतिवाद का स्वरूप निश्चित किया । मध्ययुगीन यूरोप में, सामन्तशाही के उदर में से ही व्यापारी-वर्ग का उदय हुआ । सरदारों और राजाओं की भौतिक व आर्थिक जरूरतें पूरी करने के व्यवसाय से उसकी बढ़ती हुई । इस बढ़ में सरदार लोगों की ओर से विघ्न डाला जाने लगा । उनकी आपसी संघर्ष से देश में शांति नहीं रहती थी, जिससे व्यापार व लेन-देन की उन्नति नहीं हो सकती थी ! यह देखकर सरदार-वर्ग को मिटाने में राजा लोगों की उसने मदद की और सामन्तशाही को मिटाने में सहयोग दिया । यह सामन्तवर्ग हमारी वर्ण-व्यवस्था का क्षत्रिय-वर्ण था । सामन्तशाही-पद्धति में लोगों की रक्षा करना उनका व्यक्तिगत कार्य ही था । आसपास चार सिपाही इकट्ठे किये और अपने बाहुबल से चाहे जहाँ एक छोटा-सा राज्य कायम कर लेते थे । यह त्रिकुल प्रारम्भिक अवस्था का क्षत्र-धर्म था । फिर चार की जगह चार सौ सिपाही व चार हजार पैदल व बुइसवार इकट्ठे करके उन्होंने धड़ाधड़ राज्यों पर कब्जा करना शुरू किया । ताहम कुछ

समय तक इन सामन्त लोगों ने देश व प्रजा की रक्षा की। परन्तु बाद को यह लोग व्यापारियों व साहूकारों को ही लूटने लगे व देश में अराजकता फैलाने लगे। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय एकच्छत्री शासन स्थापित करने में इससे रुकावट पैदा होने लगी और शांति-काल में जो सम्पत्ति और संस्कृति की उन्नति हो सकती है वह रुक गई। इसके विपरीत व्यापारी-वर्ग, स्वदेश और विदेश में व्यापार करके अपने देश की धन-दौलत बढ़ाने लगा। तब राजाओं ने इस सामन्त-वर्ग को, जो देश की साम्प्रतिक उन्नति में बाधा डालता था, नष्ट करके रक्षण की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और इन उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण किया। उस समय इस सामन्त-वर्ग ने परम्परागत व्यक्तिगत अधिकार और स्वतन्त्रता-रक्षा के नाम पर इस राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। उसने यह पुकार मचाई कि हमारे जैसे अभिजात श्रेष्ठ वर्ग को कल के उपजे व्यापारी-वर्ग के समान दर्जे में ला रखना अप्राकृतिक है। ऐसी सामाजिक विषमता कानून के द्वारा नहीं पैदा की जा सकती, निदान कुछ समय तक वह कायम नहीं रह सकती। जागीरें दिये बिना सेनापतित्व स्वीकार करके देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को कोई भी आगे न बढ़ेगा और इसलिए, जागीरदार-वर्ग को नष्ट करने से अन्त में राष्ट्र की ही हानि होगी ऐसा भय उन्होंने दिखलाया। फिर भी यूरोप के बढ़ते हुए व्यापारी-वर्ग ने अभीष्ट सामाजिक व राजनैतिक क्रांति कर ही डाली। जब राजा अपनी सैनिक-सत्ता व सम्पत्ति का दुरुपयोग करने और धनिक समाज पर मनमाना कर लादने लगे, तब किसानों का नेतृत्व करके, व्यापारी-वर्ग ने प्रजा-सत्ता की स्थापना की, सामाजिक समता की घोषणा की व राष्ट्रीय बन्धुभावना का दिहोरा पिटवाया। इस तरह जमींदार, जागीरदार व व्यापारी-वर्ग की सलाह से यूरोप में प्रजा-सत्ता का जन्म हुआ। बाद को यही व्यापारी साहूकार, औद्योगिक क्रांति के पश्चात्, मिलमालिक और कारखानेदार बन गये।

इस औद्योगिक क्रांति से धनोत्पादन की मात्रा बढ़ गई; परन्तु अब इस मात्रा-भेद से प्रकार-भेद पैदा हो गया। छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धों से धनोत्पादन प्रायः मालिकों के श्रम से होता है। बड़े-बड़े कारखानों से

धनोत्पादन मालिक के श्रम से नहीं, बल्कि मजदूरों के श्रम से होता है । इस तरह धनोत्पादन की मात्रा के बढ़ते ही उसका प्रकार भी बदल गया । मात्रा-भेद से जब प्रकार-भेद पैदा होता है तब फिर पहले की समाज-रचना का प्रकार भी बदलना पड़ता है । जो बन्धन छोटे धन्धोंवालों के समाज में निभने के लिए काफी होते हैं वे बड़े उद्योगपतियों को नहीं होते ।

कोई प्राणि-शास्त्रज्ञ शायद यह कहे कि घरेलू बिल्ली, जंगली बिल्ली और शेर इनकी आकृति में कदाचित् मात्रा-भेद ही है । परन्तु कोई समाज-शास्त्री यह नहीं कहेगा कि घरेलू बिल्ली की तरह जंगली बिल्ली या शेर को समाज में बिना रोक-टोक के आजाद रहने दिया जाय । बेल-गाड़ी की राहदारी का नियंत्रण करने के लिए जो नियम काफी होते हैं वे मोटर के लिए काफी नहीं होते और पाँच-पचास घर के गाँव के सार्वजनिक आरोग्य के नियम पाँच-पचास हजार घरवाले औद्योगिक शहर की आरोग्य-रक्षा के लिए काफी नहीं होते । इन उदाहरणों से यह दिखाई देगा कि मात्रा-भेद से प्रकार-भेद पैदा होता है और जब समाज के सामाजिक व्यवहारों का परिणाम और प्रकार बदलता है तो उसके नियम का भी प्रकार बदल जाता है । इतना ही नहीं, बल्कि पहले की समाज-रचना का सारा रूप ही बदल कर उसमें क्रान्ति करनी होती है । कार्ल मार्क्स ने यह दिखाया कि औद्योगिक क्रान्ति के कारण ऐसी ही एक सर्वांगीण सामाजिक क्रान्ति की आवश्यकता ही नहीं बल्कि शक्यता भी उत्पन्न हो गई है । सामन्तशाही से प्रजासत्ता में जाने की क्रान्ति जिस तरह व्यापारी-वर्ग के नेतृत्व से हुई उसी तरह उसने यह भी बताया कि, प्रजासत्ता से समाजसत्ता की अवस्था में जाने की क्रान्ति मजदूर-वर्ग करेगा, जो कि पूँजीवाद के अधीन बना है, उसी के काम के लिए संगठित हुआ है और उसी समय में धनोत्पादन का काम अपने संगठित प्रयत्न से करते हुए क्षण-क्षण जिसका शोषण होता है ।

उसका यह मत था कि यह क्रान्ति एक-वर्गीय समाज की स्थापना करके मानव-समाज की नैतिक व सांस्कृतिक उन्नति करेगी; परन्तु उसका यह भी कहना था कि उस क्रान्ति के लिए यह एक ही कारण काफी न

होगा । समाज की एक रचना मिटकर जब उसकी जगह दूसरे प्रकार की रचना अस्तित्व में आती है तब वह केवल नैतिक व सांस्कृतिक उन्नति की आकांक्षा से ही नहीं हो सकती । कोई भी समाज-रचना महज नैतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अपूर्ण हो तो इसी कारण से लोग उसे बदल डालने या उसमें क्रांति करने के लिए तैयार नहीं होते । उसमें क्रांति उसी अवस्था में होती है जब वह अपने अन्तर्गत विरोधों से नष्ट-प्राय हो जाती, अच्छी तरह चल नहीं सकती या नष्ट हो जाती है, और सब लोग यह समझने लगते हैं कि उससे हमारी जीवन-यात्रा अब चल नहीं सकती । प्रत्येक समाज-रचना में ऐसे अन्तर्गत विरोध रहते हैं व बढ़ते हैं और जब वह समाज-रचना टूट पड़ती है, तभी नवीन समाज-रचना स्थापित करनेवाली क्रांति होती है । इस प्रकार के अन्तर्गत विरोध पूँजीवादी समाज-रचना में हैं और उसकी बढ़ती के साथ-साथ बढ़ते भी हैं । प्रत्येक समाज-रचना के विनाश-बीज उसीके इस अन्तर्विरोध में बुले-मिले रहते हैं व उस समाज-रचना की बढ़ती के साथ उनकी भी वृद्धि होती रहती है । पूँजीवाद के विकास के साथ ही उसके विनाश-बीज यानी मजदूर-वर्ग भी बढ़ और संगठित हो रहा है ।

पूँजीवाद का प्रमुख अन्तर्विरोध इस प्रकार बताया जा सकता है—
 'इस समाज-यंत्र की तमाम प्रेरक शक्ति व्यक्तिगत नफा व स्वर्धा में है । मुनाफे के लिए मजदूरों का वेतन कम करना और माल की दर बढ़ाना ये दो साधन पूँजीपति काम में लाता है व आपस की प्रतिस्पर्धा के कारण मजदूरों को चूसने की नीति वह नहीं छोड़ सकता । मजदूरों का वेतन कम करके उन्हें चूसना और अपने माल की खपत बढ़ाना, दोनों बातें एक-दूसरे से मेल नहीं खातीं । आम जनता का शोषण होने से उसकी क्रय-शक्ति कम होती है व खरीददार न मिलने से माल की खपत न हुई तो कारखाने बन्द करने पड़ते हैं । कारखाने बन्द हुए तो लोग बेकार होते हैं और बेकारी से जनता की क्रयशक्ति और भी घट जाती है । इसीसे औद्योगिक संकट पैदा होते हैं । संकटों को दूर करने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने साम्राज्य का अवलंबन लिया । इससे कुछ समय तक वे इस

संकट से बचे रहे। ताहम आज यूरोप के साम्राज्यवादी देश, इस उपाय से भी, उस संकट को दूर नहीं कर सकते। इससे छूटने के लिए जिस साम्राज्यवाद का अवलंबन उन्होंने लिया उसके द्वारा आज पहले से भी अधिक भयंकर संकट-परम्परा महायुद्ध के रूप में उनके सामने आ गई है। फिर साम्राज्य के विजित राष्ट्र भी अपनी औद्योगिक उन्नति करके यूरोपीय राष्ट्रों से औद्योगिक स्पर्धा कर रहे हैं जिससे चीन, हिंदुस्तान जैसे देशों की मंडियाँ उनके हाथ से जा रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिन यूरोपियन पूँजीपतियों ने चीन व हिंदुस्तान में अपनी पूँजी लगाकर कारखाने खड़े किये उन्हींकी स्पर्धा आज यूरोपियन कारखानेवालों को चुभ रही है। हिंदुस्तान-जैसे देश का सौ साल तक सतत शोषण होने से यहाँ की निर्धन जनता भी यूरोपीय कारखानेवालों का माल ले नहीं सकती। इस तरह जिस संकट को वे टालना चाहते थे वह अधिक भीषण रूप में उनके सामने आ खड़ा हुआ है। प्रत्येक देश में मालिक और मजदूरों का वर्ग-कलह जोरों पर है, जिसमें से क्रांति हुआ ही चाहती है। इस तरह पूँजीवादी समाज-रचना व संस्कृति अपने अन्तर्विरोध के हवन-कुण्ड में जलकर भस्म हो जावेगी—'माक्स की यह भविष्यवाणी यूरोप में बहुत कुछ सच निकली है व सच निकलने की विलकुल तैयारी में है, यह कहना गलत नहीं। लेकिन 'यूरोप की वर्तमान पूँजीपति-संस्कृति नष्ट होने पर उसमें से नवीन समाज-सत्ताक संस्कृति निर्माण होगी।' माक्स का यह कथन अवश्य ही सच होगा, यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। हमें इसकी संभावना बहुत कम मालूम पड़ती है। परन्तु हाँ, इस बात में कोई सन्देह नहीं कि मानव-संस्कृति अब आगे समाज-सत्ताक रूप ही धारण करेगी।

माक्स के क्रांति-शास्त्र का स्वरूप समझने के लिए उसके एक-दो और मतों का जिक्र करना जरूरी है। समाज-सत्ताक क्रांति साधारणतः प्रजा-सत्तात्मक वैध उपायों से नहीं बल्कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा सफल होगी यह उसका साधारण सिद्धांत था। उसका मत था कि इस समाज-सत्ताक सशस्त्र क्रांति के बाद कुछ समय तक अनियंत्रित मजदूर-सत्ता (Dicta-

torship of Proletariat) स्थापित होगी। जब पूँजीवाद निर्मूल हो जायगा तो समाज में मजदूर-वर्ग के अलावा कोई वर्ग बाकी न रहेगा और एकवर्गीय समाज-रचना स्थापित हो जायगी। इस एक-वर्गीय समाज-रचना में धनोत्पादन के सब साधन समाज की मिल्कियत हो जायँगे, जिससे सामुदायिक धनोत्पादन का साग लाभ सबको एक-सा मिलेगा। सबके सुख की मात्रा बढ़ जायगी, सबकी आवश्यकताएँ यान्त्रिक उत्पादन की सहायता से बहुत थोड़े कष्ट में पूरी होने लगेंगी। यह विश्वास रहेगा कि हमारे कष्ट का फल कोई दूसरा वर्ग नहीं छीनेगा, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आज या कल सबका सब हमारे या हम-जैसे मजदूरों को आज या अगली पीढ़ी में मिलता रहेगा जिससे वे खुशी-खुशी धनोत्पादन के सब कष्ट स्वीकार करेंगे। बाल, वृद्ध, बीमार सबकी सेवा-शुश्रूषा समाज के द्वारा होती रहेगी और सब प्रौढ़ सशक्त व्यक्तियों को काम देकर उनकी आवश्यकता के योग्य वेतन देने की व्यवस्था समाज करेगा। समाज के सब लोगों को ऐसी स्थिरता का अनुभव होने से धन-संचय का लोभ कम हो जायगा। जब समाज में ऐसा लोकमत बन जायगा कि समाज के किसी भी वयस्क और सशक्त व्यक्ति को बिना काम किये पैसा या धन नहीं मिल सकता व ऐसा करना उचित भी नहीं तथा ऐसा प्रत्यक्ष व्यवहार समाज में सालों तक होता रहेगा व जब समाज की भौतिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए कम श्रम की जरूरत रहने से एकवर्गीय समाज में अनेक वर्षों तक बन्धु-भावना रुढ़ हो जायगी व मजदूर-संस्कृति की स्थापना होगी तो फिर समाज में किसी प्रकार के दण्डधारी शासन-यन्त्र की जरूरत नहीं रह जायगी। सामाजिक विषमता से पैदा होनेवाले अपराध, अत्याचार, अशांति मिट जायगी व मजदूर-सत्ता का शासन-यन्त्र बेकार बनकर अपने आप मिट जावेगा। इसके बाद वास्तविक वर्ग-विग्रह-रहित मानव-संस्कृति का उदय होकर मानव-इतिहास का वर्ग-विग्रही जंगली युग नष्ट हो जायगा।

यह जो समाज-सत्ताक क्रान्ति का स्वरूप बताया गया, वह मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादान्तर्गत क्रान्ति-शास्त्र का स्थूल स्वरूप है। समाज.

की प्राथमिक अवस्था को छोड़ दें तो उसकी प्रत्येक अवस्था में दो वर्ग रहते हैं—गुलाम और उनके मालिक, भूदास व जमींदार और मजदूर व मिलमालिक। इनमें से पहला वर्ग श्रम और कष्ट करके समाज के धनोत्पादन का सारा भार उठाता है और दूसरा वर्ग उनको उसमें से महज इतना-सा हिस्सा देकर जिसमें वे मात्र जी सकें, शेष सारा भाग खुद हड़प लेता है। गुलामों का वर्ग नष्ट होने पर, मध्ययुग में, भूदास-वर्ग बना और मध्य-युगीन संस्कृति के लय हो जाने पर आजकल का मजदूर-वर्ग निर्माण हुआ तथापि प्राचीन, मध्य-युगीन व अर्वाचीन तीनों काल में मानव-संस्कृति किसी-न-किसी रूप की गुलामी पर ही खड़ी रही और है। आधुनिक यूरोप में मजदूर-वर्ग स्वतंत्र नागरिक बन गया है, उसे मतदान का अधिकार मिला है। मजदूरों में से हर एक को चाहे जितना धन कमाकर पूँजीपति बनने की स्वतंत्रता कानून ने दे दी है। मगर इससे यह कहना कि पूँजीपति समाज में गुलामी नहीं है, गलत है और आज के समाज में निर्धन मजदूर-वर्ग को इकरार-स्वातंत्र्य है यह मानना त्रिलकुल भ्रम है। यह बात कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छी तरह साबित कर दी है। पूँजीपति समाज में धनोत्पादन के सब साधन मुट्ठीभर धनिकों के हाथ में रहते हैं और बहुसंख्यक निर्धन-वर्ग को अपनी श्रम-शक्ति बेचनी पड़ती है व पूँजीपति जो-कुछ भी वेतन दें उसे चुपचाप ले लेना पड़ता है। इस श्रम-शक्ति से क्रय-विक्रय में मजदूर के पल्ले अधिक-से-अधिक हुआ तो महज उपजीविका भर के साधन पड़ सकते हैं व उनके बल से उत्पन्न सारी संपत्ति पूँजीपति-वर्ग को मिलती है। जिस तरह बैल के सारे श्रम-कष्ट से उत्पन्न अनाज मालिक के कब्जे में जाता है, बैल के चारा-पानी के खर्च के अलावा जो-कुछ धन बचता है वह सब मालिक को मिलता है उसी तरह समाज के मजदूर-वर्ग के उदर-निर्वाह के बाद बचा सारा धन, जमीन, व्याज व मुनाफा अनेक रूपों में मालिक-वर्ग को मिलता रहता है। इस पूँजीपति समाज में मजदूर का दर्जा बैल या गुलाम के दर्जे से भिन्न नहीं होता। इसलिए जबतक मालिक-वर्ग के पास संकलित धनोत्पादन के सब साधनों को, जिन्हें समाज के सब लोगों के जीवन-साधन

कहना चाहिये, सार्वजनिक संपत्ति बनाकर समाज-सत्ताक प्रजातंत्र स्थापित न होगा तत्रतक मनुष्य-समाज से गुलामी का अन्त नहीं होगा, न मानव-संस्कृति से वर्ग-कलह ही नष्ट हो सकता है। मार्क्स का यह मुख्य सिद्धांत है। समाज-सत्ताक अवस्था समाज को प्राप्त कराने के लिए वर्ग-विग्रह से उत्पन्न मजदूर-सत्ता या श्रमिक-सत्ता एक सर्व-सामान्य उपाय है, ऐसा भी उसका मत था।

आज तक समाज में एक परोपजीवी व दूसरा श्रमोपजीवी ऐसे दो वर्ग रहते आये हैं। इनमें से राजसत्ता परोपजीवी वर्ग के पास रहने से समाज के सत्र कानून-कायदे, रूढ़ि, धर्माचार, धर्म-विचार, सामाजिक आदर्श, नैतिक विचार, विज्ञान और कला इन सबपर सत्ताधारी व परोपजीवी वर्ग की छाप पड़ी है। इससे आज तक की मानव-संस्कृति समाज के आधार-भूत वर्ग-भेद वर्ग-विग्रह से विकृत हो चुकी है। समाज के कानून, रूढ़ि, धर्माचार, धर्मविचार, सामाजिक आदर्श, नैतिक विचार, विज्ञान व कला, सामाजिक नियम इन सबका उपयोग वरिष्ठ वर्ग ने अपने स्वार्थ के लिए व कनिष्ठ-वर्ग की दासता को समर्थनीय व चिरन्तन करने में किया है। राजनीति, समाज-नीति, अर्थ-नीति, इन सबमें मानव-संस्कृति का मूलभूत यह वर्ग-विग्रह प्रतिबिंबित हुआ है और राजा तथा राज्याधिकारी, समाजनेता और उसके अनुयायी, अर्थ-शास्त्रज्ञ व धर्म-शास्त्रज्ञ, कवि व दूसरे कलाकार इन सबने समाज के इस वर्ग-भेद व तत्जन्य विपमता को स्वीकार किया है। इस दृष्टि से आजतक का मानव-संस्कृति का इतिहास वर्ग-विग्रह का इतिहास है और अत्रतक उसमें जो सर्वांगीण समाज-क्रान्तियाँ हुई हैं वे वर्ग-विग्रह से उत्पन्न क्रान्तियाँ हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का मत है। उसके इस सिद्धान्त के अनुसार समाज-सत्ताक क्रान्ति वर्ग-विग्रह में से ही उत्पन्न होगी और वह प्रायः सशस्त्र ही होगी। मानव-संस्कृति को पूँजीवादी युग के बाद कौन-सा स्वरूप प्राप्त होगा व कैसा होगा इसकी साधारण कल्पना इस सिद्धान्त से हो सकती; परन्तु किस देश में कौन-सी क्रान्ति किस तरह होगी व कब होगी और वहाँ समाजवाद की स्थापना किस साधन व अनुक्रम से

होगी इस व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से अत्यन्त महत्व के प्रश्नों का उत्तर देने में मार्क्स की इस उपपत्ति का, स्थूल सामान्य ज्ञान किसी काम नहीं आता। मार्क्स-ऍंजल्स के बाद लेनिन ने कम्युनिज्म के व्यावहारिक क्रान्ति-शास्त्र में बहुत उन्नति की है ; लेकिन यह अनुभव हुआ कि लेनिन का क्रान्ति-शास्त्र भी रूस के बाहर संसार में दूसरी जगह ज्यों-का-त्यों लागू नहीं किया जा सकता। तब लेनिन के बाद कम्युनिस्ट नेताओं ने भी इस क्रान्ति-शास्त्र में बहुत घटा-बढ़ी की है। फिर भी यह मानना कि कम्युनिज्म ने एक ऐसा क्रान्तिशास्त्र बना रखा है, जो संसार के सभी राष्ट्रों पर घट सकता है, महज़ भ्रम है और ऐसी अपेक्षा करना भी हमारी राय में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का द्योतक नहीं है।

पहले महायुद्ध के बाद कुछ ही दिनों में मार्क्सवादी विचारों ने हिंद की राजनीति में प्रवेश किया। १९२० में गांधीजी द्वारा छेड़ा गया अनत्याचारी असहयोग का आंदोलन जब मंद पडा गया तब १९२२ में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रस्थापना हुई। १९२७ तक बड़े-बड़े औद्योगिक शहरों के मजदूर-वर्ग में उसका प्रचार प्रचुर मात्रा में हो गया। लेकिन इसके बाद सायमन कमीशन के बहिष्कार के रूप में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ने लगा और अंत में उसकी परिणति १९३० में भारतीय स्वातंत्र्य के सत्याग्रह-संग्राम में हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के इस आन्दोलन में बिलकुल ही सहयोग नहीं दिया। इसीसे १९३४ में मार्क्सवाद के आधार पर समाजवादी दल कांग्रेस के अन्दर स्थापित हुआ। यह राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के आन्दोलन से व उस आन्दोलन को चलानेवाली कांग्रेस से अधिक मात्रा में समरस होनेवाला दल था। इसके कुछ दिनों बाद भाई मानवेंद्रनाथ राय ने मार्क्सवाद के आधार पर एक और पक्ष की स्थापना की ; अब यह रायवादी दल राजनीति से अलग होकर बिलीन हो गया है। भारतीय समाजवादी पक्ष ने अपने को प्रजा समाजवादी पक्ष में रूपांतरित कर लिया है और गांधीवाद का क्रान्तिकारी रूप पहचानकर व उसका क्रान्तिकारी अहिंसातत्व अपनाकर वह यह कहने लगे हैं कि मार्क्सवाद का पुनःसंशोधन करना चाहिए। कम्युनिस्ट यह

मानकर कि भारतीय राज्यक्रांति से या गांधीवाद से मार्क्सवाद के लिए कोई नसीहत लेने की आवश्यकता नहीं है, अपनी राह जा रहे हैं। १९३० के सत्याग्रह-आंदोलन से जिस तरह वे अलग रहे, उसी तरह १९४२ में देश में जो प्रचंड आन्दोलन हुआ, उससे भी वे अलग ही रहे। इतना ही नहीं बल्कि बयालीस के इस आन्दोलन का उन्होंने विरोध किया और भारतीय राजनीति के क्षेत्र में अपना जो स्थान था उसको वे पूरी तरह खो बैठे। आगे भी शुद्ध मार्क्सवादी सनातन वृत्ति के इस पक्ष को कोई महत्व का स्थान मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है।

दूसरे महासमर के बाद विचारों के संसार में यह मत फैला कि मार्क्सवाद का पुनःसंशोधन करके या मार्क्सवाद के गुण-दोषों का विवेचन करके समाजवादी तत्वज्ञान को नये रूप में लोगों के सामने रखना चाहिए। लेकिन साथ ही समाजवादी क्रांति की तीव्रता भी अब अधिक महसूस होने लगी है। यूरोप में मार्क्सवाद पर आधारित जो कम्युनिस्ट-विचार-प्रणाली है उससे भिन्न एक और लोकशाही समाजवादी विचार-प्रणाली (Democratic Socialism) या सामाजिक लोकशाही (Social Democracy) के नाम से महशूर एक तत्वज्ञान व उसके आधार पर बने राजनैतिक दल अलग-अलग देशों में आज काम कर रहे हैं। लेकिन इन राजनैतिक दलों के पास कोई क्रांतिकारी वृत्ति नजर नहीं आती। केवल प्रातिनिधिक संस्थाओं की राजनीति को ही वे समाजवादी परिवर्तन का साधन मानते हैं। इसके अलावा हड़ताल का एक प्रत्यक्ष प्रतिकार का साधन उनके पास है जरूर; लेकिन अगर हड़ताल करने का अधिकार ही कानून से छीन लिया जाय या मत-प्रचार और संगठन का स्वातंत्र्य भी छीन लिया जाय तो समाजवादी दल अपना काम किस तरह जारी रखे, इसके बारे में उनके पास कोई ठीक विचार या कार्यक्रम नहीं है। ऐसे अवसर पर सविनय कानून-भंग तथा अनत्याचारी असहकार के रूप में सत्याग्रह करके समाजवादी क्रांति का कार्य स्वार्थत्याग व आत्मक्लेश के जरिये सफल बनाया जा सकेगा, ऐसा सबक गांधीजी के क्रांतिकारी नेतृत्व से भारतीय समाजवादियों ने लिया है और उसी सत्याग्रह की नींव पर

भारतीय समाजवाद को खड़ा करने की कोशिश व प्रयोग वे कर रहे हैं। लेखक मानता है कि इससे महात्मा गांधी का सत्याग्रही क्रांतिकारी-तत्व और लोकशाही समाजवाद का समन्वय होगा और भारत में मार्क्सवाद से श्रेष्ठ सामाजिक तत्वज्ञान व क्रांतिशास्त्र का निर्माण होगा। गत पच्चीस-तीस सालों तक मार्क्सवाद फैलाने का काम जिन लोगों ने किया उनको चाहिये था कि उसी अर्थ में इस देश में गांधीवाद ने जो राजनीति चलाई उसका सहानुभूति से निरीक्षण करते। इससे उन्हें पता चलता कि मार्क्सवाद में जिन तत्वों का अभाव है वे गांधीवाद में हैं और उन्हीं की आवश्यकता भारतीय राजनैतिक आंदोलनों में थी। इसीसे हिंदी राजनीति में गांधीवाद तथा गांधीजी का नेतृत्व इन दोनों का प्रभाव बढ़ता गया और गांधीजी के हाथों में यहां की राजनीति के सूत्र आ गये। इससे मार्क्सवाद की कमियों का पता हिंदी समाजवादियों को लग जाना चाहिये था और समाजवादी तत्वज्ञान तथा क्रांतिशास्त्र को मार्क्सवाद से अधिक निर्दोष तथा ठोस नींव पर खड़ा करने की जरूरत महसूस होनी चाहिये थी। शायद उस आवश्यकता को जानकर ही प्रजा समाजवादी पक्ष के नेताओं ने आज अपनी नीति निर्धारित की है। राय-वादियों ने तो राजनैतिक क्षेत्रों का त्याग ही किया है। सिर्फ कम्युनिस्ट दल ऐसा है कि जिसको अभी तक मार्क्सवाद में किसी बात की कमी महसूस नहीं हो रही है।

जिन तत्वों के अभाव में मार्क्सवाद का प्रभाव यहाँ की राजनीति पर नहीं पड़ा, ऐसा लगता है कि उनका यहाँ थोड़े में जिक्र करना असंगत न होगा। इसके बारे में सोचते समय निम्न चार बातों का विचार करना चाहिए :

- (१) राष्ट्रीय भावना व वर्ग-विग्रह।
- (२) रक्तरंजित क्रांति को टालने का तंत्र।
- (३) सामाजिक विचार-सृष्टि और बाह्य वस्तु-सृष्टि।
- (४) धर्म-भावना व क्रांति-वृत्ति।

इनके बारे में मार्क्सवाद की जो भूमिका है उसके अनुसार विचार

करने से पता चलेगा कि मार्क्सवाद जिस वक्त हिंदुस्तान में आया तबसे आज तक इस देश की हालत ऐसी रही है कि जिससे उसके बारे में पुनर्विचार करना जरूरी है। इसीलिए हमें लगता है कि मार्क्सवाद का चश्मा जिन्होंने अपनी आँखों पर से न हटाया और निरहंकार व निर्विकार मन से यहाँ की हालत का निरीक्षण न किया, वे अपना असर हिंदी राजनीति पर न अबतक डाल सके हैं, न आगे डाल सकेंगे।

हिंदुस्तान में जब मार्क्सवाद पहले आया तब पहला महायुद्ध खत्म हो चुका था। तबसे तीस-पैंतीस साल के प्रयास से हिंदी जनता के हृदय में कांग्रेस ने राष्ट्रीय भावना पैदा की, जो युयुत्सु-रूप धारण करके विदेशी साम्राज्यशाही से संपूर्ण स्वार्थानता का संग्राम करने के लिए तैयार हो गई। इस आंदोलन की आद्य प्रेरणा राष्ट्रीय भावना ही रही। इसके विपरीत मार्क्सवाद वर्ग-विग्रह को क्रांतिशास्त्र की आद्य प्रेरणा मानता है। जब अपने राष्ट्र से विदेशों सत्ता को हटाना हो तब देश की राजनीति में अलग-अलग वर्गों के स्वार्थ में विरोध नहीं होता ऐसी बात नहीं। लेकिन ऐसी हालतवाले देशों में अगर क्रांति करनी है तो केवल वर्ग-विग्रह के तत्व पर अपना राजनीति का आधार न रखकर वर्ग-समन्वय का तत्व मानकर ही क्रांतिकार्य में शामिल होना चाहिए। लेकिन जो मानते थे कि मार्क्सवाद व उसके तत्वज्ञान में कोई नई बात जोड़ने की आवश्यकता नहीं है या वह एक परिपूर्ण क्रांतिशास्त्र व तत्वज्ञान है, उनके लिए राष्ट्रीय भावना पर जोर देकर चलनेवाले स्वातंत्र्य-संग्राम में शामिल होना असंभव था। यही वजह है कि भारतीय कम्युनिस्ट दल भारत के राष्ट्रीय संग्राम से या उसकी राष्ट्रीय वृत्ति से कभी सहमत न हो सका। १९२० से १९४७ तक जब कभी भारत में विदेशी साम्राज्य-सत्ता के खिलाफ प्रचंड आंदोलन उठ खड़े हुए तब कम्युनिस्टों ने इन आंदोलनों से अलिप्त रहने की नीति अख्तियार की। इतना ही नहीं बल्कि उनका विरोध भी किया। भारत के स्वतंत्र होने पर जब यहाँ लोकतन्त्र को माननेवाली पहली राष्ट्रीय सरकार बनी तब उसके खिलाफ वर्ग-विग्रह के आधार पर उन्होंने सशस्त्र क्रांति की और सरंजामशाही निजामी रियासत का सहारा लेकर वे भारत के

टुकड़े करने पर उतारू हो गये। पाकिस्तानवादियों के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ राजनैतिक मोर्चा खड़ा किया। हिंदी कम्युनिस्ट-राजनीति के गत पच्चीस-तीस सालों के इतिहास को देखने से पता चलता है कि वह अविवेक से कितना भरा है ! भारतीय कम्युनिस्ट-पक्ष ने मार्क्सवाद से वर्ग-विग्रह का तत्व उठा लिया और उसका कहाँ और कितना उपयोग करना चाहिये या उसकी मर्यादाएँ क्या हैं, इसका विचार न करके हिंदी राजनीति में उसका दुरुपयोग ही किया। उनके अविवेक से हिंदी राष्ट्रीयता की प्रगति में अनेक बाधाएँ आईं। गत तीस-पैंतीस सालों में भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उनसे नसीहत लेकर मार्क्सवादी अपने तत्वज्ञान का विकास जरूर कर पाते, लेकिन स्वतंत्र प्रज्ञा का यह रास्ता छोड़कर उन्होंने भारतीय राजनीति से अपने को हमेशा के लिए अलग कर दिया है।

ब्रिटिश-राजनेताओं को यह बात मालूम थी कि एक-न-एक दिन यहाँ से उन्हें अपना डेरा उठाना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा ऐसी कोशिश की कि यहाँ की क्रांति शांतिमय रहे। कांग्रेस की स्थापना करने में ह्यूम, वेडरबर्न आदि ने हिंदी नेताओं को सहयोग दिया और लोकतन्त्रात्मक राजनीति का प्रारम्भ किया। उनके सामने यह ध्येय था कि हिंदुस्तान में खून बहाये बगैर स्वराज्य-प्राप्ति की राजनीति सफल हो। दादाभाई, रानडे, तिलक, गोखले आदि सबके हृदय पर व राजनीति पर हम उनके इस वर्ताव का असर देखते हैं। इसीसे १९०५ के वाद जो राष्ट्रीय पक्ष बना उसने भी जहाँ तक हो, रक्तपात टालने की कोशिश की और बहिष्कार-योग की निःशस्त्र क्रांति की नीति अपनाने का फैसला व्यवहार-दृष्टि से किया। इसी बहिष्कार-योग को म० गांधी ने क्रांतिकारक अहिंसा का अधिष्ठान दिया व संपूर्ण स्वाधीनता का आंदोलन अलग-अलग रूपों में तीस साल चलाकर उसको कामयाब बनाया। ब्रिटिश-राजनेताओं ने गांधीजी के आंदोलन का यद्यपि पूरी तरह मुकाबला किया फिर भी इस बात को कभी उन्होंने नजर-अंदाज नहीं होने दिया कि भारत तथा ब्रिटेन का पारस्परिक भगड़ा रक्तपात को टालकर चल सकता है। लार्ड रीडिंग, लार्ड अर्थ्विन और

लार्ड लिनलिथगो इन तीनों वाइसरायों के जमाने में गांधीजी ने एक-से-एक ऋद्धकर प्रचंड आंदोलन किये । इन वाइसरायों ने इन आंदोलनों को दबाने की पूरी कोशिश की । फिर भी आंदोलन रुक जाने पर कांग्रेस व गांधीजी के साथ समझौते हुए । अंत में भारतीय स्वाधीनता का सवाल यथासंभव रक्तपात को टालकर ही हल हुआ । इसीसे निःशस्त्र क्रांति का जन्म हुआ है और वह भारतीय जनता के व नेताओं के अंतःकरण में अपनी जड़ें जमा चुकी है । खूँखरात्री टालकर क्रांतिकारक परिवर्तन करने का यह जो एक नया तन्त्र भारतीय राजनीति के इतिहास में विकास पाता आया है व सुप्रतिष्ठित हो गया है, उसको नजर-अंदाज करके भारतीय कम्युनिस्टों ने अपनी राजनीति चलाई । अनत्याचारी निःशस्त्र क्रांति की यह वृत्ति मार्क्सवाद में कुछ महत्व की बात जोड़ सकती है, इस सत्य को, सिर्फ समाजवादियों ने ही पहचाना और अपने पक्ष को सत्याग्रह का अधिष्ठान देकर उसकी विशेषताओं को संसार के सामने रखा । भारतीय घटनाओं से मार्क्सवाद को सीखने योग्य कुछ है ही नहीं, यह मानकर भारतीय कम्युनिस्ट दल अपनी राजनीति को उसी पुराने ढर्रे पर चला रहा है ।

मार्क्सवादी विचारपद्धति में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि समाज की बाह्य परिस्थिति में जो परिवर्तन होते हैं, उनका असर समाज के विचारों पर है और समाज की रूढ़ विचार-प्रणाली परिस्थिति में होनेवाले परिवर्तनों से अपने आप ऋद्धल जाती है । इसीलिए परिस्थिति के परिवर्तन के साथ समाज के विचारों में परिवर्तन करने के लिए कोई खास कोशिश करनी पड़ती है या किसी खास समाज के विचारों में परिवर्तन करने के लिए उसके मन के पूर्व संस्कारों का गहरा अध्ययन करके समाज की अवस्था के लिहाज से उपाय-योजना करना पड़ती है, ऐसा मार्क्सवादी नहीं मानते । अगर वे भारतीय समाज की खास मानसिक अवस्था व उसके सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते तो उनको पता चलता कि हमारे समाज ने सदियों से अपनी सामाजिक विचार-सृष्टि में बुद्धिपूर्वक परिवर्तन लाना छोड़ दिया है । इस समाज की बाह्य परिस्थिति में चाहे जितने परिवर्तन हो जायं ;

लेकिन समझ-बूझकर वह अपनी सामाजिक विचार-सृष्टि में परिवर्तन नहीं करता। नई परिस्थिति के अनुकूल नई विचार-सृष्टि का निर्माण वह नहीं करता, न औरों से उसको वह स्वीकार करता है। प्राचीन विचार-सृष्टि से चिपक बैठने की उसकी प्रवृत्ति है। एक तरह से यह समाज की बौद्धिक मूढ़ता या जड़ता है। उसकी बुद्धि से यह जड़ता या मूढ़ता का पर्दा हटाने के लिए उसके अंतःकरण में चैतन्य पैदा करनेवाले अनासक्त बुद्धि के निष्काम कर्मयोगी लोकसेवक अब आगे आ जाने चाहिए। इस समाज की मानसिक अवस्था यूरोप के मध्ययुगीन या उससे भी पहले के समाज की मानसिक अवस्था—जैसी है। यहाँ के लोगों ने अभी आधुनिक यूरोप की सर्वांगीण सामाजिक क्रांति की कल्पना या ध्येयों का रहस्य या महत्व अभी तक वास्तविक रूप में नहीं समझा है। ऐसे समाज में क्रांति लाने की इच्छा रखनेवालों का यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के उद्धार में बाह्य परिस्थिति से उसकी पिछड़ी विचार-सृष्टि व विकृत भावनाएँ ही अधिक बाधा पहुँचाती हैं। ऐसे समाज को जो क्रांतिप्रवण बनाना चाहते हैं उनको चाहिए कि जहाँ तक हो सके वे उसे अत्याचार के अविवेक से बचाव और उसकी मानस-सृष्टि व विचार-सृष्टि में उचित क्रांति करें। उसकी प्रतिकार-शक्ति को संयम तथा अनुशासन के बंधनों में रखकर वह खास दिशा में ही कार्य करते रहे और असमय उसका स्फोट न हो या सबके विनाश की वह कारण न बने, इसके लिए सचेत रहना चाहिए। इस प्रकार समाज के हृदय में नया चैतन्य लाने और उसकी विचार-सृष्टि में क्रांति पैदा करने में म० गांधी द्वारा खोजा हुआ सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र कारगर सिद्ध हुआ है। ऐसे शास्त्र की महत्ता को समझने में परिस्थिति के साथ आप-ही-आप आदमी की विचार-सृष्टि में भी परिवर्तन होता है ऐसा माननेवाले कम्युनिस्टों को बहुत दिक्कत होती है और अभी तक वे उसे समझ नहीं सके हैं। मार्क्स के शास्त्रीय समाजवाद के जन्म से पहले दो-ढाई सौ वर्षों में यूरोप में धार्मिक तथा सामाजिक क्रांतिकारियों का जो दिव्य बलिदान हुआ, उसमें से जो आत्मतेज निकला उसीसे यूरोपीय जनता क्रांतिकारी विचारों को स्वीकार करने योग्य बनी थी।

यहाँ की जनता को इसके काबिल बनाने के लिए इस तरह का बलिदान करना होगा और उस समय यह क्रांतिशक्ति अविवेक से या असंयम से विकृत होकर बेकार न बन जाय इसके बारे में सावधान रहना होगा। अगर एक ही साथ इन दोनों कामों को उठाना हो तो सामाजिक व राजनैतिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे अनासक्त स्थितप्रज्ञ के या निष्काम कर्मयोगी के आध्यात्मिक गुण अपने में लाने की कोशिश करें। भारतीय क्रांतिकारियों के सामने म० गांधी तथा तिलक ने यही आदर्श रखा था। समाजवादी क्रांति लाने की इच्छा रखनेवालों को चाहिए कि वे इस आदर्श को अपना लें। लेकिन हर एक धर्मभावना तथा धर्मशास्त्र को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने की इच्छा रखनेवाले मार्क्सवादी इस आदर्श को हर्गिज अपना नहीं सकते। अगर इसको अपनाना है तो मानवी दर्शन को केवल भौतिकवाद के सहारे खड़ा करने से काम नहीं चल सकेगा। इसी अनुभूति से श्री जयप्रकाश नारायण ने ऐसा जाहिर कर दिया है कि भौतिकवाद की मर्यादाओं को लाँघने पर ही मानव की नैतिक प्रेरणा की समाधान-कारक मीमांसा की जा सकती है। श्री जयप्रकाश नारायण के इन उद्गारों से कम-से-कम इतना पाठ तो मार्क्सवादियों को जरूर सीखना चाहिए कि मानव-हृदय की धर्मभावना व अध्यात्म-वृत्ति के गहरे अध्ययन की जरूरत है।

भारतीय समाज की मनःस्थिति व विचार-सृष्टि में परिवर्तन करके अन्याय के खिलाफ भूगडने की वृत्ति या प्रतिकार-भावना को जगाना भारतीय क्रांति की अहम चीज है और जब इस तरह की मानसिक क्रांति हो जाती है तब राजकीय व सामाजिक क्रांति लाने के लिए प्रत्यक्ष सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता नहीं रहती, यह बात कम्युनिस्टों के दिमाग में कभी भी नहीं आई। इसके विपरीत इस देश की राजनीति कम-से-कम गत पचास या साठ वर्षों से इस सिद्धान्त पर अपना आधार रखकर चली आ रही है और उसने जो प्रगति की है उसको देखकर आगे भी वह इसी आधार पर चलती रहेगी ऐसा दिखाई देता है। इस क्रांति को लानेवालों ने केवल राजकीय या सामाजिक विचारों को आंदोलित नहीं किया

वल्कि समाज के हृदय की शुद्ध धर्मभावना तथा क्रांतिकारी अध्यात्म का भी उपयोग उसके लिए किया है। इस तरह आधुनिक भारत में धर्म व अध्यात्म का एक क्रांतिकारी रूप प्रकट होता आया है।

कम्युनिस्ट-तत्वज्ञान में धर्मभावना के बारे में कहा गया है कि वह क्रांति-विरोधी शक्ति है और मानव-समाज को ऐहिक अभ्युदय से हटाकर पारलौकिक सुख-स्वप्नों में ही निमग्न रखती है। इस तरह वह अफीम की गोली का-सा काम करती है। आधुनिक भारत के राजनैतिक नेताओं ने यहाँ की जनता के हृदय की गहराई में पैठी धर्मभावना व अध्यात्म-वृत्ति जगाकर उसे क्रांतिकारी रूप देने की कोशिश की। धर्म व अध्यात्म के इस क्रांतिकारी स्वरूप का खयाल किये बगैर कोई भी व्यक्ति सामाजिक घटनाओं की व इतिहास में दिखनेवाली धर्मभावना व अध्यात्म-वृत्ति की मीमांसा नहीं कर सकेगा। मार्क्स को उस जमाने के यूरोप में धर्मसंस्था का जो दर्शन हुआ वह सामाजिक क्रांति के विरोध के लिए प्रस्थापित राज्य-संस्था के निमित्त जनता का नैतिक पृष्ठपोषण प्राप्त करा देनेवाली प्रतिक्रांति-कारक शक्ति थी। लेकिन कार्ल मार्क्स को धर्म-संस्था के जिस प्रतिक्रियावादी रूप का दर्शन हुआ वही धर्म व अध्यात्म का सही व स्थायी रूप नहीं है। लो० तिलक, म० गांधी या आचार्य विनोबा भावे के जीवन में धर्म व अध्यात्म को जो क्रांतिकारी रूप प्राप्त हुआ है वह देखने के बाद हिंदी कम्युनिस्टों को यह ज्ञान हो जाना चाहिये था कि मार्क्सवाद द्वारा धर्म व अध्यात्म की जो मीमांसा की गई है वह अधूरी तथा एकांगी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब जयप्रकाश नारायण—जैसा एकाध सामाजिक क्रांतिवादी, आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग करता है तब 'वह प्रतिक्रियावादी बन रहा है' ऐसा शोरगुल मार्क्सवादी मचाते हैं। इससे संदेह होने लगा है कि शायद ये सांप्रदायिक विचारवन्त इस बात को भूल गये हैं कि सही ज्ञान पुस्तकों को पढ़ने से नहीं, परिस्थिति को पढ़ने से मिलता है। मतलब यह कि गत पचास-साठ वर्षों की भारतीय राजनीति का इतिहास, यहाँ की सामाजिक व धार्मिक घटनाएँ और इन सबके पीछे यहाँ के नेताओं का जो तत्वज्ञान था उससे कम्युनिस्ट दल तथा उनके

विचारों के लोग सहमत न हो सके और न उससे उन्होंने कुछ नसीहत ही ली ।

भारत में आज राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की क्रांति का युग चितकर समाजवादी क्रांति का युग शुरू हुआ है, इसको हर कोई साफ देख सकता है । लेकिन भारतीय समाजवादी क्रांति का तत्वज्ञान और उसके लिए होनेवाले प्रयत्न केवल मार्क्सवादी तत्वज्ञान के व क्रांतिशास्त्र के ऊपर ही अपना आधार रखेंगे, ऐसी आशा रखना शास्त्रीय बुद्धि का द्योतक नहीं होगा । उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल में मार्क्स को यूरोप के इतिहास में जो घटनाएं देखने को मिलीं, उनसे उसने मार्क्सवादी तत्वज्ञान बनाया था । आज भारत तथा अन्य एशियायी देशों में जो समाजवादी युग आ रहा है उसका तत्वज्ञान व क्रांतिशास्त्र मार्क्सवाद से अधिक गहरी तथा व्यापक दृष्टि स्वीकार करने से ही बन सकेगा । हमें आशा है कि इस तरह गहरी तथा व्यापक तात्विक दृष्टि से सोचने पर धर्मभावना व अध्यात्म-वृत्ति का क्रांतिकारी स्वरूप समाजवादी भी महसूस करेंगे और उसी दृष्टि से सत्याग्रही क्रांतिशास्त्र की महत्ता को वे जान सकेंगे ।

ऊपर जिन बातों का विवेचन हमने किया है, हमारी राय है कि उनके बारे में गांधीवाद भां मार्क्सवाद से कुछ सीख सकता है । गांधीवादियों में राष्ट्रीय भावना को श्रेष्ठ तथा वर्ग-भावना को कनिष्ठ या हीन मानने की वृत्ति देखी जाती है । लेकिन तर्कशास्त्रीय या न्यायशास्त्रीय दृष्टि से इस प्रवृत्ति का समर्थन नहीं किया जा सकता । जिस तरह गुजाम देश की राष्ट्रीय भावना पुरोगामी राजनीति का अधिष्ठान बन सकती है, उसी तरह पीडित और पीडक या मालिक और मजदूर के वर्गभेद से विभाजित समाज में पीडित वर्ग की या मजदूरों के संगठन की वर्गविरोधी भावना पुरोगामी राजनीति का अधिष्ठान बनकर वर्गहीन समाज के ध्येय की तरफ अग्रसर होने में सहायक हो सकती है । अनत्याचारी असहयोग या सविनय कानून-भंग का तत्व परतंत्र देश के उद्धार के लिए उपयुक्त होने से जिस तरह लागू किया जा सकता है व समर्थनीय ठहरता है, उसी तरह वह आर्थिक व सामाजिक दासता में पड़े किसान-मजदूर वर्ग के उद्धार

में उपयुक्त और समर्थनीय ठहरता है। अतः उस काम में उसका उपयोग करना सत्याग्रही क्रांतिकारी का कर्तव्य है। यह विचार निस्संकोच होकर गांधीवाद को कबूल करना चाहिए।

सत्याग्रही क्रांतिकारियों को चाहिये कि राजनीति में भाग लेते समय निरी आदर्श-निष्ठा की नीति न चलाकर वास्तववादी दृष्टि को स्वीकार करें। राज्य-संस्था के दंडधारी होने से उसके चलानेवालों के सब व्यवहार शुद्ध अहिंसा की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकेंगे, फिर भी मानव-समाज की आज की अवस्था को देखकर राज्य-संस्था की दंड-शक्ति को व्यवहार-दृष्टि से उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। जो सैद्धान्तिक दृष्टि से किसी खास अवस्था में सशस्त्र क्रांति को अटल या समर्थनीय मानते हैं; लेकिन साथ-ही ऐसी खूँखरात्र क्रांति को टालने के अनत्याचारी उपायों से जो भरसक प्रयत्न करते हैं या राजनैतिक नीति के तौर पर जिन्होंने अनत्याचारी क्रांति के तत्व को हृदय से स्वीकार कर लिया है ऐसे लोगों से राजनैतिक मामलों में सशर्त सहयोग देने की नीति उन्हें अख्तियार करनी चाहिए। दंडशक्ति के सहारे के सिवा चलनेवाली समाज-व्यवस्था, फिलहाल व्यावहारिक दृष्टि से कोई संभव नहीं मानता, इसलिए सत्याग्रही क्रांतिकारियों को चाहिये कि वे शासन-यंत्र की दंडशक्ति को वास्तववादी दृष्टि से मंजूर कर लें। शासन-यंत्र की दंडशक्ति ऐसी शक्ति है कि जिसको न्यायबुद्धि व संरक्षण-बुद्धि के आधार पर समाज मानता है; लेकिन समाज-रचना में बद्धमूल अन्याय समाज वर्दाशत न कर सकता हो व समाज की न्याय-बुद्धि अगर उसके खिलाफ विद्रोह करे और प्रस्थापित शासन-यंत्र की दंड-शक्ति को दिया हुआ अपनी न्याय-बुद्धि का आधार निकाल ले तो ऐसे समाज में दंडशक्ति के रूप में जो सत्ता अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करती है वह समाज की न्यायबुद्धि के आधार पर बनी दंडशक्ति न होकर एक तरह से संघठित हिंसाशक्ति ही होती है, ऐसा कबूल करना पड़ेगा। सत्याग्रही क्रांतिकारी इस बात को अस्वीकृत नहीं कर सकता कि जो शासनयंत्र अपने हाथ में इस तरह से संचित हिंसाशक्ति का उपयोग समाज पर ज्यादतियाँ व जुल्म करने के लिए करता है उसके नीचे दब जाने से अच्छा

तो यही है कि ऐसी अवस्था में समाज सशस्त्र विद्रोह करे। समाजशास्त्र व इतिहास-मीमांसा का विचार करते समय मकर्सवादियों द्वारा प्रतिपादित क्रांतिशास्त्र से गांधीवादियों को कुछ मामलों में जरूर सीखना पड़ेगा। दंडशक्ति का उपयोग करने में अंतर्भूत अपरिहार्य हिंसा और अपरिहार्य बनी सशस्त्र क्रांति के चक्र की हिंसा में जो फर्क है, वह नित्य या देशकाल-परिस्थिति-निरपेक्ष नहीं है। यह न भूलना चाहिये कि वह सापेक्ष प्रमाण-भेद ही है और कुछ अवसरों पर दोनों की हिंसा की मात्रा एक-दूसरे के विपरीत भी हो सकती है। यह सब ध्यान में रखकर ही सत्याग्रही क्रांतिकारियों को चाहिये कि वे खूँखराव क्रांति को टालने की भरसक कोशिश करें। इस मामले में वे अपनी तार्किक तत्त्वनिष्ठा के आधार पर देरी न करें या ऐसी वृत्ति भी न रखें कि जो हमारी निरपवाद अहिंसा को पहले मंजूर कर लेंगे, उन लोगों को ही हम अपना सहयोग देंगे।

जब केवल सैद्धान्तिक दृष्टि से राज्य-मीमांसा व इतिहास-मीमांसा की जाती है तब सशस्त्र क्रांति के पुरोगामी होने के संबंध में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन आधुनिक भारत की तरह जिस देश में जनता को नागरिक स्वातन्त्र्य के सत्याग्रह की व अनत्याचारी क्रांति की शिक्षा मिल चुकी है तथा उस आधार पर लोकशाही राज्य की स्थापना हो गई है, ऐसे देशों में सत्याग्रही क्रांतितंत्र व लोकशाही राज्यंत्र के आधार पर पूर्ण अनत्याचारी उपायों से समाजवादी क्रांति हो सकेगी इसमें किसी विवेकी समाजवादी को किसी प्रकार की शंका नहीं रही है। इसी आधार पर अपने दल के द्वारा अनत्याचारी नीति को चलाने का फैसला प्रजासमाजवादियों ने कर लिया है। ऐसे क्रांतिकार्य में लोकशाही राज्यंत्र के लिए जिस दंडशक्ति को मंजूर किया गया है उसका उपयोग करना होगा और इस दृष्टि से इस पक्ष की नीति को शुद्ध सत्याग्रही या पूर्ण अहिंसक नहीं कहा जा सकेगा। लेकिन वास्तववादी दृष्टि से समाजवादी क्रांति के लिए ऐसे दल से शुद्ध सत्याग्रहियों को सशर्त सहयोग करना चाहिए व उस कार्य को अविलंब पूरा करना चाहिए। सामाजिक क्रांति की जनभावना को

तीव्र बनाने का काम आज भूदान-यज्ञ व संपत्तिदान-यज्ञ के रूप में भारत में शुरू हो गया है। इसीमें से उपनिर्दिष्ट प्रकार का गांधीवादी व समाजवादी लोगों का सहयोग निर्माण होगा व हो रहा है।

वर्गहीन समाज की स्थापना का ध्येय मंजूर करने पर समाज में वर्ग-संस्था व आर्थिक विषमता नष्ट करना जरूरी हो जाता है। मनुष्य की उत्पादन-क्षमता बढ़ने के कारण यह आज किस तरह संभव व अपरिहार्य हो गया है, गांधीवाद उसकी समाजशास्त्रीय मीमांसा मार्क्सवाद से सीख सकता है। यद्यपि हजारों सालों से बन्धुभाव व समता का ध्येय नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों ने मंजूर किया था फिर भी उत्पादन-कार्य जारी रखने की व उसमें विकास करने की दृष्टि से उस समय आर्थिक विषमता व वर्ग-संस्था की आवश्यकता व उपयोगिता लोग महसूस करते थे। इसी दृष्टि से धर्म-संस्थाओं ने उसे मंजूर कर लिया था व समाज-धारण के लिए जरूरी मानकर आर्थिक वर्गभेद को साधु-संत प्राकृतिक व न्याय्य मानते थे। लेकिन आज मानव की उत्पादन-क्षमता बहुत बढ़ गई है जिससे समता व बन्धुभाव के ध्येय को सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित करके वर्ग-संस्था को मिटाना संभव व आवश्यक हो गया है। वर्गसंस्था की उत्पत्ति, अभिवृद्धि व विनाश की समाजशास्त्रीय मीमांसा जिस तरह मार्क्सवाद में की गई है वैसी और किसी भी सामाजिक तत्वज्ञान में नहीं की गई है।

अगर इस धर्मभावना व अध्यात्मिक वृत्ति के आधार पर सामाजिक क्रांति का काम चालू रखना है तो यह धर्मभावना किसी खास धर्म से एकरूप नहीं मानी जानी चाहिए, मानव-हृदय की समाजहित-बुद्धि से व सर्वोदय-बुद्धि से उसको एकरूप मानना चाहिए। सत्याग्रही क्रांतिकारी इसका सतत दक्षतापूर्वक ध्यान रखें। उसी तरह मानव-हृदय की अध्यात्म-वृत्ति को किसी खास सामाजिक व राजनैतिक संगठन से या अध्यात्मशास्त्र के किसी संप्रदाय से एकरूप नहीं बनने देना चाहिए। यद्यपि सत्यनिष्ठा व प्रेम-भावना मानव-हृदय की सनातन वृत्तियाँ हैं फिर भी सामाजिक, नैतिक या आध्यात्मिक शास्त्र का कोई खास सिद्धांत नित्य या सनातन नहीं होता।

मानव-बुद्धि द्वारा आकलन किये हुए किसी सत्य को पूर्ण व अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। उस पूर्ण व अंतिम सत्य की खोज का काम जीवन की सभी शक्तियों का उपयोग करके मानव हमेशा करता रहे। इस सत्याग्रही निष्ठा से जो बात अपने हृदय व अपनी बुद्धि को उस समय सत्य प्रतीत होगी उसके अनुसार उसको अपना बर्ताव रखना चाहिए। यही मानव की निरपेक्ष तथा आदर्शभूत जीवन-निष्ठा है और इस जीवन-निष्ठा की साधना के लिए भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक शास्त्र के व्यवहार के सुप्रतिष्ठित माने जानेवाले सिद्धान्तों के खिलाफ क्रांति करने के लिए सत्याग्रही को हरदम तैयार रहना चाहिए। अगर यह वृत्ति टिक सकी तो सत्याग्रही जीवन-निष्ठा का क्रांतिकारी रूप प्रकट होगा व मानव-समाज आज जिस नई संस्कृति का निर्माण करना चाहता है वह अवश्यमेव प्रस्थापित होगी।

अब हम इस बात का विचार करें कि वर्ग-युद्ध व सशस्त्र क्रान्ति के सम्बन्ध में कार्ल मार्क्स का तात्विक सिद्धान्त क्या है और उसमें निःशस्त्र क्रान्ति के द्वारा समाज-सत्ता प्रस्थापित करने की कल्पना समा सकती है कि नहीं! भले ही मार्क्स का यह मत हो कि समाज-सत्ताक क्रान्ति आमतौर पर शस्त्र द्वारा ही करनी पड़ेगी, फिर भी मार्क्स ने यह कहा है कि इस क्रान्ति के साधन प्रत्येक देश की अपनी परिस्थिति और परम्परा के विचार से बदलने पड़ेंगे और इङ्गलैंड या अमेरिका जैसे प्रजा-सत्ताक देशों में शान्ति-मार्ग से भी वह हो सकेगी। १८७२ में एमस्टर्डम के अपने भाषण में वह कहता है—

“आपको यह नहीं खयाल करना चाहिए कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही साधन सबपर लागू हो सकेगा। प्रत्येक देश के आचार-विचार और परिस्थिति का हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा और हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि कुछ ऐसे देश जैसे संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका और इङ्गलैंड में मजदूर लोग शान्ति-मार्ग से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।”

लेनिन ने कार्ल मार्क्स के इस मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है

कि “१८७१ के लगभग इङ्ग्लैंड में नौकरशाही व सैनिक-सत्ता का प्राबल्य न होने के कारण मार्क्स को यह लगना स्वाभाविक था कि इङ्ग्लैंड में शान्ति-मार्ग से समाजसत्ताक क्रान्ति हो सकेगी ; परन्तु आज (१९१७) इङ्ग्लैंड और अमेरिका में सैनिक सत्ता और नौकरशाही का पूर्ण साम्राज्य है इसलिए मार्क्स ने इङ्ग्लैंड, अमेरिका और दूसरे देशों में जो भेद किया है वह ठीक नहीं है ।” १८७५ के बाद इङ्ग्लैंड में साम्राज्यवादी विचार-धारा अधिक फैलने लगी, क्योंकि हिन्दुस्तान जैसे विजित देश की आर्थिक लूट के प्रभाव से वहाँ की जनता को यह आशा होने लगी कि इङ्ग्लैंड के सब वर्गों की दाल-रोटी और सुख-सुविधा का प्रश्न हल हो सकेगा । १९वीं सदी के मध्य तक वहाँ के मजदूरों को यह आशा नहीं हुई थी व इसलिए मार्क्स का वर्ग-विग्रही तत्वज्ञान वहाँ पनपने लगा था ; लेकिन बाद में जब वह आशा बँध गई तो वर्ग-विग्रह पीछे रह गया व साम्राज्यशाही लोकप्रिय होने लगी । वहाँ का समाजवाद भी वर्ग-विग्रह को ताक में रखकर वर्ग-सन्धि के सिद्धान्त का अवलम्बन लेने लगा और ब्रिटिश-राष्ट्रवाद प्रजातंत्र के तत्त्व से खिसककर साम्राज्य-वाद का रूप धारण करने लगा । पिछले महायुद्ध के समय इस वर्ग-संधि या साम्राज्य-सत्ताक राष्ट्रवाद की भावना का अनुसरण करके ही इंग्लैंड के मजदूर और उनके नेताओं ने अपनी धन-सत्ताक सरकार से सहकार्य किया । अब फिर वहाँ की जनता यह समझने लगी है कि इस साम्राज्यवाद से हमारा प्रश्न सदा के लिए हल नहीं हो सकता । परन्तु यह विश्वास नहीं होता कि सशस्त्र या निःशस्त्र मार्ग से भी, समाज-सत्ताक राज्यक्रान्ति को सफल बनाने योग्य सद्गुण-संपत्ति आज वहाँ की जनता में बाकी बच रही है । यह भी एक विकट प्रश्न है कि इस सद्गुण-सम्पत्ति के अभाव में वह समाज-सत्ता की स्थापना कर सकेगी कि नहीं ? फिर भी हमारा यह ख्याल है कि यदि हिन्दुस्तान-जैसे देश को स्वतंत्रता देने के लिए ब्रिटिश-राजनेता मजबूर हो गये और स्वतंत्रता व समानता के आधार पर इंग्लैंड व हिन्दुस्तान में सन्धि हुई तो जिस तरह हिन्दु-स्तान के पूँजीपति ब्रिटिश-पूँजीपतियों से मित्रता करेंगे उसी तरह ब्रिटिश

मजदूर और उनके समाजवादी नेता भी भारतीय जनता के समाजवादी नेताओं से मित्रता कर लेंगे। भारतवर्ष ने यदि अपने सत्याग्रह के बल पर स्वयं-निर्णयी पूर्ण स्वराज्य का विधान प्राप्त कर लिया तो यहाँ का समाजवादी दल सत्याग्रही शक्ति के बल पर हिन्दुस्तान की भावी सर्वांगीण क्रांति करने लगेगा। तभी इंग्लैण्ड के मजदूर-वर्ग का साम्राज्य-मद् उतर जायगा व उसे भारतीय समाजवादी दल का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह आज भी इंग्लैण्ड व हिन्दुस्तान दोनों देशों में समाज-सत्ताक क्रान्ति के शान्ति-मार्ग से सफल होने की संभावना है।

इंग्लैण्ड के समाजवादी बल्कि कम्युनिस्ट विचारधारियों को भी यह विचारधारा पटने लगी है और वहाँ के बहुतेरे लोग यह मानते हैं कि सत्याग्रही भारतीय राष्ट्रवाद से स्वतंत्रता और समानता के आधार पर समझौता और संधि करनी चाहिए। जिस तरह १९ वीं सदी में ब्रिटिश लिबरल नेता हिन्दुस्तान को सशस्त्र क्रान्ति का अवसर न मिले इस हेतु से भारतीय कांग्रेस से समझौते की नीति रखने की प्रेरणा अपने देश-बन्धुओं से करते थे, उसी तरह आज इंग्लैण्ड के समाजवादी विचारों के नेता इस ख्याल से कि हिन्दुस्तान की भावी सामाजिक क्रान्ति कहीं हिंसात्मक न बन जाय, अहिंसात्मक ही रहे, यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान के स्वयंनिर्णय—स्वातंत्र्य-अधिकार—को स्वीकार करके भारतीय राष्ट्रवाद के साथ समानता की सन्धि कर ली जाय। फैनर ब्राकवे अपनी (Indian Crisis १९३०) नामक पुस्तक में लिखते हैं :

“हिन्दुस्तान में जिनकी पूँजी लगी हुई है उनसे मैं कहूँगा कि हिन्दुस्तान की ब्रिटिश पूँजी को असली खतरा राजनैतिक क्रान्ति से नहीं बल्कि सामाजिक क्रान्ति से है। प्रस्तुत राजनैतिक आन्दोलन से जो क्रान्तिकारी मनोवृत्ति बन गई है वह एकाएक नष्ट होगी और यदि लसकी जड़ गहरी चली गई तो राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद ही निश्चित रूप से शुरू होनेवाली जनता की आर्थिक उन्नति की लड़ाई में भी वह व्यक्त हुए बिना न रहेगी। इसलिए जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा

करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे इस राजनैतिक लड़ाई का फैसला समझौते के द्वारा तुरन्त कर लें। इसी में उनका हित है।”

१९वीं सदी के ब्रिटिश-राजनेता अपने राष्ट्र की राजनीति इस दृष्टि से ठहराने पर जोर देते थे कि हिंदुस्तान के स्वतन्त्र होने पर भी वहाँ हमारा व्यापार चलता रहे। आज की परिस्थिति के अनुसार इंग्लैंड के दूरदर्शी ब्रिटिश राजकीय तत्त्वज्ञ, इस दृष्टि से कि हिंदुस्तान में सामाजिक क्रांति रक्तपात का उग्र स्वरूप न धारण कर ले व उसमें अपने देशबन्धुओं व उनकी पूँजी की एकाएक आहुति न हो जाय, ब्रिटिश राष्ट्र से कहते हैं कि सत्याग्रही भारतीय राष्ट्रवाद के साथ समझौता करके भावी सामाजिक क्रांति के शांतिमय होने का अनुकूल वातावरण निर्माण किया जाय। यह सलाह ब्रिटिश राष्ट्र को जँचगी या नहीं यह इस बात पर अवलंबित है कि भारतीय जनता सत्याग्रह-संग्राम में कितना त्याग करने के लिए तैयार है और संघ-शासन के विधान को कहाँ तक असफल बना सकती है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता इसमें सफल होगी और उसीसे हमें आशा है कि हिंदुस्तान की भावी सामाजिक क्रांति भी वह शांति-मार्ग से कर सकेगी। हाँ, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि सत्याग्रही पक्ष अपना तत्त्वज्ञान सामाजिक क्रांति पर लागू करे व यहाँ का पूँजीवाद ब्रिटिश-राजनीतिज्ञों के बराबर दूरदर्शिता प्रदर्शित करे। यह दूसरी बात सर्वांश में पहली बात पर अवलंबित है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सत्याग्रही तत्त्वज्ञान ने सामाजिक क्रांति का जिम्मा लिया तो हमारा ख्याल है कि भारतीय पूँजीवाद दूरदर्शी स्वार्थ-भाव से ही सही, शांतिमय क्रांति के सामने सिर झुकाये बिना न रहेगा अर्थात् यदि सत्याग्रही तत्त्वज्ञान ने यह भावी कार्य अपने जिम्मे न लिया व पं० नेहरू से उपदिष्ट समाज-सत्ताक प्रजातन्त्र का ध्येय स्वीकार न किया तो फिर यहाँ की समाज-क्रांति सशस्त्र रूप धारण किये बिना न रहेगी।

आजकल यह मानने का एक रिवाज चल पड़ा है कि सत्याग्रह व वर्ग-विग्रहात्मक सामाजिक क्रांति ये दोनों बातें तत्त्वतः भिन्न हैं और उनका समन्वय नहीं हो सकता। इसका कारण जिस तरह सत्याग्रही तत्त्वज्ञान के

विरोधी हैं उसी तरह उसके भक्त भी हैं। इसलिए यहां इस बात का भी कुछ विवेचन करना जरूरी है कि वर्ग-विग्रह का सिद्धांत कहाँ तक यथार्थ है व वर्ग-सन्धि या वर्ग-सहकार्य का सिद्धांत कहाँ तक ठीक है। इसके लिए पहले हम निर्विकार भाव से यह समझ लें कि वर्ग-विग्रही-सिद्धांत के समर्थक शुद्ध वैज्ञानिक व तात्त्विक दृष्टि से उसके विषय में क्या कहते हैं। इस विषय में कम्युनिस्ट-तत्वज्ञान के समर्थक श्री एडवर्ड कौंजस अपनी (An Introduction to Dialectical Materialism) पुस्तक में कहते हैं--“वर्ग-विग्रह व वर्ग-संहति इन दो सिद्धांतों के विरोध का अध्ययन करना बहुत उपयोगी है। इस विषय में दो विचारधारायें नजर आती हैं। एक वर्ग-विग्रह का ही निषेध करती है और दूसरी वर्ग-संहति का। ये दोनों विचारधारायें गलत व अवैज्ञानिक हैं। वर्ग-विग्रह तो एक वस्तुस्थिति है। वह राजनीति और उद्योग-धन्धों में रोज दिखाई देती है। उससे इन्कार वही कर सकते हैं जो यह समझते हैं कि इस वर्ग-विग्रह को चातू रखने का प्रबल उपाय यह है कि उससे इन्कार किया जाय अथवा वह इन्कार कर सकेगा जो बुद्धि-जीवी श्रेणी का होगा और जिसका संबंध वास्तविक जगत से टूट गया होगा। सच तो यह है कि आज के समाज में वर्ग-विग्रह यह एक ही हकीकत नहीं है, बल्कि वर्ग-संहति के भी अनेक प्रकार पाये जाते हैं। यह प्रश्न है कि भिन्न-भिन्न वर्गों की अमुक अंश में शांति और संहति का तत्व और वर्ग-विग्रह का तत्व ये दोनों एक ही समय समाज में कैसे रह सकते हैं? वर्ग-विग्रह और वर्ग-संहति ये परस्पर-विरुद्ध तत्व एक ही समय एक समाज में नहीं रह सकते, इस मत पर वही लोग डटे रह सकते हैं जिनका मानस अवैज्ञानिक है। क्योंकि किसी कुटुम्ब में भोजन के मामले में पति-पत्नी का मतैक्य हो तो भी अपने कमरे में गर्मी कितनी रहे अथवा सिनेमा या आजयन्त्र देखने के लिए जायँ इसके बारे में दो मत या विरोध हो सकता है। घर में झगड़े होते रहते हों तो भी यह नहीं कह सकते कि खास मर्यादा में कौटुम्बिक ऐक्य नहीं रह सकता ...। वर्ग-विग्रह व वर्ग-संहति के तत्व एक-दूसरे का उच्छेद न करते हुए भी एक ही समय

समाज में रह सकते हैं...साम्राज्यशाही तरीके से विजित लोगों का द्रव्य-शोषण किया जाय और उसका नफ़ा दोनों बाँट लें—इस विषय में ब्रिटेन के दोनों वर्गों का समान भौतिक-हित के पाये पर मतैक्य हो सकता है...जबतक विजित लोगों के द्रव्य-शोषण से भिन्न कोई ऐसा उपाय जिससे समाज का समाज-सत्ताक संगठन होकर ऊँची रहन-सहन कायम रहे, हम नहीं बना सकते जबतक ऐसा ही चलता रहेगा ..। ब्रिटेन अगर समाजवादी बन जाय तो वह भारतीय किसान को लूटकर भारतीय बाजारों का नाश करनेवाले साहूकारों की और स्वदेशी या विदेशी पूँजीवालों की रक्षा नहीं करेगा । हिंदुस्तानियों के साथ सहकार करके वह हिंदुस्तानी बाजार की क्रय-शक्ति बहुत बढ़ा सकता है । उसी तरह अपने देश की जनता की रहन-सहन का स्तर बढ़ाकर भी वह ब्रिटिश-बाजार की खपत बहुत बढ़ा सकता है । यदि यह समाजवादी व्यवहार या मार्ग हम लाखों मजदूरों को दिखा सकें तो वे टोरी-दल को छोड़ देंगे । फासिज्म का उदय भी भिन्न-भिन्न वर्गों की हितैक्य-भावना पर अवलंबित रहता है । इटली व जर्मनों में अनेक आक्रमणों के बाद भी जब तत्कालीन परिस्थिति में राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेकर समाज की सब व्यवस्था करने में वहाँ का मजदूर-वर्ग असमर्थ साबित हुआ तब वर्ग-विग्रह के क्लेश लोगों के लिए असह्य हो गये और उनमें से बहुतों ने यह इच्छा की कि किसी तरह इनका एक बार खातमा हो । इसीसे फासिज्म को उदय का मौका मिल गया...केवल अप-वादात्मक परिस्थिति में ही वर्ग-विग्रह वर्ग-संहति को विलकुल अंधकार में फेंक देता है व ऐसे ही समय राज्य-क्रांति होती है । जब रूस के किसानों और मजदूरों को वहाँ के पूँजीवालों और जमींदारों से कुछ भी मिलने की आशा नहीं रही व इस उच्च श्रेणी के सब प्रयत्न विफल हुए तभी किसान-मजदूर बोल्शेविक प्रचार से प्रभावित होने लगे । रूस में जो वर्ग-भावना की चेतना उत्पन्न हुई वह भी मुख्यतः इस बदली हुई परिस्थिति के कारण हुई । इस स्थिति के पहले बोल्शेविकों के प्रचार की ओर किसान-मजदूरों का ध्यान नहीं गया था ।” हमारी राय में वर्ग-विग्रह का यह विवेचन अत्यन्त शास्त्र-शुद्ध है और समाजवादी तथा सत्याग्रही दोनों

तत्वज्ञानों के मानने योग्य है। एक ही राष्ट्र के भिन्न-भिन्न वर्ग किसी-न-किसी समान-हित के लिए एक हो जाते हैं और जिस मात्रा में उन हित-सम्बन्धों में विरोध होगा, उस मात्रा में वे परस्पर-विग्रह के लिए तैयार हो जाते हैं। एक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न वर्गों में जैसा हित-विरोध रहता है, वैसे ही कुछ बातों में हित-समानता भी हो सकती है। जब समाज में हित-समानता की भावना अधिक तीव्र होती है तब वर्ग-विग्रहात्मक क्रांति नहीं हो सकती और जब वर्ग-विरोध की भावना हित-समानता की भावना से अधिक तीव्र होती है तब वर्ग-विग्रहात्मक क्रांति टल नहीं सकती। वर्ग-विरोध की या हित-समानता की भावना का तीव्र होना केवल प्रचार पर अवलम्बित नहीं बल्कि उस समाज या राष्ट्र की आर्थिक अथवा राज-नैतिक परिस्थिति पर अवलम्बित रहता है। जिस देश के सभी वर्ग सत्ताहीन बनकर विदेशियों के जुल्म व द्रव्य-शोषण के स्थान बने होते हैं उसमें वर्ग-विग्रहात्मक क्रांति का तत्व पैठने योग्य अनुकूल परिस्थिति नहीं होती। ऐसी ही स्थिति दूसरे राष्ट्रों को लूटनेवाले साम्राज्यवादी राष्ट्र के वर्गों की रहती है। उनमें वर्ग-विग्रह की भावना की अपेक्षा समान-हित की भावना ही अधिक तीव्र रहती है और इसलिए वहाँ की परिस्थिति भी वर्ग-विग्रहात्मक क्रांति के प्रतिकूल ही रहती है। ऐसे समय इन दोनों परिस्थिति के राष्ट्रों में एक प्रकार के राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो जाती है। पहले राष्ट्र में वह विदेशी हमलों के प्रतिकार के स्वरूप में व्यक्त होती है और दूसरे राष्ट्र में विदेशों पर आक्रमण के रूप में। इनमें पहला रूप संसार की शान्ति का पोषक और दूसरा विरोधक रहता है। पहले प्रकार का राष्ट्रवाद मानव-संस्कृति की प्रगति का कारण होता है और दूसरा उसकी अधोगति का। हिन्दुस्तान का वर्तमान राष्ट्रवाद पहले प्रकार का है और वह मानव-संस्कृति की प्रगति और संसार की शान्ति का पोषक है। हिन्दुस्तान में आज कोई भी वर्ग सत्ताधारी नहीं बन सका है, इसलिए यहाँ की लड़ाई फिलहाल वर्ग-विग्रहात्मक अथवा समाज-सत्ताक क्रांति-रूपी नहीं बन सकती। एक बार जहाँ हिन्दुस्तान में राजसत्ता आई नहीं कि फिर जो शक्ति यहाँ के राष्ट्रवाद से निर्माण होगी, वह कुछ समय तक सधन-

निर्धन वर्ग के विरोध बल्कि विग्रह के रूप में व्यक्त हुए बिना नहीं रहेगी। मगर ऐसी अवस्था में सत्याग्रही कांग्रेस के लिए यह संभव होगा कि वह प्रजातंत्र की राजसत्ता अपने हाथ में लेकर उसका उपयोग निर्धन पक्ष की तरफ से करे। जिस समय हिन्दुस्तान का सधन वर्ग संगठित होकर उस प्रजातंत्र को हस्तगत करने लगेगा तब कांग्रेस को यदि अपना सत्याग्रही तत्वज्ञान न छोड़ना होगा तो कुछ समय के लिए वर्ग-विग्रह का सिद्धान्त स्वीकार किये बिना चारा न रहेगा। इस समय अगर कांग्रेस अपने देश की राजसत्ता हस्तगत न कर सकी तो उसे प्रस्थापित राजसत्ता के साथ असहयोग-युद्ध की घोषणा करनी पड़ेगी। विदेशी सरकार के आश्रय से जो हित यहाँ पर प्रबल हो गये हैं उनका विरोध किये बिना कांग्रेस इस देश में वास्तविक लोकसत्ता अथवा सच्चा स्वराज्य स्थापित न कर सकेगी।

हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय सरकार के सामने देश के ४० करोड़ लोगों की दाल-रोटी का सवाल बहुत तीव्र रूप में उपस्थित है। आजतक हिन्दुस्तान की जनता का जो द्रव्य-हरण हुआ उससे यहाँ की जनता और मध्यम-वर्ग दोनों फाँकेकशी और बेकारी से जर्जर हो गये हैं। इन ४० करोड़ लोगों के राष्ट्र का प्रश्न पूँजीवाद और साम्राज्यवाद से हल होना असंभव है। इंग्लैण्ड अथवा जापान-जैसे छोटे राष्ट्रों के लिए अपनी जनता और मध्यम-वर्ग का प्रश्न कुछ समय तक हिन्दुस्तान या चीन को गुलाम बनाकर हल करना मुमकिन हो सकता है; परन्तु हिन्दुस्तान या चीन जैसे खण्डतुल्य देश इस पद्धति से अपनी ३५-४० करोड़ जनता का सवाल हल नहीं कर सकते। इस कारण भारतीय राष्ट्रवाद का इंग्लिश या जापानी राष्ट्रवाद की तरह साम्राज्यवादी बन जाना स्वभावतः ही अशक्य है अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य के आश्रय से उदय हुआ पूँजीवाद यहाँ अपना आसन सुस्थिर नहीं कर सकता और यदि कुछ समय तक उसने यहाँ राजसत्ता अपने हाथों में ले भी ली तो भी जनता और मध्यम-वर्ग का प्रश्न हल न कर सकने के कारण उसे वह सत्ता अपने हाथ से खो देनी पड़ेगी। आज जो ब्रिटिश पूँजीपति अपना आसन जमाकर यहाँ बैठे हैं उनकी जगह यदि भारतीय पूँजीपतियों को स्थापित कर दें

तो उससे भारतीय जनता का प्रश्न हल नहीं होता। हिन्दुस्तान के धनोत्पादन की नब्ज चाहे भारतीय पूँजीवालों के हाथ में आ जाय या ब्रिटिश पूँजीपतियों के हाथ में रहे, भारतीय जनता के हित-संवर्धन की दृष्टि से दोनों का फर्क महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। उस नब्ज का भारतीय जनता के हाथ में आना अर्थात् किसी-न-किसी रूप में समाज-सत्ता की प्रस्थापना होना ही भारतीय जनता के हित-संवर्धन के लिए आवश्यक है और यह कार्य कांग्रेस वर्ग-विग्रह के तत्व को समझे और उसका अवलंबन लिये बिना नहीं कर सकती।

क्या 'वर्ग-विग्रह का तत्व भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान से असंगत है'? इस मत पर विचार करते हुए सबसे पहले हम यह देखें कि सत्याग्रही तत्वज्ञान और वर्ग-विग्रह के तत्व में क्या मूलतः ही विरोध है? फिर भारतीय संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से उसका विचार करें। अबतक सत्याग्रही तत्वज्ञान की उत्पत्ति और अभिवृद्धि राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-संग्राम से हुई। इसमें वर्ग-विग्रह की नीति का अवलंबन नहीं लिया गया यह ठीक ही हुआ। इस तत्वज्ञान से एक प्रकार की राष्ट्रीय बन्धु-भावना जाग्रत हुई। राष्ट्र के सब लोग एक बड़े एकत्र-कुटुम्ब के अनेक व्यक्तियों की तरह हैं और उन सबके हित-सम्बन्ध परस्पर-विरोधी नहीं बल्कि परस्परावलंबी हैं। यह बन्धु-भावना अथवा राष्ट्रीय एकत्र-कुटुम्ब-भावना समाज-सत्ता के तत्व से किसी तरह असंगत नहीं बल्कि पोषक ही है। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि सामूहिक संपत्ति और श्रम-सहकार्य के सिद्धान्त या तत्व पर ही एकत्र-कुटुम्ब बन और टिक सकता है। जिस एकत्र-कुटुम्ब में सामूहिक संपत्ति नहीं अथवा सामूहिक हो तो भी उसका उपयोग सब समान रूप से नहीं कर सकते और जिसके सब प्रौढ़ और सुदृढ़ व्यक्ति उस कुटुम्ब की संपत्ति और सुख में वृद्धि करने के लिए तन-प्राण से प्रयत्न नहीं करते हैं वह अन्त में नष्ट हुए बिना न रहेगा। एकत्र-कुटुम्ब के एक-दो व्यक्ति तो सामूहिक संपत्ति से लाभ उठाते रहें और दूसरे महज कष्ट भुगतते रहें ऐसी दशा में यदि उस एकत्र-कुटुम्ब में विग्रह उत्पन्न हुआ तो उसकी जिम्मेवारी उस व्यक्ति पर ही आती है जो सामूहिक संपत्ति का उपभोग

बिना कुछ कष्ट किये करता हो। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार को आम तौर पर एकत्र-कुटुम्ब की बुजुर्गशाही कहते हैं। पूँजीवाद इस तरह की राष्ट्रीय परिवार की एक बुजुर्गशाही है। पूँजीवाद की इस बुजुर्गशाही को कायम रखकर राष्ट्रीय कुटुम्ब की जीवन-यात्रा नहीं चल सकती और उस कुटुम्ब में वर्ग-विग्रह निर्माण हो जाता है। इसलिए इस बुजुर्गशाही को नष्ट करना और 'राष्ट्र के प्रत्येक प्रौढ़ और सुदृढ़ नागरिक को शारीरिक अथवा बौद्धिक कष्ट किये बिना संपत्ति का लाभ नहीं मिलेगा' इस सिद्धान्त पर राष्ट्र के औद्योगिक जीवन की इमारत खड़ी करना एवं ऐसे कानून बनाना जिनसे एकत्र-कुटुम्ब के व्यक्ति की तरह राष्ट्र के सब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक व पोषक रीति से राष्ट्रीय संपत्ति का उपभोग किया जा सके, समाजवाद की प्रस्थापना करना है। इसके विपरीत राष्ट्र के तमाम व्यक्तियों के जीवन-साधन पूँजीवाद के हाथ में देने और बहुजन समाज को उसकी आर्थिक दासता में पटक देने का अर्थ है वर्ग-विग्रह को चिरन्तन करना। समाजवाद का ध्येय वर्ग-विग्रह को चिरन्तन करना नहीं है बल्कि पूँजीवाद की बुजुर्गशाही से उत्पन्न होनेवाले वर्ग-विग्रह को नष्ट करके न्याय और समता के पाये पर राष्ट्रीय एकत्र-कुटुम्ब की स्थापना करना है। सच पूछिये तो समाजवाद सर्वोदयवाद ही है। हाँ, उसका यह स्पष्ट मत है कि सर्वोदय व सहकार्य की भावना समाज में पूँजीवाद को कायम रहकर नहीं लाई जा सकती। पूँजीवाद की बुजुर्गशाही से उत्पन्न वर्ग-विग्रह को नष्ट करना पूँजीवाद से भगड़े बिना संभव नहीं। ऐसा भगड़ा करने का अर्थ वर्ग-विग्रह निर्माण करना नहीं, बल्कि पूँजीवाद-द्वारा निर्मित वर्ग-विग्रह का शिकार बनी हुई जनता को सत्याग्रही बनाना है। सत्याग्रही न्याय-स्थापना की लड़ाई से डरता नहीं और डरेगा तो वह सत्याग्रही नहीं रहेगा।

एक दूसरी दृष्टि से यह प्रतिपादन किया जाता है कि सत्याग्रही तत्व-ज्ञान और समाजवाद में अनुल्लंघनीय मतभेद है। सत्याग्रही तत्वज्ञान में यह मान कर चला जाता है कि मनुष्य-स्वभाव सुधार-क्षम है अथवा प्रत्येक मनुष्य के अन्तःकरण में न्याय-बुद्धि के रूप में परमेश्वर निवास

करता है। इसके विपरीत समाजवादी तत्वज्ञान में यह माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ-साधु है। इस तरह से यह मत-भेद प्रकट किया जाता है। किन्तु हमारी राय में इस मत-भेद का इस तरह प्रतिपादन शास्त्र-शुद्ध नहीं। समाजवाद यह नहीं कहता कि मनुष्य-स्वभाव विलकुल स्वार्थ-प्रधान है और न इसके विपरीत सत्याग्रही तत्वज्ञान का यह मत है कि मनुष्य-स्वभाव केवल न्याय-प्रधान है। मनुष्य-स्वभाव में स्वार्थ-बुद्धि व न्याय-बुद्धि दोनों तत्व हैं और दोनों में यह मानना पड़ता है कि स्वार्थ-बुद्धि जबतक न्याय-बुद्धि से संयत न होगी तबतक मनुष्य-समाज में शान्ति का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। समाज की स्वार्थ-बुद्धि पर न्याय-बुद्धि का नियंत्रण रहने के लिए समाज का आर्थिक संगठन खास प्रकार का होना जरूरी है और जबतक वह वैसा न हो जायगा तबतक समाज में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए समाजवादी तत्वज्ञान कहता है कि समाज की न्याय-प्रस्थापना उसके आर्थिक संगठन पर और उसके सुधार पर अवलंबित रहती है। मनुष्य-स्वभाव का व्यक्त स्वरूप किस तरह का होगा यह भी समाज के आर्थिक संगठन पर ही अवलंबित रहता है। जबतक यह संगठन न्यायाधिष्ठित नहीं होता तबतक समाज का सामान्य व्यक्ति न्यायनिष्ठ नहीं बन सकता। पूँजीवादी समाज-रचना अन्याय पर खड़ी है और जबतक यह रचना बदली न जायगी तबतक समाज के सामान्य व्यक्ति का स्वभाव न्याय-प्रधान न होकर स्वार्थ-प्रधान ही रहेगा। समाजवाद यह नहीं कहता कि पूँजीपति सब स्वार्थी और मजदूर मत्र न्याय-प्रिय होते हैं। उसे यह तो मंजूर है कि पूँजीपति और मजदूर का भगड़ा वर्ग-स्वार्थ का भगड़ा है तथापि उसका मत है कि पूँजीपतियों का वर्ग-स्वार्थ अधिक न्याय-युक्त समाज-रचना करने में जितना बाधक होता है उतना मजदूरों का वर्ग-स्वार्थ नहीं; बल्कि वह उल्टा सहायक बनता है। सामाजिक ध्येय का हेतु समाज में न्याय-प्रस्थापना ही है और न्याय-प्रस्थापना के बाद उस समाज के सभी व्यक्तियों का हित होता है। परन्तु उससे सभी वर्गों का स्वार्थ अधिक सघता है ऐसा नहीं। कुछ वर्गों का स्वार्थ वर्तमान समाज में

जितना सधता है उतना समाजवादी समाज में न सधेगा, इस कारण उस वर्ग के सामान्य लोग उस आदर्श की स्थापना का विरोध करते हैं और आज के समाज में जिस वर्ग का न्याय्य स्वार्थ भी कुचला जाता है वे नवीन ध्येय की स्थापना के लिए आवश्यक स्वार्थ-त्याग करने को व्यापक रूप में तैयार रहते हैं। यह समाजवाद का विचार है। समाज-सत्ताक आर्थिक संगठन यद्यपि न्याय-प्रस्थापना के लिए है तो भी उसकी वदौलत जमींदारों और मिल-मालिकों के स्वार्थ को धक्का पहुँचता है। अतः उस वर्ग के सामान्य व्यक्ति समाज-सत्ताक क्रान्ति में शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि समाजवादी कार्यकर्त्ताओं को यह मानकर अपनी नीति निश्चित करनी चाहिए कि वे उस क्रान्ति का विरोध ही करेंगे। जब सत्याग्रही तत्त्वज्ञान सामाजिक क्रान्ति को जिम्मेदारी लेगा तब भी हमारा खयाल है कि इसे ऐसी ही नीति स्वीकार करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के ध्येय की जो लड़ाई कांग्रेस लड़ चुकी है उसकी नीति भी इसी सिद्धान्त पर रखी गई थी। स्वातन्त्र्य प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई उसमें हिंदुस्तानियों ने ही सारा भार उठाया और यही मानकर सत्याग्रह व असहयोग की योजना भी की जाती थी। भारतीय स्वातन्त्र्य के लिए अंग्रेज क्यों नहीं लड़ें, ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। ऐसा मानकर कोई नहीं चला कि भारतीय स्वातन्त्र्य संसार में न्याय-प्रस्थापना करने की लड़ाई है इसलिए संसार के किसी भी देश के न्याय-प्रिय अथवा न्याय-निष्ठ लोग इस झगड़े में समान रूप से शामिल हों। यतः इसका निकट-सम्बन्ध भारतवासियों के न्यायोचित राष्ट्रीय स्वार्थ-साधन से था इसलिए वे ही इस लड़ाई में अधिक-से-अधिक स्वार्थ-त्याग करेंगे और जिन ब्रिटिश लोगों के राष्ट्रीय स्वार्थ के विरुद्ध यह लड़ाई है वे इसका अधिक-से-अधिक-विरोध करेंगे—यह मानकर ही सत्याग्रह-संग्राम की नीति निर्धारित की गई। इसका अर्थ यह नहीं कि इस लड़ाई में कोई भी अंग्रेज शामिल न हुआ या इसके साथ किसी भी अंग्रेज ने सहानुभूति न दिखाई। अपवाद के तौर पर कुछ अंग्रेज इसमें शामिल भी हुए और बहुतेरे अंग्रेजों ने इसके साथ सहानुभूति भी दिखाई; परन्तु इससे पूर्वोक्त सिद्धान्त को बाधा नहीं पहुँचती।

इसके आधार पर साधारण मनुष्य-स्वभाव-विषयक जो विचार-प्रणाली निश्चित की गई है उसके बिना समाज-सत्ताक क्रांति नहीं हो सकेगी अर्थात् जबतक पूँजीपतियों को यह दिखाई न देगा कि अब पूँजीवादी समाज-रचना का आगे चलना असंभव है या प्रस्थापित राज-सत्ता जबतक अपनी सत्ता के बल पर बहुजन-समाज के पृष्ठ-पोषण से क्रांति करने का निश्चय न कर ले, तबतक समाज-सत्ता की प्रस्थापना नहीं होगी। यह बात नहीं कि इस न्याय-स्थापना के कार्य में कोई भी पूँजीपति शामिल न होगा, हाँ, उनमें आम पूँजीपति शामिल न होंगे। जो थोड़े बहुत होंगे वे भी अपना स्वार्थ छोड़कर। जिन पूँजीपतियों को इस कार्य में शरीक होना होगा उन्हें अपना वर्गस्वार्थ छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हजरत ईसा ने कहा था कि एक बार सुई के नाके में से ऊँट निकल सकता है; परन्तु धनिक को ईश्वरीय साम्राज्य में प्रवेश नहीं मिल सकता। म० गांधी भी कह गये हैं कि परिग्रही मनुष्य सत्याग्रही नहीं बन सकता। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह-आंदोलन में उन्हें सधनों की अनिश्चित निर्धनों की ही सच्ची मदद मिली थी। इन विचारों और अनुभवों में मनुष्य-स्वभाव का जो सिद्धान्त बताया गया है उससे अधिक या भिन्न बात इस विचार में ग्रहण करने की जरूरत नहीं है कि 'पूँजीवादी समाज-सत्ताक क्रांति का विरोध करेंगे।' समाज के अन्याय का प्रतिकार वे लोग करते हैं जो उस अन्याय से पीड़ित होते हैं व प्रतिकार का विरोध वे लोग करते हैं जो उस अन्याय से अपना स्वार्थ साधते हैं। यह मामूली व्यवहार जो नहीं जानते वे समाज के अन्याय-निवारण की लड़ाई में सफलता नहीं पा सकते। सत्याग्रही तत्वज्ञान का व्यवहार भी इसी नीति से किया जाता है और होता है।

हम जो यह कहते हैं कि सत्याग्रह की अहिंसात्मक असहयोग-क्रान्ति का तत्व केवल विदेशी राजसत्ता पर ही नहीं, स्वकीय राजसत्ता और स्वकीय धनिक वर्ग पर भी लागू होता है उसके लिए टाल्स्टाय के विचारों का भी आधार है। टाल्स्टाय जिस देश में पैदा हुए वह राजनैतिक दृष्टि से परतन्त्र न था। इसलिए उन्होंने इसी बात का विचार किया है कि

अहिंसात्मक असहयोग का सिद्धांत अपने तथा इतर स्वतंत्र देशों के धनिक वर्ग व सरकार के खिलाफ काम में लाकर संसार के सब श्रमजीवी अपनी मुक्ति किस प्रकार कर सकते हैं। १९०१ में लिखे (The Only Means) नामक निबन्ध में वे लिखते हैं :

“संसार में १ अरब से ज्यादा मजदूर हैं। संसार का सब धन-धान्य, मनुष्यों के जीवन व वैभव के सब साधन मजदूर ही तैयार करते हैं; परन्तु जिस चीज को वे बनाते हैं उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता, बल्कि सरकार व धनिक वर्ग को मिलता है। मजदूर सतत दरिद्रता, अज्ञान, और गुलामी में सड़ते हैं और जिन लोगों के लिए अन्न-वस्त्र और घर बनाते व जिनकी वे सेवा करते हैं वही लोग उनके साथ तुच्छता का व्यवहार करते हैं। किसानों की जमीनें जब्त होती हैं, छिन जाती हैं और वे उन लोगों की निजी मिल्कियत बन जाती हैं जो उसके लिए कष्ट और श्रम नहीं करते। इससे जमीन के मालिक जो-कुछ मजदूरी या मुआवजा दे देते हैं उसी पर उन लोगों को जो जमीन पर मरते-खपते हैं अपनी गुजर करनी पड़ती है। जो जमीन छोड़कर किसी कारखाने में काम करने जाते हैं तो वे पूँजीपतियों के गुलाम बनते हैं। अगर उन्होंने करबंदी या लगान-बंदी का आंदोलन किया या हड़ताल करने की कोशिश की तो फौज और पुलिस का धावा होता है व उन्हें जबरदस्ती कर देने व काम करने पर मजबूर किया जाता है।

“जमींदार, सरकार, मिल मालिक व सैनिक अधिकारी इनके खिलाफ मजदूरों को बहुत शिकायतें रहती हैं। मगर वही मजदूर जमींदारों, सरकारों आदि की मदद करते हैं। जिन बातों की वे शिकायत करते हैं वही खुद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीसे जमींदार जमीन की पैदावार हड़प जाता है, सरकार कर वसूल कर लेती हैं। मजदूरों की यह फरियाद है कि जिस जमीन को हम अपना मानते हैं उसपर जब हम कब्जा करने लगते हैं या सरकारी कर नहीं देते अथवा हड़ताल का संगठन करते हैं तो हमपर फौज चढ़ाई करती है। मगर जो फौज उनपर भेजी जाती है उसके सैनिक इन किसान-मजदूरों में से ही आते हैं। वे अपने व्यक्ति-

गत स्वार्थ से या सजा के भय से फौज में नौकरी करते हैं और उन्हें यह कसम दिलाई जाती है कि अपने मनोदेवता व ईश्वरीय-नियम को एक ओर ताक में रखकर अधिकारी जिसे कत्ल करने का हुक्म दें उसे वे कत्ल कर लें। मतलब यह कि मजदूरों की तमाम मुसीबतों का कारण खुद वही हैं। अगर वे धनिक वर्ग व सरकार से सहयोग करना छोड़ दें तो उनकी तमाम आपत्तियों का अपने आप अन्त हो जायगा।”

टाल्स्टाय ने पूँजीवाद और सैनिक सत्ता के जुल्म से आत्म-बल के द्वारा मुक्त होने का मार्ग तो दिखाया ; परन्तु वे खुद रूस में उसके अनुसार कुछ न कर सके। इसीसे वहाँ लेनिन आदि का सशस्त्र क्रान्तिवाद फैला। लेकिन वहाँ महात्मा गांधी ने टाल्स्टाय के अहिंसात्मक असहयोग का अवलंबन लेकर भारत के राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के झगड़े को सफलतापूर्वक निपटाया। म० गांधी में टाल्स्टाय की अपेक्षा व्यावहारिक राजनीतिज्ञता व नेतृत्वकला अधिक थी और वहाँ शासकों ने भी दूरदर्शी स्वार्थ से क्यों न हो, निःशस्त्र क्रान्तिवाद के प्रचंड संगठन करने का थोड़ा-बहुत अवसर दिया। जारशाही की अपेक्षा ब्रिटिश-साम्राज्यशाही में नागरिक स्वतंत्रता कुछ अधिक है। इसीसे म० गांधी टाल्स्टाय के निःशस्त्र क्रान्ति-शास्त्र को बहुत परिणत अवस्था तक ले जा सके। फिर भी उनका कार्य विदेशी सत्ता से अपनी जनता को मुक्त करना था। इससे स्वकीय राजा और धनिकों के विरुद्ध लड़ाई का रूप उस निःशस्त्र क्रान्ति-शास्त्र को नहीं मिला। अब उसी का उपयोग टाल्स्टाय के बताये काम में करना पड़ेगा। कहना नहीं होगा कि अब यह कार्य म० गांधी के आगे की पीढ़ी के सत्याग्रही नेताओं को करना है। पं० जवाहरलाल—जैसे नवीन पीढ़ी के नेता अहिंसा-त्मक क्रान्ति-शास्त्र का समर्थन करते हुए भी यह साफ-साफ कह चुके हैं कि स्वराज्य की प्राप्ति के बाद जबतक हम समाज-सत्ताक प्रजातंत्र की स्थापना नहीं करेंगे तबतक वहाँ की आम जनता व मध्यम-वर्ग की दाल-रोटी का प्रश्न अच्छी तरह हल नहीं हो सकता।

भारतीय संस्कृति का भी स्वरूप समाजसत्ताक होगा, इस विषय में अब कांग्रेस की नई पीढ़ी में बहुत-कुछ एकवाक्यता होने लगी है। फिर भी

एक बात पर यहाँ विशेष रूप से विचार कर लेने की जरूरत है। वह है औद्योगिक विकेन्द्रीकरण (Industrial de-centralisation)। इसके लिए आधुनिक यूरोप के जिन चार प्रमुख अर्थ-शास्त्रियों की विचार-प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है वे हैं : अँडम स्मिथ फ्रेडरिक लिस्ट, कार्ल मार्क्स व प्रिंस क्रोपाटकिन। इनमें अँडम स्मिथ व्यक्तिवादी, फ्रेडरिक लिस्ट राष्ट्रवादी व कार्ल मार्क्स तथा प्रिंस क्रोपाटकिन समाजवादी अर्थ-शास्त्रज्ञ थे। अँडम स्मिथ के व्यक्तिवादी अर्थ-शास्त्र से खुले मैदान का अनिर्वध स्पर्धा का और भौगोलिक श्रम-विभाग का सिद्धान्त स्थिर हुआ। उसी के आधार पर पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की वृद्धि हुई। भौगोलिक श्रम-विभाग के तत्वानुसार एशिया के उर्वर राष्ट्र महज खेती करके अनाज और कच्चा माल दें और इङ्ग्लैंड आदि यूरोपीय देश पक्का माल बनानेवाले अधिक मुनाफे के काम-धन्धे करें—यह श्रम-विभाग निसर्गसिद्ध माना जाने लगा। खुले व्यापार व अनिर्वध स्पर्धा के सिद्धान्त की बदौलत जब नैपोलियन ने सारे यूरोप में महायुद्ध की ज्वाला फैलाई उस समय ब्रिटिश पूँजीवाद को, जो हिन्दुस्तान को निगलकर बैठा था, औद्योगिक क्षेत्र में मिली अपनी अभ्रसरता स्थिर करने का मौका मिला और एशिया की तरह यूरोप के लोगों को भी पक्का माल देने का ठेका ब्रिटिश पूँजीवादियों को मिलने लगा। यह देखकर जर्मन अर्थ-शास्त्रज्ञ फ्रेडरिक लिस्ट ने खुले व्यापार के सिद्धान्त पर आघात करके संरक्षक जकात का नवीन राष्ट्रीय अर्थ-शास्त्र निर्माण किया। इस अर्थ-शास्त्र के सिद्धान्तानुसार वास्त्यावस्था के उद्योग-धन्धों को विदेशी माल पर जकात के द्वारा संरक्षण देकर इङ्ग्लैंड की तरह प्रत्येक यूरोपीय देश अपने यहाँ प्रचंड उद्योग-धन्धे खड़े करे और एशिया के देशों से अन्न तथा कच्चा माल लाकर पिछड़े हुए देशों को पक्का माल पहुँचाने की ठेकेदारी में सब यूरोपीय देश ब्रिटिशों से स्पर्धा करें—इस तरह का नवीन साम्राज्यवादी राष्ट्रीय अर्थ-शास्त्र पैदा हुआ। फ्रेडरिक लिस्ट ने अँडम स्मिथ प्रभृति ब्रिटिश अर्थ-शास्त्रियों के व्यक्तिवादी तत्वज्ञान के अन्दर छिपे राष्ट्रीय स्वार्थ की तो कलाई खोल दी,

परन्तु ऐसा करते हुए उसने अपने राष्ट्रीय स्वार्थ को नहीं छोड़ा। उसने अपने राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में यह साफ-साफ लिखा है कि एशिया के देशों को यूरोपीय देशों के कारखानों के लिए आवश्यक कच्चा माल तैयार करने के लिए ही प्रकृति या ईश्वर ने पैदा किया है।

इस प्रकार फ्रेडरिक लिस्ट ने १९वीं सदी के मध्य में जर्मन राष्ट्रवाद को साम्राज्यशाही दीक्षा देनेवाले अर्थशास्त्र की बुनियाद डाली। हमारे यहाँ न्याय० रानडे के समय से इसी राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के ढंग पर भारतीय अर्थशास्त्र निर्माण हुआ। परन्तु हिन्दुस्तान में साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र खड़ा नहीं हो सकता था। अतः यह भारतीय अर्थशास्त्र आगे की भारतीय संस्कृति की नींव डालने के लिए काफी न था। इसके बाद जर्मनी में कार्ल मार्क्स ने अपना संसार-प्रसिद्ध समाजवादी अर्थशास्त्र तैयार किया। इसका मुख्य सिद्धान्त यह है कि देश के कारखाने व जमीन पर किसी का निजी स्वामित्व न हो, बल्कि राष्ट्र का सामूहिक स्वामित्व हो। इस सिद्धान्त को स्वीकार किये बिना हिन्दुस्तान के अन्न-वस्त्र का प्रश्न ही हल नहीं हो सकता, वर्ग-विग्रह से राष्ट्रीय भावना के टुकड़े हुए बिना नहीं रहते और प्रजासत्ता धनिक-शाही का रूप ले लेती है—यह मत आज भारतीय समाजवादियों द्वारा मान्य हो चुका है। तथापि इतने ही सिद्धान्तों के आधार पर भावी भारतीय संस्कृति की आर्थिक नींव नहीं डाली जा सकती। उसके लिए प्रिंस क्रोपाटकिन द्वारा प्रतिपादित औद्योगिक-विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त हिन्दुस्तान को स्वीकार करना पड़ेगा। क्रोपाटकिन समाजवादी था। फिर भी हिन्दुस्तान में जो समाजवाद आज आ रहा है वह मार्क्स के अनुयायियों द्वारा आ रहा है, इससे क्रोपाटकिन के औद्योगिक-विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त की ओर समाजवादी दल का ध्यान जितना चाहिए, नहीं जाता। इसका प्रतिपादन ग्रामोद्योग का संगठन करनेवाले गांधीजी के अनुयायी बहुत बार करते हैं; परन्तु वे क्रोपाटकिन के इन समाजवादी विचारों का विशेष उल्लेख नहीं करते कि इस संगठन में नैसर्गिक शक्ति व यन्त्रकला का उपयोग कर लेना चाहिए व धनोत्पादन के सब साधनों पर समाज का स्वामित्व कर देना

चाहिए। वस्तुतः भारतवर्ष को औद्योगिक विकेन्द्रीकरण और धनोत्पादन के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व इन दोनों तत्वों का अवलम्बन लेना पड़ेगा। ऐसा होने पर ही हिंदुस्तान में खेती व उद्योग-धन्धे दोनों की कड़ी ठीक तरह से जुड़ सकेगी, भारतीय संस्कृति का ग्राम-प्रधान स्वरूप कायम रक्खा जा सकेगा, औद्योगिक विकेन्द्रीकरण के साथ ही राजसत्ता का भी विकेन्द्रीकरण करके जनसत्ता का अधिक पोषण किया जा सकेगा और भारत के सब विभागों की सर्वांगीण उन्नति होकर राजसत्ता के व धनोत्पादन के केन्द्रीकरण से उत्पन्न सब आपत्तियाँ दूर हो सकेंगी। प्रत्येक राष्ट्र, उसका प्रत्येक प्रान्त और प्रान्त-विभाग आर्थिक दृष्टि से भरसक स्वयंपूर्ण बनाया जाय, प्रत्येक विभाग के लिए आवश्यक कच्चा व पक्का माल भरसक जहाँ का वहीं तैयार किया जाय, प्रत्येक विभाग के लोगों की सब शक्तियों का विश्वास होने के लिए उस विभाग का औद्योगिक जीवन भरसक विविधता-सम्पन्न किया जाय और इस तरह प्रत्येक राष्ट्र-विभाग को स्वावलम्बी व यथासंभव सर्वगुण-सम्पन्न बनाने का ध्येय अपने सामने रखा जाय—यह क्रोपाटकिन की विचार-प्रणाली है। इस तरह से स्थानिक स्वयंपूर्णता व स्वावलम्बन का सिद्धान्त ग्रहण करने से खेती व दूसरे उद्योग-धन्धे, कच्चे व पक्के माल की खपत, उत्पादक व उपभोक्ता, खेती व कारखाने का काम इन सबका समुचित मेल बैठकर नियोजित आर्थिक संगठन (Planned economy) बनाना बहुत आसान व सुविधाजनक हो जाता है। चूँकि यह संगठन छोटे क्षेत्र व छोटे लोक-समुदाय से शुरू होता है वह बहुत फुटकर नहीं बनने पाता। इस कारण स्थानिक लोगों की आवश्यकताओं व मतों का उसपर उचित प्रभाव पड़ता है, वह अधिक लोकमतानुवर्ती रह सकता है व उसके मातहत प्रत्येक विभाग के लोगों की स्वतन्त्रता व सुख अधिक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा खुली हवा, काफी पानी, खुले मैदान और सूर्य-किरणों का प्रवेश-आदि प्राकृतिक सम्पत्ति का काफी लाभ सबको मिलेगा जिससे राष्ट्रीय जीवन अधिक नीरोग, तेजस्वी, सम्पन्न और सुसंस्कृत हो सकता है। उद्योग-धन्धे व खेती में त्रिजली-जैसी प्राकृतिक शक्ति के उपयोग

करने का ज्ञान आज हमारे पास है ! इसी तरह लोकसत्ता व समाजसत्ता जैसी शासन व समाज व्यवस्था-सम्बन्धी पद्धति भी हमें उपलब्ध है । इन सत्रका उपयोग करने से भावी भारतीय संस्कृति को पहले की तरह ग्राम-प्रधान व कृषि-प्रधान रखकर भी भौतिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न, बौद्धिक दृष्टि से अधिक प्रगतिशील, सामाजिक दृष्टि से अधिक समतापूर्ण, राज-नैतिक दृष्टि से अधिक लोकसत्ताक और धार्मिक दृष्टि से अधिक प्रवृत्ति-मय किन्तु शान्ति-प्रधान बनाना शक्य है । परन्तु इसके लिए भौतिक विद्या, यंत्रकला, बुद्धि-स्वातन्त्र्य, व्यक्ति-स्वातन्त्र्य, सामाजिक व आर्थिक समता, लोकसत्ता व समाजसत्ता इन आधुनिक जगत् के तमाम भौतिक व सामाजिक आविष्कारों से पूरा लाभ उठाना चाहिए व ऐसा करते हुए हमें अपनी प्रार्चीन आध्यात्मिक संपत्ति को न गँवाते हुए उसकी वृद्धि के लिए इन सत्रका उपयोग करना चाहिए । इस तरह की भावी भारतीय संस्कृति की नींव डालने में हमें क्रोपाटकिन के उस अर्थशास्त्र से जो राष्ट्र-वादी व समाजवादी अर्थशास्त्र का समन्वय करके उसने बनाया है, पूरा-पूरा लाभ उठाना पड़ेगा ।

जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय समाजवादी अर्थशास्त्र के रूप में जो साम्राज्यवादी अर्थशास्त्र आगे चला था उसका क्रोपाटकिन के अर्थ-शास्त्र से कोई संबंध नहीं था । हिटलर का नाजी अर्थशास्त्र भले ही अपने को राष्ट्रीय समाजवादी अर्थ-शास्त्र कहता रहा, वस्तुतः वह पूँजीवादी व साम्राज्यवादी अर्थ-शास्त्र ही था । एक अर्थ में यह व्यक्तिवादी अर्थशास्त्र के खिलाफ था और इसीसे उसे 'राष्ट्रीय' कहते थे । उसका उद्गम फ्रेडरिक लिस्ट के अर्थशास्त्र से हुआ व समाजवाद से उसका कोई संबंध नहीं रहा ; ब्रिटिश पूँजीवाद का वृद्धि व्यक्तिवादी वातावरण में हुई है इससे वहाँ के पूँजीवादी शेर-जैसे बन गये हैं । वे संघ बनाकर रहने व चलने की बहुत प्रवृत्ति नहीं दिखाते । जर्मन पूँजीवाले राष्ट्रवादी अर्थशास्त्र की छत्र-छाया में पले, इससे उनमें संघ-भावना ज्यादा रहा । वे सियाल की तरह रहे । दोनों एक-से हिंस्र हैं और दोनों का सच्चा अर्थशास्त्र साम्राज्य-वादी है । सच्चे राष्ट्रवादी व समाजवादी अर्थशास्त्र में विरोध नहीं है,

उनका समन्वय हो सकता है और वह कैसे हो सकता है यह प्रिंस क्रोपाट्किन ने अच्छी तरह दिखा दिया है। इसी अर्थशास्त्र के आधार पर भारतीय संस्कृति को इमारत हमें खड़ी करनी होगी।

अब हम वर्ग-विग्रह व समाजवाद का भारतीय संस्कृति की परम्परा की दृष्टि से विचार करें व यह देखें कि भारतीय संस्कृति की प्रगति कब व कैसे रुकी। तभी यह बात निश्चित हो सकेगी कि भारतीय संस्कृति का रूप क्या होगा व मानव-संस्कृति को वह कौन-सा महत्त्वपूर्ण संदेश देगी? भारतीय संस्कृति संसार की एक महान् व अत्यन्त प्राचीन संस्कृति है व संसार उससे बहुत-कुछ सीख सकता है। जितनी यह बात सही है उतनी ही यह भी सही है कि अब उसकी प्रगति रुक गई है व मौजूदा समय में वह यूरोपीय संस्कृति से पिछड़ गई है। हमारी संस्कृति की प्रगति क्यों रुक गई, यह जानकर जबतक हम आगे कदम न बढ़ावेंगे, तबतक उसे उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त न होगा और न मानव-संस्कृति में वृद्धि करने की हमारी आकांक्षा ही सफल हो सकती है। मानव-संस्कृति में वृद्धि का कार्य मध्य-युग तक यूरोपीय व भारतीय दोनों संस्कृतियाँ प्रायः एक समान करती रहीं। बल्कि यह कहना होगा कि कुछ बातों में मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति तत्कालीन यूरोपीय संस्कृति से अधिक श्रेष्ठ व संपन्न थी। इधर आधुनिक-काल में यूरोपीय संस्कृति बहुत आगे निकल गई। किन्तु अब उसकी भी गति कुण्ठित हो गई है और आगे रास्ता ढूँढ़ने की शक्ति उसमें बाकी नहीं है। यूरोप के तत्वज्ञों को आगे का मार्ग दिखाई न देता हो, सो बात नहीं। परन्तु लोगों को उस मार्ग पर ले चलने का सामर्थ्य वहाँ के लोकनायकों में नहीं है। यूरोपीय संस्कृति पूँजीवाद व साम्राज्यवाद के भँवर में पड़ गई है और उसके चक्कर में से उसे बचा ले जाने की शक्ति उसके नाविकों या कर्णधारों में नहीं दिखाई देती। यूरोप के चार प्रमुख राष्ट्र—इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी व इटली में से जर्मनी व इटली में सामर्थ्योपासकों का एक-एक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गया था व हिटलर तथा मुसोलिनी जैसे समर्थ पुरुषार्थी राष्ट्रनायक उन्हें प्राप्त हो

गये थे। इस तरह जर्मनी व इटली में सामर्थ्य तो उत्पन्न हुआ ; परन्तु उसका उपयोग मानव-संस्कृति की प्रगति में नहीं बल्कि उसे प्रतिगामी व आसुरी बनाने में किया गया। आधुनिक यूरोप में फूले-फले प्रजासत्ता व नागरिक स्वातंत्र्य के तत्वों को उन्होंने दिन दहाड़े पैरों तले रौंदकर मानों इस बात का बीड़ा उठा लिया था कि चाहे सारी मानव या यूरोपीय संस्कृति नष्ट-भ्रष्ट हो जाय, पर वे प्रजातंत्रात्मक समाज-सत्ताक संस्कृति को यूरोप में न पनपने देंगे। उनके देश के धनिक इसमें उनके पृष्ठ-पोषक बने। इस धनिक वर्ग की सेवा से लाचार व भावी साम्राज्यशाही के लाभ से मोहित बुद्धि-प्रधान मध्यम-वर्ग तत्व-भ्रष्ट होकर उनकी सेवा करने में लगा व अज्ञान किसान-वर्ग को मजदूरों से फोड़कर उन्होंने समाज-सत्ता के लिए भगडनेवालों जनता की टाँग ही तोड़ दी। उनकी स्थापित 'जारशाही' से जनता को मुक्त करने के लिए खून की नदी बहानेवाली सशस्त्र क्रांति के सिवा दूसरा मार्ग वहाँ के नेताओं को नहीं दिखाई दिया। परन्तु हिटलर-शाही व मुसोलिनी-शाही जारशाही से भी ज्यादा वैज्ञानिक बन गई थी और उनका राज्यतंत्र भी अधिक कार्यक्षम प्रमाणित हुआ। परिणामतः दूसरे महायुद्ध की प्रचंड अग्नि धधकी जिसमें यद्यपि यह दोनों तानाशाह मिट गए ; किंतु यूरोपीय संस्कृति को नष्ट प्राय कर गए। वे हमारा अंदाजा था। यूरोप के दूसरे दो देशों—इंग्लैंड व फ्रांस ने—अभी लोक-सत्ता का दुरका खुल्लम-खुल्ला उतार कर नहीं फेंक दिया है व वे संसार को यही दिखाते हैं कि आधुनिक यूरोप की संस्कृति की रक्षा हमारे ही कारण हो रही है। परन्तु आज उनकी स्थिति गई-गुजरी हो गई है। इनमें अब किसी प्रकार का सामर्थ्य बाकी नहीं दिखाई देता ; अपने साम्राज्य की रक्षा भी उनके लिए दूभर हो गई है व इधर साम्राज्य का लोभ भी पूर्णतः छूटता नहीं है। वहाँ के अनेक विद्वान् यह तो मानते हैं कि यूरोपीय संस्कृति की वृद्धि व प्रगति अब समाजसत्ता द्वारा ही हो सकती है ; परन्तु अपनी इस विद्वत्ता को राष्ट्र के गले उतारने व राष्ट्र से समाजसत्ता की स्थापना कराने का सामर्थ्य आज उनमें से किसी में भी नहीं दिखाई देता। जिस समय

देश को महान् समर्थ व पुरुषार्थी नेताओं की आवश्यकता होती है उस समय यदि वे पैदा नहीं होते तो यही कहना पड़ता है कि उस देश के अधःपात का समय आ गया है या उसकी संस्कृति का विनाश नजदीक है। संस्कृति-वृद्ध में जब धुन लग जाता है तब महान् व पुरुषार्थी पुरुष-रूपी फल उसमें नहीं लगते। आज इंग्लैण्ड व फ्रांस की ऐसी ही शोचनीय स्थिति हुई दीखती है। आधुनिक-कालीन राष्ट्रीयता, प्रजासत्ता व पूँजीवाद का उदय इन देशों में हुआ। उन्होंने कुछ समय तक मानव-संस्कृति का नेतृत्व भी किया। भौतिक व सामाजिक विद्या की बहुत वृद्धि भी उन्होंने की व इस बात की भी खोज की कि अब आगे के इतिहास में मानव-संस्कृति किस युग में प्रवेश करेगी। परन्तु अपनी संस्कृति की प्रगति करने का सामर्थ्य आज उनमें नहीं बच रहा है। इंग्लैण्ड व फ्रांस में आज यही अनुभव हो रहा है। वहाँ की राष्ट्रीयता छिन्न-भिन्न हो रही है व प्रजा-सत्ता धनिक-सत्ता बन गई है। उनको बुद्धि यह तो जानती है कि इन दोनों वादों से आगे जाने का समय अब आ गया है, किन्तु वैसा हाथ से किया नहीं जाता। 'जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः। जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः' ऐसी दशा को ये देश आज पहुँच चुके हैं।

आधुनिक भारत के म० गांधी व प० जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रतापी पुरुष इंग्लैण्ड में नहीं दिखाई देते। वहाँ की आम जनता साम्राज्य-वाद की लूट से मिली सम्पत्ति के कारण तत्व-भ्रष्ट हो गई है। जिस राष्ट्र ने प्युरिटन-काल में प्रस्थापित राजसत्ता के खिलाफ बगावत करके सत्ताधारी वर्ग द्वारा संस्कृति के प्रवाह पर बाँधे बाँध के तोड़ डालने का सामर्थ्य दिखाया था, उसमें आज निःशस्त्र क्रान्ति का सामर्थ्य बाकी नहीं बच रहा। आधुनिक भारत ने १९३० व ३२ में अपूर्व सत्याग्रह-संग्राम किया और प्रस्थापित राजसत्ता द्वारा वे-कायदा घोषित कांग्रेस का लड़ाऊ क्रान्ति-यन्त्र प्रतिपक्ष के द्वारा होनेवाले दमन के उग्र व भयंकर शस्त्र-संपात के बावजूद एक साल तक चालू रखा। किन्तु १९२६ में ब्रिटिश मजदूरों ने जब सार्वत्रिक हड़ताल-रूपी प्रत्यक्ष प्रतिकार का हथियार प्रस्थापित राजसत्ता पर चलाया तो उसके वेकायदा घोषित करने की धमकी भर से वह

छोड़ दिया गया। अपनी इस कृति के द्वारा संसार को ब्रिटिश मजदूर-दल ने मानों यह बात दिया कि किसी भी प्रकार की राज्यक्रान्ति करने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहा व अब वे आगे अपनी संस्कृति की प्रगति नहीं कर सकते। उसके बाद तो मैकडानल्ड-जैसे नेताओं का कंजर्वेटिव दल से मिलकर, जन्म भर नेतृत्व करके पाले-पोसे समाजवादी दल व तत्वज्ञान को दगा देना क्रमप्राप्त हो था। इसके विपरीत म० गांधी ने मत्याग्रही तत्वज्ञान की सहायता से आधुनिक भारत में एक प्रचण्ड सामर्थ्य उत्पन्न किया। इस सामर्थ्य का उधिष्ठान प्राचीन भारत का आत्मबल है और इस सामर्थ्य की बंदौलत आधुनिक भारत में अपनी प्राचीन संस्कृति का अभिमान भी पैदा हुआ है। उसके साथ ही आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के प्रति एक तरह की तुच्छता या अनादर भी उत्पन्न हुआ है। इस अनादर-भाव के कारण, संभव है, आधुनिक भारत का अधःपात भी हो जाय। यदि भारतीय अंतःकरण में यह भावना प्रबल होती गई कि आधुनिक यूरोप की प्रत्येक बात व विचार त्याज्य व तुच्छ है तो वह अपनी प्राचीन संस्कृति के दोषों से चिपका रहेगा। इतना ही नहीं बल्कि, कुछ विचार-शील लोगों को आज ऐसा भी लगने लगा है कि अनादर करते-करते कहीं उसके उज्वल अंग का अनादर न किया जाय व हीन अंगों का, अनजान में, आदर। किंतु यह बात पक्की है कि आधुनिक भारत आज कार्यक्षम व समर्थ बनने लगा है। उसकी यह कार्य-क्षमता व सामर्थ्य एक-सा बढ़ भी रहा है। इसलिए ऐसी आशंका के सच होने की गुंजायश बहुत कम रह जाती है। जब कोई देश जी-जान से अपने उद्धार के प्रयत्न में जुट पड़ता है व उसके लिए आवश्यक त्याग करने की भावना उसके बुद्धिशाली लोगों में बढ़ने लगती है तो उसके तत्वज्ञान के सदोष रहते हुए भी उसका अधःपात नहीं होता, बल्कि उसके उद्योग-सामर्थ्य से वह धीरे-धीरे निर्दोष बनने लगता है। आत्मोद्धार के लिए ऐसा उद्योग करने की आत्म-प्रेरणा आज भारत में जाग्रत हो गई है व हमें यह पक्की आशा है कि वह अपने राष्ट्रीय तत्वज्ञान को अधिकाधिक निर्दोष व शुद्ध बनाता जायगा। फिर भी हमें यह देख लेना जरूरी है कि

हमारे तत्वज्ञान में, पूर्वोक्त कारण से आज कौन-सी बुराई आ जाने का डर है, किस बुराई के कारण प्राचीन संस्कृति की प्रगति कुण्ठित हुई व उसे आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के सामने हार खानी पड़ी ?

आधुनिक यूरोपीय संस्कृति की उत्पत्ति वर्ग-कलह के रूप में हुई व आज उसका विनाश भी सम्भवतः वर्ग-कलह में ही होता दीखता है। इससे कुछ लोगों की यह मानने की प्रवृत्ति है कि वर्ग-कलह का सिद्धान्त हमें त्रिलकुल मंजूर नहीं। हमें ऐसा लगता है कि यह प्रवृत्ति कदाचित् हमारी प्रगति में रुकावट डाले। हमारा यह स्पष्ट मत है कि पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के बाद अब हमें वर्ग-विग्रह का तत्व मंजूर करना पड़ेगा व सत्याग्रह से उसका समन्वय करना पड़ेगा। आधुनिक यूरोप ने जो वर्ग-विग्रह किया या उसका अवलम्बन लिया उसमें उसने कोई गलती नहीं की। मगर उसने जो भूल की वह तो यह कि वर्ग-विग्रह करते हुए उसने हिंसात्मक साधनों का अतिरेक कर दिया, राष्ट्रीय बंधुत्व से उसका त्रिलकुल समन्वय नहीं किया व इस वर्ग-विग्रह के सिलसिले में प्रजासत्ताक संस्थाओं की त्रिलकुल जरूरत न होगी—यह मानकर प्रजासत्ता पर ही तलवार खींच ली। सत्याग्रह यदि वर्ग-विग्रह की नीति बना ले तब भी राष्ट्रीय बंधुत्व को आंच आने की जरूरत नहीं है; क्योंकि सत्याग्रह-संग्राम में प्रतिपक्ष के व्यक्तियों के द्वेष की गुंजायश नहीं होती। वह तो खास तौर की अन्यायी समाज-रचना या खास संस्थाओं के विरुद्ध हो सकता है, उसके किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। पूँजीवादी संस्था या वर्ग को मिटाने का अर्थ पूँजीवादियों को मिटाना नहीं है। समाजवादी तत्वज्ञान की भी तत्वतः यही भूमिका है। कार्ल मार्क्स ने अपने 'कैपिटल' नामक ग्रन्थ की प्रस्तावना में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि हमारा झगड़ा पूँजीवादियों से नहीं, पूँजीवादी संस्था से है। यदि सत्याग्रही तत्वज्ञान ने समाज-सत्ताक व्यवस्था स्थापित करने का निश्चय किया तो वह इस विचार-सरणी का और भी जोर से समर्थन करेगा व क्रांतिकाल में भी अहिंसात्मक वाता-

वरण कायम रखेगा—इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसी तरह सत्याग्रही तत्वज्ञान लोकसत्ता व सत्याग्रही प्रत्यक्ष प्रतिकार का समन्वय करके निःशस्त्र क्रांति को सफल करके दिखा देगा। इस तरह सत्याग्रही तत्वज्ञान के यह विलकुल कावू की बात है कि वह वर्ग-विग्रह व समाज-सत्ताक क्रान्ति को मानकर भी उसका राष्ट्रीयता व लोकसत्ता से समन्वय कर दे। अलवत्ता वर्ग-विग्रह व समाज-सत्ताक क्रान्ति का अवलंबन लिये बिना यह भावी भारतीय संस्कृति की इमारत खड़ी न कर सकेगा। यह मत हमें नहीं जँचता कि वर्ग-विग्रह का तत्व प्राचीन भारतीय संस्कृति से विलकुल असंगत है। हाँ, यह सच है कि आधुनिक यूरोप के व्यापारी पूँजीवादी वर्ग ने सामंतवर्ग के खिलाफ जिस तरह का वर्ग-विग्रह किया, अथवा वहाँ मजदूर आज पूँजीवाद के खिलाफ जिस तरह वर्ग-कलह कर रहे हैं वैसे भारत के वैश्यों ने नहीं किया व अतः वहाँ के मजदूर भी पूँजीवाद के खिलाफ वैसा नहीं कर रहे हैं। तथापि उसके साथ ही यह भी सच है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के मुकाबले में पिछड़ी गई, उसकी प्रगति रुक गई व अन्त में उसे आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के सामने हार खानी पड़ी। आधुनिक यूरोपीय व्यापारी मध्यम वर्ग ने धर्माधिकारी व सामन्त-वर्ग के खिलाफ किसान-वर्ग की सहायता से सफल वगावत की, निदान यूरोपीय मध्यम-वर्ग को, श्रद्धायुग से बुद्धि-युग में लाकर छोड़ दिया, राजसत्ता पर नागरिक स्वतंत्रता का बंधन लगाकर उसे लोक-नियंत्रित बना दिया, सामन्त-वर्ग को नष्ट करके सामाजिक समता व लोकसत्ता के आदर्श का समर्थन किया व मानव-संस्कृति में समाज सत्ताक-युग की भविष्यवाणी की। लेकिन यह सब करते हुए उसने अध्यात्म-विद्या की पूरी उपेक्षा की, समस्त विद्याओं व कलाओं को धनोत्पादन की चेरी बना दिया, आत्मबल को भुला दिया व महज शस्त्र-बल पर सारा दारोमदार रक्खा। आधुनिक यूरोप की ये भूलें बहुत बड़ी हैं। यह सब सच है, किन्तु आधुनिक यूरोप की सारी संस्कृति पर तुच्छता का परदा डालकर हम भावी संस्कृति का निर्माण न कर सकेंगे। अगर हमने समाज के कनिष्ठ

वर्ग को वरिष्ठ वर्ग के विरुद्ध खड़ा होकर अपने हक-हकूक प्राप्त करने की कला न सिखाई तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी प्राचीन संस्कृति में वर्ग-कलह नहीं था। प्राचीन भारत में ब्राह्मण व क्षत्रियों का वर्ग-कलह हुआ था। ब्राह्मण-क्षत्रियों ने वैश्यों से कलह किया है व द्विजों ने शूद्र-अतिशूद्रों को दासता में रखने के अनेक प्रयत्न किये हैं।

ये सब बनाव-बिगाड़ वर्ग-कलह के बगैर नहीं हुए हैं। हाँ, यूरोप की तरह यहाँ उसके द्वारा एकराष्ट्रीयता, लोक-सत्ता, नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना नहीं हुई। समाज में कोई शूद्र न रहे, ऐसा आदर्श नहीं पुकारा गया। किन्तु इसे हमारी संस्कृति का बडप्पन या गौरव नहीं कह सकते। यूरोपीय वैश्यों ने वर्ग-कलह में हिंसा-नीति स्वीकार की यह उनकी गलती हो सकती है; परन्तु हमारे वैश्यों ने यह गलती नहीं की, इसके लिए उनकी स्तुति नहीं की जा सकती; क्योंकि उन्होंने यूरोपीय वैश्यों की तरह पराक्रम व पुरुषार्थ भी तो नहीं दिखाया और न राष्ट्रीयता व लोकसत्ता की स्थापना ही की। ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक हमारे सब वर्ग राष्ट्रीयता व प्रजासत्ता से अछूते रहे व ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता करके अपना सारा देश परतंत्रता में डाल दिया। वरिष्ठ वर्ग के दमनकारी प्रभाव से वैश्य व शूद्र-अतिशूद्र ये वर्ग पुरुषार्थहीन बन गये व उन्होंने अपने बल-बूते पर वर्ग-कलह नहीं किया, यह सही है; परन्तु उन्होंने विदेशी विजेताओं की सहायता करके दूसरी तरह से वरिष्ठ वर्ग के उस एकतर्फी वर्ग-कलह का बदला ही तो चुकाया। इसकी अपेक्षा यूरोपीय वैश्यों का वर्ग-कलह या वहाँ के वर्तमान मजदूरों का वर्ग-कलह हीन नहीं कहा जा सकता। हमारे वैश्य व शूद्र-अतिशूद्रों ने तो अन्याय सहन करने का मानो व्रत ही ले रखा था इन्होंने तो विदेशियों से मिलकर अपने देश को पराधीन भी बना दिया। इससे तो आधुनिक यूरोप ने वर्ग-कलह में हिंसा का अवलम्बन लेकर भी जो बड़ों के अन्याय से भ्रगड़ने का सिद्धान्त कायम रखा व इस भ्रगड़े के दर्मियान अनेक श्रेष्ठ सामाजिक व राजनैतिक आदर्श खड़े डरकाले, उसके लिए मानव-संस्कृति के इतिहास-लेखकों को आधुनिक यूरोप के गुण गाने पड़ते हैं। अब आधुनिक भारत का तबतक उद्धार

नहीं हो सकता जबतक कि वह बड़ों के अन्याय के खिलाफ बगावत करने का तत्व अंगीकार न कर ले। लेकिन हाँ, उसे आधुनिक यूरोप के दोष दिखाने का अधिकार तभी मिलेगा जब हम इस बगावत को शांति या अहिंसा द्वारा सफल बनाने का महाकार्य कर दिखावें।

आर्यों के भरतखण्ड में बस जाने पर उन्होंने वर्णाश्रम-धर्म के रूप में अपनी संस्कृति बनाई। इनमें शूद्र व अतिशूद्र दास-कर्म करनेवाले वर्ण भी थे। वास्तव में देखा जाय तो वर्णाश्रम-धर्म-संस्कृति ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य इन तीन वर्णों की ही संस्कृति थी, शूद्र व अतिशूद्र तो उनके दास ही थे। उस समय के सभी समाजों में दास-प्रथा थी। यूरोपीय समाज में भी मध्ययुग के अन्त तक हमारे चातुर्वर्ण्य की तरह चार वर्ग थे। उस काल में सामाजिक समता का अर्थ इन चार वर्गों को तोड़ना नहीं था बल्कि किसी भी वर्ग से जन्मे हुए व्यक्ति का गुण-कर्मोनुसार दूसरे वर्ग में प्रवेश पाना था। सबसे निचले शूद्र को भी सबसे ऊँचे ब्राह्मण-वर्ग तक पहुँचने की छुट्टी रहे, इतना ही सामाजिक सुधार का अर्थ था। जब समाज में धनोत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है तब बहुजन-समाज संस्कृति व सम्पत्ति से दूर ही रहता है। ऐसे समय सभी को सुसंस्कृत व सुसम्पन्न करने का आदर्श बहुत करके किसी को सूझता ही नहीं है व सूझा भी तो वह व्यवहार में काम नहीं दे सकता। हमारे यहाँ भी जैन व बौद्ध-काल से, बल्कि उससे भी पहले यह प्रयत्न होते आ रहे हैं कि शूद्रों की दासता कम की जाय व उनकी भौतिक उन्नति तथा ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग खुले किये जायें। बहुतों का अनुमान है कि चार्वाक का लोकायत-मत इसी तरह का था। किसी भी वर्ण में जन्मे व्यक्ति को ब्राह्मणत्व का दर्जा मिलने की कल्पना वशिष्ठ-विश्वामित्र के समय से चली है व इसके प्रचार में से एक विचार-कलह व उद्यमों से एक प्रकार का वर्ग-कलह भी उत्पन्न हुआ था। श्रीकृष्ण के भागवत-धर्म में—‘स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्’ यह मत मान्य हुआ है व स्त्रियों तथा शूद्रों को समाज में सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त करने की छुट्टी दी गई है। बौद्धकाल में तो एक तरह से सर्वोपेक्ष्य समाज-क्रान्ति

ही हुई थी व ऐसा लगता है कि उस समय विचार-कलह व वर्ग-कलह प्रचलित रहा होगा। हाँ, यह सच है कि बाद के काल में शूद्रों को वैदिक संस्कृति का अधिकार नहीं दिया गया; किंतु यह कहना अनुचित न होगा कि खुद वह वैदिक संस्कृति ही पीछे रह गई व बौद्ध तथा भागवत्-संस्कृति आगे आ गई। बौद्ध-संस्कृति ने तो वैदिक परम्परा के विरुद्ध खुल्लमखुल्ला बगावत मचाई थी। भागवत्-संस्कृति ने खुली बगावत का मार्ग नहीं ग्रहण किया तो भी गीता को वेद से अधिक श्रेष्ठ स्थान देकर वैदिक-संस्कृति को गौणता दी। भागवद्धर्मी संत खुल्लमखुल्ला कहने लगे कि वेद व उपनिषद् के अन्तर्गत आत्मोद्धार-सम्बन्धी सारा तत्वज्ञान जब भगवद्गीता में है व भक्ति-मार्ग के इतर प्राकृत-ग्रन्थों में भी वह भरपूर है तो फिर वैदिक-ज्ञान की क्या जरूरत या महत्ता हमारे लिए रही? हालाँकि आज भी वैदिक कहलानेवाले ब्राह्मण ऐसा दुराग्रह रखते हैं कि शूद्र चाहे कितना ही बड़ा हो उसे हम ब्राह्मण नहीं कहेंगे, अथवा उसका राज्याभिषेक नहीं करेंगे। किंतु, इसके विपरीत व्यास-बाल्मीकि ऋषि-कोटि में चले गये व शूद्र-अतिशूद्र जाति के साधु-सन्त हजारों ब्राह्मणों के आध्यात्मिक गुरु बन गये। शूद्रों का वैदिक पद्धति ने भले ही राज्याभिषेक न किया हो, परन्तु उन्होंने राजसत्ता व साम्राज्य-सत्ता का उपभोग किया एवं उनकी सेवा करके ब्राह्मणों ने उनकी स्तुतियाँ कीं व गुण गाये। जो शूद्र महज परिचर्यात्मक कर्म करने के योग्य माना गया था वह कृषि-गौरव-वाणिज्य तो करने लगा ही; परन्तु मंत्री, राजा, नहीं नहीं, साधु-सन्त, ऋषि व आध्यात्मिक गुरु भी बन गया। भारतीय संस्कृति में यह एक प्रचण्ड क्रांति हुई थी। इतिहासकार्य स्व० राजवाड़े उसका वर्णन इस तरह करते हैं—

“उत्तर कुरु में जो अर्धजंगली शूद्र महज दास-कर्म करके समाज-सोपान की त्रिलकुल निचली सीढ़ी पर ठुकराया जाता था वह अब नंदों व मौर्यों के शूद्र व वृषल शासन-काल में अध्यात्म, नीति, प्रव्रज्या, एक-वर्णता, सर्व-समता व साम्राज्य का विजयी सञ्चालक हो गया। बुद्ध व जिन, विशेषतः गौतम बुद्ध द्वारा की गई यह क्रांति मामूली धर्म-क्रांति

या राज-क्रांति अथवा मत-क्रांति नहीं थी, वह सर्वव्यापी भयंकर समाज-क्रांति थी। इस प्रचण्ड क्रांति ने वैदिक समाज की नींव उखाड़ दी, व चातुर्वर्णिक समाज उथल-पुथल हो गया।”

यह प्रचण्ड समाज-क्रांति चिना वर्ग-विग्रह के नहीं हुई। इसके बाद यद्यपि बुद्धधर्म हिन्दुस्तान में नहीं रहा तो भी उसका यह कार्य सदा के लिए कायम रहा। बुद्ध ने वैदिक देवताकाण्ड, यज्ञ-यागादिक कर्मकाण्ड और सामाजिक विप्रमत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। फिर बुद्ध-धर्म से जाकर मूर्ति-पूजा उदय हुई और कुछ समय तक पौराणिक देवताकाण्ड, व्रतोद्यापन व पूजा-विधान एवं कुमारिल भट्टादि के कर्म-मीमांसा का दौरादौरा रहा। लेकिन शंकराचार्य ने अद्वैत वेदान्त के ज्ञानकांड को आगे करके देवताकाण्ड व कर्मठता को गौणत्व दिया और भागवत-धर्मी संतों ने अद्वैत वेदान्त के शुद्ध तत्वज्ञान को भक्ति-मार्ग में लाकर आम जनता को निष्काम-भक्ति से आत्मोद्धार का व मोक्ष का मार्ग दिखा दिया। इन सब बातों के होते हुए कमेंट मीमांसक ज्ञानमर्गी तथा भक्तिमार्गियों के पीछे पड़ गये। प्रत्येक साधु-संत के समय उनकी समता-प्रस्थापना के कार्य का विरोध किया व एक प्रकार का वर्गकलह भी पैदा किया; परन्तु साधु-संतों ने सत्याग्रही वृत्ति धारण करके अपना धर्म-सुधार जारी रखा। जो गौतम बुद्ध नास्तिक व वेद-निन्दक माना जाता था उसे हिन्दु जनता ने ईश्वर-अवतार बना दिया। इस प्रकार संस्कृति-सुधार का यह कार्य हुआ तो, पर मध्ययुगीन भारत आधुनिक युग में न आ सका। ब्रिटिश शासन-काल में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भागवत-धर्मी साधु-संतों की सत्याग्रही वृत्ति में से एक निःशस्त्र क्रांतिशास्त्र निर्माण हुआ। यदि स्वतंत्र भारत में यह पैदा हुआ होता तो सहज ही उसे सर्वांगीण क्रांति का रूप मिल गया होता। वह अभी तक नहीं मिला है। हमारा खयाल है कि वह जल्द ही मिलेगा व उसके आश्रम से वर्ग-विग्रहात्मक सर्वांगीण समाज-क्रांति हुई भी तो यह भारतीय राष्ट्रीयता व प्रजसत्ता को आँच न आने देते हुए होगी। इस तरह आधुनिक यूरोप में निर्मित संस्कृति को आत्मसात् करके, जो क्रांति उसके द्वारा न हो सकी, उसे अहिंसा के

द्वारा करके जब दिखा देगा तभी सत्याग्रही तत्वज्ञान की सच्ची महत्ता दुनिया को मालूम होगी व आधुनिक भारत का निर्माण करनेवाली संस्कृति आधुनिक यूरोपीय संस्कृति से श्रेष्ठ साबित होगी ।

आधुनिक भारत में म० गांधी श्रीकृष्ण अथवा गौतम बुद्ध की तरह ही एक अत्यन्त महान् विभूति हुए । उनके सत्याग्रही तत्वज्ञान में भागवत और बौद्ध दोनों धर्मों के तत्व का समन्वय हुआ है और उसे उन्होंने सामाजिक और राजनैतिक क्रांति का रूप दे दिया है । श्रीकृष्ण या बुद्ध के समय जिस तरह की सर्वांगीण क्रांति भरतखण्ड में हुई उससे भी अधिक सर्वांगीण क्रांति का समय आज आ गया है । आज हमारे सामने सिर्फ इतना ही प्रश्न नहीं है कि शूद्र अथवा अतिशूद्र में से योग्य व्यक्ति को गुणकर्मानुसार द्विजत्व प्राप्त हो अथवा, वह वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण बन सके । बल्कि आज तो समाज के वर्ग-भेद को ही नष्ट करके एक-वर्ग समाज स्थापित करने की आवश्यकता मालूम होने लगी है । आधुनिक यूरोप में व्यापारीवर्ग के नेतृत्व में जो संस्कृति निर्माण हुई उसके द्वारा लोक-सत्ता व सामाजिक समता का आदर्श सामने आने से ही एकवर्ग समाज की कल्पना संसार के सामने प्रस्तुत हुई है । फ्रेंच राज्य-क्रांति के समय समता, स्वतंत्रता व बन्धुता के सिद्धांत पर मानव-संस्कृति की रचना करने का प्रयोग पहले पहल हुआ । उस समय यह समझा गया था कि प्रजासत्ता व नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना हुई नहीं कि सब लोग एक ही वर्ग में आ जायेंगे । सामन्तशाही खतम होगी, जमींदार-वर्ग नष्ट होगा, और सबको सामाजिक समता व नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार मिलने पर शूद्र अथवा दास या भूदास-वर्ग नहीं रहेंगे । इस तरह क्षत्रिय व शूद्र-वर्ग न रहा तो समाज में सिर्फ किसान, मजदूर व व्यापारी इनका एक वैश्य वर्ग रह जायगा । प्रत्येक को जहाँ धार्मिक और बौद्धिक स्वतंत्रता मिली कि नैतिक, आध्यात्मिक या धार्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्र रूप से धर्माधिकारी-वर्ग की भी आवश्यकता नहीं रहेगी । प्रत्येक किसान को अपनी जमीन व व्यापारी तथा कारीगर को मजदूरी या मुनाफा उनके कष्ट, साहस और संयम के अनुपात में मिलने लगे

तो समाज के किसी भी व्यक्ति को चाहे जो स्थाग मिल सकता है । फलतः किसी व्यवसाय के लोगों को कुछ समय तक उचित से अधिक मुनाफा मिला तो उस व्यवसाय में दूसरे लोग शरीक हो जाते हैं और अनुचित मुनाफे का अनुपात कम हो जाता है । इसके विपरीत जब किसी व्यवसाय में काम करनेवाले को उसके काम का उचित मुआवजा नहीं मिलता तो उस व्यवसाय के लोग दूसरे धंधे अपना लेते हैं और शेष लोगों को उचित मुनाफा मिलने लगता है । इस तरह व्यवसाय-स्वातन्त्र्य और ठहराव-स्वातन्त्र्य की नींव पर सब अपने-अपने श्रम के अनुपात से संपत्ति प्राप्त कर सकेंगे व अपने-आप एकवर्ग समाज कायम हो जायगा, ऐसी अपेक्षा उस समय थी । इसका कारण यह था कि औद्योगिक क्रान्ति से जो प्रचण्ड मिल-उद्योग शुरू हुए उनका वास्तविक रूप और परिणाम उस समय ध्यान में नहीं आया । ज्यों-ज्यों औद्योगिक क्रान्ति का स्वरूप विशद होने लगा और समाज के बहुसंख्यक लोगों पर उसके परिणाम दिखाई देने लगे, त्यों-त्यों अनुभव हुआ कि नागरिक-स्वातन्त्र्य, व्यवसाय-स्वातन्त्र्य व ठहराव या इकरार-स्वातन्त्र्य की बुनियाद पर प्रजासत्ता के द्वारा एक-वर्ग समाज-रचना नहीं हो सकती । बड़े उद्योगों के कारण धरेलू धन्धे डूब गये और किसानों को मिली जमीन बेचने की स्वतन्त्रता से साहूकार, दुकानदार व पूँजीवालों के दमनकारी प्रभाव में फिर बड़ी जर्मीदारियां बनने लगी । यान्त्रिक सहायता से प्रचण्ड उद्योग-धन्धों की तरह विस्तृत खेती करना भी सुलभ है यह पता लगते ही छोटी-छोटी खेती नष्ट होकर औद्योगिक पद्धति की खेती का प्रचण्ड कृषि-व्यवसाय शुरू हुआ । इन सब प्रवृत्तियों का स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि प्रत्येक देश के कारखाने, जमीन व खानें एक अल्प-संख्यक धनिक-वर्ग के कब्जे में चली जायँगी और प्रत्येक राष्ट्र की बहु-संख्यक जनता इस अल्प-संख्यक मालिक-वर्ग की आर्थिक गुलामी में जा पड़ेगी—यह देखकर समाजवादी तत्वज्ञों ने यह ठहराया कि कारखाने, जमीन और खानों पर जबतक सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित न होगा तबतक एकवर्ग समाज, स्वतन्त्रता, समता व बंधुत्व के आदर्श अमल में नहीं आ सकते ।

समाज-सत्ता का यह तत्व औद्योगिक क्षेत्र में लागू किया हुआ प्रजासत्ता का ही सिद्धान्त है। कार्ल मार्क्स ने यह प्रतिपादन किया कि इस प्रजासत्ता की स्थापना मालिक-वर्ग की उदारता से नहीं बल्कि मजदूरों के विद्रोह से होगी। इस तरह उन्होंने शास्त्रीय समाजवाद का निरूपण करके पूँजीवाद के अन्तर्विरोध और वर्ग-कलह के आधार पर भावी समाजसत्ताक क्रान्ति का शास्त्रीय भविष्य-कथन किया। यह भविष्य-वाणी रूस में मोटे तौर पर सही निकली। और तबसे समाज-सत्ता का एक-वर्ग समाज का आदर्श सब संसार में फैला। हिन्दुस्तान को प्रजा-सत्ता और राष्ट्रीय-स्वातंत्र्य के साथ ही समाज-सत्ता का आदर्श स्वीकार करना पड़ेगा व जमीन तथा कारखानों का व्यक्तिगत स्वामित्व मिटाकर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित करने का क्रान्ति-कार्य निःशस्त्र साधन से सफल करके दिखाना है। यह क्रान्ति-कार्य संगठित असहयोग व सत्याग्रह के तत्वानुसार करना किसान और मजदूरों के लिए किस तरह संभव है यह टॉल्स्टाय के इसी प्रकरण में दिये अवतरण से मालूम हो जाता है।

आधुनिक जगत् की भौतिक विद्या, उसकी बदौलत प्राप्त धनोत्पादन के भौतिक साधन, यन्त्रकला व बिजली-जैसी नैसर्गिक शक्ति का उपयोग-सुलभ होने के कारण आज समाज में शूद्र-अतिशूद्र-जैसे दासवर्ग या दास-सदृश वर्ग रखने की आवश्यकता किसी भी समाज में नहीं रही है। उसी तरह सामन्तशाही व पूँजीवाद की भी जरूरत आज समाज में नहीं रह गई है। जिस समय राज्यशास्त्र व युद्धकला बाल्यावस्था में थी तब सामन्तशाही समाज-रक्षा का काम अच्छी तरह कर रही थी व किसी राजा या समाज के जुल्म-ज्यादती करने पर बाहुबल से उसका मुकाबला करना सामन्त के लिए कठिन न था। बाद में जब बड़े-बड़े राज्य कायम हुए तब सामन्तशाही तोड़नी पड़ी व तमाम फौज व फौजी अफसरों को नकद तनखाह मिलने लगी। जो जितना प्रदेश जीत ले व बाहुबल पर राजा बन बैठे, यह व्यक्ति-स्वातन्त्र्य नष्ट हुआ। इससे सामान्य जनता की स्वतन्त्रता बढ़ गई। अब आज कारखानेदार-जमींदार-वर्ग को हटाकर आम जनता की स्वतन्त्रता बढ़ाने व उनकी दासता मिटाने का

समय आ गया है। जिस समय हरेक अपने कष्ट के अनुपात से ही धनार्जन कर सकता व बिना कष्ट के अधिक धन-संचय नहीं कर सकता था उस प्राथमिक औद्योगिक अवस्था में यह सिद्धान्त कि जो जितना चाहे पैसा पैदा करे व उससे लाभ उठावे, समाज की अभिवृद्धि का पोषक था। किन्तु आज के प्रचण्ड धनोत्पादन के समय में ऐसी स्वतन्त्रता किसी को नहीं दी जा सकती। आज समाज की सम्पत्ति व उसे प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले कष्ट का अनुपात विषम या व्यस्त हो गया है। सम्पत्तियाँ को हजारों लोगों के जीवन पर सत्ता प्राप्त होने लगी है। इस सत्ता व सम्पत्ति को आप बतौर ट्रस्टी के रखें—यह कहकर इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता। जब समाज के धनोपार्जन के साधन न्यायोचित होते हैं—अर्थात् धनार्जन से कष्ट का अनुपात सम रहता है—तब इस उपदेश से काम चल सकता है कि न्याय-प्राप्त सम्पत्ति को समाज की थाती समझकर इस्तेमाल करो, बहुत जिम्मेदारी के साथ उससे लाभ उठाओ, ऐसा करते हुए आत्मकल्याण व लोककल्याण का भी ध्यान रखो व बिला जरूरत के उसका उपयोग न करते हुए शेष सम्पत्ति दान कर दो। परन्तु समाज में धनार्जन के कौन-से साधन वाका-यदा हों, इसके निर्णय का जो काम कानून का है वह इस नैतिक उपदेश से नहीं हो सकता। धनोत्पादन की पद्धति के बदलने से धनोत्पादन के मार्ग का रूप भी बदलता है और इस बदली हुई आर्थिक परिस्थिति में धनार्जन के कौन से मार्ग खुले रहें व कौन से बन्द, इसका फैसला कानून के द्वारा करना पड़ता है। पहले की पद्धति में जो मार्ग समाज के लिए हानिकारक नहीं थे अथवा जिनमें समाज की ज्यादा हानि होने की संभावना नहीं थी वही मार्ग नवीन पद्धतिवाले समाज में अत्यन्त हानिकारक साबित होते हैं। फिर भी जिनके लिए वे मार्ग लाभदायक होते हैं उन्हें उन मार्गों से मिली सम्पत्ति कष्टार्जित ही मालूम होती है और वे इस बात को कुचूल नहीं करते कि यह सम्पत्ति अन्याय-पूर्वक अर्जित है। इन रास्तों को बन्द करने में ऐसे वर्गों की ओर से विरोध होता है और सो भी परम्परा व हक-मिलिकियत के नाम पर। धनार्जन की मार्ग-परम्परा व उससे उत्पन्न हक-

मिल्कियत परिस्थिति-सापेक्ष होते हैं व जबतक व्यक्तियों के स्वामित्वाधिकार—हक-मिल्कियत—की कानूनन मर्यादा न बाँधी जाय व जो अधिकार समाज को हानि पहुँचाते हैं वे न छीन लिये जायँ तबतक समाज की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे वर्ग इस सिद्धांत को मंजूर नहीं करते। ऐसे वर्गों के विरोध के बदौलत ही समाज में क्रांति की नौबत आती है। औद्योगिक क्रांति के कारण आज समाज-सत्ताक क्रांति की जरूरत पैदा हो गई है व इस क्रांति का कार्य इस सिद्धांत से नहीं हो सकता कि व्यक्ति सम्पत्ति व सत्ता का उपभोग समाज के ट्रस्टी—वाली—के तौर पर करे। समाज में सत्ता व सम्पत्ति का बंटवारा कैसे किया जाय, समाज के व्यक्तियों को सत्ता व सम्पत्ति का लाभ किस तरह मिले व सत्ता तथा सम्पत्ति के बँटवारे में समाज की नैतिक उन्नति व भौतिक साधनों का हिसाब लगाकर किस अनुपात से कानून-द्वारा समता अमल में लाई जाय व किस हिसाब से विषमता कायम रखी जाय, इसका निश्चय एक बार हो जाय और तत्कालीन भौतिक व नैतिक उन्नति के अनुरूप समाज-रचना का वाकायदा सिलसिला जम जाय तो फिर उस समाज-रचना के अनुसार सत्ता व सम्पत्ति का जो भाग किसी व्यक्ति को मिलेगा उसका उपभोग वह कैसे करे, यह बताने के लिए इस सिद्धान्त का जन्म हुआ है। इस सिद्धान्त से लोक-सत्ताक अथवा समाज-सत्ताक क्रान्ति का कार्य नहीं हो सकता; हाँ, समाज-सत्ताक क्रान्ति के बाद भी कुछ व्यक्तियों को अधिक सत्ता देनी पड़ेगी व कुछ को औरों से ज्यादा सम्पत्ति भी रखने देना पड़ेगी। उस सत्ता व सम्पत्ति के उपभोग के सम्बन्ध में कानून के कुछ बन्धनों के रहते हुए भी उनसे यह काम पूरी तरह से नहीं हो सकता। उनके लिए इस नैतिक तत्व के उपदेश की जरूरत रहेगी। परन्तु इस काम के लिए भी ऐसे सत्याग्रहियों की जरूरत रहेगी; जो इस उपदेश को प्रत्यक्ष अपने आचरण में लाकर दिखाते हों; कानूनन जो सत्ता व सम्पत्ति उन्हें मिल सकती है उसकी परवाह न कर अपनी कम-से-कम जरूरतों के लिए आवश्यक सम्पत्ति कष्ट से प्राप्त करके अधिक सम्पत्ति व सत्ता की अभिलाषा न रखते हों, यदि अधिकारी लोगों पर ज़्यादाती करते हों तो

जनता को यह दिखा दें कि उसका प्रतिकार कैसे किया जाय व यह अन्याय-अत्याचार जत्र असह्य हो उटें तत्र समाजसत्ताक प्रजातंत्र के खिलाफ भी अहिंसात्मक असहयोग का प्रयोग करके प्रस्थापित राजतंत्र को वन्द कर दे। समाज-सत्ताक प्रजातंत्र की स्थापना हो जाने पर भी अधिकारी व प्रजा तथा शासक व शासित यह भेद रहने ही वाले हैं और जत्रतक यह भेद कायम हैं तत्रतक वास्तविक एक-वर्गीय समाज-रचना नहीं हो सकती। समाज-सत्ताक प्रजातंत्र मानव-समाज की पूर्णावस्था नहीं है। इस समाज-सत्ताक प्रजातंत्र में भी ऐसे दूरदर्शी व निःस्वार्थ लोक-सेवक चाहिए जो उन अन्यायों को भी महसूस कर लें जो अधिकारी-वर्ग या बहुमत को प्रतीत न हों या लाजिमी मालूम हों, व जो यह दिखा दें कि वे टाले जा सकते हैं। ऐसा सत्याग्रही-वर्ग, जिसने सत्य-संशोधन व सत्य-संस्थापन को ही अपना नित्य व्यवसाय बना लिया है व जिसके लिए अपनी शारीरिक, बौद्धिक व आत्मिक शक्ति का उपयोग करने में ही जिन्हें सच्चा आनन्द व जीवन की कृतार्थता मालूम हो, समाज-सत्ताक प्रजातंत्र के भावी विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

म० गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जिस आत्मत्रल को संगठित व संवर्धित करने का प्रयत्न किया उसकी परम्परा भारतवर्ष में बहुत बड़ी है। अत्यन्त प्राचीन काल में आश्रमवासी ऋषियों के ब्रह्मतेज के रूप में वह भरतखण्ड में जन्मा। फिर ब्राह्मण-वर्ग ने यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड व देवता-काण्ड का प्रभाव बढ़ाकर स्वर्ग-प्राप्ति के सकाम धर्म को प्रधानता दी। तत्र गौतम बुद्ध ने इस आत्मत्रल का संरक्षण व संवर्धन करके देवता-काण्ड व सामाजिक विषमता के विरुद्ध क्रान्ति करने के लिए बुद्ध-धर्म का व भिक्षु-संघ का संगठन किया। बाद को यह भिक्षु-संघ भी अवनत होकर परिग्रही बन गया व राजा लोगों की दासता में चला गया। तत्र कुमारिल भट्टादि ने वैदिक धर्म का जो पुनरुज्जीवन किया उसमें फिर कर्मकाण्ड व देवताकाण्ड की महिमा बढ़ी। इसके पश्चात् शंकराचार्य ने पीठों व मठों की स्थापना करके अद्वैत वेदान्त के आधार पर शिक्षित लोगों में शुद्ध तत्त्वज्ञान का प्रसार किया और भागवत-धर्मी संतों ने इसी अद्वैत के

आधार पर निष्काम भक्ति के मार्ग का उपदेश करके आम लोगों में आत्म-बल जाग्रत किया। आज म० गांधी ने इसी परम्परागत प्राचीन आत्मबल का संगठन करके उसे राजनैतिक व सामाजिक क्रांतिकारी रूप दिया है। सत्याग्रही वर्ग अब किसी खास मत पर अधिष्ठित कोई धर्म-संप्रदाय नहीं रह गया है। महज व्यक्तिगत आध्यात्मिक मोक्ष सत्याग्रह का ध्येय नहीं है। लोगों की सर्वांगीण उन्नति के लिए उन्हें सर्वांगीण क्रांति का मार्ग दिखाने-वाला वह एक अखण्ड क्रांतिशास्त्र है। लोक-सत्ता व समाज-सत्ता के रूप में उदित एकवर्ग समाज के आदर्शों को आत्मसात् करके मानव-समाज को पूर्णवस्था प्राप्त होने तक उसका नेतृत्व करने का सामर्थ्य इस सत्याग्रही तत्वज्ञान में है। भौतिक विद्या व यंत्रकला से उसका विरोध नहीं। ब्राह्म सृष्टि से कैसा व्यवहार किया जाय व उसकी नियति को अपने अनुकूल व उन्नतिकारी कैसे बनाया जाय, यह ज्ञान मनुष्य को भौतिक-विद्या से ही प्राप्त हो सकता है। अन्नमय प्राण व प्राणमय पराक्रम इस भौतिक सत्य की तरफ से प्राचीन भारत ने आँखें नहीं मूँद ली थीं। भूखे आदमी को ब्रह्म अन्न के ही रूप में प्रतीत होता है और वेदांती मनुष्य को भी दोपहर को १२ बजे 'अन्न पूर्णब्रह्म है' यह कहकर भोजन करना पड़ता है। इसको भुलाकर कोई भी समाज-रचना नहीं टिक सकती व टिकाने का प्रयत्न भी किया तो वह सफल नहीं हो सकता। पूँजीवादी धनोत्पादक पद्धति से बहुसंख्यक लोगों की दाल-रोटी का सवाल अच्छी तरह नहीं हल होता व धनी-गरीब का सापेक्ष अन्तर बढ़कर समाज व राष्ट्र के दो विरोधी गुट बन जाते हैं। जीवन व धन की क्षणभर भी स्थिरता न होने के कारण बहुसंख्य सामान्य जनता की नीतिमत्ता भ्रष्ट होने लगती है—'बुभुक्षितः किन्न करोति पापम् क्षीण नरा निष्करुण भवन्ति' के अनुसार सामाजिक नीतिमत्ता की बुनियाद अन्न-प्राप्ति के भौतिक आधार पर पड़ी हुई है। सत्याग्रही तत्वज्ञान इसकी उपेक्षा नहीं करता। किन्तु हाँ, यह तत्व उसे मान्य नहीं है कि मनुष्य-समाज की आवश्यक भौतिक जरूरतें पूरी होने के पश्चात् भौतिक सम्पत्ति की बढ़ती के अनुपात से उसकी नैतिक उन्नति होती है अथवा उसकी संस्कृति अधिक उन्नत बनती है।—'नात्यश्नतस्तु योगाऽस्ति न

चैकान्तमनऽश्नतः' अर्थात्—अधिक खाने से भी योग प्राप्ति नहीं होती व विलकुल न खाने से भी नहीं होती—यह आध्यात्मिक उन्नति का सिद्धान्त है। पूँजीवादी समाज में परिमित भौतिक उपयोग करनेवाला एक छोटा मालिक-वर्ग व उसकी आर्थिक दासता में खपनेवाला दूसरा बुभुक्षित बहु-संख्यक सेवक वर्ग बनता रहता है—इससे ऐसे समाज में शांति व नीति की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। जिस समाज के बहुसंख्य लोगों को जीवन व जीवन-साधनों की विलकुल स्थिरता नहीं उसमें शांति व नीति का रहना अशक्य है। हिंदुस्तान-जैसे खण्ड-तुल्य राष्ट्र में चालीस करोड़ लोगों की दाल-रोटी का सवाल पूँजीवाद व साम्राज्यवाद के द्वारा हल करना असंभव है व इतनी बड़ी लोक-संख्या की जीवन-यात्रा सुखपूर्वक चलाने का सामर्थ्य महज हस्त-व्यवसाय व ग्रामोद्योगों में या छोटे पैमाने पर की गई खेती में है— ऐसा भी दिखाई नहीं देता। फिर इतना बड़ा भारतीय समाज महज आश्रमवासी ऋषियों की तरह भौतिक सुखों से विरक्त रहकर आत्मिक सुख पर ही संतुष्ट रहेगा; यह नहीं हो सकता। खण्ड-तुल्य भारत को इस समस्यापूर्ति के लिए भौतिक विद्या और यन्त्रकला का पूरा-पूरा उपयोग करना चाहिए व यह काम धनोत्पादन व धन-विभाजन के कार्य को समाज-सत्ता के अधीन करके ही करना चाहिए। पर इस समाज-सत्ता को स्थापित करते हुए व स्थापित होने के बाद भी सत्याग्रही वर्ग की आवश्यकता भरत-खण्ड को ही नहीं, सारी मानव-संस्कृति को रहेगी।

इसके बाद अत्र भारतीय संस्कृति व मानव-संस्कृति का भेद नहीं रह जायगा। भौतिक दृष्टि से आज सारा मानव-समाज एक कुटुम्ब में अथवा एक घर में समा-सा गया है। उसके लोगों को एकत्र रहे बिना गति नहीं है व उनके एकत्र रहने में ही मानव-कुल की उन्नति है। परन्तु एक घर में एकत्र रहनेवाले लोगों की तरह उन्हें बन्धु-भावना से रहना सीखना चाहिए। इससे आगे अत्र मानव-संस्कृति की उन्नति इस बन्धु-भावना के प्रचार व प्रस्थापना पर अवलम्बित है। मानव-हृदय की इस बन्धु-भावना को प्रेम कहते हैं व यह प्रेम-रूपी परमेश्वर प्रत्येक के अन्तःकरण में रहता है, यह सिद्धान्त सत्याग्रही संस्कृति

का आधार है। एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र पर अथवा एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग पर होनेवाले अन्याय का प्रतिकार करने के लिए जोर-शोर की लड़ाई करते हुए भी इस बन्धु-भावना के अन्तिम सिद्धान्त पर सत्याग्रह की दृढ़ श्रद्धा है। मानवी अन्तःकरण की न्याय-भावना व प्रेम-भावना अथवा सत्य अहिंसा से श्रेष्ठ परमेश्वर का कोई दूसरा स्वरूप नहीं। जिनका सत्य व प्रेम पर विश्वास है व सत्य-संशोधन तथा सत्य-संस्थापन के लिए आवश्यक त्याग व कष्ट-सहन की तैयारी है वे अपने को ईश्वरवादी कहें या निरीश्वरवादी; वे बुद्ध की तरह शून्यवादी हों अथवा शंकराचार्य की तरह क्षर-सृष्टि के मूल में एक अक्षर व अज्ञेय निर्गुण तत्व के माननेवाले हों, वे ईसा के अनुयाई हों या मुहम्मद के, वे सत्याग्रही बन सकते हैं। सत्याग्रही के लिए आत्मविद्या की जरूरत है; लेकिन इस आत्मविद्या में गूढ़ अथवा विवादास्पद जैसी कोई बात नहीं है। आत्मा रथी व बुद्धि सारथी है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, मन उनकी लगाम है इतना अध्यात्मशास्त्र उसके लिए काफी होता है। बुद्धिरूप सारथी विषयोपभोग में डूब न जाय, उसके साथ की मनोनिग्रह की बागडोर ढीली न पड़ जाय और विषयभोग के चक्कर में पड़कर इन्द्रिय-रूपी घोड़े सरपट न दौड़ने लगें, इतना ही अध्यात्मशास्त्र है। बाह्य सृष्टि पर प्रभुत्व स्थापित करने व समाज के भौतिक सुखों की समस्या हल करने के व्यवहारों के लिए जिस तरह भौतिक विद्या की आवश्यकता है, उसी तरह अन्तः-सृष्टि पर प्रभुत्व स्थापित करने के व्यवहारों के लिए आत्मविद्या की जरूरत है। सत्याग्रही की आत्म-विद्या विवाद के लिए नहीं, व्यवहार के लिए है। ग्रन्थ-प्रमाण नहीं, अनुभव-प्रमाण उसकी अन्तिम कसौटी है। केवल भौतिक विद्या की उपासना करनेवाले लोग अन्धकार में पड़ते हैं व केवल आत्मविद्या का उपासना करने वाले उससे भी घोर अन्धकार में पड़ते हैं, ऐसा ईशोपनिषद् में कहा है। इसका अनुभव आधुनिक यूरोप के इतिहास से और पिछले तीन-चार सौ साल के भारत के इतिहास से संसार को हो चुका है। आधुनिक भारत उसके अत्यन्त कटुफल खून चख चुका है। अतः अत्र आगे वह भौतिक विद्या

अथवा आत्मविद्या दोनों में से किसी का भी उपेक्षा करेगा, ऐसा नहीं मालूम होता ।

अनियन्त्रित विदेशी राजसत्ता में स्वकीय लोक-सत्ता में आधुनिक भारत प्रवेश कर चुका । इसके बाद जल्दी ही जिस सत्याग्रही सत्य के सहारे उसे लोक-सत्ता की स्थापना करनी चाहिए उसी के बल पर वह समाज-सत्ता का भी स्थापना करेगा, किन्तु समाज-सत्ता भी भारत का अन्तिम संदेश नहीं है । उसका अन्तिम संदेश तो आत्म-सत्ता है । इस आत्म-सत्ता की स्थापना होकर मानव-समाज में जब किसी दंडधारी राजनैतिक संस्था की त्रिलकुल आवश्यकता न रहेगी तभी सच्चा एकवर्ग समाज-रचना स्थापित होगी । आधुनिक काल की एक-वर्ग समाज-रचना के व प्राचीन ब्राह्मणत्व के ध्येय में बहुत अन्तर नहीं है । जैसे सत्ययुग में सिर्फ एक ही ब्राह्मण-वर्ग था, वही अवस्था फिर समाज में प्राप्त हो, यही मानव-समाज का पूर्ण अवस्था की कल्पना भारतवासी के हृदय में समाजवाद को आत्मसात् करने के बाद उदय होगी । आधुनिक भारत के समाजवादी नेता पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसी तरह के विचार अपनी 'मेरी कहानी'* में व्यक्त किये हैं । इस तरह आधुनिक संसार के अन्य राष्ट्रों के वर्तमान-कालीन इतिहास से अपने कार्यों में स्फूर्ति पानेवाले आधुनिक भारत के समाजवादी नेता और प्राचीन भारत का आध्यात्मिक संस्कृति का अभिमान रखनेवाले महात्मा

* मगर पश्चिम इस एक-दूसरे का गला काटनेवाला सभ्यता की बुराइयों का इलाज भी अपने साथ लाया है— साम्यवाद का सहयोग कर, सबके हित के लिए जाति या समाज की सेवा करने का सिद्धान्त । यह भारत के पुराने ब्राह्मणोचित आदर्श से बहुत भिन्न नहीं है । लेकिन इसका अर्थ है तमाम जातियाँ, वर्गों और समूहों को ब्राह्मण बना देना (अवश्य ही धार्मिक अर्थ में नहीं) और जातिभेद को मिटा देना । हो सकता है कि जब भारत इस लिवास को पहनेगा और वह जरूर पहनेगा, क्योंकि पुराना लिवास तो चिथड़े-चिथड़े हो गया है, तो उसे उसमें इस तरह कांटझांट करनी पड़ेगी जिससे वह मौजूदा अवस्थाएँ और पुराने विचार दोनों का मेल साथ सके । जिन विचारों को वह ग्रहण करे वे अवश्य उसकी भूमि के समरस हो जाने चाहिए । पृष्ठ ६०३ (आठवाँ संस्करण)

गांधी जैसे सत्याग्रही जगद्वन्द्व नेता दोनों के दृष्टि-पथ में पानेवाली भावी भारतीय संस्कृति के चित्र का द्वैत नष्ट हो सकता है । जिस अनुपात से स्वतन्त्र भारत की भावी संस्कृति मूर्त-रूप धारण करने लगेगी उसी अनुपात से यह द्वैत पूर्णतः नष्ट होकर उसका स्पृहणीय रूप सारी मानव-जाति की भौतिक व आत्मिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में समर्थ होगा और वही भारतीय संस्कृति मानव-संस्कृति कहलाकर सारे संसार में फैलेगी, यह हमारा दृढ़ विश्वास है ।

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु । सर्वे सन्तु निरामयाः ॥

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु । मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ॥

मंडल का उपलब्ध साहित्य

गांधीजी लिखित

१ प्रार्थना-प्रवचन (भाग १)	३)
२ " " (भाग २)	२।।)
३ गीता-माता	४)
४ पंद्रह अग्रस्त के बाद	२)
५ धर्मनीति	२)
६ द० अर्काका का सत्याग्रह	३।।)
७ मेरे समकालीन	५)
८ आत्मकथा	५)
९ गीता-बोध	।।)
१० अनासक्तियोग	१।।)
११ आम-सेवा	।=)
१२ मंगल-प्रभात	।=)
१३ सर्वोदय	।=)
१४ नीति-धर्म	।=)
१५ आश्रमवासियों से	।।)
१६ राष्ट्रवाणी	?)
१७ सत्यवीर की कथा	।)
१८ संक्षिप्त आत्मकथा	१।।)
१९ हिंद-स्वराज्य	।।।)
२० वापू की सीख	।।)
२१ गांधी-शिक्षा (तीन भाग)	१=)
२२ आज का विचार	।=)
विनोवाजी लिखित	
२३ विनोवा के विचार (दो भाग)	३)
२४ गीता-प्रवचन	१।।।)
२५ जीवन और शिक्षण	२)
२६ शान्ति-यात्रा	१।।)
२७ स्थितप्रज्ञ-दर्शन	१।।)
२८ ईशावास्यवृत्ति	।।।)

२९ ईशावास्योपनिषद्	=)
३० सर्वोदय-विचार	१=)
३१ स्वराज्य-शास्त्र	।।।)
३२ भू-दान-यज्ञ	।)
३३ गांधीजी को श्रद्धांजलि	।=)
३४ राजघाट की संनिधि में	।=)
३५ सर्वोदय का घोषणापत्र	।)
३६ सर्वोदय के सेवकों से	।)
३७ विचार-पोथी	?)

नेहरूजी लिखित

३८ मेरी कहानी	=)
३९ हिन्दुस्तान की समस्याएं	२।।)
४० लड़खड़ाती दुनिया	२)
४१ राष्ट्रपिता	२)
४२ राजनिनि से दूर	२।।)
४३ हमारी समस्याएं (दो भाग)	१)
४४ विश्व-इतिहास की भूलक	२१)

अन्य लेखकों की

४५ गांधीजी की देन (राजेन्द्रप्रसाद)	१।।)
४६ महाभारत-कथा (राजाजी)	५)
४७ कुब्जा सुन्दरी "	२)
४८ कारावास-कहानी (सु० नैयर)	१०)
४९ वापू के चरणों में	२।।)
५० वा, वापू और भाई	।।)
५१ गांधी-विचार-दोहन	१।।)
५२ अहिंसा की शक्ति (प्रेम)	१।।)
५३ सर्वोदय-तत्व-दर्शन (डा० धावन)	७)
५४ सत्याग्रह-मीमांसा (दिवाकर)	३।।)
५५ बुद्धवाणी (विद्योगी हरि)	?)
५६ संतवाणी "	१।।)
५७ श्रद्धाकण "	?)

५८ अयोध्याकांड (वियोगी हरि)	१)	६० तामिल-वेद (तिस्वल्लुवर)	१॥)
५९ संत-सुधासार	११)	६१ आत्म-रहस्य (रतनलाल जैन)	३)
६० प्रार्थना	॥)	६२ धेरी-गाथायें (भरतसिंह उपा०)	१॥)
६१ भागवत-धर्म (हरि० उपाध्याय)	६॥)	६३ बुद्ध और बौद्ध साधक	१॥)
६२ श्रेयार्थी जमनालालजी	६॥)	६४ जातक-कथा (आनन्द कौ०)	२॥)
६३ स्वतन्त्रता की ओर	४)	६५ हमारे गांव की कहानी	१॥)
६४ वापू के आश्रम में	१)	६६ रामतीर्थ-संदेश (३ भाग)	१=)
६५ वापू (धनश्यामदास विड़ला)	२)	६७ रोटी का सवाल (क्रेपाटकिन)	३)
६६ रूप और स्वरूप	॥=)	६८ नवयुवकों से दो बातें	१=)
६७ डायरी के पन्ने	१)	६९ सागभाजी की खेती	३॥)
६८ ध्रुवोपाख्यान	१)	१०० पशुओं का इलाज (५० प्र० गुप्त)	॥)
६९ स्त्री और पुरुष (टात्स्यय)	१)	१०१ काश्मीर पर हमला	२)
७० मेरी मुक्ति की कहानी	१॥)	१०२ पुरुषार्थ (डा० भगवान्दास)	६)
७१ प्रेम में भगवान	२)	१०३ कब्ज—कारण और निवारण	२)
७२ जीवन-साधना	१॥)	१०४ पांचवें पुत्र को वापू के	
७३ कलवार की करतूत	१)	आशीर्वाद	६॥) =)
७४ बालकों का विवेक	॥॥)	१०५ कादम्बरी	१=)
७५ हम करें क्या ?	३॥)	१०६ उत्तररामचरित	१=)
७६ हमारे जमाने की गुलामी	॥॥)	१०७ वेणी-संहार	१=)
७७ समाजिक कुरीतियां	२)	१०८ शकुन्तला	१=)
७८ बुराई कैसे मिटे	१)	१०९ वद्रीनाथ	१=)
७९ जीवन-संदेश (खलील जिब्रान)	१॥)	११० जंगल की सैर	१=)
८० जीवन-साहित्य (काका कालेलकर)	२)	१११ भीष्म पितामह	१=)
८१ लोक-जीवन	३॥)	११२ शिवि और दधीचि	१=)
८२ अशोक के फूल (द्विवेदी)	३)	११३ विनोवा और भूदान	१=)
८३ पृथ्वी-पुत्र (वासुदेवशरण अग्र०)	३)	११४ मानवता के भरने	१॥)
८४ पंचदशी (सं० यशपाल जैन)	१॥)	११५ भारतीय संस्कृति	३॥)
८५ कांग्रेस का इतिहास (३ भाग)	३०)	११६ गांधी-मार्ग	=)
८६ सप्तदशी (सं० विष्णु प्रभाकर)	२)	११७ शिशु-पालन	॥)
८७ रीढ़ की हड्डी	१॥)	११८ शिष्टाचार	॥=)
८८ अमिट रेखाएं (सत्यवती मल्लिक)	३)	११९ गांधी-डायरी	१), २)
८९ एक आदर्श महिला	१)		

